

भविस्संतिणागए काले । संपइ अ वट्टमाणा,
सव्वे तिविहेण वंदामि ॥ १ ॥

१६—जावंति चेइआइं सूत्र ।

जावंति चेइआइं, उड्डे अ अहे अ
तिरिअ-लोए अ । सव्वाइं ताइं वंदे, इह संतो
तत्थ संताइं ॥ १ ॥

१७—जावंत केवि साहू सूत्र ।

जावंत केवि साहू, भरहेरवय महावि-
देहे अ । सव्वेसिं तेसिं, पणओ, तिविहेण
त्तिदंडविरयाणं ॥ १ ॥

१८—परमेष्ठि-नमस्कार ।

नमोऽर्हत्सिद्धाचार्योपाध्यायसर्वसाधुभ्यः ॥

१९—उवसग्गहरं स्तोत्र ।

उवसग्ग-हरं पासं, पासं वंदामि कम-घण-
मुक्कं । विसहर-विस-निन्नासं, मंगल-कल्लाण-
आवासं ॥ १ ॥ विसहर-फुलिंग-मंतं, कंठे धारेइ
जो सया मणुओ । तस्स गह-रोग-भारी-दुट्ठ-

जराजंति उवसामं ॥ २ ॥ चिट्ठुउ दूरे संतो,
 तुज्झ पणामो वि बहुफलो होइ । नर-तिरिएसु
 वि जीवा, पावंति न दुक्खदोगच्चं ॥ ३ ॥ तुह
 सम्मत्ते लद्धे, चिंतामणि कप्पपायवब्भहिण्ण ।
 पावंति अविग्घेणं, जीवा अयरा मरं ठाणं ॥४॥
 इअ संथुओ महायस ! भत्तिब्भर-निब्भरेण
 हिअएण । ता देव ! दिज्ज बोहिं, भवे भवे
 पास-जिणचंद ॥

२०—जयवीयराय सूत्र ।

जय वीयराय ! जगगुरु !, होउ ममं तुहं
 पभावओ भयवं ! । भव-निब्भेओ मग्गा-णुसा-
 रिया इट्ठुफल-सिद्धी ॥ १ ॥ लोग-विरुद्ध-च्चाओ,
 गुरु-जणं-पूआ परत्थकरणं च । सुह-गुरु-जोगो
 तव्वयण-सेवणा आभवमखण्डा ॥ २ ॥

२१—आचार्य आदिको वन्दन ।

आचार्यजी मिश्र, उपाध्यायजी मिश्र,
 जङ्गम युगप्रधान भट्टारक (वर्त्तमान श्रीपूज्य-आचार्यजीका

नाम लेकर) मिश्र, सर्व साधु मिश्र ।

२२—सव्वस्सवि सूत्र ।

सव्वस्सवि देवसिअ दुच्चिंतिअ दुव्भा-
सिअ दुच्चिद्धिअ इच्छाकारेण संदिसह भगवन् !
तस्स मिच्छामि दुक्कडं ।

२३—इच्छामि ठाइउं सूत्र ।

॥ इच्छामि * ठाइउं काउस्सगं जो मे
देवसिओ अइयारो कओ, काइओ वाइओ
माणसिओ उस्सुत्तो उम्मगो अकप्पो अकर-
णिज्जो दुज्जाओ दुव्विचिंतिओ अणायारो अणि
च्छिअव्वो असावग-पाउग्गो नाणे दंसणे
चरित्ता चरित्ते सुए सामाइए; तिण्हं गुत्तीणं
चउण्हं कसायाणं पंचण्हमणुव्वयाणं तिण्हं
गुणव्वयाणं चउण्हं सिक्खावयाणं बारसवि-
हस्स सावगधम्मस्स जं खंडिअं जं विराहिअं
तस्स मिच्छा मि दुक्कडं ॥

२४—अरिहंतचेइयाणं सूत्र ।

अरिहन्तचेइयाणं करेमि काउस्सग्गं
 वंदणवत्तियाए, पूअण-वत्तियाए, सक्कार-वत्ति-
 याए सम्माणवत्तियाए, बोहि लाभ-वत्तियाए,
 निरुवसग्गवत्तियाए ॥ सद्धाए, मेहाए, धिईए,
 धारणाए, अणुप्पेहाए, वड्ढमाणीए ठामि
 काउस्सग्गं ।

२५—पुक्खर-वर-दीवड्ढे सूत्र ।

पुक्खर-वर-दीवड्ढे, धायइ-संडे अ जंबु-
 दीवे अ । भरहेरवय-विदेहे धम्मार्हगरे नमं
 सामि ॥ १ ॥ तम-तिमिर-पडल-विद्धंसणस्स
 सुर-गण-नरिंद-महियस्स । सीमाधरस्स वंदे,
 पप्फोडिअ-मोह-जालस्स ॥ २ ॥ जाई-जरा-
 मरण-सोग-पणासणस्स । कल्लाण-पुक्खल वि-
 साल-सुहावहस्स ॥ को देव-दाणव-नरिंद-गण-
 च्चियस्स । धम्मस्स सारमुवलब्भ करे पमायं ॥३॥
 सिद्धे भो ! पयओ णमो जिणमए नंदी

सया 'संजमे ।' देवनागसुवन्नकिन्नरगण-
स्सव्भूअभावच्चिए ॥ लोगो जत्थ पइट्ठिओ जग-
मिणं तेलुक्कमच्चासुरं । धम्मो वड्डउ सासओ
विजयओ धम्मुत्तरं वड्डउ ॥ ४ ॥

सुअस्स भगवओ करेमि काउस्सग्गं वंदणा-
वत्तियाए० ॥

२६—सिद्धाणं बुद्धाणं सूत्र ।

सिद्धाणं बुद्धाणं, पारगयाणंपरंपरगया-
णं । लोअग्गमुवगयाणं, नमो सेयां सव्वसि-
द्धाणं ॥१॥ जो देवाणवि देवो, जं देवा पंजली
नमंसंति । तं देवदेव-महिअं, सिरसा वंदे महा-
वीरं ॥ २ ॥ इक्कोवि नमुक्कारो, जिणवरव-
सहस्स वद्धमाणस्स । संसारसागराओ, तारेइ
नरं व नारिं वा ॥३॥ उज्जंतसेलसिहरे, दिक्खा
नाणं निसीहि आ जस्स । तं धम्मचक्कवट्ठिं,
अरिट्ठनेमिं नमंसामि ॥४॥ चत्तारि अट्ठ दस
दो, य वंदिया जिणवरा चउव्वीसं । परमट्ठनि-

ट्ठञ्चट्ठा, सिद्धा सिद्धिं मम दिसंतु ॥ ५ ॥

२७—वेयावच्चगराणं सूत्र ।

वेयावच्च-गराणं संति-गराणं सम्मद्विद्विस-
माहिगराणं करेमि काउस्सग्गं । अन्नत्थ० ॥

२८—सुगुरु वन्दन सूत्र ।

इच्छामि खमासमणो ! वंदिउं जावणि-
जाए निसीहिआए । अणुजाणह मे मिउग्गहं ।
निसीहि अहोकायं कायसंफासं । खमणिज्जो
भे किलामो । अप्प-किलंताणं बहुसुभेण भे
दिवसो वइक्कंतो ? जत्ता भे ? जवणिज्जं च
भे ? खामेमि खमासमणो ! देवसिअं वइक्कमं ।
*आवस्सिआए पडिक्कमामि । खमासमणाणं
देवसिआए असायणाए तित्तीसन्नयराए जं

* दुबारा पढ़ते समय 'आवस्सिआए' पद नहीं कहना ।
रात्रिक प्रतिक्रमण में 'राइवइक्कंता', चातुर्मासिक प्रतिक्रमण में
'चउमासी वइक्कंता', पाक्षिक प्रतिक्रमण में 'पक्खो वइक्कंतो',
सांघत्सरिक प्रतिक्रमण में 'संवच्छरो वइक्कंतो', ऐसा पाठ
पढ़ना ।

किञ्चि मिच्छाए मण-दुक्कडाए वय-दुक्कडाए
 काय-दुक्कडाए कोहाए माणाए मायाए लोभाए
 सब्ब-कालियाए सब्बमिच्छोवयाराए सब्ब-
 धम्माइकमणाए आसायणाए जो मे अइयारो
 कअो तस्स खमासमणो ! पडिक्रमामि निंदामि
 गरिहामि अप्पाणं वोसिरामि ।

२६—देवसिअं आलोउं सूत्र ।

इच्छाकारेण संदिसह भगवन् ! देवसिअं
 आलोउं । इच्छं । आलोएमि जो मे० ।

३०—आलोयण ।

आजके चार प्रहरके दिनमें मैंने जिन जी-
 वोंकी विराधना की होय । सात लाख पृथ्वी-
 काय, सात लाख अप्काय, सात लाख तेउकाय,
 सात लाख वाउकाय, दस लाख प्रत्येक-वनस्प-
 तिकाय, चौदह लाख साधारण वनस्पतिकाय,
 दो लाख दो इन्द्रिय वाले, दो लाख तीन
 इन्द्रिय वाले, दो लाख चार इन्द्रिय वाले, चार

लाख देवता, चार लाख नारक, चार लाख तिर्यञ्च पञ्चेन्द्रिय, चौदह लाख मनुष्य । कुल चौरासी लाख जीवयोनियोंमेंसे किसी जीवका मैंने हनन किया, कराया या करते हुएका अनुमोदन किया वह सब मन, वचन, काया करके मिच्छा मि दुक्कडं ॥३०॥

३१—अठारह पापस्थानक आलोउं ।

पहला प्राणातिपात, दूसरा मृषावाद, तीसरा अदत्तादान, चौथा मैथुन, पाँचवाँ परिग्रह, छठा क्रोध, सातवाँ मान, आठवाँ माया, नववाँ लोभ, दशवाँ राग, ग्यारहवाँ द्वेष, बारहवाँ कलह. तेरहवाँ अभ्याख्यान, चौदहवाँ पैशुन्य, पन्द्रहवाँ रति-अरति, सोलहवाँ पर-परिवाद, सत्रहवाँ माया- मृषावाद, अठारहवाँ मिथ्यात्व-शल्य; इन पापस्थानोंमें से किसीका मैंने सेवन किया, कराया या करते हुएका अनुमोदन किया, वह सब मिच्छा मि दुक्कडं ।

ज्ञान, दर्शन, चारित्र, पाटी, पोथी, ठवणी, कवली, नवकरवाली, देव-गुरु-धर्मकी आशा-तना की हो; पन्नरह कर्मादानोंकी आसेवना की हो; राज-कथा, देश-कथा, स्त्री-कथा, भक्त-कथा की हो; और जो कोई पर निंदादि पाप किया हो, कराया हो, करते हुएका अनुमोदन किया हो, सो सब मन, वचन, काया करके, रात्रि-अतिचार आलोचना करके, पडिक्रमणमें आलोउं, तस्स मिच्छामि दुक्कडं ॥३१॥

३२—वंदित्तु—श्रावकका प्रतिक्रमण सूत्र ।

वंदित्तु सव्वसिद्धे, धम्मायरिए अ सव्व साहू अ । इच्छामि पडिक्रमिउं, सावगधम्मा-इआरस्स ॥ १ ॥ जो मे वयाइआरो, नाणे तह दंसणे चरित्ते अ । सुहुमो अ वायरो वा, तं निंदे तं च गरिहामि ॥२॥ दुविहे परिग्गहम्मि, सावज्जे बहुविहे अ आरंभे । कारावणे अ करणे, पडिक्रमे देसिअं सव्वं ॥३॥ जं वद्धमिंदिएहिं,

चउहिं कसाएहिं अप्पसत्थेहिं । रागेण व दोसेण
व, तं निदे तं च गरिहामि ॥४॥ आगमणे नि
ग्गमणे, ठाणे चंक्रमणे [य] आणाभोगे । अभि
ओगे अ निओगे, पडिक्कमे देसिअं सव्वं ॥५॥
संका कंख विगिच्छा, पसंस तह संथवो कुलिं
गीसु । सम्मत्तस्सइआरे, पडिक्कमे देसिअं सव्वं
॥६॥ छक्कायसमारंभे, पयणे अ पयावणे अ उ
दोसा । अत्तट्ठा य परट्ठा, उभयट्ठा चेव तं निदे । ७
पंचरहमणुवयाणां, गुणववयाणां च तिरहमइआ
रे । सिक्खाणां च चउरहं, पडिक्कमे देसिअं
सव्वं ॥८॥ पढमे अणुववयम्मि, थूलगपाणा
इवायविरईओ । आयरिअमप्पसत्थे, इत्थ पमा
यप्पसंगेणं ॥९॥ वहबंधं छविच्छेए, अइभारे भ
त्तपाणवुच्छेए । पढमवयस्सइआरे, पडिक्कमे
देसिअं सव्वं ॥१०॥ बीए अणुववयम्मि, परि
थूलगअलियवयणविरईओ । आयरिअमप्प-
सत्थे, इत्थ पमायप्पसंगेणं ॥११॥ सहसा-रहस्स-

दारे, मोसुवएसे अ कूडलेहे अ । वीयवयस्स-
 इआरे, पडिक्कमे देसिअं सव्वं ॥ १२ ॥
 तइए अणुव्वयम्मि, थूलगपरदव्वहरणविरईओ ।
 आयरिअमप्पसत्थे, इत्थ पमायप्पसंगेणं ॥ १३ ॥
 तेनाहडप्पओगे, तप्पडिरूवे विरुद्धगमणे अ ।
 कूडतुलकूडमाणे, पडिक्कमे देसिअं सव्वं ॥ १४ ॥
 चउत्थे अणुव्वयम्मि, निच्चं परदारगमणविर-
 ईओ । आयरिअमप्पसत्थे, इत्थ पमायप्पसं-
 गेणं ॥ १५ ॥ अपरिग्गहिआ इत्तर, अणंगवीवाह-
 तिव्वअणुरागे । चउत्थवयस्सइआरे, पडिक्कमे
 देसिअं सव्वं ॥ १६ ॥ इत्तो अणुव्वए पं,—चम-
 म्मि आयरिअमप्पसत्थम्मि । परिमाणपरिच्छे,ए
 इत्थ पमायप्पसंगेणं ॥ १७ ॥ धण-धन्न-खित्त
 वत्थ-रूप-सुवन्ने अ कुविअपरिमाणे दुपए
 चउप्पयम्मि य, पडिक्कमे देसिअं सव्वं ॥ १८ ॥
 गमणस्स उ परिमाणे, दिसासु उड्ढं अहे अ
 तिरिअं च । वुडिड सइअंतरद्धा, पढमम्मि

गुणव्वए निंदे ॥१९॥ मज्जम्मि अ मंसम्मि
 अ, पुप्फे अ फले अ गंधमल्ले अ । उवभोगपरी-
 भोगे, वीयम्मि गुणव्वए निंदे ॥२०॥ सच्चित्ते
 पडिबद्धे, अपोलि दुप्पोलिअं च आहारे ।
 तुच्छोसहिभक्खणया, पडिक्कमे देसिअं सव्वं-
 ॥२१॥ इंगालीवणसाडी,—भाडीफोडी सुवज्जए
 कम्मं । वाणिज्जं चेव य दं,—तलक्खरसक्के-
 सविसविसयं ॥२२॥ एवं खु जंतपिल्लण,—
 कम्मं निल्लंछणं च दवदाणं । सरदहतलाय-
 सोसं, असईपोसं च वज्जिज्जा ॥२३॥ सत्थग्गि-
 मुसलजंतग—तणकट्टे मंतमूलभेसज्जे । दिन्ने
 दवाविए वा, पडिक्कमे देसिअं सव्वं ॥२४॥
 न्हाणुवट्टणवन्नग—दिलेवणे सद्वरुवरसगंधे ।
 वत्थासण आभरणे, पडिक्कमे देसिअं सव्वं
 ॥२५॥ कंदप्पे कुक्कुडए, मोहरिअहिंरणभो-
 गअइरित्ते । दंडम्मि अणट्ठाए, तइयम्मि
 गुणव्वए निंदे ॥२६॥ तिविहे दुप्पणिहाणे,

अणवट्टाणे तथा सइविहूणे । सामाइय वितह
 कए, पढमे सिक्खावए निंदे ॥२७॥ आणवणे
 पेसवणे, सदे रूवे अ पुग्गलक्खेवे । देसावगा-
 सिअम्मि, वीए सिक्खावए निंदे ॥२८॥ संथा-
 रुच्चारविही—पमाय तह चेव भोयणाभोए ।
 पोसहविहिविरीए, तइए सिक्खावए निंदे-
 ॥२९॥ सच्चित्ते निक्खवणे पिहिणे ववएसम-
 च्छरे चेव । कालाइकमदाणे, चउत्थे सिक्खा-
 वए निंदे ॥३०॥ सुहिएसु अ दुहिएसु अ, जा
 मे अस्संजएसु अणुकंपा । रागेण व दोसेण
 व, तं निंदे तं च गरिहामि ॥ ३१ ॥
 साहूसु संविभागो, न कओ तवचरणकरणजुत्ते-
 सु । संते फासुअदाणे, तं निन्दे तं च गरि-
 हामि ॥३१॥ इहलोए परलोए, जीविअ मरणे
 अ आसंसपओगे । पंचविहो अइधारो, मा
 मज्झं हुज्ज मरणंते ॥३३॥ काएण काइअस्स,
 पडिक्खे वाइअस्स वायाए । मणसा माणसि-

अस्स, सव्वस्स वयाइआरस्स ॥३४॥ वंदणाव-
यसिक्खागा, रवेसु सन्नाकसायदंडेसु । गुत्तीसु
अ समिईसु अ, जो अइआरो अ तं निंदे ॥३५॥
सम्मदिट्ठी जीवो, जइवि हु पावं समायरइ
किंचि । अप्पो सि होइ बंधो, जेण न निद्धं-
धसं कुणइ ॥३६॥ तं पि हु सपडिक्कमणं, सप्प-
रिआवं सउत्तरगुणं च । खिप्पं उवसामेई, वाहि
व्व सुसिखिअो विज्जो ॥३७॥ जहाविसं कुट्ठु-
गयं, मंतमूलविसारया । विज्जा हणंति मतेहिं,
तो तं हवइ निव्विसं ॥३८॥ एवं अट्ठविहं कम्मं,
रागदोससमज्जिअं । आलोअंतो अ निंदंतो,
खिप्पं हणइ सुसावअो ३९॥ कयपावोवि मणु-
स्सो, आलोइअ निदिअ य गुरुसगासे होइ
अइरेगलहुअो, ओहरिअभरु व्व भारवहो ॥४०॥
आवस्सएण एएण, सावअो जइवि बहुरअो
होइ । दुक्खाणमंतकिरिअं, काही अचिरेणकालेण
॥४१॥ आलोअणा बहुविहा, नय संभरिआ पडि-

राणां प्रतिदिवसमहं तत्र चैत्यानि वन्दे ॥१॥
 वैताड्ये मेरुशृङ्गे रुचकगिरिवरे कुण्डले हस्ति
 दन्ते, वक्रवारे कूटनन्दीश्वरकनकगिरौ नैषधे
 नीलवन्ते । चैत्रे शैले विचित्रे यमकगिरिवरे
 चक्रवाले हिमाद्रौ, श्रीमत्ती० ॥२॥ श्रीशैले
 विन्ध्यशृङ्गे विमलगिरिवरे ह्यर्बुदे पावके वा,
 सम्मते तारके वा कुलगिरिशिखरेऽष्टापदे स्वर्ण
 शैले । सह्याद्रौ वैजयन्ते विमलगिरिवरे गुर्जरे
 रोहणाद्रौ, श्रीमत्ती० ॥३॥ आघाटे मेढपाटे
 क्षितितटमुकुटे चित्रकूटे त्रिकूटे, लाटे नाटे च
 घाटे विटपिघनतटे हेमकूटे विराटे । कर्णाटे
 हेमकूटे विकटतरकटे चक्रकूटे च भोटे, श्रीम
 त्ती० ॥४॥ श्रीमाले मालवे वा मलयिनि निषधे
 मेखले पिच्छले वा, नेपाले नाहले वा कुवलयति-
 लके सिंहले केरले वा । डाहाले कोशले वा
 विगलितसलिले जङ्गले वा ढमाले, श्रीमत्ती०
 ॥ ५ ॥ अङ्गे वङ्गे कलिङ्गे सुगतजनपदे सत्प्र

यागे तिलङ्गे, गौडे चौडे मुरगडे वरतरद्रविडे
उद्रियाणे च पौगड् । आद्रे माद्रे पुलिन्द्रे
द्रविडकवलये कान्यकुब्जे सुराष्ट्रे, श्रीमत्ती०
॥६॥ चन्द्रायां चन्द्रमुख्यां गजपुरमथुरापत्तने
चोज्जयिन्यां, कोशाम्ब्यां कोशलायां कनकपुर
वरे देवगिर्यां च काश्याम् । नासिक्रये राजगेहे
दशपुरनगरे भद्रिले ताम्रलिप्त्यां, श्रीमत्ती० ॥७॥
स्वर्गे मत्येऽन्तरिक्षे गिरि शिखर हृदे स्वर्णादीनी
रतीरे, शैलाग्रे नागलोके जलनिधिपुलिने भूरु-
हाणां निकुञ्जे । ग्रामेऽरण्ये वने वा स्थलजल
विषमे दुर्गमध्ये त्रिसन्ध्यं, श्रीमत्ती० ॥ ८ ॥
श्रीमन्मेरौ कुलाद्रौ रुचकनगवरे शालमलौ जम्बु
वृक्षे, चौज्जन्ये चैत्यनन्दे रतिकररुचके कौण्डले
मानुषाङ्के । इक्षूकारे जिनाद्रौ च दधिमुखगिरौ
व्यन्तरे स्वर्गलोके, ज्योतिर्लोके भवन्ति त्रिभुव-
नवलये यानि चैत्यालयानि ॥९॥ इत्थं श्रीजैन
चैत्यस्तवनमनुदिनं ये पठन्ति प्रवीणाः, प्रोद्यत्क

ल्याणहेतुं कलिमलहरणं भक्तिभाजस्त्रिसन्ध्यम् ।
 तेषां श्रीतीर्थयात्राफलमतुलमलं जायते मान
 वानां, कार्याणां सिद्धिरुच्चैः प्रमुदितमनसां
 चित्तमानन्दकारी ॥ १० ॥

३५—परसमयतिमिरतरणिं ।

परसमयतिमिरतरणिं, भवसागरवारितर
 णवरतरणिम् । रागपरागसमीरं, वन्दे देवं
 महावीरम् ॥ १ ॥ निरुद्धसंसारविहारकारि-
 दुरंतभवारिगणा निकामम् । निरंतरं केव
 लिसत्तमा वो, भयावहं मोहभरं हरन्तु ॥ २ ॥
 संदेहकारिकुनयागमरूढगूढ—संमोहपङ्कहरणा-
 मलवारिपूरम् । संसारसागरसमुत्तरणोरुनावं,
 वीरागमं परमसिद्धिकरं नमामि ॥३॥ परिमल-
 भरलोभालीढलोलालिमाला—वरकमलनिवासे
 हारनीहारहासे । अविरलभवकारागारविच्छि-
 त्तिकारं, कुरु कमलकरे मे मङ्गलं देवि सारम् । ४।

३६—संसारदावानल स्तुति ।

संसारदावानलदाहनीरं, संमोहधूलीहरणे
समीरं । माघारसादारणसारसीरं, नमामि
वीरं गिरिसारधीरं ।१। भावावनामसुरदानवमा-
नवेन-चूलाविलोलकमलावलिमालितानि । संपू-
रिताभिनतलोकसमीहितानि, कामं नमामि
जिनराजपदानि तानि ॥२॥ बोधागाधं सुपदपद-
वीनीरपूराभिरामं, जीवाहिंसाऽविरललहरीसं-
गमागाहदेहं । चूलावेलं गुरुगममणीसंकुलं दूर-
पारं, सारं वीरागमजलनिधिं सादरं साधु सेवे
॥३॥ अमूलालोलधूलीबहुलपरिमलालीढलोलालि-
माला-भङ्गारारावसारामलदलकमलागारभूमि-
निवासे ! छाया-संभारसारे ! वरकमलकरे !
तारहाराभिरामे !, वाणीसंदोहदेहे ! भवविरह-
वरं देहि मे देवि ! सारम् ॥ ४ ॥

३७—भयवं दत्तगणभद्रो ।

भयवं दत्तगणभद्रो, सुदंसणो थूलभद्र

वडरो य । सफलीकयगिहचाया, साहू एवंविहा
 हुंति ॥ १ ॥ साहूण वंदणेणं, नासइ पावं
 असंकिया भावा । फासुअदाणे निज्जर,
 अभिग्गहो नाणमाईणं ॥२॥ छउमत्थो मूढमणो,
 कित्तियमित्तंपि संभरइ जीवो । जं च न
 संभरामि अहं, मिच्छा मि दुक्कडं तस्स ॥ ३ ॥
 जं जं मणेण चिंतिय—मसुहं वायाइ भासियं
 किंचि । असुहं काएण कयं, मिच्छा मि
 दुक्कडं तस्स ॥४॥ सामाइयपोसहसं-ठियस्स
 जीवस्स जाइ जो कालो । सो सफलो बोद्ध-
 व्वो, सेसो संसारफलहेऊ ॥५॥ मैने सामायिक
 विधिसे किया, विधिसे पूर्ण किया, विधिमें
 किसी प्रकारकी अविधि हुई हो तो मिच्छामि
 दुक्कडं । दस मनके, दस वचनके, चारह कायाके
 इन बत्तीस दोषोंमें से कोई दोष लगा हो तो
 वह मन, वचन, काया करके मिच्छामि दुक्कडं ॥

३८—जयतिहुअण स्तोत्र ।

जय तिहुअण-वर-कप्परुक्ख, जय जिण
धन्नंतरि । जय तिहुअण-कल्लाण-कोस, दुरिअ-
करि-केसरि ॥ तिहुअणजण-अविलंधिआण,
भुवण-त्तय-सामिअ । कुणसु सुहाइं जिणोस
पास, थंभणयपुर-ट्ठिअ ॥ १ ॥ तइ समरंत
लहंति भत्ति, वर-पुत्त-कलत्तइ । धरण-सुवणण-
हिरणण-पुरण, जण भुंजइ रज्जइ ॥ पिक्खइ
मुक्ख असंख-सुक्ख, तुह पास पसाइण । इअ
तिहुअण वर-कप्प-रुक्ख, सुक्खइ कुण मह
जिण ॥ २ ॥

जर-जज्जर परिजुणण-करण, नट्ठुट्ठु सुकुट्ठिण ।
चक्खु-क्खीण खण्ण खुरण, नर सलिय सूलिण ॥
तुह जिण सरण-रसायणेण, लहु हुंति पुणणण-
व । जय-धन्नंतरि पास महवि, तुह रोग-हरो
भव ॥ ३ ॥ विज्जा-जोइस-मंत तंत-सिद्धीउ
अपयत्तिण । भुवणऽब्भुअ अट्ठुविह सिद्धि,

सिञ्जहि तुह नामिण ॥ तुह नामिण अपवि-
 त्तओ वि, जण होइ पवित्तउ । तं तिहुअण-
 कल्लाण-कोस, तुह पास निरुत्तउ ॥ ४ ॥ खुद्-
 पउत्तइ मंत-तंत-जंताइ विसुत्तइ । चर-थिर-
 गरल-गहुग्ग-खग्ग-रिउ-वग्गवि गंजइ ॥ दुत्थिय-
 सत्थ अणत्थ-घत्थ, नित्थारइ दयं करि । दुरियइ
 हरउ स पास-देउ, दुरिय-करि-केसरि ॥ ५ ॥
 तुह आणा थंभेइ भीम-दप्पुद्धुर-सुर-वर-रक्खस-
 जक्ख-फण्णिंद-विंद-चोरानल-जलहर ॥ जल-
 थल-चारि-रउद्द-खुद्द-पसु-जोइणि-जोइय । इय
 तिहुअणअविलंघिआण, जय पास सुसामिय
 ॥ ६ ॥ पत्थिय-अत्थ अणत्थ-तत्थ, भत्ति-व्भर-
 निव्भर । रोमंचंचिय-चारु-काय किन्नर-नर-सुर
 वर ॥ जसु सेवहि कम-कमल-जुयल, पक्खा-
 लिय-कलि-मलु । सो भुवण-त्तय-सामि पास,
 मह मद्दउ रिउ-वलु ॥ ७ ॥ जय जोइय-मण-
 कमल-भसल, भय—पंजर कुंजर । तिहुअण-

जण-आणंद-चंद, भुवण-त्तय-दिणयर ॥ जय
 मइ-मेइणि-वारिवाह, जय-जंतु-पियामह ।
 थंभणय-द्विय पासनाह, नाहत्तण कुण मह ॥८॥
 बहुविह-वन्नु अवन्नु सुन्न, वन्निउ छप्पन्निहि ।
 मुक्ख-धम्म-कामत्थ-काम, नर निय-निय-सत्थि
 हि ॥ जं भायहि बहु दरिसणत्थ, बहु-नाम-
 पसिद्धउ । सो जोइय-मण-कमल-भसल, सुहु
 पास पवद्धउ ॥ ९ ॥ भय-विब्भल रणभणिर-
 दसण, थरहरिय-सरीरय । तरलिय-नयण
 विसन्न सुन्न, गगर-गिर करुणय ॥ तइ सहस-
 त्ति सरंत हुंति, नर नासिय-गुरु-दर । मह
 विज्भव सज्भसइ पास, भय-पंजर-कुंजर ॥१०॥
 पइं पासि वियसंत-नित्त-पत्तंत-पवित्तियबाह-
 पवाह-पवूढ-रूढ-दुह-दाह सुपुलइय ॥ मन्नइ
 मन्नु सउन्नु पुन्नु, अप्पाणं सुर-नर । इय
 तिहुश्रण-आणंद-चन्द, जय पास-जिणोसर ॥११॥
 तुह कल्लाण-महेसु घंट-टंकारय-पिल्लिय ।

सामिउ तुहु मायवप्पु, तुह मित्त पियंकरु ।
 तुहु गइ तुहु मइ तुहुजि ताणु, तुहु गुरु खेमं-
 करु ॥ हउ दुहभरभारिउ वराउ, राउ निव्वभ-
 गह । लीणउ तुह कम-कमल-सरणु, जिण
 पालहि चंगहा ॥२०॥ पइ किवि कय नीरोय
 लोय, किवि पाविय सुहसय । किवि मइमंत
 महंत केवि, किवि साहिय-सिव-पय । किवि
 गंजिय-रिउ-वग्ग केवि, जस-धवलिय-भू-यल
 मइ अवहीरहि केण पास, सरणागय-वच्छला २१।
 पच्चवयार-निरोह नाह, निफफन्न-पओयण ।
 तुह जिण पास परोवयार-करणिक परायण ॥
 सत्तु-मित्त-सम-चित्त-वित्ति, नय-निंदय-सम-
 मण । मा अवहीरय अजुग्गउवि, मइं पास
 निरंजण ॥२२॥ हउ बहुविह-दुह-तत्त-गत्तु-तुह
 दुह-नासण-परु । हउ सुयणह करुणिक-ठाणु,
 तुहु निरु करुणाकरु ॥ हउ जिण पास असामि
 सालु, तुहु तिहुअण-सामिय । जं अवहीरहि

महं भखंत, इय पास न सोहिय ॥ २३ ॥
जुग्गाऽजुग्ग-विभाग नाह, न हु जोयहि तुह-
सम । भुवणुवयार-सहाव-भाव-करुणा-रस-
सत्तम ॥ सम विसमइं किं घण नियइ, भुवि
दाह समंतउ । इय दुहि-बंधव पास-नाह, मइ
पाल थुणंतउ ॥ २४ ॥ नय-दीणह दाणयं मुयवि,
अन्नुवि किवि जुग्गय । जं जोइवि उवयार
करहि, उवयार-समुज्जय ॥ दीणह दीण
निहीणु जेण, तइ नाहिण चत्तउ । तो जुग्गउ
अहमेव पास, पालहि मइं चंगउ ॥ २५ ॥ अह
अन्नुवि जुग्गय-विसेसु किवि मन्नहि दीणह ।
जं पासिंवि उवयारु करइ, तुहु नाह समग्गह ॥
सुच्चिय किल कल्लाणु जेण, जिण तुम्ह पसी-
यह । किं अन्निण तं चेव देव, मा मइं अव-
हीरह ॥ २६ ॥ तुह पत्थण न हु होइ विहलु,
जिण जाणउ किं पुण । हउ दुक्खिय निरु सत्त-
चत्त, दुक्कहु उस्सुय-मण ॥ तं मन्नउ निमिसेण

एउ, एउ वि जइ लवभइ । सच्चं जं भुक्खिय-
 वसेण, किं उंवरु पच्चइ ॥२७॥ तिहुअण-सामिअ
 पासनाह मइ अप्पु पयासिउ । किज्जउ जं
 निय-रुव-सरिसु न मुणउ वह् जंपिउ ॥ अण्णण
 जिण जग्गि तुह समोवि, दक्खिन्न-दयासउ ।
 जइ अवगन्नसि तुह जि अहह, कह होस् हया-
 सउ ॥ २८ ॥ जइ तुह रुविण किणवि पेय-
 पाइण वेलवियउ । तुविजाणउ जिण पास
 तुम्हि, हउं अंगीकरउ ॥ इय मह इच्छिउ जं
 न होइ, सा तुह ओहावणु । रक्खंतह निय-
 कित्ति णेय, जुज्जइ अवहीरणु ॥ २९ ॥ एह
 महारिय जत्त देव, इहु न्हवण-महूसउ । जं
 अण्णिय-गुण-गहण तुम्ह, मुण्णि-जण-अणि-
 सिद्धउ ॥ एम पसीअसु पासनाह, थंभणयपुर-
 द्विय । इय मुणिवरु सिरि-अभयदेउ, विन्नवइ
 अणिंदिय ॥ ३० ॥

३६—जय महायस ।

जय महायस जय महायस जय महाभाग
जय चिंतिय-सुह-फलय, जय समत्थ-परमत्थ-
जाणय जय जय गुरु-गरिम गुरु । जय दुहत्त-
सत्ताण ताणय थंभणय-द्विय पासजिण, भवियह
भीम-भवुत्थु भय अविण्णि-ताणंतगुण, तुज्झ ति-
संभं नमोत्थु ॥ १ ॥

४०—श्रुतदेवताकी स्तुति ।

सुवर्ण-शालिनी देयाद्, द्वादशाङ्गी जिनो-
द्भवा । श्रुतदेवी सदा मह्य—मशेष-श्रुत-
संपदम् ॥ १ ॥

४१—क्षेत्र-देवताकी स्तुति ।

यासां क्षेत्र-गताः सन्ति, साधवः श्रावका-
दयः । जिनाज्ञां साधयन्तस्ता रक्षन्तु क्षेत्र-
देवताः ॥ १ ॥

४२—नमोऽस्तु वर्धमानाय ।

इच्छामो अणुसद्धिं, एमो खमासमणाणं ।

नमोऽस्तु वर्धमानाय, स्पर्धमानाय कर्मणा ।
 तज्जयावासमोक्षाय, परोक्षाय कुतीर्थिनाम् ॥१॥
 येषां विकचारविन्दराज्या, ज्यायः क्रमकमला-
 बलिं दधत्या स्रष्टशैरतिसङ्गतं प्रशस्यं, कथितं
 सन्तु शिवाय सै जिनेन्द्राः कषायतापार्दितजन्तु-
 निर्वृतिं, करोति यो जैनमुखाम्बुदोद्गतः । स
 शुक्रमासोद्भववृष्टिसन्निभो, दधातु तुष्टिं मयि
 विस्तरोगिराम् ॥ २ ॥ श्वसित-सुरभि-गन्धा-ऽ
 लीढ-भृङ्गी-कुरङ्गं मुखशशिनमजस्रं, विभ्रति
 या विभर्ति । विकच-कमलमुच्चैः साऽस्त्व-
 चिन्त्य-प्रभावा, सकलसुख-विधात्री, प्राणभाजां
 श्रुताङ्गी ॥ ४ ॥

४३—श्रीस्तम्भनपार्श्वनाथ चैत्यवन्दन ।

श्रीसेढी-तटिनी-तटे-पुर-वरे, श्रीस्तम्भने
 स्वर्गिरौ, श्रीपूज्याभयदेव-सूरि-विबुधाधीशैः
 समारोपितः । संसिक्तः स्तुतिभिजलैः शिवफलैः,
 स्फूर्जत्फणा-पल्लवः पार्श्वः कल्पतरुः स मे प्रथय

तां, नित्यं मनो-वाञ्छितम् ॥ १ ॥ आधिव्याधि
हरो देवो, जीरावल्ली शिरोमणिः । पार्श्वनाथो
जगन्नाथो, नत-नाथो नृणां श्रिये ॥ २ ॥

४४—सिरि-थंभणय-ठिय-पास-सामिणो ।

सिरि-थंभणय-ठिय पास-सामिणो सेस-
तित्थ-सामीणं तित्थ-समुन्नइ-कारण-सुरासुराणं
च सव्वेसिं ॥ १ ॥ एसिमहं सरणत्थं, काउस्स-
गं करेमि सत्तोए । भत्तोए गुण-सुद्धियस्स
संघस्स समुन्नइ-निमित्तं ॥ २ ॥

४५—चउ-कसाय सूत्र ।

चउ-कसाय-पडिमल्लुल्लूरणु, दुज्जय-मय-
ण-वाण-मुसुमूरणु । सरस-पिञ्चंगु-वणु गय-
गामिउ, जयउ पासु भुवण-त्तय सामिउ ॥ १ ॥
जसु तणु-कंति-कडप्प-सिणिद्धउ, सोहइ फणि
मणिक्किरणालिद्धउ । नं नव-जलहर-तडिल्लय-
लंछिउ, सो जिणु पासु पयच्छउ वंछिउ ॥ २ ॥

४६—अर्हन्तो भगवन्त ।

अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमहिताः सिद्धाश्च
सिद्धि-स्थिता, आचार्या जिन—शासन्नोन्नति-
कराः पूज्या उपाध्यायकाः । श्री सिद्धान्त-सुपा-
ठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधकाः, पञ्चैते परमेष्ठि-
नः प्रतिदिनं कुर्वन्तु वो मङ्गलम् ॥ १ ॥

४७—लघु-शान्ति स्तव ।

शान्तिं शान्ति-निशान्तं-शान्तंशान्ताऽशिवं
नमस्कृत्य । स्तोतुः शान्ति-निमित्तं, मन्त्र-पदैः
शान्तये स्तौमि ॥ १ ॥ ओमिति-निश्चत-वचसे,
नमो नमो भगवतेऽर्हते पूजाम् । शान्ति-जिनाय
जयवते, यशस्विने स्वामिने दमिनाम् ॥ २ ॥
सकलातिशेषक-महा-सम्पत्ति-समन्विताय श-
स्याय । त्रैलोक्य-पूजिताय च, नमो नमः
शान्ति-देवाय ॥३॥ सर्वामर-सुसमूह—स्वामिक-
संपूजिताय निजिताय । भुवन-जन-पालनो
द्यत—तमाय सततं नमस्तस्मै ॥ ४ ॥ सर्व-

दुरितौघ-नाशन—कराय सर्वा-ऽशिव-प्रशम
नाय । दुष्ट ग्रह भूत पिशाच—शाकिनीनां प्रम
थनाय ॥५॥ यस्येति नाम मन्त्र—प्रधान वा-
क्योपयोग-कृत-तोषा । विजया कुरुते जन-
हित—मिति च नुता नमत तं शान्तिम् ॥६॥
भवतु नमस्ते भगवति !, विजये ! सुजये !
परापरैरजिते ! । अपराजिते ! जगत्यां, जयतीति
जयावहे भवति ! ॥ ७ ॥ सर्वस्यापि च संघस्य,
भद्र-कल्याण-मंगल-प्रददे । साधूनां च सदा
शिव-सुतुष्टि-पुष्टि-प्रदे-जीयाः ॥ ८ ॥ भव्यानां
कृत-सिद्धे !, निर्वृति-निर्वाण-जतनि ! सत्त्वा
नाम् । अभय-प्रदान-निरते !, नमोऽस्तु-स्वस्ति-
प्रदे ! तुभ्यम् ॥ ९ ॥ भक्तानां जन्तूनां, शुभावहे
नित्यमुद्यते ! देवि ! । सम्यग्दृष्टीनां धृति-रति-
मति-बुद्धि-प्रदानाय ॥१०॥ जिन-शासन-निर
तानां, शांति-नतानां च जगति जनतानाम् ।
श्रीसम्पत्-कीर्ति-यशो—वर्द्धनि ! जय देवि !

विजयस्व ॥ ११ ॥ सलिलानल-विष-विषधर,
 दुष्ट-ग्रह-राज-रोग-रण-भयतः राक्षस-रिपु-गण-
 मारि—चौरैति-श्वापदादिभ्यः ॥१२॥ अथ रक्ष
 रक्ष सुशिवं, कुरु कुरु शान्तिं च कुरु कुरु सदेति ।
 तुष्टिं कुरु कुरु पुष्टिं, कुरु कुरु स्वस्ति च कुरु
 कुरु त्वम् ॥ १३ ॥ भगवति ! गुणवति ! शिव-
 शान्ति—तुष्टि-पुष्टि-स्वस्तीह कुरु कुरु जनानाम् ।
 ओमिति नमो नमो हौं ह्रीं हूं हः यः ज्ञः ह्रीं
 फुट् फुट् स्वाहा ॥ १४ ॥ एवं यन्नामाक्षर—पुर
 स्सरं संस्तुता जया देवी । कुरुते शान्तिं नमतां,
 नमो नमः शान्तये तस्मै ॥ १५ ॥ इति पूर्व-
 सूरि-दर्शित—मन्त्र-पद-विदर्भितः स्तवः
 शान्तेः । सलिलादि-भय-विनाशी, शान्त्यादि
 करश्च भक्तिमताम् ॥ १६ ॥ यश्चैनं पठति सदा,
 शृणोति भावयति वा यथायोगम् । स हि
 शान्ति-पदं यायात्, सूरिः श्रीमानदेवश्च ॥१७॥
 उपसर्गाः क्षयं यान्ति, छिद्यन्ते विघ्नवल्लयः ।

मन्नः प्रसन्नतामेति, पूज्यमाने जिनेश्वरे ॥१८॥
 सर्व-मङ्गल-माङ्गलयं, सर्व-कल्याण-कारणम् ।
 प्रधानं सर्व-धर्माणां, जैनं जयति शासनम् ॥१९॥

४८—भुवनदेवताकी स्तुति ।

चतुर्वर्णाय संघाय, देवी भुवन-वासिनी ।
 निहत्य दुरितान्येषा, करोतु सुखमक्षयम् ॥१॥

४९—वर-कनक सूत्र ।

ओंवर-कणय-संख-विद्दुम—मरगय-घण-
 संनिहं विगय-मोहं । सत्तरि-सयं जिणाणं, सव्वा-
 मर-पूइयं वन्दे ॥१॥ स्वाहा ॥ ओं भवणवइ-
 वाणमंतर—जोइस-वासी विमाण-वासी थ ।
 जे केदि दुट्टु-देवा, ते सव्वे उवसमंतु मे ॥ २ ॥
 स्वाहा ॥

॥ बृहद्-अतिचार ॥

॥ नाणम्मि दंसणम्मि य, चरणम्मि तवे
 य तह य विरियम्मि । आयरणं आयारो, इअ
 एसो पंचहा भणिओ ॥ १ ॥ ज्ञानाचार १,

दर्शनाचार २, चारित्राचार ३, तपाचार ४, वीर्याचार ५, एवं पांचविधि आचारमांहि जिको अतिचार पक्ष-दिवसमांहि. सूक्ष्म वादर, जाणतां अणजाणतां, हुओ होय, ते सहू मन, वचन, कायाइं करी मिच्छामि दुक्कडं ॥

॥ अथ ज्ञानाचारना आठ अतिचार,—
काले विणए बहु-माणे, उवहाणे तह य निन्ह-
वणे । वंजण-अत्थ-तदुभए. अट्टविहो नाणमा-
यारो ॥१॥ ज्ञान काल-वेलामांहि पढिउं गुणिउं
नहीं, अकाले पढिउं, विनय-हीन बहु-मान हीन
उपधान-हीन श्रीउपाध्याय कने नही पढिउं,
अथवा अनेरा कने पढिउं, अनेरो गुरु कह्यो ।
व्यंजन, अर्थ, तदुभय कूडो पढ्यो । देव-वांदणे,
पडिक्कमणे, सिज्झाय करतां, पढतां गुणतां कूडो
अक्षर काने-मात्रे-अधिको-ओछो आगल-पाछल
भणयो । सूत्र-अर्थ कूडा भणया, भणीनें विसा-
रयो । तपोधन तणे धर्मे काजो अणउधरे,

दांडी अणपडिलेही, वसतो अणसोधो; असि-
 ज्भाई अणोभा-काल-वेलासांहि दशवैकालिक-
 प्रमुख सिद्धान्त भणयो गुणयो । योग कल्यांपखे
 भणयो । ज्ञानोपगरण पाटी, पोथी, ठवणी,
 कवली, नवकरवाली, सांपडा, सांपडी, वही,
 दस्तरी, ओलीया, कागल-प्रमुख प्रतें आशा-
 तना हुई, पग लागो, थूंक लागो, ओसीसे
 मूक्यो, कने छतां आहार-नोहार कीधो, ज्ञान-
 द्रव्य भक्षण-उपेक्षण कीधो, प्रज्ञापराधे विणा-
 श्यो, विणसतो उवेख्यो, छती शक्तें सार-
 संभाल न कीधो । ज्ञानवंत प्रतें मच्छर बह्यो,
 अवज्ञा-आशातना कीधो, कोई प्रतें भणतां
 गुणतां प्रद्वेष-मत्सर अंतराय-अपघात कीधो ।
 मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मनः—पर्यव-
 ज्ञान, कैवलज्ञान, ए पांच ज्ञान तणी असद्वहणा
 कीधो । कोई तोतलो बोबडो हस्यो, वितक्यो ।
 आपणा जाणपणा तणो गर्व चिंतव्यो । अष्ट-

विधि ज्ञानाचार विपद्भ्यो जिको अतिचार पक्ष-
दिवसमाहे सूक्ष्म वादर, जाणतां अजाणतां,
हुवो होय, ते सहु मन, वचन, कायाइं करी मि०॥

दर्शनाचारना आठ अतिचार,—निस्संकिय
निक्कंखिअ, निव्वितिगिच्छा अमूढ-दिट्ठी अ ।
उव-वूह धिरीकरणे, वच्छल्ल पभावणे अट्टु ॥१॥
देव-गुरु-धर्म-तणे विपे निःशंकपणो न कीधो,
तथा एकांत निश्चय धरयो नहीं । ‘सघलाइ मत
भला छे’ एहवी श्रद्धा कीधी । धर्मसंवंधिया
फलतणे विपे निःसन्देह बुद्धि धरी नही । चारि-
त्रिया साधु-साधवी तणां मल-मलिन गात्र
देखी दुगंछा उपजावी । मिथ्यात्वीतणी पूजा-
प्रभावना देखी मूढदृष्टिपणो कीधो । संघमाहे
गुणवंततणो अनुपवृंहणा, अस्थिरीकरण,
अवात्सल्य, अप्रीति अभक्ति चिंतवी, संघ माहे
धिरिकरण वात्सल्य, शक्ति छते प्रभावना न
कीधी । देवद्रव्य विनासिउं, विणसंतुं उवेखिउं,

छती शक्ते सार-संभाल न कीधी । साधर्मिकशुं
कलह-कर्म कीधुं । जिन-भवन-तणी चोरासी
आशातना कीधी । गुरु प्रते तेत्रीस आशातना
कीधी । अधौत वस्त्रें देव पूजा कीधी । तिहुं
ठाम पाखें देव-पूजा-वास-कूपी-कलशतणो
ठवको लागो । मुख-तणी बाफ लागी । ठवणा-
रिय हाथ थको पडिओ, पडिलेहवो वीसारच्यो ।
नवकरवालीनें पग लागो । दर्शनाचार विषड्यो
जिको अतिचार० ॥ ३ ॥

चारित्राचारना आठ अतिचार;—

पणि-हाण-जोग-जुत्तो, पंचहिं समिईहिं तिहिं
गुत्तीहिं । एस चरित्तायारो, अट्टुविहो होइ नायव्वो
॥१॥ इरिया-समिति १, भासा-समिति २, एषणा-
समिति ३, आयाण-भंडमत्त-निक्खेवणा-समिति
४, उच्चार-पास-वणखेल-जल्ल-संधाण-पारिठा-
वणियासमिती ५, मनो-गुप्ति १, वचन-गुप्ति
२, काय-गुप्ति ३, ए पंच समिती तीन गुप्ति,

रूडी परें पाली नहीं । साधुतणें धर्म सदैव
श्रावकतणे पोसह-पडिक्रमणे लीधे अष्टविध चारि-
शाचार-विषईओ जिको अतिचार० ॥

विशेषतः श्रावकतणें धर्म श्रीसम्यक्त्व-मूल
वारह व्रत । श्रीसम्यक्त्व-तणा पांच अति-
चार;—संका कंख विगिच्छा, पसंस तह संथवो
कुलिंगोसु । संका,—श्रीअरिहंत-तणां वल,
अतिशय, ज्ञान, लक्ष्मी, गांभीर्यादिक गुण,
शाश्वती प्रतिमा, चारित्रियानां चारित्र, जिन-
वचन-तणो संदेह कोधो । आकांक्षा;—ब्रह्मा,
विष्णु, महेश्वर, क्षेत्रपाल, गोगो, गोत्रदेवता ।
ग्रह-पूजा विणाइग, हनुमंत इत्येवमादिक ग्राम,
गोत्र, देश, नगर, जूजूआ देव देहराना प्रभाव
देखी रोगें, आतंके इहलोक-परलोकार्थे पूज्या,
मान्या । वोढ, सांख्यादिक संन्यासी, भरडा,
भगत, लिंगिया, योगी, दरवेश अनेराई दर्श-
नियानो कष्ट, मंत्र चमत्कार देखी परमार्थे

जाण्या विष्णु भूल्या, अनुमोद्या, कुशास्त्र सिख्यां
 सांभल्यां । शराध, संवत्सरी, होली, बलेव,
 माही पूनिम, अजा पडिव, प्रेतबीज, गोरत्रीज,
 विष्णायग-चोथ, नाग-पांचम, भुलणा-छठा,
 शील-सातम-ध्रो-आठम, नउली-नवम अहव-
 दसम, व्रत-इग्यारस, वत्स-बारस, धन-तेरस,
 अनंत-चौदश, आदित्य-वार, उत्तरायण, नवो-
 दक, जाग-भोग-उतारणा-कीधा । पिंपले
 पाणी घाल्यां, घलाव्यां । घर, बाहिर, कूई,
 तालाव, नदी, समुद्र, कुंडमें पुण्य-हेतु स्नान
 कीधां, दान दीधां । ग्रहण, शनिश्वर. साह-
 मास, नवरात्रि नाहिया, अजाणतां थाप्यां ।
 अनेराई व्रत व्रतोला कीधां, कराव्यां । विचि
 किच्छा;—धर्म संबंधिया फल तणो संदेह
 कीधो । जिण, अरिहंत, धर्मना आगर, विश्वो
 पकार-सागर-मोक्ष-मार्ग दातार, देवाधिदेव-
 बुद्धे शुद्ध भावे न पूज्या, न मान्या । महा

त्माना भात-पाणी-तणी दुगंछा कीधी । कुचा
रित्रिया देखी चारित्रिया उपरें अभाव हुओ ।
मिथ्यात्वी-तणी प्रभावना देखी प्रशंसा कीधी ।
प्रीति मांडी, दाक्षिण्य लगे तेहनो धर्म मान्यो ।
श्री समकित विषे अनेरो जिको अतिचार पक्ष-
दिवस मांहि सूक्ष्म-बादर, जाणतां अजाणतां,
हुओ होय, ते सहू मन, वचन, कायाइं करी
मिच्छामि० ।

पहिले प्राणातिपात-विरमण व्रतें पांच अति
चार । वह-बंध-छविच्छेए, अइभारे भक्त-पाण-
वुच्छेए ॥ द्विपद-चउपद प्रतें रीश-वशें गाढो
घाउ-प्रहार घाल्यो, गाढ बंधने वांव्यां, घणे
भारे पीड्या, निर्लाञ्छन कर्म कीधां, चारा-पाणी-
तणी वेला सार-संभार न कीधी । लहिणे-देणे
किणही-प्रतें लंघाव्युं, तेणें भूखे आपण जिम्या ।
अणगल पाणी वावरथूँ रुढे गलणे गत्युं
नही । अणगल पाणी भील्यां, लूगडां धोयां ।

इंधण अणसोध्युं जाल्युं । ते माँहि साप,
कानखजूरा, सुलहला, मांकड, जूआ, गोगिंडा,
साहतां मूआ, दूखव्यां, रूडे थानक न मूक्या ।
कीडी, मकोडी, उदेही, घीवेली, कातरा चूडेली,
पतंगियां, देडकां, अलसिया, ईली, कूति, डांस,
मसा, बगतरा, माखी प्रमुख जे कोई जीव
विणठा, चापिया, दूहव्या । माला हलावतां
पंखी, काग, चिडकलानां इंडा फूटां । अनेरा
एकेंद्रियादिक जिके जीव विणठा, चांप्या, दूह-
व्या । हालतां चालतां अनेरुं कांड काम काज
करतां, विध्वंसपणुं कीधुं, जीव-रक्षा रूडे न
कीधी । संखारो सूकव्यो । सल्या धान तावडे
दीधां, दलाव्यां, भरडाव्यां । खाटला तावडे
भाटक्या, मूक्या, मूकाव्या । जीवाकुल भूमि
लीपावी । वाशी गार राखी, रखावी । दलणे,
खांडणे, लीपणे रूडी जयणा न कीधी । आठम
चउदशना नियम भांग्या । धूणी करावी ।

पहला प्राणातिपात-व्रत-विषड्ओ अनेरो०॥१॥

वीजे स्थूल-मृपावाद-विरमण व्रतें पांच अतिचार । सहसा-रहस्स-दारे, मोसुवएसे य कूड लेहे य ॥ सहसात्कार;—किण्हिक प्रतें अयुक्तो आल दीधो, किण्हिक प्रतें एकांते वात करतां देखी 'तुम्हें तो राज-विरुद्ध चिंत वोछो' इत्यादिक कहुं । खदार-मंत्र-भेद कीधो । अनेराई किणहीनो मंत्र आलोचमर्म प्रकाश्यो । किणहीनें कूडी बुद्धि दीधी । कूडो लेख लिख्यो । कूडी साख भरी । थापण-मोसो कीधो । कन्या-ढोर-गाय-भूमि-संबंधिया लेहणें देहणें व्यवसाय-वाद-वढावढि करतां मोटकुं भूठ वोल्हुं । हाथ-पग-भणी गाल दीधी । करडका मोड्या । अधम्म वचन वोल्यां । वीजे मृपावाद-व्रत-विषड्ओ० ॥२॥

त्रीजे अदत्तादान-विरमण व्रतना पांच अतिचार । तेनाहडप्पओगे । घर, वाहिर, क्षेत्र,

खले पराई वस्तु अणमोकलावी लीधी, दीधी, वावरी । चोरीनी वस्तु मोल लीधी । चोर, धाडी प्रते संबल दीधुं, संकेत कह्युं । विरुद्ध राज्यातिक्रम कीधो । नवा पुराणा, सरस विरस सजीव निर्जीव वस्तु तणा भेल संभेल कीधा । खोटे तोले मान माप वहोरचां । दाण-चोरी कीधी । साटे लांच लीधी । माता, पिता, पुत्र, कलत्र, परिवार वंची जूदी गांठ कीधी । किण हीनें लेखे पलेखे भूलव्युं । पडी वस्तु ओलवी लीधी । त्रीजे अदत्तादान-व्रत विषइओ॥३॥

चोथे स्वदार-संतोष मैथुन व्रते पांच अति-चार ॥ अपरिग्गहिया इत्तर, अणंग-वीवाह-तिव्व-अणुरागे ॥ अपरिगृहीतागमन, इत्तर-परिगृहिता-गमन, विधवा, वेश्या, स्त्री, कुलाङ्गना, स्वदार शोक तणे विषे दृष्टिविपर्यास कीधो, सराग वचन बोल्यां, आठम चउदश अनेराई पव्वे तिथि तणा नियम भांग्या । घरघरणां

कीधां, कराव्यां, अनुमोदीयां । कुविकल्प चिंत-
व्या । अनंग क्रीडा कीधी । पराया विवाह
जोड्या । काम भोग तणे विषे तीव्राभिलाष
कीधो । कुखण्ण लाधां । नट विट पुरुषशुं हांसुं
कीधुं । चौथे मैथुन-व्रत वि० ॥ ४ ॥

पांचमे परिग्रह-परिमाण-व्रते पांच अति-
चार ॥ धण धन्न खित्त वत्थू । धन, धान्य, जेत्र,
वस्तु, रूप्य, सुवर्ण, कुप्य, द्विपद, चतुष्पद ए
नवविध परिग्रह तणा नियम उपरांत वृद्धि
देखी मृच्छां लगे संक्षेप न कीधो । माता,
पिता, पुत्र, कलत्रादि तणे लेखें कीधो । परिग्रह
परिमाण लेई पढ्यो नही, पढी विसारिओ ।
नियम विसारिओ । पांचमे परिग्रह परिमाण
व्रत विपड्ढिओ० ॥ ५ ॥

छट्टे दिग्-विरमण-व्रते पांच अतिचार ॥
गमणस्स य परिमाणे ॥ ऊर्ध्वदिसि, अधोदिसि,
तिर्यग्दिसि जायवा आइवा तणो नियम जे

कोई अजाणो भांगो । एक गमा संकोडी बिजो
गमा वधारी । विस्मृत लगे अधिक भूमि
गया । पाठवणी आधी मोकलो ॥ छट्टे दिग्ब्रते
वि० ॥ ६ ॥

सातमें भोगोपभोग-परिमाण-व्रत ॥ जेहना
भोजन आश्री पांच अतिचार अने करमहूँती
पन्नरे, एवं वीश अतिचार ॥ सच्चित्ते पडिबद्धे,
अपोल दुष्पोलयं च आहारे । सच्चित्त तणे
नियम लीधे अधिक सच्चित्त लीधुं, तथा सच्चित्त
मली वस्तु, अपक्ववाहार, दुष्पक्ववाहार, तुच्छोषधि
तणु भक्षण कीधुं । होला, उंबी-पहुंक,
काकडी, भडथां कीधां । सुल्यां धान प्रमुख
भक्षण कीधां । सच्चित्त-दव्व-विगई—पाणह
तंबोल-वत्थ-कुसुमेसु । वाहण-सयण-विलेवण-
बंभ-दिसि-गहाण-भत्तेसु ॥१॥ ए चवदे नियम
दिन प्रते संभारथा-संक्षेप्या नहिं, लेई नियम
भांग्या । बावीस अभक्ष, बत्तीस अनंतकाय

देश-कथा भक्त-कथा स्त्री-कथा पराई वात
कीधी । आर्त्त रौद्र ध्यान ध्यायां । कर्कश वचन
वोल्या । करडका मोल्या । संभेडा लाया ।
भेसा, सांड, कूकडा, मिंढा, श्वानादि भूभक्तां
कलह करतां जोयां । खाधी लगे अदेखाई
चिंतवी । माटी, मीठुं, कण, कपासिया काज
विणचांप्या तेह ऊपर वयठा । आली वनस्पति
खुंदी । छस पाणी घोरस तेल गुल आम्ल
वेतस वेरजादिक तणां भाजन उघाडां मूक्यां,
ते मांहि कीडी, कंधुआ, मांखी, उंदर, गिरोली
प्रमुख जीव विणठा । सूडा प्रमुख जीव क्रीडा-
हेते वांधी राख्या । घणी निद्रा कीधी । राग-
द्वेष लगे एकने ऋद्धि-परिवार वांछी, एकने
मृत्यु-हाणि विमासी । आठमा अनर्थ-दंड-
व्रत वि० ॥

नवमा सामायिक व्रते पांच अतिचार ॥
तिविहे दुष्प्रणिहाणे । सामायिक लीधे मन

आहट दोहट चिंतव्युं । वचन सावद्य बोल्युं ।
 काय अणपडिलेह्युं । हलाव्युं । छती वेलाइं
 सामायिक न लीधुं । सामायिक लई उघाडे
 मुखे बोलया, उंघ आवी कीधी । बीज दीवा
 तणी उजाही लागी । कण, कपासीया, माटी,
 मीठुं, नील-फूल, हरि-कायना संघट्ट हुआ ।
 पुरुष तिर्यचना संघट्ट हुआ । तथा स्त्री तिर्यची
 आभडी । मुहपत्तीयो संघट्टी । सामायिक अण
 पूरिउं पारिउं, पारउं विसारिउं । नवमे सामा
 यिक-व्रत-विषइओ० ॥ ६ ॥

दशमे देशावकाशिक व्रते पांच अतिचार;—
 आणवणे पेसवणे० ॥ आणवणप्पओगे
 पेसवणप्पओगे सदाणुवाइ रूवाणवाइ बहिया
 पुगल-पक्खेवे ॥ नियमित भूमिकामांहि बाहिर
 थकी कांई अणाव्युं । आप कन्हाथी बाहिर
 मोकल्युं । साद करी, रूप देखाडी, कांकरी
 नाखी आपणपणु छतुं, जणाव्युं ॥ दशमे

देशावकाशिक-व्रत-विषड्त्रो० ॥१०॥

इग्यारमे पोषधोपवासव्रते पांच अतिचार;-
 संधारुच्चार-विही पमाय तह चव भोअणाभोए ॥
 पोसह लीधे संधारा तणी भूमि वाहिरला
 थंडिला दिवसें शोथ्यां पडिलेह्यां नहीं । मातरुं
 अणपडिलेह्युं वावरिउं, अणपुंजी भूमिकाइ
 परठविउं, परठवतां चिंतवण न कीधो, 'अणुजा
 णह जस्सुग्गहो' न कह्यो, परठव्या पूठे वार
 ञ्ण वोसिरामि वोसिरामि न कह्युं । पोसह
 सालामांहि पइसतां नीसरतां निस्सिही आव
 स्सही कहेवी विसारी । पृथ्वीकाय, अप्काय,
 तेऊकाय, वाउकाय, वनस्पतिकाय, त्रसकाय, तणा
 संघट्ट परिताप उपद्रव दुआ । संधारा पोरसि
 तणो विधि भणवो वोसारिओ । पोरसीमांहि
 उंध्या । अविधि संधारुं पाथरयुं । काल वेलाये
 पडिकमण न कीधुं । पारणादिक तणी चिन्ता
 निपजावी । कालवेला देव वांदवा वोसारिया ।

पोसह असूरो लीयो, सवारो पारीयो । पर्व
तिथि आवी पोसह लीधो नही ॥ इग्यारमे
पोषधोपवास-व्रत-विषइओ० ॥ ११ ॥

वारमे अतिथि-संविभाग-व्रते पांच अति
चारः—सचित्ते निखिलवणे ॥ सच्चित्त वस्तु हेठे
उपरि थके महात्मा प्रते असूभक्तुं दान दीधुं ।
अदेवा तणी बुद्धे सभक्तुं फेडी असूभक्तुं कीधुं ।
देवा तणी बुद्धे असूभक्तुं फेडी सभक्तुं कीधुं ।
आपणुं फेडी परायुं कीधुं । विहरवावेला टली
गया । पछें असुर करी महात्मा तेड्या ।
मच्छरलगे दान दीधुं । गुणवंत आवे भगति
न साचवी । छती शक्ति साधर्मिक-वात्सल्य न
कीधुं । अनेराई धर्मक्षेत्र सीदाता छती शक्ते
उद्धरया नहीं ॥ वारमें अतिथि-संविभाग-व्रत-
विषइयो० ॥ १२ ॥

संलेहणा तणा पांच अतिचार । इहलोए
परलोए ॥ इहलोगासंसप्पओगे परलोगासंसप्प-

ओगे जीविआसंसप्पओगे, मरणासंसप्पओगे,
 कामभोगासंसप्पओगे । इहलोक-मनुष्य भवे
 मान, महत्त्व, लोक तणी सेवा, ठकुराई, बलदेव-
 वासुदेव-चक्रवर्ति-पद वांछयां । परलोके इंद्र-
 अहमिंद्र-देवाधिदेव-पदवी वांछी । सुख आव्ये
 जीववा तणी वांछा कीधी । दुःख आव्ये मरवा
 तणी वांछा कीधी । काम-भोग-तणी इच्छा
 कीधी ॥ संलेहणा-व्रत-वि० ॥

तपाचार वारभेदें ॥ छ अभ्यन्तर, छ बाहिर ।
 अणसणमूणोरिया० । अणसण कहीये
 उपवास, ते पर्वतिथि छती शक्ते कीधुं नही ।
 ऊणोदरी ते पांच सात कवल ऊणा रख्या नही ।
 द्रव्य-संचेप विगय-प्रमुख-परिमाण कीधुं नही ।
 आसनादिक काय-क्लेश न कीधी । संली-
 णता—अंगोपांग संकोच्या नहीं । नवकारसी,
 पोरसी, गंठसी, मूठसी, साड्डपोरसि, पुरिम-
 ड्ड, एकासणो, त्रेआसणो, नीवी, आंविल

प्रमुख पञ्चब्रह्माण पारवां वीसारथां, बेसतां नव-
कार भण्यो नही, ऊठतां दिवस-चरिमं न कीधुं
नीवी, आंबिल, उपवासादिक तप करी काचुं
पाणी पीधुं, वमन थयुं ॥ बाह्य-तप-व्रत-विष-
इओ ॥

अभ्यंतर तप प्रायच्छित्तं विणओ ।
गुरुकनें मन सुद्धे आलोयणा लीधीं नहीं ।
गुरु-दत्त प्रायच्छित्त तप लेखा शुद्ध पहुंचाड्युं
नहीं । देव—गुरु-संघ-साहम्मी प्रतें विनय
साचव्यो नहीं । वाचना, प्रच्छना, परावर्त्तना,
अनुप्रेक्षा, धर्मकथा लक्षण पंच विधि सिज्भाय
कीधी नहीं । धर्मध्यान शुक्लध्यान ध्यायुं नही ।
कर्मक्षय निमित्त लोगस्स दस वीसनो काउ-
स्सग्ग न कीधो ॥ अभ्यन्तर तप विषइओ ॥

वीर्याचारना तीन अतिचार ॥ अणिगू-
हियबलविरिओ, परिक्रमइ जो जहुत्तठाणोसु ॥
जुं जइ अ जहाथामं, नायव्वो वीरियायारो ॥१॥

पढवे, गुणवे, विनय, वेयावच्च, देवपूजा, सामा
यिक, दान, शील, तप, भावना प्रमुख धर्म
कृत्य तणो विषे मन, वचन, काय तणुं छतुं
वलं वीर्यं गोपव्युं । रुढां पञ्चाङ्ग खमासमण न
दीधां । वेठां पडिक्कमणुं कीधुं ॥ वीर्याचार-
व्रत-विपइओ० ॥

नाणाइ अट्टु अइ वय, सम संलेहण पण
पनर कम्मेसु । चारस तव विरिअ तिगं, चउ
वीसं सय अईयारा ॥१॥ पडिसिद्धाणं करणे ॥
जिन-प्रतिपिद्ध वावीस अभच्चय, वत्तीस अनं
तकाय, बहु-वीजभक्षण, महाआरंभ, महापरि
ग्रहादिक कीधां । नित्यकृत्य, देवपूजा, सामा
यिकादिक तथा तीर्थयात्रादिक न कीधां ।
जीवाजीवादि विचार सदहिया नहीं, आपणी
कुमति लगे उत्सूत्र—प्ररूपणा कीधी । प्राणा
तिपात १, मृपावाद २, अदत्तादान ३, मैथुन
४, परिग्रह ५, क्रोध ६, मान ७, माया ८, लोभ

६, राग १० द्वेष ११, कलह १२, अभ्याख्यान
 १३, परपरिवाद १४, पैशून्य १५, अरतिरति
 १६, मायाभ्रूषावाद १७, मिथ्यात्वशल्य १८, ए
 अढारह पापस्थानकमाँहि जे कोइ कोधो करा
 व्यो अनुमोयो एवंप्रकारे श्रावक—धर्मे श्रीस
 म्यक्त्व मूल बारह व्रत चोवीसा सो अतिचार
 माँहि जिको कोई अतिचार पक्षदिवसमाँहि
 सूक्ष्म बादर जाणतां अजाणतां हुवो होय
 ते सहू मन वचन कायाये करी मिच्छा मि
 दुक्कडं ॥

५१—कमलदल-स्तुति ।

कमल-दल-विपुल-नयना, कमल-मुखी कम
 ल-गर्भ सम गौरी । कमले स्थिता भगवती
 ददातु श्रुत-देवता सौख्यम् ॥१॥

५२—भुवनदेवता-स्तुति ।

भुवणदेवयाए करेमि काउस्सगं । अन्नत्थ० ।
 ज्ञानादिगुणयुतानां, स्वाध्यायध्यानसंयमरतानाम् ।

विदधातु भुवनदेवी, शिवं सदा सर्वसाधूनाम् ।१।

५३—क्षेत्रदेवता-स्तुति ।

खित्तदेवयाए करेमि काउस्सग्गं । अन्नत्थ ।
यस्याः क्षेत्रं समाश्रित्य, साधुभिः साध्यते क्रिया ।
सा क्षेत्रदेवता नित्यं, भूयान्नः सुखदायिनी ॥१॥

५४—पञ्चक्खाण-सूत्र ।

* नमुक्कारसहिअ-पञ्चखाण ।

(१)

उग्गए सूरे नमुक्कार-सहिअं मुट्ठि-सहिअं
पञ्चक्खाइ चउव्विहंपि आहारं—असणं, पाणं,
खाइमं, साइमं; अरणत्थणाभोगेणं सहसागारेणं
महत्तरागारेणं सव्व-समाहि-वत्तिआगारेणं;
विगईओ पञ्चक्खाइ अरणत्थणाभोगेणं सह
सागारेणं लेवालेवेणं गिहत्थसंसिट्ठेणं उक्खि-
त्त विवेगेणं पडुच्च मक्खिएणं पारिट्ठावणियागारेणं
महत्तरागारेणं; देसावगासियं भोग-परिभोगं
पञ्चक्खाइ अरणत्थणाभोगेणं सहसागारेणं

महत्तरागारेणं सव्व-समाहि-वत्तिआगारेणं
वोसिरइ ॥

(२)

उग्गए सूरे नमुक्कारसहियं पच्चक्खाइ चउ
विव्हंपि आहारं— असणं, पाणं, खाइमं, साइमं
अरणत्थणाभोगेणं सहसागारेणं वोसिरइ ॥१॥

२-पोरसी-साड्ढपोरिसी-पच्चक्खाण ।

पोरिसिं साड्ढपोरिसिं मुट्ठिसहिअं पच्च-
क्खाइ । उग्गए सूरे चउविव्हंपि आहारं—
असणं, पाणं, खाइमं, साइमं; अरणत्थणाभो
गेणं—सहसागारेणं पच्चरण-कालेणं दिसामो
हेणं साहु-वयणेणं सव्व-समाहि वत्तियागारे
णं; विगईओ पच्चक्खाइ इत्यादि ।

३ पुरिमड्ढ-अवड्ढ-पच्चक्खाण । -

सूरे उग्गए, पुरिमड्ढं अवड्ढं, मुट्ठिसहिअं
पच्चक्खाइ; चउविव्हंपि आहारं, असणं, पाणं,
खाइमं, साइमं, अरणत्थणाभोगेणं, सहसा-

गारेणं, पच्छरणकालेणं दिसा-मोहेणं साहु-
वयणेणं; महत्तरागारेणं सव्व-समाहि-वत्तिया-
गारेणं; विगईओ पच्च० ।

४— एकासण-विआसण-पच्चक्खाण ।

पोरिसिं साड्ढपोरिसिं वा पच्चक्खाइ,
उग्गए सूरे, चउव्विहंपि आहारं—असणं, पाणं,
खाइमं, साइमं; अरणत्थणाभोगेणं, सहसागारे-
णं, पच्छरणकालेणं, दिसा-मोहेणं साहु-वयणे-
णं, सव्व-समाहिवत्तियागारेणं; एकासणं विआ-
सणं वा पच्चक्खाइ, दुविहं ति विहंपि आहारं
असणं, खाइमं, साइमं, अरण० सह० सागा-
रिआगारेणं, आउंटण-पसारेणं, गुरुअव्वुट्टाणे-
णं, पारि० मह० सव्व० देसावगासिय० इत्या-
दि ॥ ४ ॥

५— एगलठाण-पच्चक्खाण ।

पोरिसिं साड्ढपोरिसिं वा पच्चक्खाइ,
उग्गए सूरे, चउव्विहंपि आहारं—असणं,

पाणं, खाइमं, साइमं अणणं सहं पच्छणणं
दिसां साहुं सव्वं एकासणं एगद्धाणं पञ्चक्खा
इ, दुविहं, तिविहं, चउव्विहंपि आहारं—असणं,
खाइमं, साइमं, अणणं सहं सागां गुरुं
पारिं महं सव्वं देसावं इत्यादि पूर्ववत् । ५ ।

६—आयंबिल-पञ्चक्खाण ।

पोरिसिं साड्ढपोरिसिं वा पञ्चक्खाइ,
उग्गए सूरे, चउव्विहंपि आहारं—असणं,
पाणं, खाइमं, साइमं, अणणत्थं सहं पच्छं
दिसां साहुं सव्वं आयंबिलं पञ्चक्खाइ,
अणणत्थं सहं लेवालेवेणं, गिहत्थ-संसिद्धेणं,
उक्खित्त-विवेगेणं, पारिट्ठां महं, सव्वं एका-
सणं पञ्चक्खाइ, तिविहंपि आहारं—असणं,
खाइमं, साइमं; अणणं सहं सागां आउंट-
णं गुरुं पारिं महं सव्वं वोसिरइ ॥ ६ ॥

७—निव्विगइय-पञ्चक्खाण ।

पोरिसं साड्ढ-पोरिसिं वा पञ्चक्खाइ,

उग्गए सूरे, चउव्विहंपि आहारं असणं, पाणं,
खाइमं, साइमं, अणत्थं सहं पच्चं, दिसां
साहुं सव्वं निव्विगइयं पच्चंखाइ, अणत्थं
सहं लेवां गिहत्थं उक्खित्तं पडुच्चं पारि-
ट्ठां महं सव्वं एकासणं पच्चंखाइ, तिविहं
पि आहारं—असणं, खाइमं, साइमं, अणत्थं
सहं सागां आउंटणं गुरुं पारिट्ठां महं
सव्वं देसाव्वं इत्यादि पूर्ववत् ॥ ७ ॥

८—चउव्विहाहार-उपवास-पच्चक्खाण ।

सूरे उग्गए, अब्भत्तट्ठं पच्चंखाइ । चउ
व्विहंपि आहारं—असणं, पाणं, खाइमं, साइ-
मं; अणत्थं सहं महं सव्वं वोसिरइ ॥८॥

९—तिविहाहार-उपवास-पच्चक्खाण ।

सूरे उग्गए, अब्भत्तट्ठं पच्चंखाइ । तिवि-
पि आहारं-असणं, खाइमं साइमं, अणत्थं
सहं पाणहार पोरिसिं, साइडपोरिसिं, पुरिम-
डट्ठं, अब्भट्ठं वा पच्चंखाइ अणत्थं र ह

पच्छरणं० दिसा० साहु० सव्व० देसावगासियं
इत्यादि पूर्ववत् ॥ ९ ॥

१०—दत्ती-पञ्चक्खाण ।

पोरिसिं, साड्ढपोरिसिं, पुरिमड्ढं, अबड्ढं
वा पञ्चक्खाइ, उग्गए सूरे, चउविहंपि आहारं—
असणं, पाणं, खाइमं साइमं, अणत्थ० सह०
पच्छ० दिसा० साहु० सव्व० एकासणं एगट्ठाणं
दत्तियं पञ्चक्खामि, तिविहं चउविहंपि आहा-
रं—असणं, पाणं, खाइमं, साइमं; अणत्थ०
सह० सागा० गुरु० मह० सव्व० विगइओ
पञ्चक्खाइ इत्यादि पूर्ववत्, देसावगासियं इ-
त्यादि पूर्ववत् ॥ १० ॥

११—दिवसचरिम-चउव्विहाहार-पञ्चक्खाण ।

दिवस-चरिमं पञ्चक्खाइ, चउव्विहंपि
आहारं—असणं, पाणं, खाइमं, साइमं, अण-
त्थणाभोगेणं, सहसागारेणं, महत्तरागारेणं,
सव्व-समाहि वत्तियागारेणं वोसिरइ ॥ ११ ॥

१२—दिवसचरिम-दुविहाहार-पच्चक्खाण ।

दिवसचरिमं पच्चक्खाइ, दुविहंपि आहारं
असणं, खाइमं; अणत्थ० सह० मह० सब्ब०
वोस्सिरइ ॥ १२ ॥

१३—पाणहार-पच्चक्खाण

पाणहार दिवसचरिमं पच्चक्खाइ, अन्न-
त्थणाभोगेणं, सहसागारेणं, महत्तरागारेणं,
सब्ब-समाहिवत्तियागारेणं वोस्सिरइ ॥ १३ ॥

१४—भवचरिम-पच्चक्खाण

भवचरिमं पच्चक्खाइ, तिविहं चउव्विहंपि
आहारं असणं, पाणं, खाइमं, साइमं, अणत्थ०
सह० मह० सब्ब० वोस्सिरइ ॥ १४ ॥

१५—देसावगासिय-पच्चक्खाण

अहंणं भंते ! तुम्हाणं समीवे देसावगा-
सियं पच्चक्खामि दव्वओ, खित्तओ, कालओ,
भावओ । दव्वओ णं देसावगासियं, खित्तओ
णं इत्थ वा अणत्थ वा, कालओ णं जाव

धारणा, भावओ णं जाव गहेणं न गहेज्जामि,
 छलेणं न छलेज्जामि, अण्णेण केणवि रोगायं-
 केण वा एस मे परिणामो न परिवडइ ताव
 अभिग्गहो, अण्णत्थणाभोगेणं, सहसागारेणं,
 महत्तरागारेणं, सब्ब-संमाहि-वत्तियागारेणं वो-
 सिरइ ॥ १५ ॥

५५—पञ्चवखाण-आगार-संख्या ।

दो चव नमुक्कारे, आगारा छच्च हुंति
 पोरिसिए । सत्तेव य पुरिमड्ढे, एगासणयम्मि
 अट्ठेव ॥ १ ॥ सत्तेगट्ठाणस्स उ, अट्ठेव य
 अंबिलम्मि आगारा । पंचेव अब्भत्तट्ठे छप्पाणे
 चरिम चत्तारि ॥ २ ॥ पंच चउरो अभिग्गहे,
 निव्वीए, अट्ठनव य आगारा । अप्पाव-
 रणे पंचउ, हवंति सेसेसु चत्तारि ॥ ३ ॥



अथ सप्त स्मरणानि

५६—अजित-शान्ति-स्तवन ।

अजिञ्चं जिञ्च-सव्व-भयं,संतिं च पसंत-
 सव्व-गय-पावं । जयगुरु संति-गुण-करे, दो
 वि जिणवरे पणिवयामि ॥ १ ॥ (गाहा)
 ववगय-मंगुल- भावे, ते हं विउल तव-निम्मल-
 सहावे । निरुवम-मह-प्पभावे, थोसामि सुदिट्ट-
 सव्वभावे ॥ २ ॥ (गाहा) सव्व-दुक्ख-प्पसंती-
 णं, सव्व-पाव-प्पसंतिणं । सया अजिञ्च-संतीणं,
 नमो अजिञ्च- संतिणं ॥ ३ ॥ (सिलोगो)
 अजिञ्च-जिण ! सुह-पवत्तणं, तव पुरिसुत्तम !
 नाम-कित्तणं । तह य धिइ-मइ-प्पवत्तणं, तव
 य जिणुत्तम ! संति ! कित्तणं ॥४॥ (मागहिञ्चा)
 किरिया-विहि-संचिञ्च-कम्म-किलेस-विमुक्ख-
 थरं, अजिञ्चं निचिञ्चं च गुणेहिं महा-मुणि-

सिद्धि-गयं । अजिअस्स य संति-महा
मुणिणो वि अ संतिकरं. सययं मम निव्वुड्-
कारणयं च नमंसणयं ॥ ५ ॥ (आलिंगणयं)
पुरिसा जइ दुक्ख-वारणं, जइ य विमग्गह
सुक्ख-कारणं । अजिअं संतिं च भावओ,
अभयकरे सरणं पवज्जहा ॥ ६ ॥ (मागहिआ)
अरइ-रइ-तिमिर-विरहिअमुवरय-जर-सरणं, सुर-
असुर-गरुल-भुयग-वइ-पयय-पणिवइयं । अजि-
अमहमवि अ सुनेय-नय-निउणमभयकरं,
सरणमुवसरिअ भुवि-दिविज-महिअं सययमु-
वणमे ॥ ७ ॥ [संगययं] तं च जिणुत्तम-
मुत्तम-नित्तम-सत्तधरं, अज्जव-महव-खंति-
विमुत्ति-समाहि-निहिं । संतिकरं पणमामि
दमुत्तम-तित्थयरं, संति-मुणी मम संति-समाहि-
वरं दिसउ ॥ ८ ॥ [सोवाणयं] सावत्थि पुव्व-
पत्थिवं च वर-हत्थि-मत्थय-पसप्य-वित्थिन्न-
संथियं, थिर-सरिच्छ-वच्छं मयगल-लीलाय-

(भुञ्जगपरिरंगिञ्चं) ॥ सोम-गुणोहिं पावइ न तं नव-सरय-ससो, तेञ्ज-गुणोहिं पावइ न तं नव-सरय-रवी । रूव-गुणोहिं पावइ न तं ति-अस-गण-वई, सार-गुणोहिं पावइ न तं धरणि-धर-वई ॥ १७ ॥ (खिज्जिञ्चं) ॥ तित्थ-वर-पवत्तयं तम-रय-रहिञ्चं, धीर-जण-थुञ्चिञ्चं च्चुञ्चकलि-कलुसं । सति-सुह-प्पवत्तयं ति-गरण-पयओ, संतिमहं महामुणिं सरणमुवणामे ॥ १८ ॥ (ललिञ्चं) ॥ विणओणय-सिरि-रइञ्चंजलि-रिसि-गण-संथुञ्चं थिमिञ्चं, विबुहाहिव-धणवइ-नरवइ-थुञ्च-महिञ्चिञ्चं बहुसो । अइरु-ग्गय-सरय-दिवायर-समहिञ्च-सप्पभं तवसा, गयणं-गण-विअरण-समुइय-चारण वंदिञ्चं सिरसा ॥ १९ ॥ (किसलयमाला) ॥ असुर-गरुल-परिवन्दिञ्चं, किन्नरोरग-णमंसिञ्चं । देव-कोडि-सय-संथुञ्चं, समण-संघ-परिवन्दिञ्चं ॥ २० ॥ (सुमुहं) ॥ अभयं अणहं, अरयं अरुयं ।

अजिञ्चं अजिञ्चं, पयञ्चो पणामे ॥ २१ ॥
 (विञ्जुविलसिञ्चं) ॥ आगया वर-विमाण-दि-
 व्व-कणग-रह-तुरय-पहकर-सएहिं हुलिञ्चं ।
 ससंभमोअरण-खुभिञ्च लुलिय-चल-कुण्डलं-
 गय-तिरीड-सोहन्त-मउलि-माला ॥२२॥ (वेढ-
 ओ) ॥ जं सुर-संधा सासुर-संधा वेर-विउत्ता
 भत्ति-सुजुत्ता, आयर-भूसिञ्च-संभम-पिंडिञ्च-
 सुट्ठु-सुविम्हिय-सव्व-बलोघा । उत्तम-कंचण-
 रयण-परुविञ्च-भासुर-भूसण-भासुरिञ्चंगा, गाय-
 समोणय-भत्ति-वसागय-पंजलि-पेसिञ्च-सीस-
 पणामा ॥२३॥ (रयणमाला) ॥ वंदिऊण थो-
 ऊण तो जिणं, तिगुणामेव. य पुणो पयाहिणं ।
 पणमिऊण य जिणं सुरासुरा, पमुइया स-भ-
 वणाइं तो गया ॥ २४ ॥ (खित्तयं) ॥ तं म-
 हामुणि-महंपि पंजली, राग-दोष-भय-मोह-व-
 ङ्जिञ्चं । देव-दाणव-नरिंद-वंदिञ्चं, संति-मु-
 त्तम-महातवं नमे ॥ २५ ॥ (खित्तयं) ॥ अंब-

रंतर-वियारणिआहिं, ललिअ-हंस-वहू-गामि-
 णिआहिं । पीण-सोणि-थण-सालिणिआहिं,
 सकल-कमल-दल-लोअणिआहिं ॥ २६ ॥ (दी-
 वयं) ॥ पीण-निरंतर-थण-भर-विणमिअ-गाय-
 लयाहिं, मणि-कञ्चण-पसि-ढिल-मेहल-सोहिअ-
 सोणि-तडाहिं । वर-खिंखिणि-नेउर-सतिलय-
 वलय-विभूसणियाहिं, रड्कर-चउर-मणोहर-
 सुन्दर-दंसणियाहिं ॥ २७ ॥ ॥ [चित्तखरा]
 देव-सुन्दरीहिं पाय-वन्दिआहिं, वन्दिआ य
 जस्स ते सुविक्रमा कमा, अप्पणो निडालएहिं
 मंडणोडुण-पगारएहिं केहिं केहि वि अवंग-
 तिलय-पत्त-लेह-नामएहिं चिल्लएहिं संगयं-
 गयाहिं, भत्ति-सन्निविट्टु-वंदणागयाहिं हुन्ति
 ते वंदिआ पुणो पुणो ॥ २८ ॥ (नारायओ)
 ॥ तमहं जिणचंदं, अजिअं जिअ-मोहं ।
 धुअ-सठव-किलेसं, पयओ पणमामि ॥ २९ ॥
 (नंदिअयं) ॥ थुअ-वंदिअस्सा रिसि-गण-देव-

गणोहिं, तो देव-वहूहिं पयओ पणमिअस्सा ।
जस्स जगुत्तम-सासणअस्सा, भत्ति-वसागय-
पिंडिअआहिं । देव-वरच्छरसा-बहुआहिं, सुर-
वर-रइ-गुण-पंडिअआहिं ॥ ३० ॥ (भासुरयं)
वंस-सद्द-तंति-ताल-मेलिए, तिउक्खराभिराम-
सद्द-मीसए कए अ, सुइ-समाणणे अ सुद्ध-
सज्ज-गोअ-पाय-जाल-घंटिआहिं, वलय-मेहला-
कलाव-नेउराभिराम-सद्द-मीसए कए अ देव-
नट्टिआहिं, हाव-भाव-विब्भम-प्पगारएहिं, न-
च्चिउण अंग-हारएहिं वन्दिआ य जस्स ते
सुविक्रमां कमा, तयं तिलोय-सव्व-सत्त-सन्ति-
कारयं, पसंत-सव्व-पाव-दोसमेस हं नमामि
संतिमुत्तमं जिणं ॥ ३१ ॥ (नारायओ) ॥
छत्त-चामर-पडाग-जूअ-जव-मंडिआ, भय-वर-
मगर-तुरग-सिरिचच्छ-सुलंछणा । दीवसमुद्द
मंदर-दिसागय-सोहिआ, सत्थिय-वसह-सीह-
रह-चक्र-वरंकिया ॥३२॥ (ललिअयं) सहाव-

लट्टा सम-प्पड्डा, अदोस-दुट्टागुणेहिं जिट्टा ।
पसाय-सिट्टा तवेण पुट्टा, सिरीहिं इट्टा रिसीहिं-
जुट्टा ॥३३॥ (वाणवासिआ) ॥ ते तवेण धुअ-
सव्व-पावया, सव्व-लोअ-हिअ-मूल-पावया ।
संथुआ अजिय-सन्ति-पायया, हुंतु मे सिव-
सुहाण दायया ॥ ३४ ॥ (अपरान्तिका) ॥
एवं-तव-वल-विउलं, थुअं मए अजिअ-संति-
जिण-जुअलं । ववगय-कम्म-रय-मलं, गइं
गयं सासयं विउलं ॥ ३५ ॥ (गाहा) ॥ तं
वहु-गुण-प्पसायं, मुअव-सुहेण परमेण अविसायं ।
नासेउ मे विसायं, कुणउ अ परिसावि अ
पसायं ॥३६॥ (गाहा) ॥ तं मोएउ अ नंदिं,
पावेउ अ नंदिसेणमभिनंदिं । परिसाविअ सुह-
नंदिं, मम य दिसउ संजमे नंदिं ॥ ३७ ॥
(गाहा) ॥ पव्विअ चाउम्मासे, संवच्छरिए
अ अवस्स-भणिअव्वो । सोअव्वो सव्वेहिं
उवसग्ग-निवारणो एसो ॥ ३८ ॥ जो पढइ जो

अ निसुणइ, उभओ-कालंपि अजिय-सन्ति-
थयं । न हु हुन्ति तस्स रोगा, पुव्वुप्पन्ना
विनासन्ति ॥ ३६ ॥ जइ इच्छह परम-पयं,
अहवा कित्तिं सुवित्थडं भुवणे । ता तेलुकुद्ध-
रणे, जिण-वयणे आयरं कुणह ॥ ४० ॥

इति श्रीबृहदजितशान्तिस्तवनं प्रथमं स्मरणम् । १ ।

॥ अथ द्वितीयं लघु-अजितशान्तिस्मरणम् ॥

उल्लासि-क्कम-नक्ख-निग्गय-पहा-दण्ड-च्छ-
त्तेणंगिणं, वंदारुण दिसंतइव्व पयडं निव्वाण-
मग्गावलिं । कुन्दिन्दुज्जल-दन्त-कन्ति-मिसओ
नी हन्त-नाणंकुरु क्करे दावि दुइज्जसोलस-जिणे
थोसामि खेमङ्करे ॥१॥ चरम-जलहि-नीरं जो
मि णिज्जअलीहिं, खय-समय-समीरं जो जि-
णिज्जा गईए । सयल-नहयलं वा लंङ्गए जो
पएहिं, अजियमहव सन्तिं सो समत्थो थुणेउं
॥२॥ तहवि हु बहु-माणूल्लास-भत्ति-ब्भरेण,
गुण-कणमिव कित्तेहामि चिन्तामणि व्व ।

अलमहव अचिन्ताणन्त-सामत्थओ सिं फलि-
 हइ लहु सव्वं वंछिअं णिच्छिअं मे ॥३॥ सयल-
 जय-हिआणं नाम-मित्तेण जाणं, विहडइ लहु
 दुट्ठानिदु-दोघट्ट-थट्टं । नमिर-सुर-किरीडुग्घि-
 ट्ट-पायारविन्दे, सययमजिअ-सन्ती ते जिणन्दे-
 भिवन्दे ॥४॥ पसरइ वर-कित्ती वड्ढए देह-
 दित्ती, विलसइ भुवि मित्ती जायए सुप्पवित्ती ।
 फुरइ परम-तित्ती होइ संसार-छित्ती, जिण-
 जुअ-पय-भत्ती हीअ-चिंतोरु-सत्ती ॥५॥ ललि-
 अ-पय-पायारं भूरि-दिव्वंग-हारं, फुड-घण-रस-
 भावोदार-सिंगार-सारं । अणिमिस-रमणिज्जं
 डंसण-च्छेअ-भीया, इव पुण मणिवंधाकास-
 नट्टोवयारं ॥६॥ थुणह अजिअ-सन्ती ते कया-
 सेस-सन्ती, कणय-रय-पसंगा छज्जए जाणि
 मुत्ती । सरभस-परिरंभारंभि-निव्वाण-लच्छी,
 घण-धण-घुसिणिवकुप्पंक-पिंगोकयव्व ॥७॥
 बहुविह-नय-भंगं वत्थु णिच्चं अणिच्चं, सदस-

दणभिलप्पालप्पमेगं अणोगं । इय कुनय-विरुद्धं
सुप्पसिद्धं च जेसिं, वयणमवयणिज्जं ते जिणो
संभरामि ॥८॥ पसरइ तिय-लोए ताव मोहंध-
यारं, भमइ जयमसणं ताव मिच्छत्त-छरणं ।
फुरइ फुड फलंताणंत-णाणंसु-पूरो, पयडमजिअ-
संति-ज्झाण-सूरो न जाव ॥९॥ अरि-करि-हरि-
तिणहुणहंबु-चोराहि-वाहो, समर-डमर-मारी
रुद्ध-खुहोवसग्गा । पलयमजिअ-संतो-कित्तणे
भक्ति जंती, निविडतर-तमोहा भक्खरालुंखि
अव्व ॥१०॥ निचिअ दुरिअ दारु दित्त भाणग्गि-
जाला-परिगयमिव गोरं, चिंतिअं जाण रूवं ।
कणय-निहस रेहा-कंति-चोरं करिज्जा, चिर-
थिरमिहलच्छिं गाढ-संथंभि-अव्व ॥११॥ अ-
डवि-निवडियाणं पत्थिवुत्तासिआणं, जलहि-
लहरि-हीरंताण गुत्ति-ट्टियाणं । जलिअ-जलण
जाला-लिंगिआणं च भाणं, जणयइ लहु संतिं
संतिनाहाजिआण ॥ १२ ॥ हरि-करि-परिकिणं

पक्क-पाइक-पुन्नं, सयल-पुहवि-रज्जं छड्डिअं आण-
 सज्जं । तणमिव पडिलगं जे जिणा मुत्तिमगं,
 चरणमणुपवन्ना हुंतु ते मे पसन्ना ॥ १३ ॥
 छण-ससि-त्रयणाहिं फुल्ल-नित्तुप्पलाहि, थण-भर-
 नमिरीहिं मुट्ठि-गिज्झोदरीहिं । ललिअ-भुअ-
 लयाहिं पीण-सोणि-त्थणाहिं, सम-सुर-रमणीहिं
 वंदिआ जेसि पाया ॥ १४ ॥ अरिसकिडिभ-
 कुट्ट-गंठि-कासाइसारा, खय-जर-वण-लूआ-
 सास-सोसोदराणि । नह-मुह-दसणच्छी-कुच्छि-
 कन्नाइ-रोगे, मह-जिण-जुअ-पाया सुप्पसाया
 हरंतु ॥ १५ ॥ इअ गुरु-दुह-तासे पक्खिए
 चाउमासे, जिणवर-दुग-थुत्तं वच्छरे वा पवित्तं ।
 पढह सुणह सिज्झाएह भाएह चित्ते, कुणह
 मुणह विग्घं जेण घाएह सिग्घं ॥ १६ ॥ इय
 विजयाऽजिअसत्तु पुत्त ! सिरि-अजिअ-जिणे-
 सर !, तह अइरा-विस-सेण-तणय ! पंचम-
 चक्रीसर ! । तित्थंकर ! सोलसम ! संति !

जिण-वल्लह संथुअ ।, कुरु मंगलमवहरसु दुरि-
यम-खिलंपि थुणंतह ॥ १७ ॥

इति श्रीलघु-अजितशान्तिस्तवनं द्वितीयं
स्मरणम् ॥ २ ॥

॥ अथ नमिऊणनामकं तृतीयं स्मरणम् ॥

नमिऊण पणय-सुर-गण, -चूडामणि-किरण-
रजिअं मुणियो । चलण-जुअलं महाभय,-
पणासणं संथवं वुच्छं ॥ १ ॥ सडिय-कर-चरण
नह-मुह, -निबुडु-नासा विवन्नलायणणा । कुट्टु-
महा-रोगानल, -फुलिंग-निइडुड-सवंगा ॥ २ ॥
ते लुह चलणा-राहण, -सलिलंजलि-सेअ-
वुडुडिअ-च्छाया । वण-दव-दडुडा गिरि-पाय-
यव्वपत्ता पुणो लच्छिं ॥ ३ ॥ दुव्वाय-खुभिय-
जलनिहि, -उव्वभड-कल्लोल-भीसणारावे । संभंत-
भय-विसंठुल, -निज्जामय-मुक्क-वावारे ॥४॥ अवि-
दलियजाणवत्ता, खणेण पावंति इच्छिअं

कूलं । पास-जिण-चलणजुअलं, निच्चं चिअ
 जे नमंति नरा ॥ ५ ॥ खर-पत्रणुद्धुय-त्रणदव,
 जालावलि-मिलिय-सयल-दुम-गहणे । डब्भंत-
 मुद्धमिय-वट्टु,-भीसण-रव-भीसणम्मि वणे ॥ ६ ॥
 जग-गुरुणो कम-जुअलं, निव्वाविय-सयल-तिट्टु-
 अणाभोअं । जे संभरंति मणुआ, न कुणइ
 जलणो भयं तेसिं ॥ ७ ॥ विलसंत-भोग-भीस-
 ण,—फुरिआरुण-नयण-तरल-जीहालं । उग-
 भुअंगं नव-जलय,-सच्छहं भीसणायारं ॥ ८ ॥
 मन्नंति कीडसरिसं, दूर-परिच्छूड-विसम-विस-
 वेगा । तुह नामखर-फुड-सिद्ध,-मंत गुरुआ
 नरा लोए ॥ ९ ॥ अडवीसु भिल्ल-तकर,-पुलिंद-
 सद्धूल-सद भीमासु । भय-विट्टुर-दुन्न-कायर,-
 उल्लरिअ-पहिअ-सत्थासु ॥ १० ॥ अत्रिलुत्तविहव-
 तारा, तुइ नाह ! पणाम-मत्त-वावारा । ववगय-
 विग्धा सिग्घं, पत्ता हिय-इच्छियं टाणं ॥ ११ ॥
 पज्जलिआनल-नयणं, दूर विआरिय-मुहं महा-

कायं । नह-कुलिस-घायत्रिअलिअ, -गइंद-
 कुंभ-त्थलाभोअं ॥ १२ ॥ पणय-सरुंभमपत्थिव;-
 नह-मणि-माणिक-वडिमस्स । तुह-वयणपहर-
 णधरा, सोहं कुद्धं पि न गणंति ॥ १३ ॥ ससि
 धवलदंत-मुसलं, दीह-करुल्लाज-वडिडउच्छाहं ।
 महु-पिंगनयण-जुअलं, ससेलिल-नव-जलहरा-
 रावं ॥ १४ ॥ भीमं महा-गइंदं, अच्चासन्नंपि
 ते नवि गणंति । जे तुम्ह चरणजुअलं मुणि-
 वइ ! तुंगं समल्लोणा ॥ १५ ॥ समरम्मि
 तिअखखगा, -भिग्घाय-पविद्ध-उद्धुय-कबंधे ।
 कुंत-विणिभिन्न करि-कलह मुक्क सिक्कार-
 पउरम्मि ॥ १६ ॥ निज्जिय-दप्पुद्धररिउ,—
 नरिंद-निवहा भडा जसं धवलं । पावंति पाव-
 पसमिण ! पास-जिण ! तुह षभावेण ॥ १७ ॥
 रोग-जलजलण-विसहर-चोरारि-मइंद-गय-रण-
 भयाइं । पास-जिणनाम-संकित्तणेण पसमंति
 सब्वाइं ॥ १८ ॥ एवं महाभयहरं, पास-जिणि-

दस्स संथवमुआरं । भत्रिय-जणाणंदयरं,
 कल्लाण-परंपर-निहाणं ॥१६॥ राय-भय-जक्ख-
 रक्खस,—कुसुमिण-दुस्सउण-खिख-पीडासु ।
 संभासु दोसु पंथे, उवसग्गे तह ये रयणीसु
 ॥ २० ॥ जो पढइ जो अ निसुणइ, ताणं कइ-
 णो य माणतुंगस्स । पासो पवां पसमेउ,
 सयल-भुवणच्चिअ-चलणो ॥ २१ ॥

इति श्रीपार्श्वजिनस्तवनं तृतीयं स्मरणम् ॥

अथ गणधरदेव-स्तुतिरूपं चतुर्थं स्मरणम् ॥

तं जयउ जए तित्थं, जमित्थ तित्थाहिवेण
 वीरेण । सम्मं पवत्तियं भव्व-सत्त-संताण-
 सुह-जणयं ॥१॥ नासियसयल-किलेत्ता, निहय-
 कुलेसा पसत्थ-सुह-लेसा । सिरिवद्धमाण-
 तित्थस्स मङ्गलं दिन्तु ते अरिहा ॥२॥ निदड्ढ-
 कम्म-वीआ, वीआ परमेट्ठिणा गुण-समिद्धा ।
 सिद्धा ति -जयपसिद्धा, हणन्तु दुत्थाणि तित्थ-

स्स ॥ ३ ॥ आयारमायरंता पंच-पयारं सया
पयासन्ता । आयरिआ तह तित्थं. निहयकुतित्थं
पयासन्तु ॥ ४ ॥ सम्म-सुअ-वायगा वायगा य
सिअवाय-वायगा वाए । पवयण-पडणीय-कए
वणिंतु सव्वस्स सङ्खस्स ॥ ५ ॥ निव्वाण-
साहणुज्जुय-साहूणं जणिय-सव्वसाहज्जा । तित्थ-
प्पभावगा ते हवंतु परमेट्ठिणो जइणो ॥ ६ ॥
जेणाणुगयं णाणं निव्वाण-फलं च चरणमवि
हवइ । तित्थस्स दंसणं तं मंगुलमवणेउ सि-
द्धियरं ॥ ७ ॥ निच्छउमो सुअधम्मो, समग्ग-
भवंगि-वग्ग-कय-सम्मो । गुण-सुट्ठिअस्स सं-
घस्स मंगलं सम्ममिह दिसउ ॥ ८ ॥ रम्मो
चरित्तधम्मो, संपाविअ-भव-सत्त-सिव-सम्मो ।
नीसेस-किलेसहरो, हवउ सया सयल-संघस्स
॥ ९ ॥ गुण-गण-गुरुणो गुरुणो, सिव-सुह-मइणो
कुणंतु तित्थस्स । सिरि-वद्धमाण-पट्टुपयडि-
अस्स कुसलं समग्गस्स ॥ १० ॥ जिय-पडिववखा

जक्रवा, गामुह-मायङ्ग-गयमुह-पमुक्रवा । सिरि-
 वम्भसन्तिसहिआ, कय-नय-रक्खा सिवं दिंतु
 ॥ ११ ॥ अंवा पडिहयडिम्वा; सिद्धा सिद्धाइया
 पवयणस्स । चक्रकेसरि-वइरुटा, सन्ति-सुरा
 दिसउ सुक्रवाणि ॥१२॥ सोलस विज्जा-देवीउ,
 दिन्तु सद्धस्स मद्दलं विउलं । अच्चुत्ता-सहि-
 आओ, विस्मुअ-सुयदेवयाइ समं ॥१३॥ जिण-
 सासण-कय-रक्खा जक्रवा चउवीस-सासण-
 सुरावि । सुहभावा संतावं, तित्थस्स सया पणा-
 सन्तु ॥ १४ ॥ जिण-पवयणम्मि निरया, विरया
 कुपहाउ सब्बहा सब्बे । वेयावच्चकरावि अ तित्थ-
 स्स हवन्तु सन्तिकरा ॥१५॥ जिण-समय-सिद्ध-
 सुमग्ग-वहिय-भव्वाण जणिय-साहज्जो । गीय-
 रई गीअजसो, सपरिवारो सिवं दिसउ ॥१६॥
 गिह-गुत्त-खित्त-जल-थल-वण-पव्वपवासी देव-
 देवीओ । जिण-सासण-ट्ठिआणं, दुहाणि
 सब्बाणि निहरंतु ॥१७॥ दस-दिसिपाला स-

क्लित्तपालया नव ग्गहा स-नखत्ता । जोइणि-
 राहु-ग्गह-काल-पासकुलिअद्ध-पहरेहिं ॥ १८ ॥
 सहकाल-कंटएहिं सविद्धि-वच्छेहिं काजवेलाहिं ।
 सव्वे सव्वत्थ सुहं, दिसन्तु, सव्वस्स सइस्स
 ॥ १९ ॥ भवणवई वाणमन्तर, - जोइस-वेमा-णिआ
 य जे देवा । धरणिन्द-सक्क-सहिआ, दलन्तु
 दुरियाइं तित्थस्स ॥ २० ॥ चक्रं जस्स जलंतं,
 गच्छइ पुरओ पणा-सिय-तमोहं । तंतित्थस्स
 भगवओ, नमो नमो वद्धमाणस्स ॥ २१ ॥ सो
 जयउ जिणो वीरो, जस्सज्ज वि सासणं जए
 जयइ । सिद्धि-पह-सासणं कुपह-नासणं सव्व-
 भय-महणं ॥ २२ ॥ सिरि-उसभसेण-पमुहा,
 हय-भय-निवहा दिसन्तु तित्थस्स । सव्व-जि-
 णाण गणहारिणोऽणहं वञ्छियं सव्वं ॥ २३ ॥
 सिरि-वद्धमाण-तित्थाहिवेण तित्थं समप्पियं
 जस्स । सम्मं सुहम्म-सामी, दिसउ सुहंस यल-
 संघस्स ॥ २४ ॥ पयईए भदिया जे, भदाणि

दिसन्तुसयल-संघस्स । इयर-सुरा वि हु सम्मं
जिण-गणहर-कहिय-कारिस्स ॥ २५ ॥ इय जो
पढइ तिसंभं, दुस्सज्भं तस्स नत्थि किंपि
जए । जिणदत्ताणाए ठिओ, सनिट्ठिअट्ठो सुही
होई ॥ २६ ॥

इति श्रीगणधरदेवस्तुतिनामकं चतुर्थं स्मरणम् ।

॥ अथ गुरुपारतन्त्र्यनामकं पञ्चमं स्मरणम् ॥

मय-रहियं गुण-गण-रयण, सायरं सायरं
पणमिऊण । सुगुरु-जण-पारतंतं, उवहिंव थु-
णामि तं चव ॥ १ ॥ निम्महिय-मोह-जोहा,
निहय-विरोहा पणट्ठु-संदेहा । पणयंगि-वग्ग-
दाविअ-सुह-संदोहा सगुण-गेहा ॥ २ ॥ पत्त-
सुजइत्त-सोहा, समत्त-पर-त्तित्थ जणिय-संखोहा ।
पडिभग्ग-मोह-जोहा, दंसिय-सुमहत्थ-सत्थोहा
॥ ३ ॥ परिहरिअ-सत्थ-वाहा, हय-दुह-दाहा
सिवं-तरु-साहा । संपाविअ-सुह-लाहा, खोरो-

दहिणुव्व अग्गाहा ॥ ४ ॥ सुगुण-जण-जणिय-
 चुज्जा सज्जो निरवज्ज-गहिय-पवज्जा । सिव-
 सुह-साहण-सज्जा, भव-गिरि-गुरु चूरणे वज्जा
 ॥ ५ ॥ अज्ज-सुहम्म-पमुहा, गुण-गण-निवहा
 सुरिंद-विहिअ-महा । ताण तिसंभं नामं, नामं
 न पणासइ जियाणं ॥ ६ ॥ पडिवज्जिअ-जिण-
 देवो, देवायरिओ दुरंत-भवहारी । सिरिनेमि-
 चन्द-सूरी उज्जोअण-सूरिणो सुगुरु ॥ ७ ॥
 सिरि-वद्धमाण-सूरी, पयडोकय-सूरि-मंत-माह-
 प्पो । पडिहय-कसाय-पसरो, सरय-ससंकुव्व
 सुह-जणओ ॥ ८ ॥ सुह-सील-चोर-चप्परण-
 पच्चलो निच्चलो जिण-मयम्मि । जुगपवर-सुद्ध-
 सिद्धन्त-जाण-ओ पणय- सुगुणजणो ॥ ९ ॥
 पुरओ दुल्लह-महिव,—ल्लहस्स अणहिल्लवाडए
 पयडं । मुक्कावि आ रिऊणं, सीहेणव दव्वलिंगि
 गया ॥ १० ॥ दसमच्छेरय-निसि-विप्फुरन्त-
 सच्छेन्द-सूरि-मय-तिमिरं । सूरेणव सूरि-

जिणो,-सरेण हय-महिअ-दोसेणं ॥ ११ ॥ सुक-
 इत्त-पत्त-कित्ती, पयडिअ-गुत्ती पसन्त-सुह-मुत्ती
 पहय-परवाइ-दित्ती, जिणचंद-जईत्तरो मंती
 ॥ १२ ॥ पयडिअ-नवंग-सुत्तत्थ,—रयणुक्कोसो
 पणासिअ-पओसो । भव-भीय-भविअ जण-
 मण,-कय-संतोपो विगय-दोसो ॥ १३ ॥ जुग-
 पवरागम-सार,—प्परुवणा-करण-वन्धुरो धणि-
 अं । सिरि-अभयदेव-सूरी, मुणि-पवरो परम-
 पसम-धरो ॥ १४ ॥ कय-सावय-संतोसो, हरिव्वं
 सारंग-भग्ग-संदेहो । गय-समय-दप्प-दलणो,
 आसाइअ-पवर-कव्व-रसो ॥ १५ ॥ भीम-भव-
 काणणम्मि अ, दंसिअ गुरु वयण-रयण-संदो-
 हो । नीसेस-सत्त-गुरुओ, सूरी जिणवल्लहो
 जयइ ॥ १६ ॥ उवरिट्ठिअ-सच्चरणो, चउरणु-
 ओग-प्पहाण-सच्चरणो । असम-मयराय महणो,
 उड्ड-मुहो सहइ जस्स करो ॥ १७ ॥ दंसिअ-
 निम्मल-निच्चल,-दन्त-गणोगणिअ-सावओत्थ-

भञ्जो । गुरु-गिरि-गरुञ्जो सरहुव्व, सूरी जिण-
वल्लहो होत्था ॥ १८ ॥ जुग-पवरागम-पीउस-
पाण पीणिय-मणा कया भव्वा । जेण जिणव-
ल्लहेणं, गुरुणा तं सब्वा वंदे ॥ १९ ॥ विष्फु-
रिय-पवर-पवयण, -सिरोमणी वूढ-दुव्वह-खमो
य । जो सेसाणं सेसुव्व, सहइ सत्ताण ताण-
करो ॥ २० ॥ सच्चरिआण-महीणं, सुगुरुणं
पारतन्तमुव्वहइ । जयइ जिणदत्त-सूरी, सिरि-
निलञ्जो पणय-मुणि-तिलञ्जो ॥ २१ ॥

इति श्रीगुरुपारतन्त्र्यनामकं पञ्चमं स्मरणम् ।

॥ अथ षष्ठं स्मरणम् ॥

सिग्धमवहरउ विग्धं, जिण-वीराणाणुगामि-
संघस्स । सिरि-पास-जिणो थंभण-पुर-ट्टिञ्जो
निट्टिआनिट्टो ॥ १ ॥ गोयम-सुहम्म-पमुहा,
गणवइणो विहिअ-भव्व-सत्त-सुहा । सिरि-वद्ध-
माण-जिण-तित्थ-सुत्थयं ते कुणन्तु सया ॥२॥

सक्राङ्गो सुरा जे, जिण-वेयावच्च-कारिणो
 संति । अवह-रिय-विग्घ-संधा, हवन्तु ते संघ-
 सन्तिकरा ॥ ३ ॥ सिरि-थंभणय-द्विय-पास-
 सामि-पय-पउम-पणय-पाणीण । निदलिय-दु-
 रिय-विंदो, धरणिदो हरउ दुरियाइं ॥ ४ ॥
 गोमुह-पमुक्ख जक्खा, पडिहय-पडिवक्ख-पक्ख-
 लक्खा ते । कय-सगुण-संघरक्खा, हवन्तु सं-
 पत्त-सिव-सुक्खा ॥ ५ ॥ अप्पडिचक्का-पमुहा,
 जिण-सासण-देवया वि जिण पणया । सिद्धा-
 इया-समेया, हवन्तु संघस्स विग्घहरा ॥ ६ ॥
 सक्राप्सा सच्चउर-पुरट्ठिओ वद्धमाण-जिण-
 भत्तो । सिरि-वम्भ-सन्ति-जक्खो, रक्खउ संघं
 पयत्तेण ॥ ७ ॥ खित्त-गिह-गुत्त-सन्ताण-देस-देवा-
 हिदेवया ताओ । निव्वुइ-पुर-पहिआणं, भव्वाण
 कुणंतु सुक्खाणि ॥ ८ ॥ चक्केसरि-चक्रधरा, वि-
 हिपहरिउच्छिणण-कन्धरा धणियं । सिव-सरण-
 लग्ग-संघस्स, सव्वहा हरउ विग्घाणि ॥ ९ ॥

तित्थवइ-वद्धमाणो, जिणोसरो सङ्गओ सुसंघेण ।
जिणचन्दोऽभयदेवो, रक्खउ जिणवल्लहपहू
मं ॥ १० ॥ सो जयउ वद्धमाणो, जिणोसरो
दिणोसरो व्व हय-तिमिरो । जिणचंदा-ऽभयदेवा,
पहुणो-जिणवल्लहा जे अ ॥ ११ ॥ गुरु-जिण-
वल्लह-पाए, -ऽभयदेव-पहुत्त-दायगे वंदे । जिण-
चन्द-जिणोसर-वद्धमाण-तित्थस्स बुडिढ-कए
॥ १२ ॥ जिणदत्ताणं सम्मं, मन्नन्ति कुणन्ति
जे य कारंति । मणसा वयसा वउसा, जयंतु
साहम्मिआ ते वि ॥ १३ ॥ जिणदत्तगुणे नाणा-
इणो सया जे धरन्ति धारन्ति । दंसिअ-सिअ-
वाय-पए, नमामि साहम्मिआ ते वि ॥ १४ ॥

इति षष्ठं स्मरणम् ॥६॥

॥ अथ उवसग्गहरनामकं सत्तमं स्मरणम् ॥

उवसग्गहरं पासं, पासं वंदामि कम्म-घणा-
मुक्कं । विसहर विस-निन्नासं, मंगल-कल्लाण-
आवासं ॥१॥ विसहर-फुलिंग-मंतं, कंठे धारेइ

जो सया मणुओ । तस्त गह-रोग-मारी, दुष्ट
 जरा जंति उवसामं ॥२॥ चिट्टुड दूरे मंतो, तुज्झ
 पणामो वि बहु-फलो होइ । नर-तिरिएसु वि
 जीवा, पावंति न दुक्ख-दोगच्चं ॥ ३ ॥ तुह
 सम्मत्ते लद्धे, चिन्तामणि-कप्प-पायवञ्चहिए ।
 पावंति अविग्घेणं, जीवा अयरामरं ठाणं ॥४॥
 इअ संथुओ महायस !, भत्ति-व्वभर-निव्वभरेण
 हिअएण । ता देव ! दिज्ज वोहिं, भवे, भवे
 पास ! जिण-चंद ! ॥ ५ ॥

इति श्रीपार्श्वजिनस्तवनं सप्तमं स्मरणम् ॥७॥

समाप्तानि सप्त स्मरणानि ।

अथ श्रीभक्तामर-स्तोत्रम् ।

भक्तामर-प्रणत-मौलि-मणि-प्रभाणा, -मुदयो-
 तकं दलित-पाप-तमो-वितानम् । सम्यक् प्रण-
 स्य जिन ! पाद-युगं युगादा, —वालम्बनं भव-
 जले पततां जनानाम् ॥ १ ॥ यः संस्तुतः सकल

वाङ्मय-तरव-बोधा, -दुद्भूत-बुद्धि-पटुभिः सुर-
लोक-नाथैः । स्तोत्रैर्जगत्त्रितय-चित्तहरैरुदारैः,
स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम् ॥२॥
युग्मम् ॥ बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित-पादपीठ !
स्तोतुं समुद्यत-मतिर्विगत-त्रपोऽहम् । बालं
विहाय जल-संस्थितमिन्दु-बिम्ब,—मन्यः क
इच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम् ? ॥ ३ ॥ वक्तुं
गुणान् गुण-समुद्र ! शशाङ्क-कान्तान्, कस्ते क्षमः
सुरगुरु-प्रतिमोऽपि बुद्ध्या ? । कल्पान्त-काल-
पवनोद्धत-नक्र-चक्रं, को वा तरीतृमलमम्बुनिधिं
भुजाभ्याम् ? ॥ ४ ॥ सोऽहं तथापि तव भक्ति-
वशान्मुनीश !, कर्तुंस्तवं विगत-शक्तिरपि प्रवृ-
त्तः । प्रीत्यात्म-वीर्यमविचार्य मृगो मृगेन्द्रं,
नाभ्येति किं निज-शिशोः परिपालनार्थम् ? ॥५॥
अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहास-धाम, त्वद्भक्तिरेव
मुखरीकुरुते बलान्माम् । यत् कोकिलः किल
मधौ मधुरं विरौति, तच्चारु-चूत-कलिका-निक-

रैक-हेतु ॥६॥ त्वत्संस्तवेन भव-संतति-संनिवृद्धं,
 पापं क्षणात् क्षयमुपैति शरीरभाजाम् । आक्रान्त-
 लोकमलि-नीलमशेषमाशु, सूर्यांशु-भिन्नमिव
 शार्वरमन्ध-कारम् ॥ ७ ॥ मत्वेति नाथ ! तव
 संस्तवनं मयेद,—मारभ्यते तनु-धियापि तव
 प्रभावात् । चेतो हरिष्यति सतां नलिनी-दलेषु,
 मुक्ताफल-द्युतिमुपैति ननूद-विन्दु ॥ ८ ॥
 आस्तां तव .स्तवनमस्त-दोषं, त्वत्संकथापि
 जगतां दुरितानि हन्ति । दूरे सहस्र-किरणः
 कुरुते प्रभैव, पद्माकरेषु जलजानि विकाशभाञ्जि
 ॥ ९ ॥ नात्यद्भुतं भुवन-भूषण ! भूतनाथ !
 भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमभिष्टुवन्तः । तुल्या भ-
 वन्ति भवतो ननु तेन किं वा, भूत्याश्रितं य इह
 नात्म-समं करोति ? ॥१०॥ दृष्ट्वा भवन्तमनि-
 मेप-त्रिलोकनीयं, नान्यत्र तोपमुपयाति जनस्य
 चक्षुः । पीत्वा पयः शशि-कर-द्युति-दुग्धसिन्धोः,
 चारं जलं जलनिधेरशितुं क इच्छेत् ? ॥११॥ यैः

शान्तराग-रुचिभिःपरमाणुभिस्त्वं, निर्मापितस्त्रि-
भुवनैक-ललाम-भूत ! । तावन्त एव खलु तेऽप्य-
णवः पृथिव्यां, यत्ते समानमपरं न हि रूप-मस्ति
॥ १२ ॥ वक्त्रं क्व ते सुर-नरोरग-नेत्र- हारि,
निःशेष-निर्जित-जगत्त्रितयोपमानम् । विस्व-
कलङ्कमलिनं क्व निशाकरस्य, यद् वासरे भवति
पाण्डु पलाश-कल्पम् ॥ १३ ॥ सम्पूर्ण-मण्डल-
शशाङ्क-कलाकलाप,—शुभ्रा गुणास्त्रिभुवनं तव
लङ्घयन्ति । ये संश्रितास्त्रि-जगदीश्वर-नाथमेकं,
कस्तान् निवारयति संचरतो यथेष्टम् ? ॥ १४ ॥
चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाभिर्नीतं मना-
गपि मनो न त्रिकारमार्गम् । कल्पान्त-काल-
मरुता चलिताचलेन, किं मन्दराद्रि-शिखरं च-
लितं कदाचित् ? ॥ १५ ॥ निर्धूमवर्तिरपवर्जित-
तैलपूरः, कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि ।
गम्यो न जातु मरुतां चलिताचलानां, दीपोऽ
परस्त्वमसि नाथ ! जगत्प्रकाशः ॥ १६ ॥ नास्तं

ऋदाचिदुपयासि न राहुगम्यः, स्पष्टीकरोषि सह-
 सा युगपज्जगन्ति । नाम्भोधरोदर-निरुद्ध-
 महा-प्रभावः, सूर्यातिशायि-महिमाऽसि मुनीन्द्र
 लोके ॥ १७ ॥ नित्योदयं दलित-मोह-महा-
 न्धकारं, गम्यं न राहु-वदनस्य न वारिदानाम् ।
 विभ्राजते तत्र मुखाब्जमनल्प-कान्ति, वियोत-
 यज्जगदपूर्व-शशाङ्क-विम्बम् ॥ १८ ॥ किं शर्व-
 रीपु शशिनाऽहि विवस्वता वा, युष्मन्मुखेन्दु-
 दलितेपुतमस्सुनाथ ? । निष्पन्न-शालि-वन-शा-
 लिनि जीव-लोके, कार्यं कियज्जलधरैर्जल-भार-
 नम्रैः ? ॥ १९ ॥ ज्ञानं यथा त्वयि विभाति
 कृतावकाशं, नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु ।
 तेजः स्फुरन्मणिषु याति यथा महत्त्वं, नैवं तु
 काच-शकले किरणाकुलेऽपि ॥ २० ॥ मन्ये वरं
 हरि-हरादय एव दृष्टा, दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि
 तोपमेति । किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः,
 कश्चिन्मना हरति नाथ ! भवान्तरेऽपि ॥२१॥

स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान्,
नान्या सुतं त्वदुपमं जननी प्रसूता । सर्वा
दिशो दधति भानि सहस्र-रश्मिं, प्राच्येव दिग्
जनयति स्फुरदंशु-जालम् ॥२२॥ त्वामामनन्ति
मुनयः परमं पुमांस,-मादित्य-वर्णममलं तमसः
परस्तात् । त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युं,
नान्यः शिवः शिव-पदस्य मुनीन्द्र ! पन्थाः ॥२३॥
त्वामव्ययं विभुमचिन्त्यमसंख्यमाद्यं, ब्रह्माण-
मीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुम् । योगीश्वरं विदित-
योगमनेकमेकं, ज्ञान-स्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः
॥ २४ ॥ बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चित-बुद्धि-बोधात्,
त्वं शंकरोऽसि भुवनत्रय-शंकरत्वात् । धाताऽसि
धीर ! शिव-मार्ग-विधेर्विधानाद्, व्यक्तं त्वमेव
भगवन् ! पुरुषोत्तमोऽसि ॥ २५ ॥ तुभ्यं नम-
स्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ !, तुभ्यं नमः चितितला-
मल्ल-भूषणाय । तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय,
तुभ्यं नमो जिन ! भवोदधि-शोषणाय ॥२६॥

को विस्मयोत्र यदि नाम गुणैरशेषैः-स्त्वं
 संश्रितो निरवकाशतया मुनीश ! । दोषै-रुपात्त-
 विविधाश्रय-जात-गवैः, स्वप्नान्तरेऽपि न कदा-
 चिद्-पीक्षितोऽसि ॥ २७ ॥ उच्चैरशोक-तरु-
 संश्रितमुन्मयूख, -माभाति रूपममलं भवतो
 नितान्तम् । स्पष्टोल्लसत्किरणमस्त-तमो-वितानं,
 विम्बं रवेरिव पयोधर-पार्श्व-वर्त्ति ॥२८॥ सिंहा-
 सने मणि-मयूख-शिखा-विचित्रे, विभ्राजते
 तव वपुः कनकावदातम् । विम्बं वियद्विलसदंशु-
 लता-वितानं, तुङ्गो-दयाद्रि-शिरसीव सहसूरशमेः
 ॥ २९ ॥ कुन्दावदात-चलचामर-चारु-शोभं,
 विभ्राजते तव वपुः कलधौत-कान्तम् । उद्यच्छ-
 शाङ्क-शुचि-निर्भर-वारिधार—मुच्चैस्तटं सुरगि-
 रेरिव शातकौम्भम् ॥३०॥ इत्र त्रयं तव विभाति
 शशाङ्ककान्त, -मुच्चैः स्थितं स्थगित-भानु-
 कर-प्रतापम् । मुक्ताफल-प्रकर-जाल-वि-वृद्ध-
 शोभं, प्रख्यापयत् त्रिजगतः परमेश्वरत्वम् ॥३१॥

उन्निद्र-हेम-नव-पङ्कज-पुञ्ज-कान्ति, पर्यु-ल्लस-
 न्नख-मयूख-शिखाभिरामौ । पादौ पदानि
 तव यत्र जिनेन्द्र ! धत्तः, पद्मानि तत्र विबुधाः
 परिकल्पयन्ति ॥ ३२ ॥ इत्थं यथा तव विभूति-
 रभूजिनेन्द्र !, धर्मोपदेशन-विधौ न तथा परस्य ।
 यादृक् प्रभा दिनकृतः प्रहतान्धकारा, तादृक्
 कुतो ग्रह-गणस्य विकासिनोऽपि ॥३३॥ श्च्यो-
 तन्मदाविल-विलोल-कपोल-मूल,-मत्त-भ्रमद्-
 भ्रमर-नाद-विवृद्ध-कोपम् । ऐरावताभमिभमुद्ध-
 तमापतन्तं, दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदा-श्रिता-
 नाम् ॥३४॥ भिन्नेभ-कुम्भ-गलदुज्ज्वल-शोणि-
 ताक्त,-मुक्ताफल-प्रकर भूषित-भुमि-भागः ।
 वद्ध-क्रमः क्रम-गतं हरिणाधिपोऽपि, ना-
 क्रामति क्रम-युगाचल-संश्रितं ते ॥३५॥ कल्पा-
 न्त-काल-पवनोद्धत-वह्नि-कल्पं, दावानलं ज्व-
 लित-मुज्ज्वलमुत्स्फुलिङ्गम् । विश्वं जिघत्सुमिव
 संमुखमापतन्तं, त्वन्नाम-कीर्तन-जलं शमयत्य-

शेषम् ॥ ३६ ॥ रक्तेक्षणं समद-कोकिल-कण्ठ-
नीलं, क्रोधोद्धतं फणिनमुत्फणामोपतन्तम् ।
आक्रामति क्रम-युगेन निरस्त-शङ्क,-स्त्वन्नाम-
नाग-दमनी हृदि यस्य पुंसः ॥३७॥ वल्गल्लु-
रङ्ग-गज-गर्जित-भीम-नाद,-माजौ बलं बलव-
तामपि भूपतीनाम् । उद्यद्दिवाकर-मयूख-शिखा-
पविद्धं, त्वत्कीर्त्तनात् तम इवाशु भिदामुपैति
॥ ३८ ॥ कुन्ताग्र-भिन्न-गज-शोणित-वारिवाह,-
वेगावतार-तरणातुरयोध-भीमे । युद्धे जयं वि-
जित-दुर्जय-जेय-पक्षा,-स्त्वत्पादपङ्कज-वनाश्रयि-
णो लभन्ते ॥ ३९ ॥ अम्भोनिधौ चुभितभी-
षण-नक्र-चक्र,—पाठीन-पोठ-भयदोल्बण-वाड-
वाशौ । रङ्गत्तरङ्ग-शिखर-स्थित-यानपात्रा,-
स्त्रासं विहाय भवतः स्मरणाद् व्रजन्ति ॥ ४० ॥
उद्भूत-भीषण-जलोदर-भार-भुग्नाः, शोच्यां
दशामुपगताश्च्युत-जीविताशाः । त्वत्पादपङ्कज-
रजोऽमृत-दिग्ध-देहा, मर्त्या भवन्ति मकरध्वज-

तुल्य-रूपाः ॥ ४१ ॥ आपाद-कण्ठमुरु-शृङ्खल-
वेष्टिताङ्गा, गाढं बृहन्निगड-कोटि-निघृष्टजङ्घाः ।
त्वन्नाममन्त्रमनिशं मनुजाः स्मरन्तः, सद्यः स्वयं
विगत-बन्ध-भया भवन्ति ॥ ४२ ॥ मत्त-द्विपेन्द्र-
मृगराज-दवानलाहि,—संग्राम-वारिधि-महोदर-
बन्धनोत्थम् । तस्याशु नाशमुपयाति भयं भियेव,
यस्तावकं स्तवमिमं मतिमानधीते ॥ ४३ ॥ स्तोत्र-
स्रजं तव जिनेन्द्र ! गुणैर्निबद्धां, भक्त्या मया
रुचिर-वर्ण-विचित्र-पुष्पाम् । धत्ते जनो य इह
कण्ठगतामजस्रं, तं मानतुङ्गभवशा समुपैति
लक्ष्मीः ॥ ४४ ॥

॥ इति श्रीभक्तामरस्तोत्रं सम्पूर्णम् ॥

॥ अथ वृद्धशान्तिः ॥

भो भो भव्याः ! शृणुत वचनं प्रस्तुतं
सर्वमेतत्, ये यात्रायां त्रिभुवनगुरोराहंताभक्ति-
भाजः । तेषां शान्तिर्भवतु भवतामर्हदादि-
प्रभावा,-दारोग्य-श्री-धृति-मतिकरी क्लेश-वि-

निर्मम १५, चित्रगुप्त १६, समाधि १७, संवर १८,
 यशोधर १९; विजय २०, मल्लि २१, देव २२,
 अनन्तवीर्य २३, भद्रंकर २४, एते भावि-तीर्थ-
 कराः जिनाः शान्ताः शान्तिकरा भवन्तु । ॐ
 मुनयो मुनि-प्रवरा रिपु-विजय-दुर्भिक्ष-कान्तारेषु
 दुर्ग-मार्गेषु रक्षन्तु वो नित्यम् ॥ ॐ श्री नाभि
 १, जितशत्रु २, जितारि ३, संवर ४, मेघ ५,
 धर ६, प्रतिष्ठ ७, महसेन ८, सुग्रीव ९, दृढरथ
 १०, विष्णु ११, वासुपूज्य १२, कृतवर्म १३,
 सिंहसेन १४, भानु १५, विश्वसेन १६, सूर १७,
 सुदर्शन १८, कुम्भ १९, सुमित्र २०, विजय २१,
 समुद्रविजय २२, अश्वसेन २३, सिद्धार्थ २४,
 इति वर्त्तमानचतुर्विंशति-जिन-जनकाः ॥

ॐ श्री मरुदेवी १, विजया, २ सेना ३,
 सिद्धार्था ४, सुमंगला ५, सुसीमा ६, पृथिवीमाता
 ७, लक्ष्मणा ८, रामा ९, नन्दा १०, विष्णु ११,
 जया १२, श्यामा १३, सुयशा १४, सुव्रता १५,

अचिरा १६, श्री ७, देवी १८, प्रभावती १९
पद्मा २०, वप्रा २१, शिवा २२, वामा २३, त्रि-
शला २४, इति वर्त्तमान-जिन, जनन्यः ॥

ॐ श्रीगोमुख १, महायज्ञ २, त्रिमुख ३,
यक्षनायक ४, तुम्बुरु ५, कुसुम ६, मातङ्ग ७,
विजय ८, अजित ९, ब्रह्मा १०, यक्षराज ११,
कुमार १२, परामुख १३ पाताल १४, किन्नर १५,
गरुड १६, गन्धर्व १७, यक्षराज १८, कुबेर १९,
वरुण २०, भृकुटि २१ गोमेध २२, पार्श्व २३,
ब्रह्माशान्ति २४, इति वर्त्तमान-जिन-यक्षाः ॥

ॐ चक्रेश्वरी १ अजितवला २ दुरितारि
३ काली ४ महाकाली ५ श्यामा ६ शान्ता ७
भृकुटि ८ सुतारका ९ अशोका १० मानवी ११
चण्डा १२ विदिता १३ अङ्गुशा १४ कन्दर्पा १५
निर्वाणी १६ बला १७ धारिणी १८ धरणाप्रिया
१९, नरदत्ता २०, गान्धारी २१, अम्बिका २२,
पद्मावती २३ सिद्धायिका २४ इति वर्त्तमान-

चतुर्विंशति-तीर्थकर-शासनदेव्यः ।

ॐ ह्रीं श्रीं धृति-कीर्त्ति-कान्ति-बुद्धि-
लक्ष्मी-मेधा-विद्या-साधन-प्रवेश-निवेशनेषु सुगृ-
हीत-नामानो जयन्ति ते जिनेन्द्राः । ॐ
रोहिणी १ प्रज्ञप्ति २ वज्रशृङ्खला ३ वज्राङ्कुशा
४ चक्रेश्वरी ५ पुरुषदत्ता ६ काली ७ महाकाली
८ गौरी ९ गान्धारी १० सर्वास्त्रमहाज्वाला ११
मानवी १२ वैरोढ्या १३ अच्छ्रता १४ मानसी
१५ महामानसी १६ एताः षोडश विद्या-देव्यो
रक्षन्तु मे स्वाहा ॥ ॐ आचार्योपाध्याय-प्रभृति-
चातुर्वर्ण्यस्य श्रीश्रमण-सङ्घस्य शान्तिर्भवतु ।
ॐ ग्रहाश्चन्द्र-सूर्याऽङ्गरक-बुध-बृहस्पति-शुक्र-
शनैश्चर-राहु-केतु-सहिताः सलोकपालाः सोम-
यम-वरुण-कुर्वेर-वासवादित्य-स्कन्द-विनायका
ये चान्येऽपि ग्राम-नगर-क्षेत्रदेवतादयस्ते सर्वे
प्रीयन्तां २ अक्षीण-कोश-कोण्डागारा नरपतयश्च
भवन्तु स्वाहा ॥ ॐ पुत्रमित्र-भ्रातृ-कलत्र-सुहृत्

संबन्धि-बन्धु-वर्ग सहिता नित्यं चामोद-प्रमोद-
कारिणो भवन्तु । अस्मिंश्च भूमण्डले आय-
तन-निवासिनां साधु-साध्वी-श्रावक श्राविकाणां
रोगोपसर्ग-व्याधि-दुःख-दौर्मनस्योपशमनाय
शान्तिर्भवतु ॥ ॐ तुष्टि-पुष्टि-ऋद्धि-वृद्धि-
मङ्गल्योत्सवा भवन्तु । सदा प्रादुर्भूतानि
दुरितानि पापानि शाम्यन्तु, शत्रवः पराङ्मुखा
भवन्तु स्वाहा ॥ श्रीमते शान्तिनाथाय, नमः
शान्तिविधायिने । त्रैलोक्य-स्यामराधीशं,
मुकुटाम्यर्चितां हृद्भये ॥ १ ॥ शान्तिः शान्तिकरः
श्रीमान्, शान्तिं दिशतु मे गुरुः । शान्तिरेव सदा
तेषां, येषां शान्तिगृहे गृहे ॥ २ ॥ ॐ उन्मृष्ट-
रिष्ट-दुष्ट-ग्रह-गति-दुःस्वप्न-दुर्निमित्तादि । सं-
पादित-हित-संपद्, नाम-ग्रहणं जयति शान्तेः
॥ ३ ॥ श्रीसंघ-पौर-जन-पद, राजाधिप-राज-
संनिवेशानाम् । गोष्ठिक-पुरमुख्याणां, ज्याह-
रणैर्व्याहरेच्छान्तिम् ॥ ४ ॥ श्रीश्रमणसंघस्य

शान्तिर्भवतु, श्रीपौर-लोकस्य शान्तिर्भवतु,
 श्रीजनपदानां शान्तिर्भवतु, श्रीराजाधिपानां शा-
 न्तिर्भवतु, श्रीराज-संनिवेशानां शान्तिर्भवतु, श्री-
 गोष्ठिकानां शान्तिर्भवतु । ॐ स्वाहा २ ॐ ह्रीं
 श्रीं पार्श्वनाथाय स्वाहा । एषा शान्तिः प्रतिष्ठा-
 यात्रा स्नात्रावसानेषु शान्तिकलशं गृहीत्वा कुङ्कुम-
 चन्दन-कर्पूरागुरु-धूप-वास-कुसुमाञ्जलि-समेतः
 स्नात्रपीठे श्रीसंघसमेतः शुचिः शुचिवपुः पुष्प-
 वस्त्र-चन्दनाभरणालङ्कृतः, चन्दनतिलकं त्रिधाय
 कण्ठे कृत्वा शान्तिमुद्घोषयित्वा शान्ति-पानीर्य
 मस्तके दातव्यमिति । नृत्यन्ति नृत्यं मणि-पुष्प-
 वर्षं, सृजन्ति गायन्ति च मङ्गलानि । स्तोत्राणि
 गोत्राणि पठन्ति मन्त्रान्, कल्याणभाजो हि
 जिनाभिपेके ॥१॥ अहं तित्थयर-माया, सिवा-
 देवी तुम्ह-नयर-निवासिनी अम्ह सिवं तुम्ह
 सिवं, असुहोवसमं सिवं भवतु स्वाहा ॥ २ ॥
 शिवमस्तु सर्व-जगतः, पर हित- निरता भवन्तु

भूत-गणाः । दोषाः प्रयान्तु नाशं, सर्वत्र
सुखीभवतु लोकः ॥२॥ उपसर्गाः क्षयं यान्ति,
छिद्यन्ते विघ्नबल्लयः । मनः प्रसन्नतामेति पूज्य-
माने जिनेश्वरे ॥ ३ ॥

इति वृद्धशान्तिः समाप्ता ॥

अथ जिनपञ्जर-स्तोत्रम् ।

॥ ॐ ह्रीं श्रीं अर्हं अर्हद्भ्यो नमोनमः ।
ॐ ह्रीं श्रीं अर्हं सिद्धेभ्यो नमोनमः । ॐ
ह्रीं श्रीं अर्हं आचार्येभ्यो नमोनमः । ॐ ह्रीं
श्रीं अर्हं उपाध्यायेभ्यो नमोनमः । ॐ ह्रीं
श्रीं अर्हं श्रीगौतमस्वामिप्रमुखसर्वसाधुभ्यो
नमोनमः ॥१॥ एष पञ्च-नमस्कारः, सर्व-पाप-
क्षयंकरः । मङ्गलानां च सर्वेषां, प्रथमं भवति
मङ्गलम् ॥ २ ॥ ॐ ह्रीं श्रीं जये विजये, अर्हं
परमात्मने नमः । कमलप्रभ-सूरीन्द्रो, भाषते-
जिनपरञ्जरम् ॥ ३ ॥ एकभक्तोपवासेन,

अकाल-मरण-प्राप्ते, दानिद्वयपरमसाधिते ।
 व्याघ्र-चौरादि-सर्पादि-सूत-पुन-भयाधिभते ॥१३॥
 गजद्वारे प्रमथाने वा, संप्रामे शर्व-संकटे ।
 श्लेष-पापेभ्यो, वीतरागो निरुज्ज्वलः ॥ १८ ॥
 जल-नेत्रक, —वपत्रकाशोमयं जगते । रवेद-
 सार्द्धं, बधमानद्विचदामकम ॥ १७ ॥ पृथिवी-
 नानी रवेत, शीतनिभरचरणद्वयम् । श्लोपाश्वनाथः
 वधुं, जह्ने च मुनिप्रियतः ॥ १६ ॥ पादाङ्गुली-
 रत्ने, —दशो रोम-कटी तटम् । मलिनरुक् पण्ड-
 शोनिनानीम-मण्डलम् ॥ १५ ॥ श्रीकृष्ण्युद्धकं
 नानी स्तनावपि । सुधमाल्युदरोस्त्वानि, श्री-
 कर-द्वयम् ॥ १४ ॥ शृंगुलीवमला रवेत, अम-
 च शोशोतलः । श्वसंसा बद्ध-युगलं, वासिष्ठयः
 विभुः ॥ १३ ॥ काठं श्लेषिवा रवेत, हृदय-
 विभुः । निहृवां सुपाश्वदेवोऽयं, तालं चन्द्रधरो
 शोशो श्लेषमती रवेत, दन्तान् पक्षयो
 संभवः कण्ठ-युगलं, नासिकां चाभिभनन्दनः ॥ १२ ॥

संभवः कर्ण-युगलं, नासिकां चाभिनन्दनः ॥१२॥
 ओष्ठौ श्रीसुमती रक्षेद्, दन्तान् पद्मप्रभो
 विभुः । जिह्वां सुपार्श्वदेवोऽयं, तालु चन्द्रप्रभो
 विभुः ॥ १३ ॥ कण्ठं श्रीसुविधो रक्षेद्, हृदयं
 च श्रीशीतलः । श्रेयांसो बाहु-युगलं, वासुपूज्यः
 कर-द्वयम् ॥ १४ ॥ अंगुलीविमलो रक्षेद्, अन-
 न्तोसौ स्तनावपि । सुधर्मोऽप्युदरास्थिति, श्री-
 शान्तिर्नाभि-मण्डलम् ॥ १५ ॥ श्रीकुन्थुगुह्यकं
 रक्षे,—दरो रोम-कटी तटम् । मल्लिरुरू पृष्ठ-
 वंशं, जङ्घे च मुनिसुव्रतः ॥ १६ ॥ पादाङ्गुली-
 र्णमी रक्षेत्, श्रीनेमिश्चरणद्वयम् । श्रीपार्श्वनाथः
 सर्वाङ्गं, वर्धमानश्चिदात्मकम् ॥१७॥ पृथिवी-
 जल-तेजस्क,—वाय्वाकाशमयं जगत् । रक्षेद-
 शेष-पापेभ्यो, वीतरागो निरञ्जनः ॥ १८ ॥
 राजद्वारे श्मशाने वा, संग्रामे शत्रु-संकटे ।
 व्याघ्र-चौराग्नि-सर्पादि-भूत-प्रेत-भयाश्रिते । १९।
 अकाल-मरण-प्राप्ते, दारिद्र्यापत्समाश्रिते ।

यः पठेद्विदम् । मनोऽभिलषितं सर्वं, फलं स
 लभते ध्रुवम् ॥ ४ ॥ भूशय्यात्रह्यचर्येण, क्रोध-
 लोभ विवर्जितः । देवतायै पवित्रात्मा, परमा-
 सैलभते फलम् ॥ ५ ॥ अर्हन्तं स्थापयेद्-मूर्ध्नि,
 सिद्धं चक्षुर्ललाटके । आचार्यं श्रोत्रयोर्मध्ये,
 उपाध्यायं तु घ्राणके ॥ ६ ॥ साधुवृन्दं मुख-
 स्यायै. मनः शुद्धं विधाय च । सूर्ये-चन्द्र-नि-
 रोधेन, सुधीः सर्वार्थ-सिद्धये ॥ ७ ॥ दक्षिणे
 मदन-द्वेषी, वाम-पार्श्वे स्थितो जिनः । अङ्ग-
 संधिषु सर्वज्ञः, परमेष्ठी शिवङ्करः ॥ ८ ॥
 पूर्वाशां श्रीजिनो रक्षे, -दाशैर्यीं विजितेन्द्रियः ।
 दक्षिणाशां परं ब्रह्म, नैर्ऋतीं च त्रिकालवित् । ९ ।
 पश्चिमाशां जगन्नाथो, वायवीं परमेश्वरः । उ-
 त्तरां तीर्थकृत् सर्वामीशानीं च निरञ्जनः ॥ १० ॥
 पातालं भगवानर्हन्नाकाशं पुरपोत्तमः । रोहिणी
 प्रमुखा देव्यो, रक्षन्तु सकलं कुलम् ॥ ११ ॥
 षट्पभो मस्तकं रक्षे-दजितोऽपि विलोचने ।

संभवः कर्ण-युगलं, नासिकां चाभिनन्दनः ॥१२॥
 ओष्ठौ श्रीसुमती रक्षेद्, दन्तान् पद्मप्रभो
 विभुः । जिह्वां सुपार्श्वदेवोऽयं, तालु चन्द्रप्रभो
 विभुः ॥ १३ ॥ कण्ठं श्रीसुविधी रक्षेद्, हृदयं
 च श्रीशीतलः । श्रेयांसो बाहु-युगलं, वासुपूज्यः
 कर-द्वयम् ॥ १४ ॥ अंगुलीविमलो रक्षेद्, अन-
 न्तोसौ स्तनावपि । सुधर्मोऽप्युदरास्थिति, श्री-
 शान्तिर्नाभि-मण्डलम् ॥ १५ ॥ श्रीकुन्धुर्गुह्यकं
 रक्षे,—दरो रोम-कटी तटम् । मल्लिरूरु पृष्ठ-
 वंशं, जङ्घे च मुनिसुव्रतः ॥ १६ ॥ पादाङ्गुली-
 र्नमी रक्षेत्, श्रीनेमिश्चरणद्वयम् । श्रीपार्श्वनाथः
 सर्वाङ्गं, वर्धमानश्चिदात्मकम् ॥१७॥ पृथिवी-
 जल-तेजस्क,—वाय्वाकाशमयं जगत् । रक्षेद्-
 शेष-पापेभ्यो, वीतरागो निरञ्जनः ॥ १८ ॥
 राजद्वारे श्मशाने वा, संग्रामे शत्रु-संकटे ।
 व्याघ्र-चौराग्नि-सर्पादि-भूत-प्रेत-भयाश्रिते । १९।
 अकाल-मरण-प्राप्ते, दारिद्र्यापत्समाश्रिते ।

अपुत्रत्वे महादोषे, मूर्खत्वे रोग-पीडिते ॥२०॥
 डाकिनो-शाकिनो-ग्रस्ते, महा-ग्रह-गणार्दिते ।
 नद्युत्तारेऽध्व-वैपम्ये, व्यसने चापदि स्मरेत्
 ॥२१॥ प्रातरेव समुत्थाय, यः स्मरेज्जिनपञ्ज-
 रम् । तस्य किञ्चद्भयं नास्ति, लभते सुख सम्प-
 दम् ॥ २२ ॥ जिनपञ्जरनामेदं, यः स्मरत्यनु-
 वासरम् । कमलप्रभराजेन्द्र,—श्रियं स लभते
 नरः ॥ २३ ॥ प्रातः समुत्थाय पठेत् कृतज्ञो, यः
 स्तोत्रमेतज्जिनपञ्जराख्यम् । आसादयेत्स क-
 मलप्रभाख्य,—लक्ष्मीं मनो-वाञ्छित-पूरणाय
 ॥ २४ ॥ श्रीरुद्रपल्लीय-वरेण्य-गच्छे, देवप्रभा-
 चार्य-पदाञ्जहंसः । वादीन्द्र-चूडामणारेण जंतो,
 जीयाद् गुरुः श्रीकमल-प्रभाख्यः ॥ २५ ॥

॥ इति श्रीजिनपञ्जर-स्तोत्रं संपूर्णम् ॥

अथ श्रीऋषिमण्डल-स्तोत्रम् ।

आद्यन्ताक्षर-संलक्ष्य, -मक्षरं व्याप्य यत्
स्थितम् । अग्नि-ज्वाला-समं नाद-बिन्दु-रेखा-
समन्वितम् ॥ १ ॥ अग्नि-ज्वाला-समाक्रान्तं,
मनो-मल-विशोधकम् । देदीप्यमानं हृत्पद्मे,
तत्पदं नौमि निर्मलम् ॥ २ ॥ अर्हमित्यक्षरं ब्रह्म-
वाचकं परमेष्ठिनः । सिद्धचक्रस्य सद्बीजं,
सर्वतः प्रणिदधमहे ॥ ३ ॥ ॐ नमोऽर्हद्भ्य ई-
शेभ्य ॐ सिद्धेभ्यो नमोनमः । ॐ नमः सर्व-
सूरिभ्य उपाध्यायेभ्य ॐ नमः ॥ ४ ॥ ॐ नमः
सर्वसाधुभ्य ॐ ज्ञानेभ्यो नमोनमः । ॐ नम-
स्तत्त्वदृष्टिभ्यश्चारित्र्येभ्यस्तु ॐ नमः ॥ ५ ॥
श्रेयसेस्तु श्रियेस्त्वेतदर्हदाद्यष्टकं शुभम् । स्था-
नेष्वष्टसु विन्यस्तं, पृथग्बीजसमन्वितम् ॥ ६ ॥
आद्यं पदं शिखां रक्षेत्, परं रक्षेत्तु मस्तकम् ।
तृतीयं रक्षेत्रे त्रेद्वे, तुर्यं रक्षेच्च नासिकाम् ॥७॥
पञ्चमं तु मुखं रक्षेत्, षष्ठं रक्षेच्च घण्टिकाम् ।

नाभ्यन्तं सप्तमं रक्षेद्, रक्षेत् पादान्तमष्टमम्
 ॥ ८ ॥ पूर्व-प्रणवतः सान्तः, सरेफो द्वयव्यि-
 पञ्चषान् । सताष्टदशसूर्याङ्गान्, श्रितो विन्दु-
 स्वरान् पृथक् ॥ ९ ॥ पूज्यनामाक्षरा आद्याः,
 पञ्चातो ज्ञानदर्शन—चारित्र्येभ्यो नमो मध्ये,
 हीं सान्तसमलंकृतः ॥१०॥ ॐ ह्रीं । ह्रीं । हुं ।
 हुं । ह्रूं । ह्रूं । ह्रूं । ह्रूं । हः । असिआउसा-
 ज्ञान-दर्शनचारित्र्येभ्यो नमः । जम्बूवृक्षधरो
 द्वीपः, क्षारोदधि-समावृतः । अर्हदाद्यष्टकैरष्ट-
 काष्ठाधिष्ठैरलंकृतः ॥११॥ तन्मव्यसंगतो मेरुः,
 कूटलक्षैरलंकृतः । उच्चैरुच्चैस्तरस्तार, स्तारामण्ड-
 लमण्डितः ॥१२॥ तस्योपरि सकारान्तं, बीज-
 मध्यास्य सर्वगम् । नमामि विम्बमार्हन्त्यं, ल-
 लाटस्थं निरञ्जनम् ॥१३॥ अक्षयं निर्मलं शान्तं,
 बहुलं जाट्य-तोज्झितम् । निरीहं निरहङ्कारं,
 सारं सारतरं घनम् ॥१४॥ अनुद्धतं शुभं स्फीतं,
 सात्त्विकं राजसं मतम् । तामसं चिरसंबुद्धं, तैः

जसं शर्वरीसमम् ॥१५॥ साकारं च निराकारं,
सरसं विरसं परम् । परापरं परातीतं, परंपरप-
रापरम् ॥१६॥ एक वर्णं द्विवर्णं च, त्रिवर्णं तुर्य-
वर्णकम् । पञ्चवर्णं महावर्णं, सपरं च परापरं १७
सकलं निष्कलं तुष्टं, निर्वृतं भ्रान्तिवर्जितम् ।
निरञ्जनं निराकारं, निर्लेपं वीतसंश्रयम् ॥ १८ ॥
ईश्वरं ब्रह्म-संबुद्धं, बुद्धं सिद्धं मतं गुरु । ज्योती-
रूपं महादेवं, लोकालोक-प्रकाशकम् ॥ १९ ॥
अर्हदाख्यस्तु वर्णान्तः, सरेफो बिन्दुमण्डितः ।
तुर्य-स्वर-समायुक्तो, बहुधा नाद-मालितः ॥२०॥
अस्मिन् बीजे स्थिताः सर्वे, वृषभाद्या जिनोत्त-
माः । वर्णैर्निजैर्निजैथुक्ता, ध्यातव्यास्तत्र संगताः
॥२१॥ नादश्चन्द्र-समाकारो, बिन्दुनील-सम-
प्रभः । कलारुण-समासान्तः, स्वर्णाभः सर्वतो-
मुखः ॥ २२ ॥ शिरः संलीन ईकारो, विनीलो
वर्णतः स्मृतः । वर्णानुसार-संलीनं, तीर्थकिन्म-
ण्डलंस्तुमः ॥ २३ ॥ चन्द्रप्रभ-पुष्पदन्तौ, नाद-

स्थिति-समाश्रितौ । विन्दुमध्यगतौ नेमि, सु-
 ब्रतौ जिनसत्तमौ ॥ २४ ॥ पद्मप्रभ-वासुपूज्यौ,
 कलापदमधिष्ठितौ । शिर-ई-स्थिति-संलीनौ,
 पार्श्व-मल्ली-जिनेश्वरौ ॥ २५ ॥ शेषास्तीर्थकृतः
 सर्वे, हरस्थाने नियोजिताः । माया बीजाक्षर-
 प्राप्ता,—श्चतुर्विंशतिरर्हताम् ॥ २६ ॥ गत-राग-
 द्वेष-मोहाः, सर्व-पाप-विवर्जिताः । सर्वदाः सर्व-
 कालेषु, ते भवन्तु जिनोत्तमाः ॥२७॥ देवदेवस्य
 यच्चक्रं, तस्य चक्रस्य या विभा । तथाच्छादित-
 सर्वाङ्गं, मा मां हिनस्तु डाकिनी ॥ २८ ॥ देव
 देवस्य० मा मां हिनस्तु राकिनी ॥२९॥ देवदे०
 मा मां हिनस्तु लाकिनी ॥ ३० ॥ देवदे० मा
 मां हिनस्तु काकिनी ॥३१॥ देवदे० मा मां हि-
 नस्तु शाकिनी ॥ ३२ ॥ देवदे० मा मां हिनस्तु
 हाकिनी ॥३३॥ देवदे० मा मां हिनस्तु थाकिनी
 ॥३४॥ देवदे० मा मां हिंसन्तु पद्मगाः ॥३५॥
 देवदे० मा मां हिंसन्तु हस्तिनः ॥३६॥ देवदे०

मा मां हिंसन्तु राक्षसाः ॥३७॥ देवदे० मा मां हिं-
 सन्तु वह्ययः ॥३८॥ देवदे० मा मां हिंसन्तु सिंह-
 काः ॥३९॥ देवदे० मा मां हिंसन्तु दुर्जनाः ॥४०॥
 देवदे० मा मां हिंसन्तु भूमिपाः ॥४१॥ श्रीगौतम-
 स्य या मुद्रा, तस्य या भुवि लब्धयः । ताभिरभ्यु-
 द्यत-ज्योतिरहं सर्व-निधीश्वरः ॥४२॥ पाताल-
 वासिनो देवा, देवा भूपोठवासिनः । स्वर्वासि-
 नोऽपि ये देवाः, सर्वे रक्षन्तु मामितः ॥ ४३ ॥
 येऽवधिलब्धयो ये तु, परमावधि-लब्धयः । ते
 सर्वे मुनयो देवा, मां संरक्षन्तु सर्वदा ॥४४॥
 दुर्जना भूत-वेतालाः, पिशाचा मुद्गलास्तथा ।
 ते सर्वेऽप्युपशाम्यन्तु, देवदेव-प्रभावतः ॥४५॥
 ॐ ह्रीं श्रीश्च धृतिलक्ष्मी, गौरी चण्डी
 सरस्वती । जयाम्बा विजया नित्याङ्किन्ना जिता
 मद-द्रवा ॥ ४६ ॥ कामाङ्गा कामबाणा च, सा-
 नन्दा नन्दमालिनी । माया मायाविनी रौद्री,
 कला काली कलिप्रिया ॥४७॥ एताः सर्वा महा-

देव्यो, वत्तेन्ते या जगत्त्रये । मह्यं सर्वाः प्रयच्छन्तु,
 कान्तिं कोत्तिं धृतिं मतिम् ॥ ४८ ॥ दिव्यो गोप्यः
 सुदुःप्राप्यः, श्रोत्रदृषिमण्डलस्तवः । भासितस्तीर्थनाथेन,
 जगत्त्राणकृतेऽनघः ॥४९॥ रणे राजकुले वह्नौ, जले दुर्गे गजे हरौ । श्म-
 शाने विपिने घोरे, स्मृतो रक्षति मानवम् ॥५०॥ राज्य-
 भ्रष्टा निजं राज्यं, पदभ्रष्टा निजं पदम् । लक्ष्मो-
 भ्रष्टा निजां लक्ष्मीं, प्राप्नुवन्ति न संशयः ॥५१॥
 भार्यार्थी लभते भार्यां, पुत्रार्थी लभते सुतम् ।
 विज्ञार्थी लभते वित्तं, नरः स्मरण-मात्रतः ॥ ५२ ॥
 स्वर्णं रूप्ये पटे कांस्ये, लिखित्वा यस्तु पूजयेत् ।
 तस्यैवाष्टमहासिद्धिर्गृहे, वसति शाश्वती ॥५३॥
 भूर्जपत्रे लिखित्वेदं, गलके मूर्ध्नि वा भुजे । धारितं सर्वदा
 दिव्यं, सर्व-भीति-विनाशकम् ॥५४॥ भूतैः प्रेतैः
 ग्रहैर्यज्ञैः, पिशाचैर्मुद्गलैर्नलैः । वात-पित्त-कफोद्रेकैः-
 मुच्यते नात्र संशयः ॥५५॥ भूर्भुवः-

स्वस्त्रयीपीठ-वत्ति न शाश्वता जिनाः । तैः स्तुतै-
वन्दितैर्दृष्टैर्यत् फलं तत्फलं श्रुतौ ॥५६॥ एतद्
गोप्यं महास्तोत्रं, न देयं यस्य कस्यचित् ।
मिथ्यात्ववासिने दत्ते, बाल-हत्या पदे पदे ॥५७॥
आचाम्लादि तपः कृत्वा, पूजयित्वा जिनाव-
लीम् । अष्टसाहस्रिको जापः, कार्यस्तत्सिद्धि-
हेतवे ॥५८॥ शतमष्टोत्तरं प्रातर्ये पठन्ति दिने
दिने । तेषां न व्याधयो देहे, प्रभवन्ति न चापदः
॥५९॥ अष्टमासावधिं ध्यावत्, प्रातः प्रातस्तु यः
पठेत् । स्तोत्रमेतद् महातेजो, जिनविम्बं स
पश्यति ॥६०॥ दृष्टे सत्यर्हतो विम्बे, भवे सप्तमके
ध्रुवम् । पदं प्राप्नोति शुद्धात्मा, परमानन्दन-
न्दितः ॥६१॥ विश्ववन्द्यो भवेद् ध्याता, कल्या-
णानि च सोऽश्नुते । गत्वा स्थानं परं सोऽपि,
भूयस्तु न निवर्त्तते ॥६२॥ इदं स्तोत्रं महा-
स्तोत्रं, स्तुतीनामुत्तमं परम् । पठनात्स्मरणाज्जा-
पाल्लभ्यते पदमुत्तमम् ॥६३॥ (इति श्रीऋषिम-

गडलस्तोत्रं क्षेपकश्लोकान्निराकृत्य मूलमन्त्रक-
ल्पानुसारेण लिखितं गण्णिभिः श्रीक्षमाकल्या-
णोपाध्यायैः, तदेवात्रास्माभिर्मुद्रितम्)

॥ अथ श्रीगौडीपार्श्वजिन-वृद्धस्तवनम् ॥

॥ (दूहा) बाणी ब्रह्मावादिनी, जागै जग
विख्यात । पास तणां गुण गावतां मुज मुख
वसज्यो मात ॥ १ ॥ नारंगै अणहलपुर, अह-
मदावादै पास । गौडीनो धणी जागतो, सहुनी
पूरे आस ॥ २ ॥ सुभ बेला सुभ दिन घड़ी,
मुहुरत एक मंडाण । प्रतिमा ते इह पासनी,
थई प्रतिष्ठा जाण ॥ ३ ॥ (ढाल) गुणहि वि-
शाला मंगलीक माला, वामानो सुत साचोजी ।
धण कण कंचण मणि माणक दे, गौडीनो
धणी जाचौजो (गु०) ॥४॥ अणहिलपुर पाटण
मांहे प्रतिमा; तुरक तणें घर हुंतोजी । अश्वनी
भूमि अश्वनो पौडा, अश्वनो वालि विगूती जी
(ग०) ॥५॥ जागंतो जक्ष जेहनै कहियै, सुहणो

तुरकनेँ आपै जी । पास जिनेसर केरी प्रतिमा,
 सेवक तुम्हो संतापै जी (गु०) ॥६॥ प्रह ऊठीने
 परगट करजे, मेघा गोठीने देजे जी । अधिक
 म लेजे ओछो म लेजे, टक्का पांचसै लेजे जी
 (गु०) ॥ ७ ॥ नहिं आपिस तो मारीस मुर-
 डीस, मोर बंध बंधास्ये जी । पुत्र कलत्र धन
 हय हाथी तुम्ह, लाखि घणी घर जास्यै जी
 (गु०) ॥८॥ मारग पहिलो तुम्हनेँ मिलस्यै,
 सारथवाह जे गोठी जी । निलवट टीलो चोखा
 चेढ्या, वस्तु वहै तसु पोठी जी (गु०) ॥९॥
 (दूहा) ॥ मनसु बीहनो तुरकडो, मानेँ वचन
 प्रमाण । बीबी नैँ सुहणा तणो, संभलावैँ स-
 हिनाण ॥ १० ॥ बीबी बोले तुरकने, बडा देव
 है कोय । अवस ताव परगट करो, नहीतर मारैँ
 सोय ॥११॥ पाछली रात परोडीयै, पहली बांधैँ
 पाज । सुहणा माहें सेठने, संभलावैँ जन्-राज
 ॥ १२ ॥ (ढाल) एम कही जन् आयो राते,

सारथवाहने सुहणै जी । पास तणी प्रतिमा तुं
 लेजे, लेतो सिर मत धूणै जी (एम०) ॥१३॥
 पांचसै टक्का तेहने आपे, अधिको म आपिस
 वारू जी । जतन करी पहुँचाडे थानिक, प्र-
 तिमा गुण संभारैजी (एम०) ॥१४॥ तुम्हने
 होसी बहु फल दायक, भाई गोठीने सुणजे
 जी । पूजीस प्रणमीश तेहना पाया, प्रह उठीने
 थुणजे जी (ए०) ॥ १५ ॥ सुहणो देईने सुर
 चाल्यो, आपणे थानक पहुँतो जी । पाटण
 मांहे सारथवाहु, हीडै तुरकने जोतो जी (ए०)
 ॥१६॥ तुरकै जातां दीठो गोठी, चोखा तिलक
 लिलाडै जी । संकेत पहुँतो साचो जाणि, बौ-
 लावै बहु लाडै जी (ए०) ॥१७॥ मुक्त घरि
 प्रतिमा तुम्हने आपुं, पास जिणोसर केरी जी ।
 पांचसै टक्का जो मुक्त आपै, मोल न मांगु फेरी
 जी (ए०) ॥१८॥ नाणो देई प्रतिमा लेई, था-
 नक पहुँतो रंगै जी । केसर चन्दन मृगमद

घोली, विधसुं पूजा रंगे जी (ए०) ॥ १६ ॥
 गादी रूडी रूनी कीधी, ते मांहि प्रतिमा राखै
 जी । अनुक्रम आव्या परिकर माहें, श्रीसंघने
 सुर साखै जी (ए०) ॥ २० ॥ उच्छव दिन २
 अधिका थाये, सत्तर भेद सनात्रो जो । ठाम २
 ना दरसण करवा, आवै लोक प्रभातो जी
 (ए०) ॥ २१ ॥ (दूहा) ॥ इक दिन देखै अव-
 धसुं, परिकर पुरनो भङ्ग । जतन करूँ प्रतिमा
 तणो, तीरथ अछै अभङ्ग ॥ २२ ॥ सुहणो आपै
 सेठने, थल अटवी उज्जाड । महिमा थास्यै अति
 घणी, प्रतिमा तिहां पहुंचाड ॥ २३ ॥ कुशल
 खेम तिहां अछै, तुभनें मुभने जाणि । संका
 छोड़ी काम करि, करतो मकरि संकाणि ॥ २४ ॥
 (ढाल) ॥ पास मनोरथ पूरा करै, वाहण एक
 वृषभ जोतरै । परिकरथी परियाणों करै, एक
 थल चढ़ि बीजो उतरै ॥ २५ ॥ वारैकोस आव्या
 जेतलै, प्रतिमा नवि चालै तेतलै । गोठी मन्ह

विमासण थई, पास भुवन मंडावुं सही ॥ २६ ॥
 आ अटवी किम करूँ प्रयाण, कटको कोइ न
 दीसै पाहाण । देवल पास जिनेसर तणो, मं-
 डावुं किम गरथे विणो ॥ २७ ॥ जल विन श्री-
 संघ रहस्यै किहां, सिलावटो किम आवे इहां ।
 चिन्तातुर थयो निद्रा लहै, यचराज आवीने
 कहैं ॥ २८ ॥ गुंहली ऊपर नाणो जिहां, गरथ
 घणो जाणीजे तिहां । स्वस्तिक सोपारीने ठाणि,
 पाहण तणी उल्लटस्यै खाणि ॥ २९ ॥ श्रीफल
 सजल तिहां किल जूओ, अमृत जलनी सरसी
 कूओ । खारा कुवा तणो इह सैनाण, भूमि
 पड्यो छैं नीलो छाण ॥ ३० ॥ सिलावटो सी-
 रोही वसै कोड पराभवियो किसमिसे । तिहां
 थकी तुं इहां आणजे, सत्य वचन माहरो मान-
 गे ॥ ३१ ॥ गोठीनो मन थिर थापियो, सिला-
 वटने सुहणो दियो । रोग गमीने पूरूँ आस,
 पास तणो मंडे आवास ॥ ३२ ॥ सुपन मांहे

मान्यो ते वैण, हेम वरण देखाड्यो नैण । गोठी
मनह मनोरथ हुआ, सिलावटने गया तेडवा
॥ ३३ ॥ सिलावटो आवै सूरमो, जिमें खीर
खाँड घृत चामो । घडें घाट करै कोरणी,
लगन भलै पाया रोपणी ॥ ३४ ॥ थंभ २
कीधी पूतली, नाटक कौतुक करती रली ।
रङ्ग मंडप रलियामणों रसै, जोतां मानवनों
मन बसै ॥ ३५ ॥ नोपायो पूरो प्रासाद, स्वर्ग
समो मांडे आवास । दिवस विचारी इंडो घड्यो
ततखिण देवल ऊपर चढ्यो ॥ ३६ ॥ शुभ लगन
शुभ वेला वास, पव्वासण बेटा श्रीपास । सहि-
मा मोटी मेरु समान, एकलमिल वगडे रहैवान
॥ ३७ ॥ वात पुराणी में सांभली, तवन मांहि
सूधो सांकली । गोठी तणा गोतरिया अछै,
यात्रा करीने परने पछे ॥ ३८ ॥ (दोहा) ॥
विघन विडारन यत्त जगि, तेहनो अकल स-
रूप । प्रीत करे श्रीसङ्गने, देखाडै निज रूप

॥ ३६ ॥ गरुओ गौडी पास जिन, आपे अरथ
भंडार । सांनिध करै श्री सङ्गने, आसा पूरणहार

॥ ४० ॥ नील पलाणै नील हय, नीलो थई
असवार । मारग चूका मानवी, वाट दिखावण

हार ॥ ४१ ॥ (ढाल) वरण अढार तणो लहै
भोग, विघन निवारे टालै रोग । पवित्र थई
समरै जे जाप, टालै सगला पाप संताप ॥४२॥

निरधननो घरि धन नो सुत, आपै अपुत्रीयाने
पुत्र । कायरने सूरापण धरै, पार उत्तारै लच्छी

वरै ॥ ४३ ॥ दोभागीने दे सोभाग; पग विहू-
णाने आपै पग । ठाम नहीं तेहने थै ठाम,

मनवंछित पूरै अभिराम ॥ ४४ ॥ निराधार ने
थे आधार, भवसायर उतारे पार । आरतियानी

आरत भंग, धरै ध्यान ते लहै सुरंग ॥ ४५ ॥
समस्यां सहाय दीयै यक्ष राज, तेहना मोटा

अछै दिवाज । बुद्धि हीण ने बुद्धि प्रकाश,
गूंगाने वचन विलास ॥ ४६ ॥ दुखियाने सुख-

नो दातार, भय भंजण रंजण अवतार । बंधन
तूटे वेणी तणा, श्री पार्श्व नाम अक्षर स्मरणा
॥ ४७ ॥ (दूहा) श्री पार्श्वनाम अक्षर जपे,
विश्वानर विकराल । हस्त जूथ दूरे टलै, दुद्धर
सिह सियाल ॥ ४८ ॥ चोर तणा भय चूकवे,
विष अमृत उडकार । विष धरनो विष उत्तरे,
संग्रामें जय जय कार ॥ ४९ ॥ रोग सोग दा-
लिद्र दुख, दोहग दूर पलाय । परमेसर श्री
पासनो, महिमा मन्त्र जपाय ॥ ५० ॥ (कड-
खानी चाल) उंजितु २ उंज उपसम धरी, ॐ
ह्रीं श्रीं श्री पार्श्व अक्षर जपंते । भूत ने प्रेत
भोटिंग व्यन्तर सुरा, उपसमे वार इकवीस
गुणंते (उं) ॥ ५१ ॥ दुद्धरा रोग सोगा जरा
जंतने, ताव एकान्तरा दुत्तपंते । गर्भवन्धन व्रणं
सर्प विच्छू विषं, चालिका बालमेवा भखंतै
(उं०) ॥ ५२ ॥ साइणी डाइणी रोहिणी रंक-
णी, फोटका मोटका दोष हुंते । दाढ उंदर-

तणी कोल नोला तणी, खान सीयाल विकराल
 दंते ॥ ५३ ॥ (उं०) धरणेंद्र पद्मावती समर
 सोभावती, वाट आघाट अटवी अटंतै । लखमी
 लोदुं मिलै सुजस वेला उलै, सयल आस्या
 फलै मन हसंतै (उं०) ॥ ५४ ॥ अष्ट महाभय
 हरें कानपीडा टलै, उतरै सूल सीसग भणंते ।
 वदत वर प्रीतसुं प्रीतिविमल प्रभू, श्री पास
 जिण नाम अभिराम मन्तै (उंजितु) ॥ ५५ ॥
 इति श्रीगोडी पार्श्वनाथजी वृद्ध स्तवनं समाप्तम्

॥ श्री गौतम स्वामिजी का रास ॥

॥ वीर जिणोसर चरण कमल, कमला कय
 वासो; पणमिवि पभणिसुं सामीसाल, गोयम
 गुरु रासो । मण तणु वयण एकंत करिवि,
 निसुणहु भो भविया; जिम निवसे तुम देह
 गेह गुण गण गहगहिया ॥ १ ॥ जंबूदीव सिरि

भरह खित्त, खोणी तल मंडण; मगह देस
 सेणिय नरेश, रिऊ दल बल खंडण । धणवर
 गुठवर गाम नाम, जिहां गुण गण सज्जा; विष्प
 बसे वसुभूइ तत्थ, तसु पुहवी भज्जा ॥ २ ॥
 ताण पुत्त सिरि इन्दभूइ, भूवल्लय पसिद्धो;
 चाउदह विज्जा विविह रूव, नारी रस लुद्धो ।
 विनय विवेक विचार सार, गुण गणह मनोहर;
 सात हाथ सुप्रमाण देह, रूवहि रंभावर ॥ ३ ॥
 नयण वयण कर चरण जणवि, पंकज जल
 पाडिय; तेजहिं तारा चन्द सूरि, आकास भमा-
 डिय । रूवहि मयण अनंग करवि, मेल्ल्यो
 निरधाडिय, धोरम मेरु गंभीर सिंधु, चंगम चय
 चाडिय ॥४॥ पेक्खवि निरुवम रूव जास, जण
 जंपे किंचिय; एकाकी किल भोत्त इत्थ, गुण
 मेल्ल्या सिंजिय । अहवा निच्चय पुव्व जम्म,
 जिणवर इण अंचिय; रंभा पउमा गउरी गङ्ग,
 तिहां विधि वंचिय ॥५॥ नय बुध नय गुरु कविण

कोय, जसु आगल रहियो; पंच सयां गुण पात्र
 छात्र, हींडे परवरियो । करय निरंतर यज्ञ करम,
 मिथ्यामति मोहिय; अणचल होसे चरम नाण,
 दंसणह विसोहिय ॥ ६ ॥ वस्तु ॥ जंबूदीव
 जंबूदीव भरह वासंमि, खोणीतल मंडण, मगह
 देस सेणिय नरेसर, वर गुब्बर गाम तिहां, विप्प
 वसे वसुभूइ सुन्दर, तसु पुहवि भज्जा, सयल गुण
 गण रूव निहाण, ताण पुत्त विज्जानिलो, गोयम
 अतिहि सुजान ॥ ७ ॥ भास ॥ चरम जिणोसर
 केवलनाणी, चोविह संघ पइट्ठा जाणी । पावापुर
 सामी संपत्तो, चउविह देव निकायहिं जुत्तो । दा
 देवहि समवसरण तिहां कीजें, जिण दीठे
 मिथ्यामत छीजे । त्रिभुवन गुरु सिंहासन बेठा,
 ततखिण मोह दिगंत पइट्ठा ॥ ८ ॥ क्रोध मान
 माया मद पूरा, जाये नाठा जिम दिन चोरा ।
 देव दुंदुभि आगासे वाजी, धरम नरेसर आव्यो
 गाजी ॥ १० ॥ कुसुम वृष्टि अरचे तिहां देवा,

चउसठ इंद्रज मागे सेवा । चामर छत्र सिरोवरि
सोहे, रूवहि जिनवरजग सहु मोहे ॥ ११ ॥
उपसम रसभर वर वरसंता; जोजन वाणि व-
खाण करंता । जाणिवि वर्द्धमान जिण पाया,
सुर नर किन्नर आवइ राया ॥१२॥ कंत समो-
हिय जलहलकंता, गयण विंमाणहि रणरणकंता ।
पेक्खवि इन्दभूइ मन चिंते, सुर आवे अम यज्ञ
हुवंते ॥ १३ ॥ तीर तरंडक जिम ते वहिता,
समवसरण पुहता गहगहिता । तो अभिमाने
गोयमजंपे, इण अवसर कोपें तणु कंपे ॥ १४ ॥
मूढा लोक अजाणयुं बोले, सुर जाणंता इम
कांड डोले । मो आगल कोइ जाण भणीजें,
मेरु अवर किम उपमा दीजें ॥१५॥ वस्तु ॥ वीर
जिणवर वीर जिणवर नाण संपन्न पावापुर
सुरमहिय, पत्त नाह संसारतारण, तिहिं देवइ
निम्महिय, समवसरण बहु सुख कारण, जिण-
वर जग उज्जोय करै, तेजहि कर दिनकार

सिंहासण सामी ठव्यो, हुओ तो जय जयकार
 ॥ १६ ॥ भास ॥ तो चढियो घणमाण गजे,
 इन्द्रभूइ भूयदेव तो, हुंकारो कर संचरिय, कव-
 णसु जिणवरदेव तो । जोजन भूमि समोसरण,
 पेक्खवि प्रथमारंभ तो, दह दिस देखे विबुध
 वधू, आवंती सुररंभ तो ॥ १७ ॥ मणिमय
 तोरण दंभ ध्वज, कोसीसे नवघाट तो, वडर
 विवर्जित जंतुगण, प्रातीहारिज आठ तो । सुर
 नर किन्नर असुरवर, इंद्र इंद्राणी राय तो,
 चित्त चमकिय चिंतवए, सेवताँ प्रभु पाय तो
 ॥ १८ ॥ सहसकिरण सामी वीरजिण, पेखिअ
 रूप विसाल तो; एह असंभव संभव ए, साचो
 ए इंद्रजाल तो । तो बोलावइ त्रिजग गुरु, इंद्रभूइ
 नामेण तो; श्रीमुख संसय सामी सबे, फेडे वेद
 पएण तो ॥ १९ ॥ मान मेल मद ठेल करे, भग-
 तिहिं नाम्यो सीस तो, पंच सयांसुं व्रत लियो
 ए, गोयम पहिलो सीस तो । वंधव संजम सु-

जृंभक देव तिहां प्रतिबोध्यो पुडरीक, कंडरिक
 अध्ययन भणी । वलता गोयम सामि, सवि
 तापस प्रतिबोध करे, लेई आपण साथ, चाले
 जिम जूथाधिपति ॥२८॥ खीर खांड घृत आण,
 अमिय वूठ अंगूठ ठवे, गोयम एकरा पात्र,
 करावे पारणो सवे । पंच सयां शुभ भाव, उज्जल
 भरियो खीर मिसे, साचा गुरु संयोग, कवल ते
 केवल रूप हुआ ॥ २९ ॥ पञ्च सयां जिणनाह,
 समवसरण प्रकारत्रय, पेखवि केवल नाण, उप्पन्नो
 उज्जोय करे । जाणे जणवि पीयूष, गाजंती
 घन मेघ जिम, जिनवाणी निसुणेवि, नाणी
 हुआ पंचसया ॥ ३० ॥ वस्तु ॥ इण अनुक्रम
 इण अनुक्रम नाण पन्नरेसे, उप्पन्न परिवरिय,
 हरिदुरिय जिणनाह वंदइ, जाणेवि जगगुरु वयण,
 तिहि नाण अप्पाण निंदइ । चरम जिनेसर
 इम भणे, गोयम म करिस खेव, छेह जाय
 आपण सही, होस्यां तुल्ला वेव ॥३१॥ भास ॥

हुंत, गोयम दीजें दान इम । गुरु ऊपर गुरु
 भक्ति, सामी गोयम उपनिय; एणिल्ल केवल
 नाण,, रागज राखे रंग भरे ॥ २४ ॥ जो अष्टा-
 पद सेल, वंदे चढ चउवीस जिण, आतम लब्धि
 वसेण, चरम सरीरी सो ज मुनि । इय देसणा
 निसुणोह, गोयम गणहर संचरिय, तापस पन्नर
 सएण, तो मुनि दोठो आवतो ए ॥ २५ ॥ तप
 सोसिय निय अंग-अम्हां संगति न उपजे ए,
 किम चढसे दृढ काय, गज जिम दीसे गाजतो
 ए । गिरुओ ए अभिमान, तापस जो मन
 चिंतवे ए, तो मुनि चढियो वेग, अलंबवि दिन-
 कर किरण ॥ २६ ॥ कंचण मणि निप्फन्न, दं-
 डकलस ध्वजवड सहिय, पेखवि परमाणन्द,
 जिणहर भरतेसर महिय । निय निय काय
 प्रमाण, चिहुं दिसि संठिय जिणह बिंब,
 पणमवि मन उल्लास, गोयम गणहर तिहां
 वसिय ॥ २७ ॥ वयर-सामीनो जीव, तिर्यक्

जुंभक देव तिहां प्रतिबोच्यो पुडरीक, कंडरिक
 अध्ययन भणी । वलता गोयम सामि, सवि
 तापस प्रतिबोध करे, लेई आपण साथ, चाले
 जिम जूथाधिपति ॥२८॥ खीर खांड घृत आण,
 अमिय वूठ अंगूठ ठवे, गोयम एकाण पात्र,
 करावे पारणो सवे । पंच सयां शुभ भाव, उज्जल
 भरियो खीर मिसे, साचा गुरुसंयोग, कवल ते
 केवल रूप हुआ ॥ २९ ॥ पञ्च सयां जिणनाह,
 समवसरण प्रकारत्रय, पेलवि केवल नाण, उप्पन्नो
 उज्जोय करे । जाणे जणवि पीयूष, गाजंती
 घन मेघ जिम, जिनवाणी निसुणेवि, नाणो
 हुआ पंचसया ॥ ३० ॥ वस्तु ॥ इण अनुक्रम
 इण अनुक्रम नाण पन्नरेसे, उप्पन्न परिवरिय,
 हरिदुरिय जिणनाह वंदइ, जाणेवि जगगुरु वयण,
 तिहि नाण अप्पाण निंदइ । चरम जिनेसर
 इम भणे, गोयम म करिस खेव, छेह जाय
 आपण सही, होस्यां तुल्ला वेव ॥३१॥ भास ॥

समियो ए वीर जिणन्द, पूनमचन्द जिम उल्ल-
 सिय, विहरियो ए भरहवासम्मि, वरस बहुत्तर
 संवसिय । ठवतो ए कणय पउमेण, पाय
 कमल संघे सहिय, आवियो ए नयणानंद, नयर
 पावापुर सुरमहिय ॥ ३२ ॥ पेसियो ए गोयम
 सामि, देवसमा प्रतिबोध करे; आपणो ए तिस-
 ला देवि, नंदन पुहतो परमपए । वलतो ए
 देव आकाश, पेखवि जाणयो जिण समो ए,
 तो मुनि ए मन विखवाद, नाद भेद जिम
 ऊपनो ए ॥ ३३ ॥ इण समे ए सामिय देखि,
 आप कनासुं टालियो ए, जाणतो ए तिहुअण
 नाह, लोक विवहार न पालियो ए । अतिभलो
 ए कीधलो सामि, जाणयो केवल मागसे ए,
 चिन्तव्यो ए बालक जेम, अहवा केडे लागसे
 ए ॥ ३४ ॥ हूं किम ए वीर जिणंद, भगतिहि
 भोलेभोलव्यो ए, आपणो ए उचलो नेह, नाह न
 संपे साचव्यो ए । साचो ए वीतराग, नेह न

हेजेंलालियो ए तिणसमे ए, गोयमचित्त, राग
 वैरागे वालियो ए ॥३५॥ आवतो ए जो उल्लट,
 रहितो रागे साहियो ए, केवल ए नाण उप्पन्न,
 गोयम सहिज ऊमाहियो ए। तिहुअण ए जय
 जयकार, केवल महिमा सुर करे ए, गणधरु ए
 करय बखाण, भविया भव जिम निस्तरे ए
 ॥ ३६ ॥ वस्तु ॥ पढम गणहर पढम गणहर
 बरस पच्चास, गिहवासें संवसिय, तीस बरस
 संजम विभूसिय, सिरि केवल नाण पुण, बार
 बरस तिहुअण नमंसिय, राजगृही नयरो ठव्यो
 बाणवइ बरसाउ, सामी गोयम गुणनिलो, होसे
 सिवपुर ठाउ ॥ ३७ ॥ भास ॥ जिम सहकारे
 कोयल टहुके, जिम कुसुमावन परिमल
 महके, जिम चन्दन सोगंध निधि । जिम
 गंगाजल लहिस्या लहके, जिम कणयाचल
 तेजे भलके, तिम गोयम सोभाग निधि ॥ ३८॥
 जिम मान सरोवर निवसे हंसा, जिम सुरतरु

वर कणाय वतंसा, जिम महुयर राजीव वनें, ।
 जिम रयणायर रयणें विलसे, जिम अंवर तारा-
 गण विकसे, तिम गोयम गुरुकेवल घनें ॥३६॥
 पूनम निसि जिम ससियर सांहे, सुर तरु महिमा
 जिम जग मोहे, पूरव दिस जिम सहसकरो ।
 पञ्चानने जिम गिरिवर राजे, नरवई घरजिम
 मथगल गाजे, तिम जिन सासन मुनि पवरो
 ॥ ४० ॥ जिम गुरु तरुवर सोहे साखा. जिम
 उत्तम मुख मधुरी भाषा, जिम वन केतकि
 महमहे ए । जिम भूमोपति भुयवल चमके,
 जिम जिन मन्दिर घण्टा रणके, गोयम
 लब्धे गहगह्यो ए ॥ ४१ ॥ चिन्तामणि कर
 चढीयो आज, सुर तरु सारे वंछिय काज, का-
 मकुम्भ सहु वशि हुआ ए । कामगत्री पूरे मन
 कामी, अष्ट महासिद्धि आवे धामी, सामी
 गोयम अणुसरि ए ॥ ४२ ॥ पणवक्खर पहिलो
 पभणीजे, माया वीजो श्रवण सुणीजे, श्रीमिति

सोभा संभवाए । देवां धुर अरहित नमीजे,
 *विनय पहु उवभाय थुणीजे, इण मन्त्रे गोयम
 नामो ए ॥ ४३ ॥ पर घर वसतां काय करीजे,
 देस देसांतर काय भमीजे, कवण काज आयास
 करो । प्रह ऊठी गोयम समरीजे, काज सम-
 गल ततखिण सीजे, नव निधि विलसे तिहां
 परे ए ॥४४॥ चवदय सय वारोत्तर वरसे गोयम
 गणहर केवल दिवसे, कियो कवित्त उपगार परो ।
 आदिहिं मंगल ए पभणीजे, परच महोच्छव
 पहिलो दीजे, रिद्धि वृद्धि कल्याण करो ॥४५॥
 धन माता जिण उयरे धरियो, धन्य पिता जिण
 कुल अवतरियो, धन्य सुगुरु जिण दीखियो ए ।
 विनयवंत विद्या भण्डार, तसु गुण पुहवी न
 लब्भइ पार, वड जिम साखा विस्तरो ए ।
 गोयम सामी रास भणजे, चउविहसंध रलिया-

* यह श्री विनयप्रम उपाध्या जी श्री जिन कुशल सूरि-
 जी के जिनका स्वर्गवास विसं० १३८२ में हुआ था, शिष्य थे ।

यत कीजें, रिद्धि वृद्धि कल्याण करो ॥ ४६ ॥
 कुंकुम चंदन ऊडा दिवरावो, माणक मोतीना
 चौक पुरावो, रयण सिंहासण वेसणो ए । तिहां
 वेसी गुरु देसना देसी, भविक जीवना काज
 सरेसी, नित नित मङ्गल उदय करो ॥ ४७ ॥

इति श्री गौतमस्वामि-रास सम्पूर्णा ।

॥ अथ वृद्धनवकार ॥

॥ किं कप्पत्तरु अयाण चिंतउ मणभितरिं,
 किं चिंतामणि कामधेनु आराहो बहुपरि ॥
 चित्तावेली काज किसे देसांतर लंघउ, रयणरा-
 सि कारण किसे सायर उल्लंघउ ॥ चवदे पूरब
 सार युग लद्धउ ए नवकार, सयल काज महि-
 यल सरे दुत्तर तरे संसार ॥ १ ॥ केवलि भा-
 सिय रीत जिके नवकार आरा है, भोगवि सुखल
 अणंत अंत परम प्ययसा है ॥ इण भाणे सुर
 रिद्धि पुत्त सुह विलसै बहु परि, इण भाणे देव-

लोक इंदुपद पाने सुंदरि ॥ एह मंत्र सासतो
जपे अचिंत चिंतामणि एह, समरण पाप सबे
टले रिद्धि सिद्धि नियगेह ॥ २ ॥ निय सिर
ऊपर भाण मज्झ चिंतवै कमल नर, कंचणमय
अठदल सहित तिहां मांहे कनकवर ॥ तिहां
वेठा अरिहंतदेव पउमासण फिटकमणि, सेय-
वत्थ पहरेवि पढम पय चिंते नियमणि ॥ निव्वा-
रय चउ गइ गमण पामिय सासय सुक्ख, अ-
रिहंत भाणे तुम लहो जिम अजरामर सुक्ख
॥ ३ ॥ पनर भेय तिहां सिद्ध वीय पद जे
आराहे, राते विद्रुमतणे वन्ननिय सोहग साहे ॥
राती धोती पहर जपै सिद्धहिं पुब्बे दिसि,
सयल लोय तिह नरहि होइ ततखिणसेवसि ॥
मूलमंत्र वशीकरण अवर सहू जगधंद, मणमूलो
ओषध करे बुद्धि हीणजाचंव ॥ ४ ॥ दक्षिण
दिसि पंखडी जपे नमो आयरिआणं, सोवनव-
न्नह सीस सहित उवए सहिनाणं ॥ रिद्ध सिद्ध

कारणो लाभ ऊपर जे ध्यावे, पहरे पीलावत्थ
तेह मन वंछिथ पावै ॥ इण भाणे नव निधि
हुवेण रोग कदे नवि होय, गज रथ हय वर
पालखो चामर छत्त सिर जोय ॥ ५ ॥ नीलवन्न
उवभाय सीस पाढंता पच्छिम, आराहिज्जे अंग
पुव्व धारंत मणोरम ॥ पच्छिम दिस पंखडीय
कमल ऊपर सुहभाण, जोवौ परमानंद तासु
गय देवविमाण ॥ गुरु लघु जे रक्खे विदुर तिहां
नर बहु फल होइ, मन सूधे विण जे जपे तिहां
फल सिद्ध न होइ ॥ ६ ॥ सर्व्व साधु उत्तर
विभाग सामला वड्ढा, जिण धर्म लोय पयास-
यंत चारित्र गुण जिठा ॥ मण वयण काएहिं
जपे जे एके भाणै, पंचवन्न तिहां नाण भाण
गुण एह पमाणे ॥ अनंत चोवीसी जग हुइए
होसी अवर अनंत, आदि कोइ जाणे नही इण
नवकारह मंत ॥ ७ ॥ एसो पंच नमुक्कारो पद
दिसिअ गणेहिं, सब्ब पावप्पणासणो पद जप-

नेरेहिं ॥ वायव दिसि भाएह मंगलाणं च स-
 व्वेसिं, पढमं हवइ मंगलं ईसाण पणसिं ॥ चिहुं
 दिसि चिहुं विदिसे मिलिय अठ दल कमल
 ठवेइ, जो गुरु लघु जाणी जपै सो घण पाव
 खवेइ ॥ ८ ॥ इण प्रभाव धरणिंद हुओ पायालह
 सामी, समलीकुप्रर उपन्न भिल्ल सुर लोयह
 गामी ॥ संबल कंबल वे बलद पहुता देवा क-
 प्पे, सूली दीधो चोर देव थयो नवकारहि
 जप्पे ॥ शिवकुमार मन वंछिय करे जोगी लियो
 मसाण, सोनापुरसो सीधलो इण नवकार प्र-
 माण ॥ ९ ॥ छींके वैठो चोर एक आकासे
 गामी, अहि फिट्टि हुई फूल माल नवकारह
 नामी ॥ वाळरू आचारंत वाल जल नदी प्रवाहे,
 वीध्यों कंटही उयर मंत्र जपियो मनमांहे ॥
 चिंत्या काज सबे सरे इरत परत विमास, पा-
 लित सूरितणी परे विद्या सिद्ध आकास ॥१०॥
 चौर धाड संकंट-टले राजा वसि होवे, तित्थंकर

सो होइ लाख गुण विधिसुं जोवे ॥ साइण
डाइण भूत प्रेत वेत्ताल न पोहवे, आधि व्याधि
ग्रहतणी पीडते किमहि न होवे ॥ कुठ जलोदर
रोग सबे नासै एणही मंत, मयणासुदरितणी
परे नव पय भाण करंत ॥ ११ ॥ एक जीह
इण मंत्रतणा गुण किता बखाणुं, नाणहीण
छऊमच्छ एह गुण पार न जाणुं ॥ जिम सत्तुंजय
तित्थराउ महिमा उदयवंती, सयल मंत्र धुरि
एह मंत्र राजा जयवंतो ॥ तिथ्यंकर गणहर
पणिय चवदह पूरव सार, इण गुण अंत न को
कहे गुण गिरुवो नवकार ॥ १२ ॥ अड संपय
नव पय सहित इणसठ लहु अक्खर, गुरु अ-
क्खर सत्तैव इह जाणो परमक्खर ॥ गुरु जिण
वल्लह सूरि भणे सिव सुक्खह, कारण, नरय
तिरय गय रोग सोग बहु दुक्ख निवारण ॥
जल थल महियल वनगहण समरण हुवै इक
चित्त, पंच परमेष्टि मंत्रह तणी सेवा देज्यो

नित्त ॥ १३ ॥ इति पंच परमेष्टि महिमा गर्भित
वृद्ध नवकार मंत्र सम्पूर्णम् ॥

॥ अथ श्री कल्याणमन्दिर स्तोत्रम् ॥

कल्याणमन्दिरमुदारमवद्यभेदि, भीताभय-
प्रदमनिन्दितमडि घ्रपद्मम् । संसारसागरनिम-
ज्जदशेषजन्तु-पोतायमानमभिनम्य जिनेश्वरस्य
॥ १ ॥ यस्य स्वयं सुरगुरुर्गरिमाम्बुराशेः, स्तोत्रं
सुविस्तृतमतिनं विभुर्वितीर्थेश्वरस्य कमठस्मय-
धूमकेतो-स्तस्याह-मेष किल संस्तवनं करिष्ये
॥ २ ॥ युगम् ॥ सामान्यतोऽपि तव वर्णयितुं
स्वरूप—मस्माद्दृशाः कथमधीश ! भवन्त्यधी-
शाः ? । धृष्टोऽपि कौशिकशिशुर्यदि वा दिवा-
न्धो, रूपं प्ररूपयति किं किल घर्मरश्मेः ? ॥३॥
मोहक्षयादनुभवन्नपि नाथ ! मर्त्यो, नूनं
गुणान् गणयितुं न तव क्षमेत । कल्पान्तवा-
न्तपयसः प्रकटोऽपि यस्मान्-न्मोयेत केन जल-
धेर्ननु रत्नराशिः ? ॥ ४ ॥ अभ्युद्यतोऽस्मि तव

नाथ ! जडाशयोऽपि, कर्तुं स्तवं लसदसंख्यगु-
 णाकरस्य । बालोऽपि किं न निजबाहुयुगं वि-
 तत्य, विस्तीर्णांतां कथयति स्वधियाऽम्बुगशेः ?
 ॥ ५ ॥ ये योगिनामपि न यान्ति गुणास्तवेश !,
 वक्तुं कथं भवति तेषु ममावकाशः ? । जाता
 तदेवमसंमीक्षितकारितेयं, जल्पन्ति वा निज-
 गिरा ननु पक्षिणोऽपि ॥ ६ ॥ आस्तामचिन्त्य-
 महिमा जिन ! संस्तवस्ते, नामापि पाति भवतो
 भवतो जगन्ति । तीव्रातपोपहतपान्थजनान्नि-
 दाघे, प्रीणाति पद्मसरसः सरसोऽनिलोऽपि ॥७॥
 हृद्वर्त्तिनित्वयि विभो ! शिथिलोभवन्ति, जन्तोः
 क्षणेन निविडा अपि कर्मबन्धाः । सद्यो भुजङ्गम-
 मया इव मध्यभाग—मभ्यागते वनशिखरिडनि
 चन्दनस्य ॥ ८ ॥ मुच्यन्त एव मनुजाः सहसा
 जिनेन्द्र !, रौद्रैरुपद्रवशतैस्त्वयि वीक्षितेऽपि ।
 गोस्वामिनि स्फुरिततेजसि दृष्टमात्रे, चौरैरि-
 वाशु पशवः प्रपलायमानैः ॥ ९ ॥ त्वं तारको

जिन ! कथं भविनां ? त एव, त्वामुद्धहन्ति हृ-
दयेन यदुत्तरन्तः । यद्वा दृतिस्तरति यज्जलमेष
नून-मन्तर्गतस्य मरुतः स किलानुभावः ॥१०॥
यस्मिन् हरप्रभृतयोऽपि हतप्रभावाः, सोऽपि
त्वया रतिपतिः क्षपितः क्षणेन । विध्यापिता
हुतभुजः पयसाऽथ येन, पीतं न किं तदपि
दुर्द्धरवाडवेन ? ॥ ११ ॥ स्वामिन्ननल्पगरिमा-
णमपि प्रपन्ना-स्त्वां जन्तवः कथमहो हृदये
दधानाः । जन्मोदधिं लघु तरन्त्यतिलाघवेन ?,
चिन्त्यो न हन्त महतां यदि वा प्रभावः ॥ १२ ॥
क्रोधस्त्वया यदि विभो ! प्रथमं निरस्तो, ध्व-
स्तास्तदा वत कथं किल कर्मचौराः ? । प्लोष-
त्यमुत्र यदि वा शिशिराऽपि लोके, नीलद्रुमाणि
विपिनानि न किं हिमानी ? ॥ १३ ॥ त्वां
योगिनो जिन ! सदा परमात्मरूप-मन्वेषयन्ति
हृदयाम्बुजकोशदेशे । पूतस्य निर्मलरुचेर्यदिवा
किसन्य-दक्षस्य संभवि पदं ननु कर्णिकायाः ?

॥१४॥ ध्यानाज्जिनेश ! भवतो भविनः क्षणेन,
 देहं विहाय परमात्मदशां व्रजन्ति । तीव्रानला-
 दुपलभावमपास्य लोके, चामीकरत्वमचिरादिव
 धातुभेदाः ॥ १५ ॥ अन्तः सदैव जिन ! यस्य
 विभाव्यसे त्वं, भव्यैः कथं तदपि नाशयसे
 शरीरम् ? । एतत्स्वरूपमथ मध्यविवर्त्तिनो हि,
 यद्विग्रहं प्रशमयन्ति महानुभावाः ॥ १६ ॥ आ-
 त्मा मनीषिभिरयं त्वदभेदबुध्या, ध्यातो जिनेन्द्र !
 भवतीय भवत्प्रभावः । पानीयमप्यमृतमित्यनु-
 चिन्त्यमानं, किं नाम नो विषविकारमपाकरो-
 ति ? ॥१७॥ त्वामेव वीततमसं परवादिनोऽपि,
 नूनं विभो ! हरिहरादिधिया प्रपन्नाः । किं का-
 चकामलिभिरीश ! सितोऽपि शङ्खो, नो गृहते ?
 विविधवर्णविपर्ययेण ॥ १८ ॥ धर्मोपदेशसमये
 सविधानुभावा-दास्तां जनो भवति ते तरुरप्य-
 शोकः । अभ्युद्गते दिनपतौ समहीरुहोऽपि, किं
 वा विवोधमुपयाति न जीवलोकः ? ॥ १९ ॥

चित्रं विभो ! कथमवाङ्मुखवृन्तमेव, विष्वक्-
 पतत्यविरला सुरपुष्पवृष्टिः ? । त्वद्गोचरे सुमनसां
 यदि वा मुनोश्च !, गच्छन्ति नूनमथ एव हि
 बन्धनानि ॥ २० ॥ स्थाने गभीरहृदयोदधिसं-
 भवायाः, पीयूषतां तव गिरः समुदीरयन्ति ।
 पीत्वा यतः परमसंमदसङ्घभाजो, भव्या व्रज-
 न्ति तरसाऽप्यजरामरत्वम् ॥ २१ ॥ स्वामिन् !
 सुदूरमवनम्य समुत्पतन्तो, मन्ये वदन्ति शुचयः
 सुरचामरौघाः । येऽस्मै नतिं विदधते मुनिपुङ्ग-
 वाय, ते नूनमूर्ध्वगतयः खलु शुद्धभावाः ॥२२॥
 श्यामं गभीरगिरमुज्ज्वलहेमरत्न---सिंहासनस्थ-
 मिह भव्यशिखण्डिनस्त्वाम् । आलोकयन्ति
 रभसेन नदन्तमुच्चै—श्रामीकराद्रिसिरसीव
 नत्रांबुवाहम् ॥ २३ ॥ उद्गच्छता तव शितियु-
 तिमण्डलेन, लुप्तच्छदच्छविरशोकतरुर्बभूव ।
 सानिध्यतोऽपि यदि वा तव वीतराग !, नीरा-
 गतां व्रजति को न सचेतनोऽपि ? ॥ २४ ॥ भो

भोः प्रमादमवधूय भजध्वमेन—मागत्य निर्वृ-
तिपुरीं प्रति सार्थवाहम् । एतन्निवेदयति देव !
जगत्त्रयाय, मन्ये नदन्नभिनभः सुरदुन्दुभिस्ते
॥ २५ ॥ उद्योतितेषु भवता भुवनेषु नाथ !,
तारान्वितो विधुरयं विहताधिकारः । मुक्ताक-
लापकलितोच्छ्वसितातपत्र—व्याजात्त्रिधा धृत-
तनुर्ध्रुवमभ्युपेतः ॥ २६ ॥ स्वेन प्रपूरितजगत्त्रय-
पिण्डतेन, कान्तिप्रतापयशसामिव सञ्चयेन ।
माणिक्यहेमरजतप्रविनिर्मितेन, सालत्रयेण भ-
गवन्नभितोविभासि ॥२७॥ दिव्यसृजो जिन !
नमन्त्रिदशाधिपाना—मुत्सृज्य रत्नरचितानपि
मौलिवन्धान् । पादौ श्रयन्ति भवतो यदि वा
परत्र, त्वत्संगमे सुमनसो न रमन्त एव ॥२८॥
त्वं नाथ ! जन्मजलधेर्विपराड् मुखोऽपि, यत्ता-
रयस्यसुमतो निजपृष्ठलग्नान् । युक्तं हि पार्थि-
वनिपस्य सतस्तवैव, चित्रं विभो ! यदसि
कर्मविपाकशून्यः ॥ २९ ॥ विश्वेश्वरोऽपि जन-

पालक ! दुर्गतस्त्वं, किंवाऽक्षरप्रकृतिरप्यलिपि-
स्त्वमीश !। अज्ञानवत्यपि सदैव कथञ्चिदेव
ज्ञानं त्वयि स्फुरति विश्वविकाशहेतुः ॥ ३० ॥
प्राग्भारसंभृतनभांसि रजांसि रोषा—दुत्थापि-
तानि कमठेन शठेन यानि । छायाऽपि तैस्तव
न नाथ ! हता हताशो, ग्रस्तस्त्वमीभिरयमेव
परं दुरात्मा ॥ ३१ ॥ यद्गज्जर्जदूर्जितघनौघम-
दध्रभीमं, भ्रश्यत्तडिन्मुसलमांसलघोरधारम्
दैत्येन मुक्तमथ दुस्तरवारि दध्ने, ते नैव तस्य
जिन ! दुस्तरवारिकृत्यम् ॥ ३२ ॥ ध्वस्तोर्ध्वके
शविकृताकृतिमर्त्यमुण्ड—प्रालम्बभृद्भयद्वक्र-
विनिर्यदग्निः । प्रेतव्रजः प्रति भवन्तमपीरिते
यः, सोऽस्याभवत्प्रतिभवं भवदुःखहेतुः ॥ ३३ ॥
धन्यास्त एव भुवनाधिप ! ये त्रिसन्ध्य—मारा
धयन्ति विधिवद्विधुतान्यकृत्याः । भक्त्योल्लसत्पु-
लकपद्मलदेहदेशाः, पादद्वयं तव विभो ! भुक्ति
जन्मभाजः ॥ ३४ ॥ अस्मिन्नपारभववारिनिधे

लघुजिनसहस्रनाम स्तोत्रम् ।

नमस्त्रिलोकनाथाय, सर्वज्ञाय महात्मने ॥
 वक्षे तस्यैव नामानि, मोक्षसौख्याभिलाषया
 ॥ १ ॥ निर्मलः साश्वतोशुद्धः, निर्विकल्पो
 निरामयः । निःशरीरी निरातंकः, सिद्धसूक्ष्मो
 निरंजनः ॥ २ ॥ निष्कलंको निरालंबो, निर्मोहो
 निर्मलोत्तमः । निर्भयो निरहंकारो, निर्विका-
 रोथ निष्क्रियः ॥ ३ ॥ निर्दोषो निरुजः शान्तः,
 निर्भयो निर्ममः शिवः । निस्तरंगो निराकारो,
 निष्कर्मो निष्कलप्रभुः ॥ ४ ॥ निर्वादो निरुप-
 मज्ञान, निरागो निरघो जिनः । निःशब्द प्रति-
 मश्लेष्ठ, उत्कृष्टो जन-गोचरः ॥ ५ ॥ निःसंगात्
 प्राप्तकैवल्यो, नैष्टिकः शब्दवर्जितः । अनिद्यो
 महपूतात्मा, जगत् शिखरशेखरः ॥ ६ ॥ निःशब्दो
 गुणसंपन्नाः, पाप-ताप-प्रणाशनः । सोपि योगात्
 शुभं प्राप्तः, कर्मद्योतिवलावहः ॥ ७ ॥ अजरो
 अमरः सिद्ध, अर्चितः अक्षयो विभुः । अमुक्तः

अच्युतो ब्रह्म, त्रिष्णारीशः प्रजापतिः ॥ ८ ॥
 अनिन्द्यो विश्वनाथश्च, अजो अनुपमो भवः ।
 अप्रमेयो जगन्नाथः, बोधरूपो जिनात्मकः ॥ ९ ॥
 अव्ययसकलाराध्यो, निष्पन्नो ज्ञान लोचनः ।
 अल्लेद्यो निर्मलो नित्यः, सर्वशल्यविवर्जितः ॥ १० ॥
 अजेयसर्वतोभद्रः, निष्कषायो भवांतकः ।
 विश्वनाथः स्वयंबुद्धः, वीतरागो जिनेश्वरः ॥ ११ ॥
 अंतको सहजानंद, अवाङ्मानसं गोचरः ।
 असाध्यशुद्धचैतन्यः, कर्मणोकर्मवर्जितः ॥ १२ ॥
 अनंत विमलज्ञानी, स्पृहीश्च निष्प्रकाशकः ।
 कर्मार्जितो महात्मानः, लोकत्रयशिरोमणिः
 ॥ १३ ॥ अव्यावाधो वरः शंभु, विश्ववेदो पिता-
 महः । सर्वभूतहितो देव । सर्वलोकशरण्यकः
 ॥ १४ ॥ आनन्दरूपचैतन्यो, भगवांस्त्रिजगद्गुरुः ।
 अनंतानंतधीशक्तिः, सत्यव्यक्तव्ययात्मकः
 ॥ १५ ॥ अष्टकर्मविनिर्मुक्तः, सप्तधातुविव-
 र्जितः । गौरवादित्रयादूरः सर्वज्ञानादि संयुतः

॥ १६ ॥ अभयाः प्राप्तकैवल्यः, निर्माणो निर-
 पेक्षकः । निष्कलं केवलज्ञानी, मुक्तिसौख्यप्र-
 दायकः ॥ १७ ॥ अनामयो महाराध्यो, वरदो
 ज्ञानपावकः । सर्वेशः सतसुखावासः, जिनेन्द्रो
 मुनिसंस्तुतः ॥ १८ ॥ अन्यूनपरम ज्ञानी, विश्व-
 तत्व प्रकाशकः प्रबुद्धो भगवान्नाथः, प्रस्तुतः
 पुण्य कारकः ॥ १९ ॥ शंकरः सुगतो रौद्रः,
 सर्वज्ञो मदनांतकः । ईश्वरो भुवनाधीशः,
 सच्चित्तः पुरुषोत्तमः ॥ २० ॥ सदोजातमहात्मानं,
 विसुक्तो मुक्तिवल्लभः । योगीन्द्रो नादिसंसिद्धः,
 निरीहो ज्ञानगोचरः ॥ २१ ॥ सदाशिवां चतुर्वक्रः,
 सत्सौख्यस्त्रिपुरांतकः । त्रिनेत्रः त्रिजगत्पूज्यः,
 कल्याणकोष्टमूर्तिकः ॥ २२ ॥ सर्वसाधुजनैर्वन्द्यः,
 सर्वपापविवर्जितः । सर्वदेवाधिको देवः, सर्व-
 भूतहितंकरः ॥ २३ ॥ स्वयंविद्यो महात्मानं,
 प्रसिद्धः पापनाशनः । तनुमात्रचिदानंद, चै-
 तन्यश्चैत्यवैभवः ॥ २४ ॥ सकलातिशयो देव ।

मुक्तिस्थो महतांमहः । मुक्तिकार्याय संतुष्टो,
 निरागः परमेश्वरः ॥ २५ ॥ महादेवो महावीरो,
 महामोहविनाशकः । महाभावो महादर्शः, म
 हामुक्तिप्रदायकः ॥ २६ ॥ महाज्ञानी महायोगी ।
 महातपो महात्मकः । महर्द्धिको महावीर्यो,
 महान्तिकपदस्थितः ॥ २७ ॥ महा पूज्यो महा-
 वन्द्यो, महाविघ्नविनाशकः । महासौख्यो महा-
 पुंसो । महामहिम अच्युतः ॥ २८ ॥ मुक्ता-
 मुक्तिजसं बोधः, एकानेकविनिश्चलः । सर्व-
 बंधविनिर्मुक्तो, सर्वलोकप्रधानकः ॥ २९ ॥
 महाशूरो महाधीरो, महादुःखविनाशकः ।
 महामुक्तिप्रदो धीरो, महाहृद्यो महागुरुः ॥ ३० ॥
 निर्मारमारो विद्धंसो, निष्कामो विषयाच्युतः ।
 भगवंतामहाभ्रान्तो, शान्तिकल्याणकारकः ॥ ३१ ॥
 परमात्मा परंज्योतिः, परमेष्ठी परमेश्वरः ॥
 परमात्मा परानन्द, परंपरमआत्मकः ॥ ३२ ॥
 प्रस्तुतानंतविज्ञानी, सख्यानिर्वाणसंयुतः । ना

कृतिं नाक्षरो वर्णी, व्योमरूपो जितात्मकः ॥३३॥
 व्यक्ताव्यक्त जसंबोधः, संसारछेदकारणः ।
 निरवद्यो महाराध्यः, कर्मजित् धर्मनायकः
 ॥ ३४ ॥ बोधसत्सु जगद्वन्द्यो, विश्वात्मा नर-
 कांतकः । स्वयंभूपापहृत्पूज्यः, पुनीतो विभवः
 स्तुतः ॥ ३५ ॥ वर्णातीतो महातीतः, रूपा-
 तीतो निरंजनः । अनंतज्ञानसंपूर्णो, देवदेवेश
 नायकः ॥ ३६ ॥ वरेण्यो भवविध्वंसी, योगिनां
 ज्ञानगोचरः ॥ जन्ममृत्युजरातीतः, सवविघ्न-
 हरो हरः ॥ ३७ ॥ विश्वदृक् भव्यसंबन्धः,
 पवित्रो गुणसागरः । प्रसन्नः परमाराध्यः,
 लोकालोकप्रकाशकः ॥३८॥ रत्नगर्भो जगत्स्वामी,
 इंद्रबन्धुः सुरार्चितः, निष्प्रपंचो निरातङ्कोः ।
 निःशेषक्लेशनाशकः ॥ ३९ ॥ लोकेशो लोक
 संसेव्यो, लोकालोकविलोकनः । लोकोत्तमो
 त्रिलोकेशो, लोकाग्रै शिखरस्थितः ॥ ४० ॥
 नामाष्टकसहस्राणि, ये पठन्ति पुनः पुनः ।

ते निर्वाणपदं यान्ति, मुच्यते नात्र संशयः
॥ ४१ ॥ इति श्रीभद्रबाहुस्वामिना विरचितं
लघुजिनसहस्रानामकं स्तोत्रं संपूर्णं ॥

॥ अथ साधु प्रतिक्रमणसूत्र ॥

चत्वारिमंगलं अरिहंतामंगलं सिद्धामंगलं
साहूमंगलं केवलिपराणत्तो धम्मोमंगलं चत्वारि-
लोगुत्तमा अरिहंतालोगुत्तमा सिद्धालोगुत्तमा
साहूलोगुत्तमा केवलिपराणत्तो धम्मोलोगुत्तमो
चत्वारिसरणंपवज्जामि अरिहंतेसरणंपवज्जामि
सिद्धेसरणंपवज्जामि साहूसरणंपवज्जामि केव-
लिपराणत्तं धम्मंसरणंपवज्जामि इच्छामि पडि-
क्कमिउं । पगामसिज्जाए । निगामसिज्जाए ।
संधाराउवट्टणाए । परियट्टणाए । आउंटणा
पसारणाए । छप्पइयसंघट्टणाए । कुइए । ककरा-
ईए । छीए । जंभाइए । आमोसे । ससरक्वामोसे ।
आउलमाउलाए । सोअणवत्तियाए । इच्छीवि-
प्परियासिआए । दिट्ठोविप्परियासिआए ।

मणविपरिआसियाए । पाणभोअणविपरिआ-
 सिआए । जो मे देवसिओ अइयारो कओ । तस्स-
 मिच्छामि दुक्कडं । पडिक्कमामि । गोअरचरिआए ।
 भिक्खायरिआए । उग्घाड कवाड उग्घाडणाए ।
 साणावच्छादारा संघट्टणाए । मंडीपाहुडि-
 आए । बलिपाहुडिआए । ठवणापाहुडिआए ।
 संकिए सहस्सागारे । अणेसणाए । पाणेसणाए ।
 आणभोयणाए । पाणभोयणाए । वीअभोय-
 णाए । हरियभोयणाए । पच्छाक्कम्मियाए ।
 पुरेक्कम्मिआए । अदिट्टुहडाए । दगसंसट्टुह-
 डाए । रयसंसट्टुहडाए । पारिसाडणिआए । पा-
 रिठावणिआए । ओहासणभिक्खाए । जं उग्गमेणं
 ओप्पायणेसणाए । अपरिसुद्धं पडिग्गहिअं ।
 परिभुत्तं वा । जं न परिठविअं तस्स मिच्छामि-
 दुक्कडं । पडिक्कमामि चाउकालं सज्झायस्स अक-
 रणायाए । उभओकालं भंडोवगरणास्स अप्पडि-
 लेहणाए दुप्पडिलेहणाए । अप्पमज्जणाए

दुष्पमञ्जणाए । अइकमे । वइकमे । अइयारे ।
 अणायारे । जो मे देवसिओ अइआरो कओ तस्स
 मिच्छामि दुक्कडं । पडिक्कमामि एगविहे असंजमे
 ॥ १ ॥ पडिक्कमामि दोहिं बंधणेहिं । रागबंध-
 णेणं दोसबंधणेणं । पडिक्कमामि ॥ २ ॥ तिहिं
 दंडेहिं । मणदंडेणं । वयदंडेणं । कायदंडेणं ।
 पडिक्कमामि तिहिं गुत्तीहिं मणगुत्तीए ।
 वयगुत्तीए कायगुत्तीए । पडिक्कमामि तिहिं
 सल्लेहिं । मायासल्लेणं । नीयाणासल्लेणं ।
 मिच्छादंसणसल्लेणं । पडिक्कमामि । तिहिं
 गारवेहिं । इढ्ढोगाग्गेणं । रसगारवेणं । साया-
 गारवेणं । पडिक्कमामि । तिहिं विराहणाहिं ।
 नाणविराहणाए । दंसणविराहणाए । चरित्तवि-
 राहणाए । पडिक्कमामि । चउहिं कसाएहिं ।
 कोहकसाएणं । माणकसाएणं । मायाकसाएणं ।
 लोभकसाएणं । पडिक्कमामि । चउहिं सरणाहिं ।
 आहार सरणाए । भय सरणाए । मेहुणसरणाए ।

परिग्गहसराणाए । पडिक्कमामि । चउहिं विकहाहिं ।
 इच्छिक्कहाए । भत्तक्कहाए । देसक्कहाए । रायक्क-
 हाए । पडिक्कमामि । चउहिं भाणेहिं । अट्टेणं
 भाणेणं । रुहेणं भाणेणं । धम्मणेणंभाणेणं ।
 सुक्केणं भाणेणं । पडिक्कमामि । पंचहिं कि-
 रियाहिं । काइयाए अहिगरणियाए । पाउ-
 सियाए । पारत्तावणिआए । पाणाइवायकिरि-
 याए । पडिक्कमामि । पंचहिं कामगुणेहिं ।
 सहेणं । रुवेणं । रसेणं । गंधेणं । फासेणं ।
 पडिक्कमामि । पंचहिं महव्वएहिं । पाणाइवा-
 याओ वेरमणं । मुसावायाओ वेरमणं । आदि-
 न्नादाणाओ वेरमणं । मेट्टुणाओ वेरमणं । परिग्ग-
 हाओ वेरमणं । पडिक्कमामि । पंचहिं समिइहिं ।
 इरिआसमिइए । भासासमिइए । एसणासमि-
 इए । आयाणभंडमत्तनिखेवणा समिइए ।
 उच्चारपासवण खेलजल्लसिंघाणपारिट्टावणियास-
 मिइए । पडिक्कमामि । छहिं जीवनिकाएहिं ।

पुढविकाएणं । आउकाएणं । तेउकाएणं । वाउ-
 काएणं । वणस्सइकाएणं । तस्सकाएणं । पडि-
 क्कमामि । छहिं लेसाहिं । किरहलेसाए । नीलले-
 साए । काउलेसाए । तेउलेसाए । पउमले-
 साए । सुक्कलेसाए । पडिक्कमामि । सत्तहिं भय-
 ट्ठाणेहिं । अट्ठहिं मयट्ठाणेहिं । नवहिं बभचे-
 रगुत्तीहिं । दसविहे समणधम्मे । एगारसहिं
 उवासगपडिमाहिं । वारसहिं भिक्खुपडिमाहिं ।
 तेरसहिं किरियाठाणेहिं । चउदसहिं भूअगा-
 मेहिं पन्नरसहिं परमाहम्मिएहिं । सोलसहिं
 गाहासोलसएहिं सत्तरसविहे असंजमे । अट्ठार-
 सविहे अबंभे । एगुणवीसाए नायक्कयणेहिं । वी-
 साए असमाहिठाणेहिं । इकवीसाए सवलेहिं ।
 वावीसाए परीसहेहिं । तेवीसाए सुअगड्ढक्कय-
 णेहिं । चउवीसाए अरिहंतेहिं । पणवीसाए
 भावणाहिं । छव्वीसाए दसाक्कप्पववहाराणं
 उद्देसणकालेहिं । सत्तावीसाए अणगारगु-

णेहिं । अट्टावीसाए आचारपकप्पेहिं । एगुणतो-
 साए पावसुअपसंगेहिं । तीसाए मोहणीअ-
 ट्टाणेहिं । इगतीसाए सिद्धाइगुणेहिं । बत्ती-
 साए जोगसंगहेहिं । तित्तीसाए आसायणाएहिं ।
 अरिहंताणं आसायणाए । सिद्धाणं आसायणाए ।
 आयरिआणं आसायणाए । उवज्झायाणं आसाय-
 णाए । साहूणं आ० । साहूणोणं आ० । सावयाणं
 आसायणाए । सावियाणं आ० । देवाणं-
 आसायणाये । देवोणं आ० । इहलोगस्स
 आ० । परलोगस्स आ० । केवलिपणा-
 त्तस्सधम्मस्स आ० । सदेवमाणुआसुर-
 स्सलोगस्स आ० । सव्वपाणभूअजीवसत्ताणं-
 आ० । कालस्स आ० । सुअस्स आ० । सुअदेव-
 याए आसा० । वायणारिअस्स आ० । जंवाइच्चं
 वच्चांमेलिअं हीणारक्खरं । अच्चक्खरं । पयहोणं ।
 विणयहीणं । घो हीणं । जोगहीणं । सुट्टु
 दिन्नं, दुट्टु पडिच्चिअं । अकाले कओ सज्झाओ

काले न कञ्चो सज्भाञ्चो । असज्भाए सज्भाइयं ।
 सज्भाइए न सज्भाइयं । तस्स मिच्छामि दुक्कडं ।
 णमो चउवीसाए तित्थयराणं उसभाइमहावीर-
 पज्जवसाणाणं इणमेव निग्गंथं पावयणं ।
 सच्चं । अणुत्तरं । केवलियं । पडिपुन्नं । नेआ-
 उअं । संसुद्धं । सल्लगतणं । सिद्धिमग्गं । मु-
 त्तिमग्गं । निज्जाणमग्गं । निव्वाणमग्गं ।
 अवितहमविसंधि । सब्बदुवखपहीणमग्गं । इ-
 च्छंठियाजीवा । सिज्भंति । बुज्भंति । मुच्चंति ।
 परिनिव्वायंति । सब्बदुवखाणमंतंकरंति । तं-
 धम्मं सदहामि । पत्तियामि । रोएमि । फासेमि ।
 पालेमि । अणुपालेमि । तं धम्मं सदहंतो । पत्ति-
 अंतो । रोअंतो । फासंतो । पालंतो । अणुपालंतो ।
 तस्स धम्मस्स केवलिपराणत्तस्स । अभुट्ठिओमि ।
 आराहणाए । विरओमि विराहणाए । असंजमं ।
 परिआणामि । संजमं उवसंपज्जामि । अबंभं
 परिआणामि । वंभंतुवसंपज्जामि । अकप्पं परि-

आणामि । कप्पं उवसंपज्जामि । अन्नाणं परि-
 आणामि । नाणं उवसंपज्जामि । अकिरिअं
 परिआणामि । किरिअं उवसंपज्जामि । मिच्छत्तं
 परिआणामि । सम्मत्तं उवसंपज्जामि । अब्रोहिं
 परिआणामि । बोहिं उवसंपज्जामि । अमग्गं
 परिआणामि । मग्गं उवसंपज्जामि । जं संभ-
 रामि । जं च न संभरामि । जं पडिक्कामि ।
 जं च न पडिक्कामि । तस्स सव्वस्स देवसि-
 अस्स अइयारस्स पडिक्कामि । समणोहं ।
 संजय विरय पडिहय पच्चक्खाय पावकम्मे अनि-
 याणो दिट्ठिसंपन्नो । मायामोसविवज्जिओ । अ-
 ड्ढाइज्जेसु । दीवसमुद्देसु । पन्नरससुकम्मभूमोसु ॥
 जावंतिकेविसाहु । रयहरणगुच्छ पडिग्गहधारा ॥
 पंचमहव्वयधारा, । अट्ठार सहस्स सीलंगधारा ॥
 अक्खयायार चरित्ता । ते सव्वे सिरसा मणसा
 मत्थएण वंदासि । खामेमि सव्वजीवे, सव्वे जीवा
 खमंतुमे ॥ मित्ति मे सव्व भूएसु, वेरं मज्झं

न केणई ॥१॥ एवमहं अलोइय, नंदिअ गरहिय
दुगंच्छियंसम्मं ॥ तिविहेण पडिक्कंतो, वंदामि
जिणेचउव्वीसं ॥२॥ इति श्री साधू प्रतिक्रम-
णसूत्रं समाप्तं ॥

॥ अथ परखी सूत्र ॥

तित्थंकरे अ तित्थे, अतित्थसिद्धेय तित्थ-
सिद्धेअ । सिद्धेयजिणेअ रिसी, महरिसि नाणं
च वंदामि ॥ १ ॥ जे अ इमं गुण ग्यणसायर,
मविराहिऊण तिसिणीसंसारा । ते मंगलं करित्ता,
अहमविआराहणाभिमुहो ॥ २ ॥ मम मंगल-
मरिहंता, सिद्धा साहू सुअं च धम्मोअ । खंती
गुत्तो मुत्तो, अज्जवया महवं चेव ॥३॥ लोगंमि
संजया जं करंति, परम रिसि देसियमुआरं ॥
अहमवि उवट्ठिओ तं, महव्वय उच्चारणं काउं ।४।
सेकिंतं महव्वय उच्चारणा । महव्वय उच्चारणा
पंचविहा पणत्ता ॥ राई भोअण वेरमणछट्ठा ।
तंजहा । सव्वाओ पाणाइवायाओ वेरमणं ॥१॥

सव्वाओ मूसावायाओ वेरमणं ॥२॥ सव्वाओ
अदिन्नादाणाओ वेरमणं ॥३॥ सव्वाओ मेहु
णाओ वेरमणं ॥४॥ सव्वाओ परिग्गहाओ वेर-
मणं ॥५॥ सव्वाओ राइभोअणाओ वेरमणं॥६॥

तत्थ खलु पढमे भंते महव्वए पाणाइवाया-
ओवेरमणं सव्वं भंते पाणाइवायं पच्चअखामि से
सुहुमं वा वायरं वा तसं वा थावरं वा नेवसयं
पाणे अइवाएज्जा । नेवन्नेहिं पाणे अइवाया-
विज्जा, पाणे अइवायंतेवि । अन्नेनसमणुज्जा-
णामि जावज्जीवाए तिविहं तिविहेणं मणेणं
वायाए काएणं न करेमि न कारवेमि करंतंपि
अन्नं न समणुजाणामि तस्स भंते पडिक्क-
मामि निंदामि गरिहामि अप्पाणं वोसिरामि से
पाणाइवाए चउव्विहे पन्नते तंजहा दव्वओ
खित्तओ कालओ भावओ । दव्वओणं पा-
णाइवाए छसुजीवनिकाएसु । खित्तओणं पाणा-
इवाए सव्वलोए कालओणं पाणाइवाए दियावा

रात्रोवा । भावत्रोणं पाणाइवाए रागेण वा
दोसेण वा । जंपिय मये इमस्स धम्मस्स केवलि
पराणत्तस्स अहिंसा लख्खणस्स सच्चा-
हिट्ठियस्स विणायमूलस्स खंतीपहाणस्स अहि-
रणसोवणियस्स उवसमप्पभवस्स नंव वंभ-
चेर गुत्तस्स अप्पयमाणास्स भिक्खावित्तियस्स
कुख्खीसंवत्तस्स निरग्गिसरणास्स संपख्खालिअस
चत्तदोसस्स गुणगाहियस्स निव्वियारस्स निव्वि-
त्तीलख्खणस्स पचमहव्वयजुत्तस्स 'असंनिहिं-
संचयस्स अविस्वाइयस्स संसारपारगामियस्स
निव्वाराण गमण पेज्जवसाणाफलस्स पुव्विं
अन्नाणयाए असवणयाए अन्नोहिआए अणभि-
गमेणं अभिगमेण वा पमाएण रागदोस पडिव-
द्धआए वालयाए मोहयाए मंदयाए कि-
डुयाए तिगारवगरुआए चउक्कसाओव्वगएणं
पंचिंदिओवसट्ठेणं पडिपुन्नभारियाए सायासोक्ख
मणुपालयंतेणं इहं वा भवे अन्नेसुवा भवग्गह-

गेसु पाणाइवाओ कओवा कारिओवा कीरंतोवा
 परेहिं समणुन्नाओ तं निंदामि गरिहामि तिविहं
 तिविहेणं मणेणं वायाए काएणं अइयं निंदामि
 पडुपन्नं सवरेमि सव्वं अणागयंपच्चक्खामि सव्वं
 पाणाइवायं जावज्जीवाए अणिसिओहिं नेव
 सयंपाणे अइवाइज्जा नेवन्नेहिं पाणे अइवायावि
 ज्जा पाणे अइवायंतेवि अन्नेनसमणुजाणिज्जा तं-
 जहा अरिहंतसखियं सिद्धसखियं साहुसक्खियं
 देवसक्खियं अप्पसक्खियं एवं भवइ भिक्खूवा
 भिक्खूणीवा संजयविरय पडिहय पच्चक्खाय पाव-
 कम्के दियावा राओवा एगओवा परिसागओवा
 सुत्तेवा जागरमाणेवा एस खलु पाणाइवायस्स-
 वेरमाणे हिएसुहे खमेनिस्सेसिए आणुगामिए पार
 गामिए सव्वेसिं पाणाणं सव्वेसिं भूयाणं सव्वेसिं
 जीवाणं सव्वेसं सत्ताणं अदुक्खणयाए असोण-
 याए अजूरणयाए अतिप्पणयाए अपीडणयाए
 अपरियावणियाए अणुद्वणयाए महत्थे महा-

गुणे महाणुभावे महापुरिसाणु चिन्ने परमरि-
सिदेसिए पसत्थे तं दुक्खवखयाए कम्मवखयाए
मोहवखयाए बोहिलाभाए संसारुत्तारणाए
त्तिककट्टु उवसंपज्जित्ताणं विहरामि पढमे
भंते महव्वए उवट्ठिओमि सब्वाओ पाणाइवा-
याओवेरमणं ॥ १ ॥ अहावरेदोच्चे भंते
महव्वए मुसावायाओवेरमणं सब्वं भंते
मुसावायं पच्चवखामिसे कोहावा लोहावा भयावा
हासावा नेवसयं मुसंवइज्जा नेवन्नेहिं मुसंवा-
याविज्जा मुसंवयंतेवि अन्ननेसमणुजाणामि
जावज्जीवाए तिविहं तिविहेणं मणोणं वायाए
काएणं न करेमि न कारवेमि करंतंपि अन्नंत-
समणुजाणामि तरुस भंते पडिक्कमामि निंदा-
मि गरिहामि अप्पाणं वोसिरामि । से मुसावाए
चउव्विहे पन्नत्ते तंजहा दव्वओ खित्तओ
कालओ भावओ दव्वओणं मुसावाए सब्ब-
दव्वेसु खित्तओणं मुसावाए लोएवा अलोएवा

कालश्रोणं मुसावाए दियावा राश्रोवा भावश्रोणं
 मुसावाए रागेणवा दोसेणवा जम्मए इमस्स
 धम्मस्स केवलिपणत्तस्स अहिंसालक्खणस्स
 सच्चाहिट्ठियस्स विणयमूलस्स खंतीप्पहाणस्स
 अहिरणसोवन्नियस्स उवसमप्पभवस्स नवबंभ
 चेर गुत्तस्स अप्पयमाणस्स भिख्खावित्तियस्स कु-
 ख्खीसंबलस्स निरगिसरणस्स संपक्खालियस्स
 चत्तदोसस्स गुणगाहिअस्स निग्विआरस्स निव्वि
 तिलक्खणस्स पंचमहव्वयजुत्तस्स असंनिहिसं-
 चियस्स अविसावइयस्स संसारपारगामियस्स
 निव्वाणगमणपड्जवसाणफलस्स पुव्विअन्ना
 णयाए असवणयाए अवोहियाए अणभिगमेणं
 अभिगमेणवा पमाएणं रागदोसपडिवद्धयाए
 बालयाएमोहयाए मंदयाए किड्डयाए तिगारवगरु
 याए चउक्कसाश्रोवणएणं पंचेदिअवसट्ठेणं पडि
 पुण्णभारियाए सायासुक्खमणुपालयंतेणं इहं
 वा भवे अन्नेसुवा भवग्गहणेसु मुसावाओ भासि

ओवा भासाविओवा भासिज्जंतो वा परेहिं
समणुन्नाओ तं निंदामि गरिहामि तिविहं
तिविहेणं मणेणं वायाए काएणं अइयं निदामि
पड्डिपन्नं संवरेमि अणागयं पच्चस्कामि सव्वं
मुसावायं जावज्जीवाए अणिसिओहं नेवस-
यं मुसंवइज्जा नेवन्नेहिं मुसंवायाविज्जा
मुसंवायंतेवि अन्ने न समणुजाणिज्जा
तंजहा आरिहं तसख्खियं सिद्धसख्खियं साहू-
सख्खियं देवसख्खियं अप्पसख्खियं एवं हवइ
भिख्खवा भिख्खणीवा संजय विरय पडिहय
पच्चख्खाय पावकम्मे दियोवा राओवा एगओवा
परिसागओवा सुत्तेवा जागरमाणेवा एस खलु
मुसावायस्सवेरमणे हिएसुहे खमे निग्सेसिए
आणुगामिए पारगामिए सव्वेसिं पाणाणं सव्वे-
सिं भूयाणं सव्वेसिं जीवाणं सव्वेसिं सत्ताणं
अदुख्खणयाए असोयणयाए अजूरणयाए अ-
तिप्पणयाए अपीडणयाए अपरियावणयाए

गणं पंचेदियवसदृणं पडिपुन्नभारियाए साया-
 सुखवमणु पालयंतेणं इहंवाभवेअन्नेसुवा भवग्ग
 हणोसु अदिन्नादाणं गहियंवा गाहावियंवा घि-
 प्तंवा परेहिं समणुन्नाओ तं निन्दामि गरि-
 हामि तिविहं तिविहेणं मणेणं वायाए काएणं
 अ इयं निंदामि पडुप्पन्नंसंवरेमि अणागयं प-
 च्चस्कामि सब्वं अदिन्नादाणं जावज्जीवाए अ-
 णिस्सिओहं नेवसयं अदिन्नं गिण्हज्जा नेव-
 न्नेहिं अदिन्नं गिण्हा विज्जा अदिन्हंगिण्हंतेवि
 अन्नेनसमणुजाणिज्जा तंजहा अरिहंतसख्खियं
 सिद्धसख्खियं साहूसख्खियं देवसख्खियं अप्पस-
 ख्खियं एवं हवइ भिखूवा भिखूणीवा संजय वि-
 रय पडिहयपच्चख्खाय पावकम्मे दियावा राओवा
 एगओवा परिसागओवा सुत्तेवा जागरमाणेवा
 एस खलु अदिन्नादाणस्स वेरमणे हिएसुहे खमे
 निस्सेसिए आणुगामिए पारगामिए सब्वेसिं
 पाणाणं सब्वेसिं भूयाणं सब्वेसिं जीवाणं स-

व्वेसिं सत्ताणं अदुखवणयाए असोयणयाए अजू-
 रणयाए अतिप्पणयाए अपीडणाए अपरियाव-
 णियाए अणुद्वणयाए महत्थे महागुणे महाणु-
 भावे महापुरिसाणुचिन्ने परमरिसिदेसिए पसत्थे
 तं दुखवख्खयाए कम्मख्खयाए मोहख्खयाए बोहि-
 लाभाए संसारुत्तारणाए त्तिकट्टु उवसंपज्जित्ताणं
 विहरामि तच्च भंते महव्वए अणुट्ठिओमि स-
 व्वाओ अदिन्नादाणाओ देरमणं ॥ ३ ॥ अहा-
 वरे चउत्थे भंते महव्वए मेहुणाओ देरमणं सव्वं
 भंते मेहुणं पच्चख्खामि से दिव्वंवा माणुसंवा
 तिरिख्खजोणियंवा नेवसयं मेहुणंसेविज्जा नेव-
 न्नेहिं मेहुणंसेवाविज्जा मेहुणंसेवंतेवि अन्नेनस-
 मणज्जाणामि जावज्जीवाए त्तिविहं त्तिविहेणं
 मण्णं वायाए काएणं न करेमि न कारवेमि
 करंतंपि अन्नं न समणजाणामि तस्स भंते पडि-
 क्कामामि निंदामि गरिहामि अप्पाणं वोसिरामि
 से मेहुणे चउव्विहे पन्नत्ते तंजहा दव्वओ खि-

तत्रो कालत्रो भावत्रो दव्वत्रोणं मेहुणे रूवेसुवा
 रूवेसहगएसुवा खित्तत्रोणं मेहुणे उड्ढलोएवा
 अहोलोएवा तिरियलोएवा कालत्रोणं मेहुणे
 दियावा रात्रोवा भावत्रोणं मेहुणे रागेणवा
 दोसेणवा जंमए इमस्स धम्मस्स केवलिप-
 णत्तस्स अहिंसालख्खणस्स सच्चाहिट्ठियस्स वि-
 णयमूलस्स खंतिप्पहाणस्स अहिरंणसोवणिण्य-
 स्स उवसमप्पभवस्स नववंभचेरगुत्तस्स अप्पय-
 माणस्स भिक्खावित्तियस्स कुक्खीसंबलस्स निर-
 ग्गिसरणस्स संपख्खालियस्स चत्तदोसस्स गुण-
 गाहियस्स निव्वियारस्स निव्वत्तीलख्खणस्स पं-
 चमहव्वयजु तस्स असंनिहिसंचियस्स अविसेवा
 इयस्ससंसारपारगामियस्स निव्वाराणगमणपज्ज-
 वसाणफलस्स पुव्विअन्नाणयाए असवणयाए
 अवोहियाए अणभिगमेणं अभिगमेणवा पमाएणं
 रागदोसपडिवद्धयाए वालयाए मोहयाए मंदया-
 ए किड्डयाए तिगारवगरुयाए चउक्कसात्रोवगएणं

पंचेदिओवसट्ठेणं पडिपुण्णभारियाए सायासोख्ख
मणुपालयंतेणं इहंवाभवे अन्नेसुवा भवग्गहणेसु
मेहुणंसेवियंवा सेवावियंवा सेविज्जंतोवा परेहिं
समणुन्नाओ तं निंदामि गरिहामि तिविहं ति-
विहेणं मणेणं वायाए काएणं अइयं निंदामि
पडुप्पन्नंसंवरेमि अणागयं पच्चक्खामि सब्वं
मेहुणं जावज्जीवाए अणिसिओहं नेवसयंमेहु
णंसेविज्जा नेवन्नेहिंमेहुणंसेवाविज्जा मेहुणंसेव-
तेवि अन्नं न समणुजाणामि तंजहा अरिहंतस-
क्खियं सिद्धसक्खियं साहुसक्खियं देवसक्खियं
अप्पसक्खियं एवं हवइ भिवखूवा भिवखूणीवा
संजय विरय पडिहय पच्चक्खाय पावकम्मे दियावा
राओवा एगओवा परिसागओवा सुत्तेवा जाग-
रमाणेवा एसखलु मेहुणस्सवेरमणे हिए सुहे खमे
निस्सेसिए आणुगामिए पारगामिए सब्वेसिं-
पाणाणं सब्वेसिंभूयाणं सब्वेसिंजीवाणं सब्वेसिं
सत्ताणं अदुक्खणयाए असोयणयाए अजूरण-

याए अतिप्पणयाए अपोडणयाए अपरियावणि-
 याए अणुइवणयाए महत्थे महागुणे महाणुभावे
 महापुरिसाणुचिन्ने परमरिसिदेसिए पसत्थे तंदु-
 क्खख्खयाए कम्मक्खयाए मुख्खयाए वोहिला-
 भाए संसारुत्तारणाए त्तिकट्ट उवसंपज्जित्ताणं
 विहरामि चउत्थे भंते महब्बए उवट्टिओमि
 सव्वाओ मेहुणाओ वेरमणं ॥४॥ अहावरेपंचमे
 भंते महब्बए परिग्गहाओ वेरमणं सव्वं भंते
 परिग्गहं पच्चक्खामि से अप्पंवा बहुंवा अणुंवा
 थूलंवा चित्तमंतंवा अचित्तमंतंवा नेवसयं परि-
 ग्गहं परिगिहिहज्जा नेवन्नेहिंपरिग्गहं परिगि-
 रहाविज्जा परिग्गहंपरिगिरहंतेवि अन्नेनसमणु-
 जाणामि जावज्जीवाए तिविहं तिविहेणं मणेणं
 वायाए काएणं न करेमि न कारवेमि करंतंपि
 अन्नं न समणुजाणामि तस्स भंते पडिक्कमामि
 निंदामि गरिहामि अप्पाणं वोसिरामि । से परि-
 ग्गहे चउव्विहे पणत्ते तंजहा दव्वओ खित्तओ

कालओ भावओ दब्बओणं परिग्गहे सच्चित्ता-
 चित्तमीसेसु दब्बेसु खित्तओणं परिग्गहे गामेसुवा
 नगरेसुवा रन्नेसुवा कालओणं परिग्गहे दियावा
 राओवा भावओणं परिग्गहे अपग्घेवा महग्घेवा
 रागेणवा दोसेणवा जंमए इमस्स धम्मस्स
 केवल्लिपणत्तस अहिंसालक्खणस्स सच्चाहिट्ठि-
 यस्स विणयमूलस्स खंतिपहाणस्स अहिरणसो-
 वणिणयरस उवत्तमप्पभवस्स नववंभचेरगुत्तस्स
 अप्पयमाणस्स भिक्खावित्तियस्स कुक्खोसंवल-
 लस्स निग्गिसरणस्स संपक्खालियस्स चत्तदो-
 सस्स गुणगाहियस्स निव्वियारस्स निव्वित्तील-
 क्खणस्स पंचमहव्वयजुत्तस्स अविंसंवाइयस्स
 संसारपारगामियस्स निव्वाण गमण पज्जवसा-
 णफलस्स पुब्बिंअन्नाणयाए असवणयाए अवो-
 हियाए अणभिगमेणं अभिगमेणवा पमाएणं
 रागदोस पडिबद्धयाए बालयाए मोहयाए मंद-
 याए किड्डयाए तिगारवगरुयाए चउक्कसाओव-

गण्णं पंचेदियवसद्वृणं पडिपुन्नभारियाए सा-
 यासोख्वमणुपालयंतेणं इहं वा भवे अन्नेसु वा
 भवग्गहणेसु परिग्गहो गहिओवा गाहाविओवा
 धिप्पंतोवा परेहिंसमणुन्नाओ तं निंदामि गरि-
 हामि तिविहं तिविहेणं मणेणं वायाए काएणं
 अइयं निंदामि पडुप्पन्नं संवरेमि अणागयं पच्च-
 स्कामि सव्वं परिग्गहं जावज्जीवाए अणिसि-
 ओहं नेवसयंपरिगिगिहज्जा नेवन्नेहिंपरिग्गहंपरि-
 गिरहाविज्जा परिग्गहंपरिगिहंतेवि अन्नेनसमणु-
 जाणामि तंजहा अरिहंतसखियं सिद्धसखियं
 साहुसखियं देवसखियं अप्पसखियं एवंहवइ-
 भिखूवा भिक्खूणीवा संजयविरथपडिहय पच्च-
 क्खाय पावमम्मे दियावा राओवा एगओवा परि-
 सागओवा सुत्तेवा जागरमाणेवा एसखलु मेहु-
 णस्सवेरमणे हिए सुए खमे निस्सेसिए आणु-
 गामिए पारगासिए सव्वेसिं पाणाणं सव्वेसिं-
 भूयाणं सव्वेसिंजीवाणं सव्वेसिंसत्ताणं अटुक्ख-

णयाए असोयणयाए अजूरणयाए अतिप्पण-
 याए अपीडणयाए अपरियावणियाए अणुद्व-
 णयाए महत्थे महागुणे महाणुभावे महापुरिसा-
 णचिन्ने परमरिसिदेसियपसत्थे तं दुक्खक्ख-
 याए कम्मक्खयाए बोहिलाभाए संसारुत्तारणयए
 त्तिकट्टु उवसंपज्जिताणं विहरामि पंचमे भंते
 महव्वए उवट्ठिओमि सव्वाओपरिग्गहाओवेरमणं
 ॥५॥ अहांवरेछट्ठे भंते महव्वए राइभोयणाओ-
 वेरमणं सव्वं भंते राइभोयणं पच्चक्खामि से अ-
 सणंवा पाणंवा खाइमंवा साइमंवा नेवसयंराइं-
 भंजिज्जा नेवन्नेहिंराइंभुंजाविज्जा राइंभुंजंतेवि
 अन्नेनसमणुजाणामि जावज्जोवाए तिविहं ति-
 विहेणं मणेणं वायाए काएणं न करेमि न कार-
 वेमि करंतंपि अन्नं न समणुजाणामि तस्स भंते
 पडिक्कमामि निंदामि गरिहामि अप्पाणं वोसिरामि
 से राइं भोयणे चउव्विहेपणत्ते तंजहा दव्वओ
 खित्तओ कालओ भावओ दव्वओणं राइंभोयणे

असणेवा पाणेवा खाइमेवा साइमेवा खित्तओणं
 राईभोयणे समयखित्ते कालओणं राईभोयणे
 दियावा रत्तिंवा भावओणं राईभोयणे तित्तेवा
 कडुएवा कसाएवा अंबिलेवा मट्टुरेवा लवणेवा
 रागेणवा दोसेणवा जंमए इमस्स धम्मस्स
 केवल्लिपणत्तस्स अहिंसालक्खणस्स सच्चाहि-
 हिट्ठियस्स विणयमूलस्स खंतिप्पहाणस्स अहि-
 रणसोत्रणिणयस्स उदसमप्पभवस्स नव वंभचेर-
 गुत्तस्स अप्पयमाणस्स भिक्खावित्तियस्स कु-
 क्खोसंवलस्स निरग्गिसरणस्स संपक्खालियस्स
 चत्तदोसस्स गुणगाहियस्स निव्वियारस्स नि-
 व्वित्तीलक्खणस्स पंचमहव्वयजुत्तस्स असंनि-
 हिसंचिअस्स अविसंवाइयस्स संसारपारगामि-
 यस्स निव्वाणगमणपज्जवसाणफलस्स पुव्विं
 अन्नाणयाए असवणयाए अवोहियाये अणभिग-
 मेणं अभिगमेणवा पमाएणं रागदोसपडिद्धयाए
 वालयाए मोहयाए मंदयाए किडुयाए निगा-

रवगरुयाए चउक्कसाओवगएणं पंचेंदियवसट्टेणं
 पडिपुन्नभारियाए सायासोक्खमणुपालयंतेणं इहं-
 वा भवे अन्नेसुवा भवग्गहणेसु राईभोयणं भुत्तं-
 वा भुंजावियंवा भुज्जंतंवा परेहिंसमणुन्नाओ
 तं निंदामि गरिहामि तिविहं तिविहेणं मणेणं
 वायाए काएणं अइयंनिंदामि पडुपन्नंसंवरेमि
 अणागयं पच्चक्खामि सव्वं राइ भोयणं जावज्जी-
 वाए अणिसिओहं नेवसयं राईभुजिज्जा नेव-
 न्नेहिराई भुंजाविज्जा राई भुंज्जंतेवि अन्नं न
 समणुजाणामि तंजहा अरिहंतसक्खियं सिद्ध-
 सक्खियं साहुसक्खियं देवसक्खियं अप्पस-
 क्खियं एवं हवइ भिखवूवा भिखवुणीवा संजय-
 विरय पडिहय पच्चक्खायपावकम्मे दियावा रा-
 ओवा एगओवा परिसागओवा सुत्तेवा जागर-
 माणेवा एसखलुराईभोयणस्सवेरमणे हिणसुए-
 खमेनिस्सेसिए आणुगामिए पारगामिए सव्वे-
 सिंपाणाणं सव्वेसिंभूयाणं सव्वेसिंजीवाणं

सब्वेसिंसत्ताणं अदुक्खणयाए असोयणयाए
 अजूरणयाए अतिप्पणयाए अपीडणयाए अप-
 रियावणियाए अणुइवणयाए महत्थे महागुणे
 महाणुभावे महापुरिसाण्णचिन्ने परमरिसिदेसिए
 पंसत्थे तंदुख्खख्खयाए कम्मख्खयाए मोहक्ख-
 याए बोहिलाभाए संसारुत्तारणयाए तिकट्टु
 उवसंपज्जिताणं विहरामि छठे भंने महव्वए
 उवट्ठिओमि सब्वाओ राईभोयणाओ वेरमणं
 ॥ ६ ॥ इच्चेइयाइं पंचमहव्वयाइं राईभोयण-
 वेरमणछट्ठाइं अत्तहियट्ठाइं उवसंपज्जिताणं
 विहरामि । अप्पसत्थायजेजोगा परिणामायदारु-
 णा पाणाइवायस्सवेरमणे एसवुत्ते अइक्कमे ॥ १ ॥
 तिव्वरागायजाभासा तिव्वदोसातहेवय मुसावा-
 यस्सवेरमणे एसवुत्ते अइक्कमे ॥ २ ॥ उग्गाहंअ-
 जाइत्ता अविदिन्नेअउग्गहे अदिन्नादाणस्सवेर-
 मणे एसवुत्ते अइक्कमे ॥ ३ ॥ सदाख्खवारसागंधा
 फासाणपविआरणो मेहुणस्सवेरमणे एसवुत्ते

अइकमे ॥ ४ ॥ इच्छापुच्छायगेहीय कंखालोभे-
 अदारुणे परिग्गहस्सवेरमणे एसवुत्ते अइकमे
 ॥ ५ ॥ दंसणनाणचरित्ते अविराहित्ताठिओस-
 मणधम्मे पढमं वयमणुरख्खे विरियामोपाणाइ-
 वायाओ ॥ ६ ॥ दंसणनाणचरित्ते अविराहि-
 त्ताठिओसमणधम्मे वीयं वयमणुरख्खे विरिया-
 मोअलियवयणाओ ॥ ७ ॥ दंसणनाणचरित्ते
 अविराहित्ताठिओसमणधम्मे तइयं वयमणुरख्खे
 विरियामोअदिन्नादाणाओ ॥ ८ ॥ दंसणनाण-
 चरित्ते अविराहित्ताठिओसमणधम्मे चउत्थं व-
 यमणुरख्खे विरियामोमेहुणाओ ॥ ९ ॥ दंसण-
 नाणचरित्ते अविराहित्ताठिओसमणधम्मे पंच-
 मं वयमणुरख्खे विरियामोपरिग्गहाओ ॥ १० ॥
 दंसणनाणचरित्ते अविराहित्ताठिओसमणधम्मे
 छट्ठं वयमणुरख्खे विरियामोराईभोयणाओ ॥ ११ ॥
 आलियविहारसमिओ जुत्तो गुत्तोठिओसमणधम्मं
 पढमं वयमणुरख्खे विरियामोपाणाइवायाओ ॥ १२ ॥

आलियविहारसमिञ्चो जुत्तोगुत्तोठिञ्चोसमण-
 धम्मे वीयं वयमणुरख्वे विरियामोअलियवयणञ्चो
 ॥ १३ ॥ आलियविहारसमिञ्चोजुत्तोगुत्तोठिञ्चो-
 समणधम्मे तईयं वयमणुरख्वे विरियामोअदि-
 न्नादाणाञ्चो ॥ १४ ॥ आलियविहारसमिञ्चो
 जुत्तोगुत्तोठिञ्चोसमणधम्मे चउत्थं वयमणुरख्वे
 विरियामोमेहुणाञ्चो ॥ १५ ॥ आलियविहारस-
 मिञ्चो जुत्तोगुत्तोठिञ्चोसमणधम्मे पंचमं वयम-
 णुरख्वे विरियामो परिग्गहाञ्चो ॥ १६ ॥ आलि-
 यविहारसमिञ्चो जुत्तोगुत्तोठिञ्चोसमणधम्मे
 छट्ठं वयमणुरख्वे विरियामोराईभोयणाञ्चो । १७ ।
 आलियविहारसमिञ्चो जुत्तोगुत्तोठिञ्चोसमण-
 धम्मे तिविहेणपडिक्कंतो रक्खामिमहव्वएपंच
 ॥ १८ ॥ सावज्जजोगमेगं मिच्छत्तं एगमेवअ-
 न्नाणं परिवज्जंतोगुत्तो रक्खामिमहव्वएपंच
 ॥ १९ ॥ अणवज्जजोगमेगं सम्मत्तं एगमेवनाणंतु
 उवसंपन्नोजुत्तो रक्खामिमहव्वएपंच ॥ २० ॥

दोचैवरागदोसे दुर्णिणयभाणाइं अट्टरुद्दाइं
 परिवज्जंतोगुत्तो रक्खामिमहव्वएपंच ॥ २१ ॥
 दुविहंचरित्तंधम्मं दुन्नियभाणाइं धम्मसुक्काइं
 उवसंपन्नोजुत्तो रक्खामिमहव्वएपंच ॥ २२ ॥
 किरहानीलाकाउ तिन्नियलेसाउअप्पसत्थाओ
 परिवज्जंतोगुत्तो रक्खामिमहव्वएपंच ॥ २३ ॥
 तेउपम्हासुक्का तिन्नियलेसाओसुप्पसत्थाओ उव-
 संपन्नोजुत्तो रक्खामिमहव्वएपंच ॥ २४ ॥
 मणसामणसच्चविउ वायासच्चेणकरणसच्चेण
 तिविहेणविसच्चविओ रक्खामिमहव्वएपंच ॥ २५ ॥
 चत्तारियदुहसिज्जा चउरोसन्नातहाकसायाय
 परिवज्जंतोगुत्तो रक्खामिमहव्वएपंच ॥ २६ ॥
 चत्तारियसुहसिज्जा चउविहंसंवरंसमाहिंच
 उवसंपन्नोजुत्तो रक्खामिमहव्वएपंच ॥ २७ ॥
 पंचेवयकामगुणे पंचेवयअणहवेमहादोसे परिव-
 ज्जंतोगुत्तो रक्खामिमहव्वएपंच ॥ २८ ॥ पंचे-
 दियसंवरणं तहेवपंचविहमेवसज्जायं उवसंपन्नो-

जृत्तो रक्खामिमहव्वएपंच ॥ २६ ॥ छज्जीवनि-
 कायवहिं छप्पियभासाओ अप्पसत्थाओ परिव-
 ज्जंतोगुत्तो रक्खामिमहव्वएपंच ॥ ३० ॥ छव्वि-
 हमव्विभंतरियं वज्जंपियछव्विहंतवोकम्मं उवसं-
 पन्नोजुत्तो रक्खामिमहव्वएपंच ॥ ३१ ॥ सत्त-
 भयट्ठाणाइं सत्तविहंचेवनाणविब्भिंगा परिवज्जं-
 तोगुत्तो रक्खामिमहव्वएपंच ॥ ३२ ॥ पिंडेसण-
 पाणेसण उग्गह सत्ति क्रया महज्जकयणा उवसंप-
 न्नोजुत्तो रक्खामिमहव्वएपंच ॥ ३३ ॥ अट्टम-
 यट्ठाणाइं अट्टयकम्माइं तेसिंवंधिंच परिवज्जंतो
 गुत्तो रक्खामिमहव्वएपंच ॥ ३४ ॥ अट्टयपवय-
 णमाया दिट्ठाअट्टविहनिट्ठिअठेहिं उवसंपन्नो-
 जृत्तो रक्खामिमहव्वएपंच ॥ ३५ ॥ नवपावनि-
 याणाइं संसारत्थायनवविहाजीवा परिवज्जंतो-
 गुत्तो रक्खामिमहव्वएपंच ॥ ३६ ॥ नववंभचेर-
 गुत्तो दुनवविहवंभचेरपडिसुद्धं उवसंपन्नोजुत्तो
 रक्खामिमहव्वएपंच ॥ ३७ ॥ उवघायंचदस-

विहं असंवरंतहयसंकिलेसंच परिवज्जंतोगुत्तो
 रक्खामिमहव्वएपंच ॥ ३८ ॥ चित्तसमाहिट्टा-
 णा दसचेवदसाउसमणधम्मंच उवसंपन्नोजुत्तो
 रक्खामिमहव्वएपंच ॥ ३९ ॥ आसायणंचसव्वं
 तिगुणं एक्कारसंविज्जंतो परिवज्जंतोगुत्तो
 रक्खामिमहव्वएपंच ॥ ४० ॥ एवंपिदंडविरओ
 तिगरणसुद्धोतिसल्लनिसल्लो तिविहेण पडिक्कंतो
 रक्खामिमहव्वएपंच ॥ ४१ ॥ इच्चेयंमहव्वयउ-
 च्चारणं थिरत्तं सल्लुद्धरणं धिइवलंबवसाओ
 साहणट्टोपावनिवारणं निकायणा भावविसोही
 पडागाहरणं निजूहणा राहणा गुणाणं संवरजो-
 गो पसत्थभाणो वउत्तया जुत्तया नाणे परमट्टो
 उत्तमट्टो एसखलुत्तित्थं करेहिं रइरागदोस मह-
 णेहिं देसिओ पवयणस्ससारो छज्जीवनिकाय
 संजमं उवइसिउं तिल्लुक्क सक्रयंठाणं अब्भु-
 वगया नमोत्थु ते सिद्धवुद्ध मुत्तनीरथ निस्संग
 माणमूरण गुणारयण सायर मणांत मप्पमेय

नमोत्थुते महय महावीरवद्धमाणस्स नमोत्थुते-
 अरहओ नमोत्थुते भगवओ तिकट्टु इच्चेसा
 वलुमहव्वयउच्चारणाकया इच्छामोसुत्तकित्तणं
 काउं नमोतेसिंखमासमणाणं जेहिं इमंवाइयं
 छव्विहमावस्सयं भगवंतं तंजहा सामाइयं च-
 उवीसत्थओ वंदणयं पडिक्कमणं काउसग्गो
 पच्चवखाणं सब्वेहिं विणयं मि छव्विहे आवस्सए
 भगवंते ससुत्ते सअत्थे सग्गंथे सग्निजुत्तीए
 ससंगहणीए जेगुणावा भावावा अरहंतेहिं
 भगवंतेहिं पन्नतावा परुवियावा तेभावे सदहा-
 मो पत्तियामो रोएमो फासेमो पालेमो अणुपा-
 लेमो तेभावे सदहंतेहिं पत्तियंतेहिं रोयंतेहिं
 फासंतेहिं पालंतेहिं अणुपालंतेहिं अंतोपरुवस्स
 अंतोचउमासीए अंतोसंवच्छरस्स जंवाइयं प-
 डिढयं परिणट्टियं पुच्छियं अणुपेहियं अणुपालि-
 यं तंदुक्खव्वयाए कम्मव्वयाए मोहव्वयाए
 वोहिलाभाग संसारुत्तारणाए त्तिकट्टु उवसंपज्जि-

त्ताणं विहरामि अंतोपख्वस्स जंनवाइयं नपढि-
यं नपरियट्ठियं नपुच्छियं नाणुपेहियं नाणुपा-
लियं संतेबले संतेवीरिए संतेपुरिसक्खारपरिक्खमे
तस्सआलोएमोपडिक्कमामो निंदामो गरिहामो
विउट्टेमो विसोहेमो अकरणयाए अब्भुट्टेमो
अहारिहं तवोकम्मं पायच्छित्तंपडिवज्झामो तस्स-
मिच्छामिदुक्खं नमोतेसिंखमासमणाणं जेहिंइ
मंवाइयं अंगवाहिरियं उक्कालियं भगवंतं तंजहा
दसवेआलियं कप्पियाकप्पियंचुल्लकप्पसुयं महा-
कप्पसुयं उवत्राइयं रायप्पसेणीयं जीवाभिगमो
पन्नवणा महापन्नवणा नंदीअणुयोगदाराइं दे-
विंदथुओ तंदुलवेआलियं चंदाविज्झयं पमायप्प-
मायं वीयरगसुयं विहारकप्पो चरणविसोहो
आउरपच्चक्खाणं महापच्चक्खाणं सव्वेहिंपिए
यंमि अंगवाहिरिए उक्कालिए भगवंते ससुत्ते
सअत्थे सग्गंथे सन्निजुत्तीए ससंगहणीए जे-
गुणावा भावावा अरिहंतेहिं भगवंतेहिं पन्नत्ता-

वा परुवियाया तेभावे सदहामो पत्तियामो रो-
 एमो फासेमो पालेमो अणुपालेमो तेभावेसदहं-
 तेहिं पत्तियंतेहिं रोयंतेहिं फासंतेहिं अणुपालं-
 तेणं अंतोपख्वस्स जंवाइयं पढियं परिअट्टियं
 पुच्छियं अणुपेहियं अणुपालियं तंदुख्वख्व-
 याए कम्मख्वयाए मोहख्वयाए वोहिलाभाए
 संसारुत्तारणाए त्तिकट्टु उवसंपज्जित्ताणंविहरामि
 अंतोपख्वस्स जंनवाइयं नपढियं नपरियट्टियं
 न पुच्छियं नाणुपेहियं नाणुपालियं संतेवले
 संतेवोरिए संतेपुरिसक्कारपरिक्रमे तस्स आलो-
 एमो पडिक्कमामी निंदामी गरिहामी वउट्टेमो-
 विसोहेमो अकरणायाए अब्भुट्टेमो आहारिहं
 तवोकम्मं पायच्छित्तं पडिवज्झामो तस्समिच्छा-
 मिदुक्कडं नमोतेसिं खमासमणाणं जेहिंइमंवा-
 इयं अंगवाहिरियं उकालियं भगवंतं तंजहा
 उत्तरज्झयाणं दसाओकप्पोववहारो इसिभा-
 सियाइं महानिसीहं जंवुदीवपन्नत्ती सूरपन्नत्ती

चंद्रपन्नत्ती दीवसागरपन्नत्ती खुड्डियाविमाण-
परिभत्ती महल्लियाविमाणपविभत्ती अंगचूलि-
या वंगचूलियो विवाहचूलिया अरुणोववाए वरु-
णोववाए गरुलोववाए वेसमणोववाए वेलंधरो-
ववाए देविंदोववाए उट्टाणसुए समुट्टाणसुए
नागपरियावलियाओ निरयावलियाओ कप्पि-
याओ कप्पवडिंसयाओ पुप्फियाओ पुप्फचुलि-
याओ वहीदसाओ आसोविसभावणाओ दि-
ट्टीविसभावणाओ चारणसुमिणभावणाओ म-
हासुमिणभावणाओ ते अग्गिनिसग्गाणं मव्वे-
हंपिएयंमि अंगवाहिरए उक्कालिए भगवंते
ससुत्ते सअत्थे सग्गंथे सन्नजुत्तोए ससंगह-
णीए जे गुणावा भावावा अरिहंतेहिं भगवंतेहिं
पन्नत्तावा परूवियावा तेभावे सद्वहामो पत्तिया-
सो रोएमो फासेमो पालेमो अणुपालेमो ते
भावे सद्वहंतेहिं पत्तियंतेहिं रोयंतेहिं फासंते-
हिं पालंतेहिं अणुपालंतेहिं अंतोपख्वस्स जंवा-

इयं पढियं परियट्टियं पुच्छियं अणुपेहियं
 अणुपालियं तंदुख्वख्वयाए कम्मख्वयाए मो-
 हख्वयाए बोहिलाभाए संसारुत्तारणाए त्तिकट्टु
 उवसंपज्जित्ताणं विहरामि अंतोपख्वस्स जंनवा-
 इयं नपढियं नपरियट्टियं नपुच्छियं नाणुपेहि-
 यं नाणुपालियं संतेबले संतेवीरिए संतेपुरिस-
 कारपरिक्कमे तस्स आलोयमो पडिक्कमामो निं-
 दामो गरिहामो विउट्टेमो विसोहेमो अकर-
 णयाए अब्भुट्टेमो अहारिहंतवोकम्मं पायच्छि-
 त्तंपडिवज्झामो तस्स मिच्छामि दुक्कडं नमोतेसिं-
 खमासमणाणं जेहिंइमंवाइयं दुवालसंगंगणि-
 पिडंगं भगवंतं तंजहा आयारो सूयगडो ठाणो
 समवाओ विवाहपन्नत्ती नायाधम्मकहाओ
 उवासगदसाओ अंतगडदसाओ अणुत्तरोववा-
 इअदसाओ परहावागरणं विवागसुयं दिट्ठिवा-
 ओ सुदिट्ठिसुहाओ सव्वेहिं पिण्यंमि दुवाल-
 संगे गणिपिडगे भगवंते ससुत्ते सअत्थे समगंथे

सन्निजुत्तीए ससंगहणीए जेगुणावा भावावा
 अरिहंतेहिं भगवंतेहिं पन्नत्तावा परूवियावा
 तेभावे सदहामो पत्तियामो रोएमो फासेमो पा-
 लेमो अणुपालेमो नेभावे सदहंतेहिं पत्तियंतेहिं
 रोयंतेहिं फासंतेहिं पालंतेहिं अणुपालंतेहिं
 अंतोपख्वस्स जंवाइयं पढियं परियट्ठियं पु-
 च्छियं अणुपेहियं अणुपालियं तं दुख्वख्व-
 याए कम्मख्वयाए मोहख्वयाए बोहिलाभाए
 संसारुत्तारणाए त्तिक्कट्टु उवसंपज्जित्ताणं विहरा-
 मि अंतोपख्वस्स जंनवाइयं नपढियं नपरिय-
 ट्ठियं नपुच्छियं नाणुपेहियं नाणुपालियं
 संतेवले संतेवीरिए संतेपुरिसक्कारपरिक्रमे तस्स-
 आलोयमो पडिकमामो निंदामो गरिहामो वि-
 उट्टेमो विसोहेमो अकरणयाए अचुभुट्टेमो अ-
 हारिहं नवोकम्मं पायच्छित्तं पडिवज्जामो त-
 स्समिच्छामिदुक्कडं नमोतेसिंखमासमणाणं
 जेहिंइमंवाइयं दुवालसंगं गणिपिडगं भगवंतं

सम्मंकाएण फासंति पालंति पूरंति तीरंति
 किट्टंति सम्मंआणाए आराहंति अहंचनारा-
 हेमि तस्समिच्छामिदुक्कडं ॥ सुय देवया भगवइ,
 नाणावरणोयकम्मसंघायं ॥ तेसिंखवेउसययं,
 जेसिंसुयसायरेभत्ती १ इति पाण्डिकसूत्रं समाप्तं



देववन्दन तथा प्रातःकाल और
 सायंकालके प्रतिक्रमणमें
 कहनेकी स्तुतियें ॥
 ॥ द्वितीया की स्तुति ॥

महीमंडणं पुन्नसोवन्नदेहं, जणाणंदणं केवलनाणगेहं । महानंद लच्छी वहु बुद्धिरायं, सुसेवामि सीमंधरं तित्थरायं ॥ १ ॥ पुरा तारगा जेह जीवाण जाया, भवस्संति ते सब्भवाण ताया । तहा संपयं जे जिणा वट्टमाणा, सुहं दिंतु ते मे तिलोयप्पहाणा ॥२॥ दुरुत्तार संसार कुव्वारपोयं, कलंकावली पंक पक्खाल तोयं । मणोवंच्छियच्छे सुमंदारकप्पं, जिणंदागमं वंदिमो सुमहप्पं ॥३॥ विकोसे जिणंदाणणं भोजलीणा, कलारुवलावणण सोहग पीणा । व्हं तस्स

चित्तं शिच्छं पि भागां, सिरी भारई देहि मे
सुद्धनाणं ॥१॥ इति श्रीसीमंधरजीकी स्तुतिः ॥

॥ पंचमी की स्तुति ॥

पंचानंतकसुप्रपंचपरमानंदप्रदानक्षमं, पंचा-
नुत्तरसीमदिव्यपदवी वश्याय मन्त्रोत्तमम् ।
येन प्रोज्ज्वलपंचमीवरतपो व्याहारि तत्कारिणां,
श्रीपंचाननलांछनः सतनुतां श्रीवर्द्धमानः श्रियम्
॥ १ ॥ ये पंचाश्रवरोधसाधनपराः पंचप्रमादी-
हराः, पंचाणुव्रतपंच सुव्रतविधिप्रज्ञापनासादराः ।
कृत्वा पंचऋषीकनिर्जयमथो प्राप्ता गतिं पंचमीं,
तेऽमी संतु सुपंचमीव्रतभृतां तीर्थकराः शंकराः
॥२॥ पंचाचारधुरीणपंचमगुणाधीशेन संसूत्रितं,
पंचज्ञानविचारसारकलितं पंचेषु पंचत्वदम् ।
दीपाभं गुरुपंचमारतिमिरेष्वेकादशी रोहिणी,
पंचम्यादिफलप्रकाशनपट्टं ध्यायामि जैनागम-
म् ॥ ३ ॥ पंचानां परमेष्ठिनां स्थिरतया श्री-
पंचमेरुश्रियां, भक्तानां भविनां गृहेषु बहुशो या

पंचदिव्यं व्यधात् । प्रहवो पंचजने मनोमतकृतौ
स्वारत्न पञ्चालिका, पंचम्यादितपोवतां भवतु
सा सिद्धायिका त्रायिका ॥४॥ इति पंचमीस्तुतिः

॥ अष्टमी की स्तुति ॥

चउवीसे जिनवर प्रणमं हुं नितमेव,
आठम दिन करिये चन्द्रप्रभुनीसेव । मूरति
मन मोहे जाणे पूनिम चंद, दीठां दुःख जाये,
पामे परमानंद ॥ १ ॥ मिलि चोसठ इन्द्र पूजे
प्रभु जीन पाय, इन्द्राणी-अपछरा कर जोड़ी
गुण गाथ । नन्दीश्वर द्वीपे मिलि सुरवरनी
कोड । अठाई महोच्छव, करता होडा होड ॥२॥
शेत्रुंजा शिखरें जाणी लाभ अपार, चउमासें
रहिया गणधर मुनि परिवार । भवियणने
तारे देई धरम उपदेश । दूध-साकरथी पण
वाणी अधिक विशेष ॥ ३ ॥ पोसो-पडिक्कमणुं
करिये व्रत-पच्चक्खाण, आठम तप करतां

आठ करमनी हाण । आठ मङ्गल थाये दिन-
दिन कोडि कल्याण ॥ जिनसुखसूरि कहे इम
जीवत जनम प्रमाण ॥ इति अष्टमी स्तुति ॥

मौन एकादशी की स्तुति ।

—०—

अरस्य प्रवज्या नमिजिनपतेर्ज्ञानमतुलम्
तथा मल्लेर्जन्म व्रतमपलं केवलमलम् । वल-
जैकादश्यां सहसि लसदुद्दाममहसि, क्षितौ
कल्याणानां क्षपति विपदः पंचकमदः ॥ १ ॥
सुपर्वेद्रश्रेण्यागमनगमनैर्भूमिवलयं, सदा स्वर्ग-
त्येवाहमहमिकया यत्र सलयं । जिनानामप्यायुः
क्षणमतिसुखं नारकसदः, क्षितौ ० ॥ २ ॥ जिना
एवं यानि प्रणिजगदुरात्मीयसमये, फलं
यत्कर्त्तृणामिति च विदितं शुद्धसमये । अनि-
ष्टारिष्टानां क्षितिरनुभवेयुवद्भुमु दः, क्षि० ॥ ३ ॥
सुराः सेंद्राः सर्वे सकलजिनचन्द्रप्रमुदिता, स्तथा
च ज्योतिष्काखिलभवननाथाः समुदिताः ।

तपो यत्कर्त्तॄणां विदधति सुखं विस्मितहृदः,
क्षितौ० ॥ ४ ॥ इति मौन एकादशी स्तुति ॥

॥ चौदश की स्तुति ॥



प्रथम तीर्थकर आदिजिनेश्वर जाकी कीजे
सेव, गच्छ चोरासी जेहने थाप्या जाकी
करणी एह । तेहने पाखी चउदस कीजे बीजे
अंग कहाय, पाखी सूत्र प्रथम तुम देखो जिम
जिम संशय जाय ॥ १ ॥ चउवीसे जिन पूजा
कीजे मानो जिनकी आण, कल्पसूत्रनी पाखी
चौदस जोवो चतुर सुजान । इण पर ठाम
ठाम तुम देखो चौदस पाखी होय, भूला
काई भमो तुम प्राणी सांचो जिनधर्म जोय ॥२॥
चवदसरे दिन पाखी कीजे सूत्रे केरी साख,
भविक जीव इक आराधो टीका चूर्णी भाष्य ।
आवश्यकसूत्र इण पर बोले चउदसरे दिन
पाखी, चउद-पुरवधर इनपर बोलेते निश्चय मन

राखी ॥ ३ ॥ श्रुतदेवी इक मन आराधो मन
वाञ्छित फल होय, जे जे आज्ञासूधो पाले
ज्यानां विघन हरेय । सेवक इणपर करे वीनती
सूधो समकित पाय, खरतर गच्छ मंडण कुमति
विहंडण माणिक्यसूरि गुरुराय ॥ ४ ॥

॥ पार्श्वनाथजीकी स्तुति ॥

हरिगीत चंद्र ।

॥ द्रेंद्रेंकि धपमप धुधुमि धोंधों ध्रसकिधर
धप धोरवं, दोंदों किं दों दों दागिदि
दागिदिकि द्रमकिद्रण रण, द्रैणवं । भक्ति-
भूँकि भूँभूँ भणण रणरण, निजकि निजजन,
रञ्जनम्, सुरशैल शिखरे भवतु सुखदं
पार्श्वजिनपतिमञ्जनम् ॥ १ ॥ कटरैगिनि थों-
गिनि कितति गिगुडदां धुधुकि धुटनट
पाटवम्, गुणगुणण गुणगण रणकि रोंरों
गणण गुणगण, गौरवम् । भक्ति भूँकि

भ्रंभ्रं, भ्रणण रण रण, निजकि निज-
 जन, सजना, कलयन्ति कमला, कलितकल-
 मल मुकल मीश महेजिनाः ॥ २ ॥ ठकि ठूँकि
 ठूँठूँ ठर्हिक ठहिक ठर्हिक ठर्हिपट्टा ताड्यते,
 तललोंकि लोंलों, त्रँषि त्रँषिनि, डँषि डँषिनि
 वाद्यते । उँ उँ कि उँ उँ, थुंगि थुंगिनि, धोंगि-
 धोंगिनि कलरवे । जिनमतमनंतं महिम
 तनुतां नमति सुरनर मुत्तमम् ॥ ३ ॥ पंदांकि
 पंदां षुषुड्दि पंदां षुषुड्दि दोंदों अम्बरे ।
 चाचपट चचपट रणकि शेंशें डणण डें डें,
 डंम्बरे ॥ तिहां सरगमपधुनि निधपमगरस
 सस-ससस सुर सेवता, जिननाद्वरङ्गे कुशल-
 मुनि शं दिशतु शासन देवता ॥ ४ ॥

॥ आंत्रिलकी स्तुति ॥

—०—

॥ निरुपम सुखदायक जगन्नायक लायक
 शिवगति गामी जी, करुणासागर निजगुण

आगर शुभ समता रस धामी जी । श्रीसिद्ध-
 चक्र शिरोमणि जिनवर ध्यावे जे मन रङ्गे जी,
 ते मानव श्रीपालतणी परें पामे सुख सुर सङ्गे जी
 ॥ १ ॥ अरिहन्त सिद्ध आचारिज पाठक, साधु
 महा गुणवन्ता जी ॥ दरिसण नाण चरण तप
 उत्तम, नवपद जग जयवन्ता जी ॥ एहनुं ध्यान
 धरन्तां लहियें, अविचल पद अविनाशी जी,
 ते सुघला जिननायक नमियें, जिणें ए नीति
 प्रकाशी जी ॥ २ ॥ आसूमास मनोहर तिम
 वलि, चैत्रक मास जगीशें जी ॥ उजवाली सात-
 मथी करियें, नव आंवल नव दिवसें जी ॥
 तेर सहस वलि गुणिये गुणाणुं, नवपद केरो
 सारो जी ॥ इण परि निर्मल तप आदरियें, आ-
 गम साख उदारो जी ॥ ३ ॥ विमल कमलदल
 लोयण सुन्दर, श्रीचक्रकेसरि देवी जी ॥ नवपद
 सेवक भविजन केरां, विघ्न हरो सुर सेवी जी ॥
 श्रीखरतर गच्छ नायक सदगुरु, श्रीजिन भक्ति

मुनिंदा जी ॥ तासु पसायें इणपरिपभणे, श्री
जिनलाभ सूरिंदा जी ॥ ४ ॥

॥ पर्युषण की स्तुति ॥

॥ वलि वलि हुं ध्यावुं गाऊँ जिनवर वीर,
जिनपर्व पजूसण दाख्यां धरमनी शीर ॥ आपाढ
चौमासें हूँती दिन पंचास, संवच्छरी पडिक्कमणुं
करियें त्रण उपवास ॥ १ ॥ चउवीशे जिनवर
पूजा सत्तर प्रकार, करियें भलें भावें भरियें पुण्य
भंडार ॥ वलि चैत्य प्रवाडें फिरतां लाभ अनंत,
इम परव पजूसण सहुमें महिमावंत ॥ २ ॥
पुस्तक पूजावी नव वांचनायें वंचाय, श्रीकल्प
सूत्र जिहां सुणतां पाप पुलाय ॥ प्रतिदिन परभा
वना धूप अगर उक्खेव, इम भवियण प्राणी परव
पजूसण सेव ॥ ३ ॥ वलि साहम्मीवच्छल करियें
वारंवार, केइ भावना भावे केइ तपसी शीलधार ॥
अडदीह पजूसण एम सेवत आणंद, सुयदेवी
सांनिध कहे जिनलाभ सूरिंद ॥ ४ ॥

॥ श्रीनेमिनाथजी की स्तुति ॥

॥ सुर असुर वंदिय पाय पंकज मयणमल्ल-
 अन्नोभितं, घन सघनश्याम शरीर सुन्दर शंख
 लंछन शोभितं ॥ शिवादेवि नन्दन त्रिजग वन्दन
 भविक कमल दिनेश्वरं, गिरनार गिरिवर शिखर
 वंदूं नेमिनाथ जितेश्वरम् ॥ १ ॥ अष्टापदे श्री-
 आदिजिनवर वीरजिन पावापुरे, वासुपूज्य चंपा
 पुरिय सीधा नेम रेवय गिरिवरे ॥ समेतशिखरे
 वीस जिनवर मुगति पहुता मुनिवरू, चउवीस
 जिनवर तेह वंदूं सयल संघे सुखकरू ॥ २ ॥
 इग्यार अंग उपांग वारे दश पयन्ना जाणिये, छ
 छेद ग्रंथ प्रसत्थ अत्था चार मूल वखाणिये ॥
 अनुयोग द्वार उदार नंदीसूत्र जिन मत गाइये,
 एह वृत्ति चूर्णी भाष्य पेंतालीश आगम ध्याइये
 ॥ ३ ॥ दुहं दिसें वालक दाय जेहने सदा भवियण
 सुखकरू, दुख हरे अंवा लुं व सुन्दर दुरिय दा-
 हग अपहरू ॥ गिरनार मंडण नेमि जिनवर

चरणपंकज सेवियें, श्रीसंघ सहुने सदा मंगल
करो अंबा देवियें ॥ ४ ॥

॥ दीपमालिका की स्तुति ॥

॥ पापायां पुरि चारुषष्ठतपसा पर्यकपर्यासनः,
त्तमापालप्रभुहस्तपालविपुलश्रीशुक्लशालामनु ॥
गोसे कार्तिकदर्शनागकरणे तूर्यारकांते शुभे,
स्वातौ यः शिवमाप पापरहितं संस्तौमि वीरप्र
भुम् ॥ १ ॥ यद्गर्भागमनोद्भव व्रतवरज्ञानाक्षरा
सिद्धिणे, संभूयाशु सुपर्वसंततिरहो चक्रे महस्तत्
क्षणात् ॥ श्रीमन्नाभिभवादिवीरचरमास्ते श्री
जिनाधोश्वरा; संघायानघचेतसे विदधतां श्रेयां
स्यने नांसि च ॥ २ ॥ अर्थात्पवमिदं जगाद
जिनपः श्रीवर्द्धमानाभिध, स्तत्पश्चाद्गणनायका
विरचयांचक्रुस्तरां सूत्रतः ॥ श्रीमत्तीर्थसमथनैक
समये सम्यग्दृशां भूसृष्टां, भूयाद्वाव्रुककारक
प्रवचनं चेतश्चमत्कारि यत् ॥ ३ ॥ श्रीतीर्थाधिप
तोथभावपरा सिद्धायिका देवता, चंचच्चक्रधरा

पयोरुहवुद्धिकरं । सुहमभगकुमभगपयासकरं,
 पणामामि जिनागममन्हिकरं ॥३॥ सिरइन्दसमुज्ज-
 लगायलया, सुहभाणविणम्मियएगलया । असु-
 रिंदसुरेंदसुरप्पणया, मम वाणि सुहाणि कुणे-
 सुसया ॥ ४ ॥

॥ आदिजिन की स्तुति ॥

प्रणमूं परम पुरुषपरमेसर, परमातमपद
 धारीजी । प्रथम जिनेसर प्रथम नरेसर, प्रथम
 परम उपगारी जी ॥ योगीसर जिन राज जगत
 गुरु, सहजानंद स्वरूपोजी । ऋषभजिनेसर लोक-
 दिनेसर, आतमसंपद भूपोजी ॥ १ ॥ पांच भरत
 वलि पांचे एरवत, पंच विदेह मभारोजी । काल
 अतीत अनंता जिनवर, पाम्या सिव पद सारोजी ।
 वलिय अनागत काल अनंता, थास्ये इणही
 प्रकारोजी । संप्रतिकाले वीस विदेहे, वंदु बहु
 सुखकारोजी ॥ २ ॥ अरथे श्रीजिनराज वखाएया,
 गूथ्यां श्रीगणधारोजी । अंग दुवालस अतिसे

उत्तम, अरथ विविध विस्तारोजी ॥ गुण परजय
नय भंग प्रमाणे, जिहां षट्द्रव्य विचारोजी । ते
आगम मन श्रुद्ध आराध्यां, तूटे कर्मविकारोजी
॥ ३ ॥ सुन्दर रूप अनूपम सोहे, श्री चक्रेसरिदे
वीजी । श्रीजिनशासन सानिध करणी द्यो,
वंचित नित सेवीजी ॥ कल्याण कारण जेहनी
सेवा, संघ सकल सुख कंदाजी । श्रीजिनचंद
मुणिंद पसाये, कहे जिनहर्ष सुरिंदाजी ॥४ इति॥

॥ अजितनाथजी की स्तुति ॥

विश्वनाथक लायक जितशत्रु विजया नंद ।
पयजुग नित प्रणामे देव अने देविंद ॥ भवलहरी
गहरी सब मन धरी अमंद । श्रीसूरतसहिरे वंदो
अजितजिनंद ॥ १ ॥ आठ प्रातोहारज अतिशय
बलि चोतीस । दिलरंजन देसन तेहना गुणपेंतीस
अगणित ऋद्धिधारी आचारीमां ईस । एह गुणना
धारक वंदुँ जिन चोवीस ॥ २ ॥ सुज्ञ अरथ
अनोपम जिन भापित सिद्धांत । स्याद्वाद नया-

दिक हेतुयुक्ति नवि भ्रांत ॥ पापकरदमपाणी
 सदगतिनी सहनाणी । सुणिये नित भविका
 आगमकेरी वाणी ॥ ३ ॥ शासननी साची देवी
 सानिधकारी । दुःखकष्टनिवारण सेवीजे सुख-
 कारी ॥ साचे मन समरे ते सुख लाभ अपारी ।
 जिनलाभ पयंपे होज्यो जय-जय कारी ॥ ४ ॥

॥ श्रीमहावीर स्वामी की स्तुति ॥

यदंहिनमतादेव, देहिनः संति सुस्थिताः ।
 तस्मै नमोस्तु वीराय ॥ सर्वविघ्नविघातिने ॥ १ ॥
 सुरपतिनतचरणयुगान् । नाभेयजिनादिजिनपति ।
 नौमि यद्वचनपालनपरा जलांजलिंददतु दुःखे
 भ्यः ॥ २ ॥ वदंति वृन्दास्मृणाग्रतो जिनाः, सद-
 र्थतो यद्वचयंति सूत्रतः । गणाधिपास्तीर्थसमर्थ
 नक्षणे, तदंगिनामस्तुमतंनुमुक्तये ॥ ३ ॥ शक्रः
 सुरासुरवरैस्सहदेवताभिः, सर्वज्ञशासनसुखाय-
 समुद्यताभिः श्रीवर्द्धमानजिनदत्तमतप्रवृत्तान् ।
 भव्यान् जनान्नयतु नित्यममङ्गलेभ्यः ॥ ४ ॥

॥ लघ्वी स्त्रोच्छंदसि वीर स्तुतिः ॥

वीरं देवं नित्यं वंदे १

जैनाः पादा युष्मान् पांतु २

जैनं वाक्यं भूयाद्भूत्यै ३

सिद्धा देवी दद्यात्सौख्यम् ॥ ४ ॥

श्रीवीरजिन स्तुति ।

मूरति मनमोहन कंचन कोमल काय, सिद्धा-
रथ नंदन त्रिसलादेवी सुमाय ॥ भृगनायक लं-
छन सात हाथ तनु मांन, दिन-दिन सुखदायक
स्वामि श्रीवर्द्धमान ॥ १ ॥ सुर नरवर किन्तर
वंदित पद अरविंद, कामित भरपूरण अभिनव
सुरतरुकंद ॥ भवियणने तारे प्रवहणसम निस-
दीस, चोवीसे जिनवर प्रणमुं विसवा वीस ॥
अरथे करि आगम भाख्या श्रीभगवंत, गणधर
ने गूंथ्या गुणनिधि ज्ञान अनंत ॥ सुरगुरु पिण
महिमा कह न सके एकांत, समरुं सुखदायक मन
सुध सूत्र-सिद्धांत ॥ ३ ॥ सिद्धायिका देवी वारे

विघ्न विशेष, सहू संकटे चूरे पूरे आस अशेष ॥
अहनिसि कर जोडी सेवे सुरनर इंद, जंपे गुणगण
इम श्रीजिन लाभ सूरिंद ॥ ४ ॥

॥ श्रीचतुर्विंशति जिनानां पंचकल्याणक स्तुतिः ॥

नाभेयं संभवं तं, अजियसुविहयं, नंदणं
सुव्वयव्वा ॥ सुप्पासं पउमनाहं, सुविघ्नशसिपहुं,
सीयलं वासुपूज्यं ॥ श्रेयांसं धर्मशातिं, विमलअ-
रिजिनं, मल्लिकुंधुं अणंतं, नेमिं पासं च वीरं,
नमिमविनमिसौ, पंच कल्याण एसु ॥ १ ॥ गव्भे
हाणोसु जम्मे, वय गहणावणो, केवले लोयकाले,
पत्थाणिव्वाणठाणो, पगवण समए, संथुआ भाव-
सारं ॥ देवेहिं, भवणावणसए, विंतरे किंन्नरोहिं,
तं मभं दिंतु मोक्खं, सयलजिनवरा, पंच कल्या-
ण एसु ॥ २ ॥ हेउं तित्थंकराणं, जमिहअणवमं,
भावतित्थंकरंतं । सव्वन्नूणं च पासा, अहमवि-
नियमा, जायए सव्वकालं ॥ अन्नुन्नप्पत्तिएहिं,
नियममहणं, दीयअंकूररूवं । अठ्वावाहं जिणाणं

जयउ पवयणां, पंच कल्याण एसु ॥३॥ गोरीगंधा
 रोकाली, नरवरमहिषी, हंससंगोरिहव्वा । सव्वछा
 माणमंवा, वरकमलकरा, रोहिणीवत्तअंवा ॥ प-
 न्नत्ती वत्तपउमा, धणइसरणई, खित्तगेहाइवासा ।
 संतिं संघे कुणांतु, गहगणसईया, पंच कल्याण
 एसु ॥४॥ इति श्रीचतुर्विंशतिजिनानां पंचकल्या-
 णक स्तुतिः ॥

॥ श्रीशत्रुंजयको स्तुति ॥

सेत्रुंजामंडण आदिदेव । हूं अहनिस सम-
 रूं तास सेव ॥ रायणतल पगलां प्रभूतणा ।
 पूजि सफल फल सोहामणा ॥ १ ॥ तेवीस तीर्थ
 कर समवसरथा । विमलाचल ऊपर गुण भरथा ॥
 गिरि कडणे आया नेमनाथ । ते जिनवर मेलो
 मुगतिसाथ ॥२॥ सोहम सांमी उपदिस्या । जंबु-
 गणधरने मन वस्या ॥ पुडरगिरि महिमा जे मांह ।
 ते आगम समरूं मनउच्छाह ॥ ३ ॥ चक्केसरि
 गोमुख कवडयच् । मन वंछित पूरण कल्पवृच् ।

सिद्धक्षेत्रसिहरे सहदेवता । भणो नंदिसूरि तुम
पाय सेवता ॥४॥ इति श्रीशत्रुंजय स्तुति ॥

॥ नेमिनाथजीकी स्तुति ॥

॥ गिरनार सिखरपर नेमनाथ सुपहाण ।
दीक्षा वर केवल ज्ञान अने निरवांण ॥ जसु तीन
कल्याणक सुखकर सुरतरुंकंद । तसु भवियण
प्रणामो पाययुगलअरविंद ॥ २ ॥ अठावय चंपा
पावापुर शुभ ठाण आइम वारम जिण चउवी-
सम जिणभाण ॥ अजितादिक वीसे पुहता सि-
वपुर वास । समेतशिखरपर प्रणामुं अधिक उ-
ल्हास ॥ २ ॥ जिनवर मुख हूंती सुणि त्रिपदी
ततकाल । गणधारक गूंथ्या द्वादश अंग वि-
शाल ॥ नयभंग पदारथ सत्त २ नव तत्त । भवि
यणने तारे सायर जिम बोहित्थ ॥ ३ ॥ चक्केस-
रि अंवा पउमादेवी प्रत्यंज । श्रीसंघ मनोरथ पूरे
वासुरवृत्त ॥ ध्यावे सुख पावे श्रीजिनलाभ सूरी-
श । जिनवर सुप्रसादे आस फले सुजगीस ॥४॥

॥ श्री शितलनाथजी की स्तुति ॥

॥ सुख समकितदायक कामित सुरतरुकंद ।
 दृढरथ नृप राणी नंदाकेरो नंद ॥ भद्विलपुर
 स्वामी फेडे भवना फंद । चित चोखे नमिये श्री
 शीतलजिनचंद ॥ १ ॥ अतीत अनागत हुआ
 होस्ये अनंत । संप्रति काले जे क्षेत्र विदेह विच-
 रंत ॥ त्रिहु भवणे ठवणा सासय असासय हुंत ।
 ते सगला त्रिकरण प्रणमं श्रीअरिहंत ॥ २ ॥
 कालिक उत्कालिक अंग अनंग पविध । नयभंग
 निक्षेपा स्याद्वाद मितसिद्ध ॥ भविजन उपगारी
 भारी जिन उपदेश । श्रुत श्रवणे सुणतां नासे
 कोडि कलेश ॥ ३ ॥ ब्रह्मजन् असांका सासन
 सुरि सुविचार । संघ सानिधकारी निरमल सम-
 कित धार ॥ चिंता दुख चूरे पूरे मनह जगीस ।
 ध्यान तेहनो धरिये कहे जिनलाभसूरिश ॥ ४ ॥

॥ समवसरण विचारगर्भित स्तुति ॥

॥ मिल चोविह सुरवर विरचे त्रिगडो सार

अढी गाउ उंचो पिहुलो जॉयण पार ॥ विच क-
 नकसिंहासन पदमासन सुखकार । श्रीतीरथना-
 यक वैसे चोमुखधार ॥ १ ॥ तीन छत्र सिरोवर
 चामर ढोले इंद । देवदुंदुभि वाजे भांजे कुमति
 फंद ॥ भामंडल पूंठे ऊलके जांण दिनंद ।
 तिहुअण जन भवि मन मोहे सयल जिनंद ॥२॥
 द्रव्यभाव सुठवणा नाम निक्षेपा च्यार । जिण
 गणहर भाख्या सूत्र सिद्धांत मभार ॥ जिनवर-
 नी पडिमा जिन सरखी सुखकार । शुभ भावे
 वंदो पूजो जग जयकार ॥३॥ दुख हरणी मंगल
 करणी जिनवर वाणी । भवच्छेद कृपाणी मीठो
 अमिय समाणी ॥ मन शुद्धे आणी प्रतिवृभो
 भवि प्राणी । सुयदेवि पसायें पामे जयति सुना-
 णी ॥ ४ ॥ इति ॥

॥ श्री चैत्री पूणिमाकी स्तुति ॥

॥ सेत्रुंजागिरि नमिये ऋषभदेव पुंडरीक ।
 शुभ तपनी महिमा सुण गुरुमुख निरभीक ॥ शुद्ध

मन उपवासे विधिसुं चैत्य बंदनीक । करिये
जिन आगल टाली वचन अलीक ॥१॥ शक्रस्त-
वनादिक प्रथम तिलक दस बीस । अक्षतं गिण-
तीसे चढता तिम चालीस ॥ पंचासनी पूजा
भापड़ इम जगदीस । तेहिज नित प्रणमुं स्वामी
जिन चोवीस ॥२॥ सुदि पक्षनी पूनम चेत्र मास
शुभ वार । विधिसेती लहिये आगम साख वि-
चार ॥ इम सोले वरसलग धरिये ज्ञान उदार ।
करतां नर नारी पामे भवनो पार ॥ ३ ॥ सोवन
तन चरणे नयने तिम अरविंद । चक्रसेसरीदेवी
सेविय नर सुरवृंद ॥ कामित सुखदायक पूरय
मन आणंद । जंपे गणनायक श्रीजिनलाभसू-
रिंद ॥ ४ ॥

॥ नवपदजी की स्तुति ॥

॥ समरुं सुखदायक मन सुध वीर जिनंद ।
जिण नवपद महिमा भापी ज्ञान दिणंद ॥ आसु
मधु उज्जल सातमथी नवदीस । नव आंवल

करिये मन धरि अधिक जगीस ॥ १ ॥ अरिहंत
 वलि सिद्ध आचारज उवभाय । मुनि दरसण
 तिम वलि नाण चरण तव थाय ॥ प्रतिपदनो
 गुणनो गुणिये दोय हज्जार । सहु जिननी पुजा
 कीजे अष्ट प्रकार ॥२॥ बारस अडवत्तीस पण
 वीस सग वीस सार । सडसठ इक्कावन सीतर
 पंच्चास प्रकार ॥ इण संख्या काउसग परदत्ता
 परिणाम । आगम भापित विधि इम कीजे
 अभिराम ॥ ३ ॥ चक्केसरिदेवी तिम विमलेसर
 जत्त । श्रीपालतणीपर पूरे वंछित सुख ॥ इण
 विधि आराधो सिद्धचक्र भविप्राणी । जिनहर्ष
 वढे नित श्रीजिनचंदनी वाणी ॥४॥ इति ॥

॥ वीस स्थानककी स्तुति ॥

॥ शिवसुख दाता जगत विख्याता पूरण
 अभिनव कामोजी । ज्ञानादिक गुण चेतनरूपी
 चिदानंदघन धामिजी ॥ थानक वीसे आगम
 भणिया वीतराग गुण भुक्ताजी । जे नर अंतर

आत्म ध्यावे शिवरमणी वर युक्ताजी ॥ १ ॥
 अरिहंत सिद्ध प्रवचन सूरि थिवर पाठक मुनि
 सारोजी । ज्ञानी दरसन विनय चारित्र ब्रह्मचा-
 रज क्रियधारोजी ॥ तपसी गणधर जिण चारित्रो
 नाण श्रुत तिच्छ भूपोजी । ए पद निज भविभावे
 सेवे तेहिज ब्रह्म सरूपोजी ॥ २ ॥ दोय सहस्र
 गुणानो प्रत्येकें च्यार सया उपवासोजी । द्रव्य-
 भावसें विधि परकासे तीर्थकर पद खासोजी ॥
 तीजे भव वर वीस थानकनी सेव करे भव्य प्राणी
 जी । समकित बीजे जे निज आत्म आरोपे
 चित्त आणीजी ॥ ३ ॥ सुरतरु सम तप फल हे
 मोटो थोसुरदेवि सहाईजी । खरतर गच्छ जिन
 आज्ञाधारी पाटोधर वरदाईजी ॥ जिन सौभा-
 ग्यसूरिंद पसायें हंस सूरिंद गुण गावेजी । संघ
 सकलकृं सानिधकारी मन वंछित फल पावेजी । ४।

॥ वीस स्थानक की स्तुति ॥

अरिहंत सिद्ध प्रवचण आचारज थिवराण ।

उवभाय साहू नाण दंसण विनय पहाण ॥ चा-
रित्त ब्रह्म किरिया तपि गोयम जिनभाण । संयम
नाणी श्रुत संघ सेवो वीसे ठाण ॥ १ ॥ उत्कृष्टे
जिनवर एकसो सित्तर धीर । वलि काल जघन्ये
जिनवर वीस गंभीर ॥ जिन थाय अनंत अतीत
अनागत काल । ए वीसे थानक आराधी गुण-
माल ॥ २ ॥ आवश्यक वे वेला जिनवंदन त्रिण
काल । थानकपद गिणवो सहस दोय सुकमाल ॥
काउसग गुण स्तवना पूजा प्रभावना सार । इम
शासन वच्छल करतां भवनो पार ॥ ३ ॥ समरीजे
अहनिशि गुणरागी सुर साथ । जरक जरकणी
सुरपती वेयावच्च कर नाथ ॥ थानकतप विधसुं
जे सेवे मन रंग । देवचंद्र आणाये सानिध करे
तसु चंग ॥ ४ ॥

॥ नवपदजी की स्तुति ॥

अनुपम गुण आंगर सुरक सागर वंदित
सुरनर वृन्दाजी ॥ नवपदमांहे मुख्य वखाण्या

ऋषभादिक जिनचंदाजी । भाव धरी ने जे भवि
 वंदे वेदे कम निकंदाजी । नृप श्रीपालतणीप
 ध्यावो पावो सुरक अमंदाजी ॥ १ ॥ अरिहं
 सिद्ध सूरि उवभाया सकल मुनि सुखकारीजी
 दंसण-नाण-चरण-तप नवपद धारे चित संस
 रीजी । नवमें भव भवि सिद्धपद पावे प्रवच
 वाणी साखीजी । वीरजिनंदे ज्ञानानंदे गौत
 आगे भाखीजी ॥ २ ॥ द्वादस आठ छत्तीसे गुण
 वलि पणवीस सगवीस सारोजी । सडसठ इक्क
 वन वलि जैती सितर पच्चास प्रकारोजी ॥ आस
 चैत्रक मास धवल पख सातम थी नव दिहसेंजी
 तेरसहस नव पदनो गुणनो नव आंवल न
 विहसेंजी ॥ ३ ॥ विमलयज्ञ चक्केसरीदेवी रिध
 सिध वंछित दाताजी । उली नव-विधि युक्ते से
 ते पामे सुखशाताजी । खरतर गच्छ जिन आ
 ज्ञाकारी पाटोधरपद मुक्ताजी । जिन सौभाग्य
 सूरिंद पसाये हंससूरिंद गुण उक्ताजी ॥ ४ ॥

॥ शत्रुजय की स्तुति ॥

विमलाचल मंडन जिनवर आदिजिणंद ।
 निरमम निरमोही केवलज्ञान दिणंद । जे पूर्व
 निवाणूं वार धरी आनंद । सेत्रुंजागिरिसिखरे
 समवसस्था सुखकंद ॥ १ ॥ इण चउवीसीमां
 ऋपभादिक जिनराय । वलि काल अतीते अनंत
 चोवीसी थाय ॥ ते सवि इण गिरवर आवी फरसी
 जाय । इम भावी काले आवस्ये सवि मुनिराय
 ॥ २ ॥ श्रीऋपभना गणधर पूंडरीक गुणवंत ।
 द्वादस अंग रचना कीधी जेण महंत ॥ सब
 आगम मांहे सेत्रुंज महिम महंत । भाखी जिन
 गणधर सेवो करि थिर चित्त ॥ ३ ॥ चक्केसरि
 गोमुह कवड पमुह सुर सार । जसु सेवा कारण
 थापे इन्द्र उदार ॥ देवचंद्रगणि भाखे भविजनने
 आधार । सब तीरथमांहे सिद्धाचल सिरदार ॥४॥

॥ श्रीशांतिनाथजी की स्तुति ॥

शांति जिनेसर जग अलवेसर अचिरा उदर

अवतरियाजी । विश्वसेन नृप नंदन जगगुरु हथ
 णापुर सुख करियाजी ॥ ईतउपद्रव मारि विकारी
 शांति करी संचरियाजी । जे भवि मंगल कारण
 ध्यावे ते हुय गुण-गण दरियाजी ॥ १ ॥ वर्त्तमान
 जिन सब सुखकारण अतीत अनागत वंदोजी ।
 वारे चक्री नव नारायण नव प्रतिचक्री आनंदोजी ॥
 रामादिक जे पुरप सलाका वंदत पाप निकं-
 दोजी । द्रव्य निक्षेपे जिनसम जाणो काटे भव
 भय छंदोजी ॥ २ ॥ अंग उपांगे जिनवर प्रतिमा
 श्रीजिन सरखी भाखीजी । द्रव्य भाव विहुं भेदे
 पूजा महानिशीथे साखीजी ॥ विषय निवृत्ती सत्
 आरंभे विनय तपी ते जाणोजी । शुभयोगे नहि
 आरंभकारी भगवड् अंग प्रमाणोजी ॥३॥ थापना
 सत्ये देवी निर्वाणी श्रीसंघने सुखकारीजी ।
 कारणथो सब कारज सोछे जिनवर आज्ञा
 धारीजी । श्रीजिनकीत्ति सूरीश्वर गच्छपति पा-
 ठक श्रीऋद्धिसारीजो । समकितधारी देव सहाई
 सुखसंपत्त दातारीजी ॥ ४ ॥

॥ श्रीसीमधरजिन की स्तुति ॥

॥ मन सुद्ध वंदो भावे भवियण श्रीसीमंधर
 रायाजी । पांचसें धनुष प्रमाण विराजित कंच-
 नवरणी कायाजी । श्रेयांस नरपति सत्यकि नंदन
 वृषभलंछन सुखदायाजी । विजय भली पुखला-
 वड़ विचरे सेवे सुरनर पायाजी ॥ १ ॥ काल
 अतीत जे जिनवर हूआ होस्ये बलिय अनंताजी ।
 संप्रति काले पंच विदेहे वरते वीस विख्याताजी ॥
 अतिशयवंत अनंत जिनेसर जगबंधव जगत्रा-
 ताजी । ध्यायक ध्येय स्वरूप जे ध्यावे पावे शिव-
 सुख साताजी ॥ २ ॥ मोह मिथ्यात तिमिर
 भव नासन अभिनव सूर समाणीजी । भवोदधि
 तरणी मोक्ष निसरणी नय निक्षेप पहानीजी ।
 ए जिनवाणी अमिय समाणी आराधो भविप्रा-
 णीजी ॥ ३ ॥ शासनदेवी सुरनर सेवी श्रीपंचा
 गुली माईजी । विघन विडारण संपत्तिकारण
 सेवकजन सुखदाईजी ॥ त्रिभुवनमोहनी अंतर

जामनी जग जस ज्योति सवाईजी । सांनिध-
कारी संघने होयज्यो श्रीजिनहर्ष सहाईजी ॥४॥

॥ श्रीज्ञानपंचमी की स्तुति ॥

॥ पंच अनंत महंत गुणाकर पंचम गति
दातार । उत्तम पंचम तपविधि वायक ज्ञायक
भाव अपार । श्रीपंचानन लांछन लांछित वंछित
दान सुदत्त । श्रीवर्द्धमान जिनंदसु वंदो ध्यावो
भविजन पत्त ॥ १ ॥ पूरण पंच महाश्रव रोधक
बोधक भव्य उदार । पंच अनुव्रत पंच महाव्रत
विधि विस्तारक सार । जे पंचेंद्रिय दम सिव
पहुता ते सगला जिनराय । पांचम तप धर भवि-
यण उपर सुथिर करी सुपसाय ॥ २ ॥ पंचाचार
धुरंधर जुगवर पंचम गणधर जाण । पंच ज्ञान
विचार विराजित भाजत मद पंच वाण । पंचम
काल तिमरभरमाहे दीपकसम सोभंत । पांचम
तपफल मूल प्रकासक ध्यावो जिनसिद्धंत ॥ ३ ॥
पंच परम पुरुपोत्तम सेवाकारक जे नरनार ।

निरमल पांचम तपना धारक तेहभणी सुविचार ।
 श्रीसिद्धायिकादेवी अहनिशि आपो सुख अमंद ।
 श्रीजिनलाभ सुरिंद पसाये कहे जिनचंद्र
 मुणिंद ॥ ४ ॥

॥ श्रीमौन एकादशी की स्तुति ॥

अरनाथ जिनेश्वर दीक्षा नमिजिन ज्ञान ।
 श्रीमल्लि जनम व्रत केवलज्ञान प्रधान । इग्या-
 रस मिगसर सुदि उत्तम अवधार । ए पंच-
 कल्याणक समरीजे जयकार ॥ १ ॥ इग्यारे
 अनुपम एक अधिक गुण धार । इग्यारे वारे
 प्रतिमा देसक धार । इग्यारे दुगुणा दोय अधिक
 जिनराय । मन सूधे सेव्यां सब संकट मिट
 जाय ॥ २ ॥ जिहां वरस इग्यारे कीज व्रत उप-
 वास । वलि गुणनो गुणिये विधिसेती सुविलास ।
 जिन आगमवाणी जाणी जगत प्रधान । इक
 चित्त आराधो साधो सिद्ध विधान ॥ ३ ॥ सुर
 असुर भुवण वण सम्यग् दरसणवंत । जिनचंद्र

सुसेवक वेयावच्च करंत ॥ श्रीसंघ सकलमें आ-
राधक बहु जाण । जिनशासन देवी देव करो
कल्याण ॥ ४ ॥

॥ श्रीरोहिणीतप की स्तुति ॥

जयकारी जिनवर वासुपूज्य अरिहंत ।
रोहिणी तपनो फल भाख्यो श्रीभगवंत । नर-नारी
भावे आराधो तप एह । सुख संपत लीलालक्ष्मी
पामे तेह ॥ १ ॥ ऋषभादिक जिनवर रोहिणी
तप सुविचार । जिनमुख परकासे वेठी परखदा
वार । रोहिणी दिन कीजे रोहिणीनो उपवास ।
मन वंछित लीला सुन्दर भोग-विलास ॥ २ ॥
आगममें एहनो वोल्हो लाभ अनंत । विधसुं
परमारथ साधे सुधो संत । दुख-दोहग तेहनो
नासि जाय सब दूर । बलि दिन-दिन अंगे वाधे
अधिको नूर ॥ ३ ॥ महिमा जग मोटो रोहिणी
तप-फल जाण । सौभाग्य सदा जे पामे चतुर
सुजाण । नित घर-घर महोच्छ्रव नित नवला

सिण्णगार । जिनशासनदेवी लब्धिरुची जयकार
॥ ४ ॥ इति ॥

॥ चतुर्दशी की स्तुतिः ॥

अविरल कमल गवल मुक्ता फल कुवलय
कनक भासूरं । परिमल बहुल कमलदल कोमल
पदतललुलितनरेश्वरं ॥ त्रिभुवन भवन सुदीप्र-
दीपक मणिकलीका विमल केवलं । नवनव युग-
लजलधि परमित जिनवरनिकरं नामाम्यहं ॥१॥
व्यंतर नगर रुचिक वैमानिक कुल गिरि कुंडस-
कुंडले । तारक मेरुजलधि नंदीसर गिरि गजदं-
तसुमंडले ॥ वक्षस्कार भवन वन जोत्तर कुरुवै-
ताढ्य कुंजिगा । त्रिजगति जयति विदितशा-
श्वतजिननतिततिरिहमोपारगा ॥२॥ श्रुत रत्नेक
जलधि मधु मधु मधुरिम रसभर गुरु सरोवरं ।
परमततिमिरकिरणहरणोध्दुर दिन कर किरण
सहोदरं ॥ गमनयहेतुभङ्गगंभीरिमगणधरदेव
गीप्पदं । जिनवर वचन मवनिमवतात् सुचिदि-

शतु नतेषु संपदं ॥३॥ श्रीमद्वीर चरम तीर्थाधिप
मुख कमलाधि वासिनी । पार्वण चंद्र विशद वद
नोज्ज्वल राज मराल गामिनी ॥ प्रदिशतु सकल
देव-देवी-गण परिकलिता सतामियं विच कल-
धवल कुवलयकल मूर्त्तिः श्रुतदेवी श्रुतोच्ययं ॥४॥

॥ वीजकी स्तुति ॥

मनसुध वंदो भावेभवियण श्रोसीमंधर रा-
याजी । पांचसे धनुष प्रमाण विराजित कंचन-
वरणी कायाजी ॥ श्रेयांस नरपति सत्यकी नंदन
वृषभ लंछन सुखदायाजी । विजय भली पुख-
लाइव विचरे सेवे सुरनर पायाजी ॥ १ ॥ काल
अतित जे जिनवर हूवा होस्ये जेह अनंता जी ।
संप्रतिकाले पंचविदेहे वरतेवीस विख्याताजी ॥
अतिशयवंत अनंत गुणाकर जग बंधव जगत्राता
जी । ध्यायक ध्येय स्वरूप जे ध्यावे पावे शिव
सुख सताजी ॥२॥ अरथे श्रीअरिहंत प्रकाशी
सूत्रे गणधर आणीजी । मोहमिध्यात्व तिमिर-

भरनाशन अभि नव सूर-समाणीजी ॥ भवोद्धि
 तरणी मोक्ष नीसरणी नयनिक्षेप सोहाणीजी ।
 ए जिनवाणी अभिय समाणी आराधो भविप्राणी
 जी ॥३॥ शासनदेवी सुरनर सेवी श्रीपंचांगुली
 माईजी । विघन विडारणी संपत्तिकारणी सेवक
 जन सुखदाईजी ॥ त्रिभुवनमोहनी अंतरजामनी
 जगजस ज्योतिसवाईजी । आनिधकारी संधने
 होयज्यो श्रीजिनहर्ष सुहाईजी ॥ ४ ॥

॥ पञ्चमीकी स्तुति ॥

पंच अनंत महंत गुणाकर पंचमि गति दा-
 तार । उत्तम पंचमि तप विधि दायक ज्ञायक
 भाव अपार ॥ श्रीपंचानन लांछन लांछित वांछित
 दानसुदक्ष । श्रीवर्द्धमान जिणंदसु वंदो आणंदो
 भविपक्ष ॥१॥ पूरण पंचमहाश्रव रोधक बोधक
 भव्य उदार ॥ पंच अणुव्रत पंच महाव्रत विधि
 विस्तारक सार ॥ जे पंचेंद्रिय दमि शिव पुहता ते
 सगला जिनराय । पंचमी तप धर भवियण ऊपर

सुथिर करो सुपसाय ॥२॥ पंचाचार धुरंधर युगवर
 पंचम गणधर वाण । पंचज्ञान विचार विराजित
 भाजित मद पंच वाण ॥ पंचम काल तिमिरभर-
 मांहे दीपक सम सोभंत । पंचम तप फल मूल
 प्रकाशक ध्यावो जिनसिद्धांत ॥३॥ पंच परम पुरु-
 पोत्तम सेवा कारक जे नर-नार । वलि निरमल
 पंचमी तप धारक तेहभणी सुविचार ॥ श्रीसिद्धा-
 यिका देवी अहनिस आपो सुख अमंद । श्रीजि-
 नलाभ सुरिंद पसाये कहे जिनचंद मुणिंद ४

॥ ग्यारसकी स्तुति ॥

अरनाथ जिनेसर दीक्षा नमीजिन ज्ञान ।
 श्रीमल्लिजन्म व्रत केवलज्ञान प्रधान ॥ इग्यारस
 मिगसर सुदि उत्तम अवधार । ए पंचकल्याणक
 समरीजें जयकार ॥१॥ इग्यारे अनुपम एक अ-
 धिक गुणधार । इग्यारे वारे प्रतिमा देशक धार ।
 इग्यारे दुगणा दोय अधिक जिनराय । मन सुध
 सेव्यां सब संकट मिटजाय ॥ २ ॥ जियांवरस

इग्यारे कीजे व्रत उपवास । वलि गुणानो गुणिये
 विधिसेती सुविलास ॥ जिन आगम वाणी जाणी
 जगत प्रधान । एक चित्त आराधो साधो सिद्ध
 विधान ॥३॥ सुर असुर भुवणवण सम्यगदरसन
 वंत ॥ जिनचंद्र सुसेवक वैयावच्च करंत ॥ श्री
 संघ सकलमें आराधक बहुजाण । जिन शासन
 देवी देव करो कल्याण ॥ ४ ॥

॥ श्री महावीर स्वामीकी स्तुति ॥

महावीर जिनेश्वर प्रणमुं वारंवार ।

सर्वज्ञ निरंजन कछणारस भंडार ॥

जगनाथ दिवाकर सुखकर हितकर जान ।

जो भविजन सेवे पावे केवलज्ञान ॥ १ ॥

तीर्थंकर शंकर सकल विश्व आंधार ।

अगणित गुण वरिया आतम ज्ञान उदार ॥

शिवपद जग उत्तम आनन्द अनुभव सार ।

पदपंकज सेवा सुख सम्पत्ति दातार ॥ २ ॥

श्रुतज्ञान जगतमें करता बहु उपकार ।

शिरताज वखाण्या अनुयोगद्वार मभार ॥
 अमृत रस पीवो जिन आगम सुखकन्द ।
 जो नित प्रति ध्यावे पावे परमानन्द ॥ ३ ॥
 जिन आणा मीठी प्रेम धरी चित लाय ।
 निजगुरु प्रसादे दुःख दुर्गति मिट जाय ॥
 आनन्द मनरंगे भवसागर तिरजाय ।
 श्रुतदेवी सानिध निज करणी हुलसाय ॥४॥

॥ वर्धमानजिन स्तुति ॥

मूरति मन मोहन कंचन कोमल काय ।
 खिद्धारथ नन्दन त्रिशलादेवी सुमाय ॥ मृगनायक
 लंछन सातहाथ तनुमान । दिनदिन सुख दायक
 स्वामी श्रीवर्द्धमान ॥ १ ॥ सुर नरवर किन्नर
 वंदितपद अरविंद । कामित भर पूरण अभिनव
 सुरतरुकंद ॥ भवियणने तारे प्रवहण सम निशि
 दीस । चौवीशे जिनवर प्रणमं विसवा वीस ॥२॥
 अरथे करि आगम भाख्या श्रीभगवंत । गणधरंते
 गूंथ्या गुणनिधि ज्ञान अनंत ॥ सुरगुरु पण महिमा

कहि न सके एकंत । समरुं सुखसायर मनशुद्ध
 सूत्र-सिद्धांत ॥ ३ ॥ सिद्धायिका देवी वारे विघन
 विशेष । सहु संकट चूरे पूरे आशः अशेष ॥ अह
 निश कर जोड़ी सेवे सुर नर इंद्र । जंपे गुणगण
 इम श्रीजिनलाभ सूरिदं ॥ ४ ॥

॥ श्रीसीमंधरजी की स्तुति ॥

वंदू जिनवर विहरमांण, सीमंधर सामी ॥
 केवल कमला कांत दांत, करुणारस धामी ॥ १ ॥
 कांचनगिरि सम देह, कांति वृष लांछन पाय ॥
 चौरासी लख पूर्व आय, सेवे सुरराय ॥ २ ॥ पूर्व
 विदेह विराजता ए, पुंडरीकनी भांण ॥ प्रभु द्यो
 दरसन संपदा, कारण पद कल्याण ॥ ३ ॥

॥ समेतशिखरजीकी स्तुति ॥

पूरव दीसे दीपतो । गिरवो गिरवर नित्त ।
 तीरथ सिखर समेतको ॥ चाहूंंदरसण चित्त ॥ १ ॥
 प्रथम चरम वारम प्रभु । बावीसम विण वीस ॥
 अणसण कर इण गिरवरे । शिव पुहता सु ज-

गीस ॥ २ ॥ सुणिये इणपर सूत्रमें । जिनवर
गणधर वांण ॥ भविजन भेटो भगतसुं । तीरथ
करण कल्याण ॥ ३ ॥

॥ जिनस्तुति ॥

दशनाद्दुरितध्वंसी, वंदनादिच्छितप्रदः ॥

पूजनात्पूरकः श्रीणां, जिनःसांक्षात्सुरद्रुमः ॥

॥ श्रीआदिनाथजी की स्तुति ॥

सुवर्णवर्णं गजराजगामिनं, प्रलंबवाहुं सुवि-
शाल लोचनम् ॥ नरामरेंद्रैः स्तुतपादपंकजं,
नमामि भक्त्या ऋषभं जिनोत्तमम् ॥ ३ ॥

॥ शांतिनाथजी की स्तुति ॥

सालम जिनवर-शांतिनाथ, सेवो शिर-
नामी ॥ कंचन वरण शरीर कांति, अतिशय अ-
भिरामी ॥ अचिरा अंगज विश्वसेन, नरपति
कुलचंद्र ॥ मृगलंछन धर पद कमल, सेवे सुर-नर
वृन्द ॥ जुगमां अमृत जे हवी ए, जास अखंडित
आण ॥ एक मन आराधतां, लहिये कोडि
कल्याण ॥ ४ ॥

॥ श्रोनेमिनाथजी की स्तुति ॥

प्रह सम प्रणमं, नेमिनाथ, जिनवर जयवंत ॥
 यादवकुल अवतंस हंस, उत्तम गुणवंत ॥ समु-
 द्रविजय शिवा देवी जास, मति सहित उदार ॥
 सुन्दर श्याम शरीर ज्योति, सोहे सुखकार ॥ गढ
 गिरनारें जिण लह्युं, ए, अमृत पद अभिराम ॥
 तास ज्ञाना, कल्याण मुनि, निशिदिन नमत
 कल्याण ॥ ५ ॥

॥ श्रीपार्श्वनाथजी की स्तुति ॥

पुरसाढाणी पास नाह, नमियें मन रंग ॥
 नील वरण अश्वसेन नंद, निरमल निःशंक ॥
 कामित पूरणकल्प साख, वामासुत सार ॥ श्री
 गौडीपुर स्वामि नाम, जपियें निरधार ॥ त्रिभु-
 वन पति त्रैवीशमो ए; अमृत सम जसु वाण ॥
 ध्यान धरंतां एह नुं, प्रगटें परम कल्याण ॥ ६ ॥

॥ श्रीमहावीर प्रभुकी स्तुति ॥

वंदूं जगदाधार सार, शिव संपत्ति, कारण ॥

जन्म जरा मरणादि रूप, भव-ताप निवारण ॥
 श्री सिद्धारथ तात-मात, त्रिशला तनुजात ॥
 सोवनं वरण शरीर वीर, त्रिशुवन विख्यात ॥
 अमृतरूपे राजतो ए, चोवीशमो जिनराय ॥
 ज्ञानप्रमुख कल्याणमुनि, आपो करि सुपसाय ॥७॥

॥ सरस्वती की स्तुति ॥

अवामा वामादे सकलमुभयः कालघटना ।
 द्विधा भूतं रूपं भगवदभिधेयं भवति ॥ तदंतर्मंत्रं
 मे स्मरहरमयं सेंदुममलं निराकारं शस्त्रजप नरपते
 सिद्ध्यतु सते ॥ १ ॥ अविरलशब्दघनोघा । प्रज्ञा-
 लितसकलभूतलकलंकाः ॥ मुनिभिरुपासित्कच-
 रज्ञा । सरस्वती हरतु मे दुरितं ॥ २ ॥


॥ दर्शनं देवदेवस्य, दर्शनं पापनाशनं । दर्शनं
 स्वर्गसोपानं, दर्शनं मोक्षसाधनम् ॥ १ ॥ दर्शनेन
 जिनैर्द्राणां, साधूनां वंदनेन च । न तिष्ठति चिरं
 पापं, छिद्रहस्ते यथोदकं ॥ २ ॥ अथ प्रज्ञालितं
 गात्रं, नेत्रे च सफलो कृते । मुक्तोहं सर्वपापे-

भ्यो, जिनेंद्र ! तव दर्शनात् ॥ ३ ॥

हत्था जेह सुलक्षणा, जे जिनवर पूजंत ॥
जे जिनवर पूज्या नहीं, ते परघर काम करंत १
वाडी चंपो मोगरो, सोवन कूपलियांह ॥ पास
जिनेसर पूजसां, पांचू आंगलियांह ॥१॥ जीवड़ा
जिनवर पूजिये, पूजाना फल होय ॥ राजा नमे
परजा नमे, आंण न लोपे कोय ॥ ३ ॥ फूलाकरे
वागमें, वैठा श्रीजिनराज ॥ ज्यूं तारामें चंद्रमा,
त्यूं सोभें महाराज ॥४॥ जगमें तीरथ दो वड़ा,
सेत्रुंजो गिरनार ॥ उण गिरि ऋषभ समो
सरथा, उण गिरि नेमकुमार ॥५॥ मोहनी मूरत
पासकी, मो मन रही लोभाय ॥ ज्यूं महदीके
पातमें, लाली लखी न जाय ॥ ६ ॥ राजमती
गिरवर चढ़ी, वंदन नेमकुमार ॥ स्वामी अजहु
न वावडे, मो मन प्राण आधार ॥ ७ ॥ धन ते
सांड पंखियां, वसे जो गढ़ गिरनार ॥ चूंच भरे
फल फूलसुं, चाढ़े नेमकुमार ॥ ८ ॥ श्रीकेशरि-

यानाथकूं, नमन करूं चित चाय ॥ ऋद्धि-वुद्धि
मोहे दीजिये, दिन-दिन अधिक सवाय ॥ ९ ॥
श्रीकेसरियानाथके, केसर हंटा कीच ॥ मरुदे-
वाके लाडले, वसे पहांडां वीच ॥ १० ॥ इस
रागको नाम कल्याण हे, प्रभुजीको नाम कल्या
ण ॥ सकल सभा कल्याण हे, जब प्रगटी राग
कल्याण ॥ ११ ॥ सोरठ राग सुहामणो, मुखां न
मेली जाय ॥ ज्यूं-ज्यूं रात गलंतडी, त्यूं-त्यूं
मीठी थाय ॥ १२ ॥ धंदो कर धन जोडियो, लाखां
उपर कोड़ ॥ मरती वेला मानवी, लियो कंदोरो
तोड़ ॥ १३ ॥

दया गुणांरी वेलड़ी, दया गुणांरी खांण ॥
अनंत जीव मुगते गया, दयातणे परिमाण ॥ १४ ॥
दया मुगति-तरु वेलडी, रोपी आद जिनंद ॥
श्रावक कुल मंडन भई, सींची सर्व जिनंद ॥ १५ ॥



चैत्यवन्दन-संग्रह ।

॥ सिद्धाचलजी का चैत्यवन्दन ॥

सिद्धो विजाड चक्री नमि विनमी । मुणी
 पुं डरीओ मुनिंदो ॥ वाली पज्जुन्न संवो भरहसग
 मुणी सेलगो पंथगोथ ॥ रामो कोडी पंच द्रविड
 नरवई नारदो पंडुपुत्ता । मुत्ता एवं अणोणो विम-
 लगिरिमहं तिच्छमेयं नमामि ॥ १ ॥

॥ श्रीस्तभन पार्श्वनाथजी का चैत्यवन्दन ॥

श्रीसेटी तट मेरु धाम, थंभणपुर ठाम ॥
 सुरतरु सम सिरि पास सांम, राजे अभिरांम १
 विबुधेसर सिरि अभय देव संठवियाणं दिय
 थुइ जलसिरिय नील वर्ण, फण पल्लव मंडिय २
 सुर-नर सुह कुसुमावलीए, शिवफल दायक

जांण ॥ आराहत्रो जदि एग मण, पावो पद
कल्याण ॥ ३ ॥

॥ नवपदजी का चैत्यवंदन ॥

॥ श्रीअरिहंत उदार कांति अति सुन्दर रूप,
सेवो सिद्ध अनंत संत आतम गुण भूप ॥ आ-
चारज उवभाय साधु समतारस धाम, जिन
भापित सिद्धांत शुद्ध अनुभव अभिराम ॥ १ ॥
बोध-बीज गुण संपदा ए, नाण-चरण तव शुद्ध ॥
ध्यावो परसानंद पद, ए नवपद अविरुद्ध ॥ २ ॥
इह परभव आणंद जगमांहि प्रसिद्धो, चिंता-
मणि सम जास जोग बहु पुन्ये लद्धो ॥ तिहुंअण
सार अपार एह महिमा मन धारो, परहर पर
जंजाल जाल नित एह संभारो ॥३॥ सिद्ध चक्र
पद सेवतां ए, सहजानंद स्वरूप ॥ अमृतमय
कल्याण-निधि प्रगटे चेतन भूप ॥ ४ ॥

॥ सीमंधरजिन-चैत्यवंदन ॥

सीमंधर परमात्मा, शिवसुखना दाता ॥

पुक्खलवइ विजये जयो, सर्व जीवना त्राता ॥ १ ॥
 पूवे विदेह पुंडरी गिणी, नयरी ए सोहे ॥ श्रीश्रे
 यांस राजा तिहां, भवित्रणानाँ मन मोहे ॥ २ ॥
 चउद सुपन निर्मल लही, सत्यकीं राणी मात ॥
 कुंधु-अरजिन अंतरे, श्रीसीमंधर जात ॥ ३ ॥
 अनुक्रमे प्रभु जनमीया, वली यौवन पावे ॥
 मात-पिता हरखे करी, रुकमिणी परणावे ॥ ४ ॥
 भोगवी सुख संसारनां, संजम मन लावे ॥ मुनि-
 सुवत नमि अंतरे, दीक्षा प्रभु पावे ॥ ५ ॥ घाती
 कर्मनो जय करी, पाम्या केवलनाण ॥ ऋषभ
 लंछने शोभता, सर्व भावना जाण ॥ ६ ॥ चोरासी-
 जस गणधरा, मुनिवर एकसो कोड ॥ त्रण भुवनमां
 जोअतां, नहिं कोइ एहनी जोड ॥ ७ ॥ दश
 लाख कह्या केवली, प्रभुजीनो परिवार ॥ एकस-
 मय त्रण कालना, जाणे सर्व विचार ॥ ८ ॥ उदय
 पेढाल जिनांतरेए, थाशे जिनवर सिद्ध ॥ जस-
 विजय गुरु प्रणामतां, शुभ वंछित फल लीध ॥ ९ ॥

सीमंधरजिन-द्वितीय चैत्यवंदन ॥

श्रीसीमंधर जगधणी, आ भरते आवो ॥

करुणावंत करुणा करी, अमने वंदावो ॥ १ ॥

सकल भक्त तुमे धणीए, जो होवे अम नाथ ॥

भवोभव हुं हुं ताहरो, नहीं मेलुं हवे साथ २

सयल संग छंडी करीए, चारित्र लेइशुं ॥ पाय

तमारा सेवीने, शिवरमणी वरिशुं ॥ ३ ॥ एअ-

लजो मुजने घणो ए, पूरो सीमंधर देव ॥ इहां

थकी हुं वीनवुं, अवधारो मुक्त सेव ॥ ४ ॥

श्रीसिद्धाचलजी का चैत्यवंदन ॥

विमलकेवलज्ञानकमला, कलित त्रिभुवन

हितकरं ॥ सुरराजसंस्तुतचरणपंकज, नमो आदि

जिनेश्वरं ॥ १ ॥ विमलगिरिवरशृङ्गमंडण, प्रवर-

गुणगणभूधरं ॥ सुरअसुर किन्नर कोडि सेवित ॥

नमो० ॥ २ ॥ करती नाटक किन्नरी गण; गाय

जिन गुण मनहरं ॥ निर्जरावली नमे अहनिश ॥

नमो० ॥ ३ ॥ पुंडरीक गणपति, सिद्धि साधो,

कोडि पण मुनि मनहरं ॥ श्री विमल गिरिवर
 शृङ्ग सिद्धा ॥ नमो० ॥ ४ ॥ निज साध्य साधन
 सुर मुनिवर, कोडिनंत ए गिरिवरं ॥ मुक्ति रम-
 णी वर्या रंगे ॥ नमो० ॥ ५ ॥ पातालनरसुरलोक
 मांही, विमलगिरिपरतो परं ॥ नहि अधिक ती-
 रथ तीर्थपति कहे ॥ नमो० ॥ ६ ॥ इम विमल
 गिरिवरशिखर मंडण, दुःख विहंडण ध्याईये ॥
 निजशुद्ध सत्ता साधनार्थ, परम ज्योति निपाड्ये
 ॥ ७ ॥ जित मोह कोह विछोह निद्रा, परमपद-
 स्थित जयकरं ॥ गिरिराज सेवाकरण तत्पर, प-
 द्मविजय सुहितकरं ॥ ८ ॥

॥ सिद्धाचलजी का दूसरा चैत्यवन्दन ॥
 श्रीशत्रुंजय सिद्धक्षेत्र दीठे दुर्गति वारे ॥
 भाव धरीने जे चढे, तेने भवप्रार उतारे ॥ १ ॥
 अनंत सिद्धनो एह ठाम, सकल तीर्थनो राय ॥
 पूर्व नवाण रिखवदेव, ल्यां ठवित्रा प्रभुपाय ॥ २ ॥
 सूरजकुंडं सोहामणो, कवडंजन् अभिराम ॥

नाभिराया कुलमंडणी, जिनवरकरुं प्रणाम ॥३॥

सीद्धाचल जीका चैत्यवंदन ॥

परमेश्वर परमात्मा, पावन परसिद्ध ॥

जय जगगुरु देवाधिदेव, नयणे में दिद्ध ॥ १ ॥


अचल अकल अविकारसार, करुणारस सिंधु ॥

जगती जन आधार एक, निःकारण बंधु ॥ २ ॥

गुण अनंत प्रभु ताहरा, किमही कह्या न जाय ॥

राम प्रभु जिनध्यानथी, चिदानंद सुख थाय ।६।





स्तवन-संग्रह

॥ पञ्चतिर्थी का स्तवन ॥

सुगुण सनेही साजण श्रीसीमंधरस्वाम,
अरज सुणो एक जगगुरु मुक्त आशाविशराम ॥
पूरव विदेहे विजय भली पुष्कलावई नाम, जिहां
विचरे जिनवर जी धन ते नयरी गाम ॥ १ ॥
धन ते लोक सुणो जे जोजन गामिनी वाण, धन
ते महियल चरण धरे जिहां जिनवर भाण ॥
धन ते भविजन जे रहे प्रभु ताहरे परसंग, वदन
कमल निरखी नित्य माणो उत्सव अंग ॥ २ ॥
सुगुरु मुखें प्रभु सुजस तुम्हीणो सांभल कान,
मिलवाने उलसे मन माहरुं धरुं एक ध्यान ॥
भगति जुगति करवानी छे मुक्त सधली जोड,

पण प्रभु लग पहुंचीजे तेह नही पग दोड़ ॥३॥
 आंडा डुंगर अति घणा विच वहे नदिया पूर,
 किम मुक्तथी अवराये प्रभुजी एटली दूर ॥ आं-
 खडली उलभो करे जोयवा मुख जिनराज,
 पांख डली पाई नही ते विन किम सरे काज ॥४॥
 वाटडली वहतो कोई न मिले सेंगू साथ, काग-
 लियो लिख आपूं हुं जिम तेहने हाथ ॥ जाणुं
 शशहर साथें कहूं संदेशा जेह, पण अलगो थई
 ऊपरि वाडे निकले तेह ॥ ५ ॥ जो कोई रीतें
 प्रभुजी तुमथी एथ अत्राय, तो इण भरतना
 वासी भविजन पावन थाय ॥ साहिवनी तो सुन
 जर सघले सरखी होय, पण पोतानी प्राप्ति सारू
 फल प्रति जोय ॥ ६ ॥ अलगो छं पण माहरे
 तुम शुं साची प्रीत, गुण गुणवंतना आवे हिय-
 डे खिण-खिण चित्त ॥ हुं छूं सेवक तुं छे मा-
 हरो आतमराम, नहियं विसारूं जीवुं ज्यां लेंगि
 ताहरुं नाम ॥ ७ ॥ साचे दिलथी मुक्तशुं धरजो

धरम सनेह, करुणाकर प्रभु करजो मोपरि महिर
 अछेह ॥ दूसम काल तणो दुःख टालो दीन
 दयाल, पालो विरुद संभालो निज सेवकशुं कृ-
 पाल ॥ ८ ॥ आशविलुद्धा अलग थकी पण करे
 अरदास, पण महोटानी महिर छतां नत्रि थाय
 निराश ॥ केई वसे प्रभु पासें केई वसेछे दूर, राज
 महिरनी रीतें सकलने जाणो हजुर ॥ ९ ॥ शिव
 सुखदायक नायक लायक, स्वामि सुरंग, ध्यायक
 ध्येय स्वरूप लहे निज आत्म उमंग ॥ सहिजे
 एक पलक जो थाये प्रभु तुम्ह संग, लाभ उदय
 जिन चंद्र लहे नित प्रेम अभंग ॥ १० ॥

॥ पंचतीर्थाका दूसरा स्तवन ॥

सफल संसार अवतार ए हु गुणुं, सामि
 सीमंधरा तुह्म भगते भणुं ॥ भेटवा प्रायंकमल
 भाव हियडे घणो, करिय सुपसाय जे वीनवुं ते
 सुणो ॥ ११ ॥ तुह्मशुं कूड अरिहंत शुं राखिये,
 जिस्यो अछे तिस्यो कर जोडि करि भांखिये ॥

अति सबल मुक्त हिये, मोह माया घणी, एक
मन भगति किम करूं, त्रिभुवन धणी ॥ २ ॥
जीव आरति करे नव नवी परिगडे, रीश चट-
को चढ़े लोभ वयरी नडे ॥ नयण रस वयण
रस काम रस रसीयो, तेम अरिहंत तूं, हीयडे
नवि वसीयो ॥ ३ ॥ दिवसने राति हियडे अने-
रो धरूं, मूढ मन रीभवा वलिय माया करूं ॥
तूंहि अरिहंत जाणे जिस्यो आंचरूं, तेम कर
जेम संसार सागर तरूं ॥ ४ ॥ कम्मवसि सुख
ने दुःख जे हूं सहूं, मन तणी वात अरिहंत कि
णने कहूं ॥ करि दया करि मया देव करुणा
परा, दुःख हरि सुख करि सामि सीमंधरा ॥५॥
जाण संयोग आगम वयण पण सुणूं, धर्म न
कराय प्रभु पाप पोतें घणूं ॥ एक अरिहंत तूं
देव बीजो नहिं, एह आधार जग जाणजो अह्म
सही ॥६॥ धण कणय माय पिय पुत्त परियण
सहू, हस्यो बोल्यो रम्यो रंग रातो वहू ॥ जयो

जयो जगगुरु जीव जीवन धरा, तुह्य समोवड
 नहिं अवर वाल्हेसरा ॥ ७ ॥ अमिय सम वाणि
 जाणुं सदा सांभलुं, वारवर परपदामांहि आवी
 मिलुं ॥ चित्त जाणुं सदा सामि पाय उलगुं,
 किम करुं ठाम पुंडरगिरि वेगलुं ॥ ८ ॥ भो-
 लिडा भगति तूं चित्त हारे किस्ये, पुण्य संयोग
 प्रभु दृष्टिगोचर हुस्ये ॥ जेहने नामे मन वयण
 तन उल्लसे, दूरथी ढूकडा जेम हियडे वसे ॥ ९ ॥
 भल भलो एणि संसार सहू ए अछे, सामि सी-
 मंधरा ते सहू तुम पछें ॥ ध्यान करतां सुपनमां-
 हि आवी मिले, देखियें नयण तां चित्त आरति
 टले ॥ १० ॥ साम सोहामणा नाम मन गहगहे
 तेहशुं नेह जे वात तुह्य जो कहे ॥ तुह्य पद
 भेटवा अति छणो टलवलुं, पंख जो होय तो
 सहिय आवी मिलुं ॥ ११ ॥ मेरुगिरि लेखणी
 आभ कागल करुं, नीरसागर तरणां दूध खडिया
 भरुं ॥ तुह्य मिलवा तरणां सामि संदेशडा, इन्द्र

पण लखिय न शके अछे एवड़ा ॥ १२ ॥ आपणो
रंग भरि वात मुख जेटली, उपजे सामि न क-
हाय मुख तेटली ॥ सुणो सीमंधरा राजराजसरी
लाइने कोइ प्रभु पूर सवि माहरा ॥ १३ ॥ पुव्व
भवि मोह वश नेह हुये जेहने, समरिये एणि
संसार नित तेहने ॥ मेहने मार जिम कमल भस-
रो रसे, तेम अरिहंत नू चित्त मारे गसे ॥ १४ ॥
खरुं अरिहंतनुं ध्यान हियडे वस्युं, वापडुं पाप
हिय रहिय करणे किस्युं ॥ ठाम जिम गरुडवर
पंखि आवै वही, ततखिया सर्पकी जाति न शके
रही ॥ १५ ॥ पापमें कज सावज्ज सहु परिहरी
सामि सीमंधरा तुम्हे पय अणुसरी ॥ शुद्ध चा-
रित्र कहिये प्रभु पालशुं, दुःख भंडार संसारमय
टालशुं ॥ १६ ॥ तुम्हे हुं दांस हुं तुम्हे सेवक
सही, एह में वात अरिहंत आणल कहो ॥ एवड़ी
मारी भगति जाणी करी, आपजो वापजी सार
केवल सही ॥ १७ ॥ कलंस ॥ एम च्छि-वृद्धि,

समृद्धि कारण, दुरित वारण, सुख करो ॥ उव-
 भाय वर श्री, भक्तिलाभे, थुण्यो श्री, सीमंधरो ॥
 जय जयो जगगुरु, जीव जीवन, करी सामि,
 मया घणी ॥ कर जोड़ि वलि वलि, वीनवुं
 प्रभु पूर आशा मन तणी ॥ १८ ॥

॥ पंचमी वृद्ध स्तवन ॥

प्रणमुं श्रीगुरु पाय, निर्मल ज्ञान उपाय ॥
 पांचमि तप भणुं ए, जन्म सफल गिणुं ए ॥१
 चउवीसमो जिनचंद, केवल ज्ञान दिणंद ॥
 त्रिगडे गहगह्यो ए, भवियणने कह्यो ए ॥ २ ॥
 ज्ञान वडूं संसार, ज्ञान मुगति दातार ॥ ज्ञान
 दोवो कह्यो ए, साचो सर्दह्यो ए ॥ ३ ॥ नयन
 लोचन सुविलास, लोकालोक प्रकाश ॥ ज्ञान
 विना पशु ए, नर जाणो किश्युं ए ॥४॥ अधिक
 आराधक जाण, भगवती सूत्र प्रमाण ॥ ज्ञानी
 सर्वतु ए, किरिया देशतु ए ॥ ज्ञानी श्वासो-
 छ्वास, करम करे जे नास ॥ नारकीने सही ए,

कोड़ वरस कही ए ॥ ६ ॥ ज्ञान तणो अधिकार,
बोल्या सूत्र मभार ॥ किरिया छे सही ए, पण
पाछें कही ए ॥ ७ ॥ किरिया सहित जो ज्ञान
हुवे तो अति परधान ॥ सोनो ने सूरु ए, शंख
दूधें भरयो ए ॥ ८ ॥ महानिशीथ मभार, पांच-
मि अक्षर सार ॥ भगवंत भांखीयो ए, गणधर
साखियो ए ॥ ९ ॥

॥ दूसरी ढाल कालहरा की देशी ॥

पांचमि तप विधि सांभलो, जिम पामो
भवपारो रे ॥ श्रीअरिहंत इम उपदिशे, भविष्यणने
हितकारो रे ॥ पां० ॥ १ ॥ मिगसर माह फागुण
भला, जेठ आषाढ़ वैशाखो रे ॥ इण षट मासें
लीजियें, शुभदिन सद्गुरु साखो रे ॥ पां० ॥ २ ॥
देव जुहारी देहरें, गीतारथ गुरु वंदी रे ॥ पोथी
पूजो ग्याननी, सगति हुवे तो नंदी रे ॥ पां० ॥ ३ ॥
बे कर जोडी भावशुं, गुरु मुख करो उपवासो रे ॥
पांचमि पडिक्कमणो करो, पढो पंडित गुरु पासो

रे ॥ पां० ॥ ४ ॥ जिण दिन पांचमि तप करो,
 तिण दिन आरंभ टालो रे ॥ पांचमि स्तवन थुई
 कहों, ब्रह्मचरिज पिण पालो रे ॥ पां० ॥ ५ ॥ पांच
 मास लघुपंचमी, जावजीव उत्कृष्टी रे ॥ पांच
 वरस पांच मासनी, पांचमि करो शुभ दृष्टि रे ॥
 पां० ॥ ६ ॥

॥ तीसरी ढाल उल्लास की देखो ॥

हिंद भविष्यण रे पांचनी उज्यगो सुणा,
 पर सारु रे वाहु धन खरचा कणो ॥ ए अक्षर
 रे आरंभ वलि दाहिलो, पुरण जोगे रे धन
 पासतां लोहिलो ॥ उल्लासो ॥ लोहिलो वलिय
 धन प्राप्ततां पण धर्मकाज किहां बली, पांचमी
 दिन गुरु पास आदी कीजीयं काउरसव्य रली ॥
 वण ज्ञान-दरिद्रण चरण टीकी देह पुरतक
 पूजिये, थायना पहिली पूज केसर सुगुरु सेवा
 किजिये ॥ १ ॥ ढाल ॥ सिद्धांतनी रे पांच प्रति
 वीटांगणां, पांच पूटां रे सखमल सूत्र प्रमुख

तणां ॥ पांच डोरा रे लेखण पांच मजीसणा,
 वासकूपा रे कांबी वारू वतरणां ॥ उल्लालो ॥
 वतरणां वारू वलीह कमली पांच झिलझिल अति
 भली, स्थापनाचारिज पांच ठवणी मुहपत्ती पड-
 पाटली ॥ पटसूत्र पाटी पंच कोथल पंच नवकर
 वालियां, इण परें श्रावक करे पांचम उजमणां
 उजवालियां ॥ २ ॥ ढाल ॥ वलि देहरे रे खात्र
 महोत्सव कीजियें, घर सारू रे दान वलो तिहां
 दीजियें ॥ प्रतिमानी रे आगल ढोवणां ढोइये,
 पूजानां रे जे जे उपगरण जोइयें ॥ उल्लालो ॥
 जोइयें उपगरण देवपूजा काज कलशभृंगार ए,
 आरति मङ्गलथाल दीवो धूपधाणां सार ए ॥ घन-
 सार केशर अणर सुखड अंगलूहणां दीस ए,
 पंच-पंच सघली वस्तु ढोवो संगतिशं पचवीश ए
 ॥ ३ ॥ ढाल ॥ पांचमिना रे सहास्मी सर्व जिमा-
 डिये, शत्रि जोगे रे गीत रत्नाल गवाडीये ॥ इण
 करणी रे करतां ज्ञान आराधियें, ज्ञान दरिसणारे

उत्तम मारग साधियें ॥ उल्लालो ॥ साधियें मारग
 एह करणी ज्ञान लहियें निरमलो, सुरलोकमें नर
 लोक मांहे ज्ञानवंत ते आगलो ॥ अनुक्रमे केवल
 ज्ञान पामी सासतां सुख जे लहे, जे करे पांचमी
 तप अखंडित वीर जिणवर इम कहे ॥४॥ कलश ॥
 एम पंचमी तप फल प्ररूपक, वर्द्धमान जिणोसरो ॥
 में थुण्यो श्री अरिहंत भगवंत, अतुल बल अल-
 वेसरो ॥ जयवंत श्री जिन चन्द सूरिज, सकल-
 चन्द नमंसियो ॥ वाचनाचारिज समय सुन्दर,
 भगति भाव, प्रशंसियो ॥ ५ ॥ इति श्रीपंचमी
 वृद्धस्तवन संपूर्णम् ॥

॥ पार्श्वजिन अथवा लघुपञ्चमी का स्तवन ॥

पंचमि तप तुमें करो रे प्राणी, निर्मल
 पामो ज्ञान रे ॥ पहिलुं ज्ञानने पछें किरिया, नहिं
 कोइ ज्ञान समान रे ॥ पं० ॥१॥ नंदिसूत्रमें ज्ञान
 वखाण्युं, ज्ञानना पंच प्रकार रे ॥ मति-श्रुत-अवधि
 अने मनःपर्यव-केवल ज्ञान श्रीकार रे ॥ पं० ॥२॥

मति अठावीश श्रुत चवदे वीश, अंवधि छ असंख्य
 प्रकार रे ॥ दोय भेद मनःपर्यव दाख्युं केवल एक
 प्रकार रे ॥ पं० ॥ ३ ॥ चंद-सूरज ग्रह-नक्षत्र
 तारा, तेशं तेज आकाश रे ॥ केवलज्ञान समुं
 नहिं कोई, लोकालोक प्रकाश रे ॥ पं० ॥ ४ ॥
 पार्श्वनाथ प्रसाद करीने, महारी पूरो उमेद रे ॥
 समयसुंदर कहे हुं पण पामुं, ज्ञाननो पंचमो
 भेद रे ॥ पं० ॥ ५ ॥

॥ पार्श्व प्रभुका स्तवन ॥

॥ अमल कमल जिम धवल विराजे, गाजे
 गोडी पास ॥ सेवा सारे जेहनी सुर-नर मन
 धरिय उल्लास ॥ १ ॥ - सोभागी साहिव मेरा वे,
 अरिहा सुग्यानी पास जिगांदा वे ॥ ए आंकणी
 सुंदर सूरति मूरति सोहे, मो मन अधिक सुहा-
 य ॥ पलक पलकमें पेखतां मानुं नव नविय छ-
 विय देखाय ॥ २ ॥ सोभा० ॥ अ० ॥ भव-दुःख
 भंजन जन-मनरंजन, खंजन नयनशुं रंग ॥

श्रवण सुणी गुण ताहरा-माहरां, विकस्यां अंगो
 अंग ॥ ३ ॥ सो० ॥ अ० ॥ दूरथकी हुं आयो
 वहिने, देव लह्यो दीदार ॥ प्रारथियां पहिडे नहिं
 साहिवा, एह उत्तम आचार ॥ ४ ॥ सो० ॥ अ०
 प्रभु मुखचंद विलोकित हरपित, नाचत नयन
 चकोर ॥ कमल हसे रवि देखिने जिम, जलधर
 आगम सोर ॥ ५ ॥ सो० ॥ अ० ॥ किसके हरि
 हर किसके ब्रह्मा, किसके दिलमें राम ॥ मेरे
 मनमें तुं वसे साहिव, शिवसुखनोही ठाम ॥
 सो० ॥ अ० ॥ ६ ॥ माता वामा धन्य पिता जसु
 श्रीअश्वसेन नरेस ॥ जनमपुरी वणारसी, धन-
 धन काशीनो देश ॥ सो० ॥ अ० ॥ ७ ॥ संवत
 सतरेश वावीशें, वदी वैशाख क्खाण ॥ आठम
 दिन भले भावशुं, भारी जात्र चढी परिणाम ॥
 सो० ॥ अ० ॥ ८ ॥ सानिव्यकारी विघ्ननिवारो पर
 उपगारी पास ॥ श्रीजिनचंद जूहारता, मोरी स-
 फल फली सहु आश ॥ सो० ॥ अ० ॥ ९ ॥

॥ विमलनाथजी का स्तवन ॥

॥ घर अंगण सुरतरु फल्यो जी, कवण क-
नक फल खाय ॥ गयवर बांध्यो बारणो जी, खर
किस आवे दाय ॥ १ ॥ विमल जिन महारी तु-
म्हशुं प्रीति, सुर सकलंकितशुं मिल्याजी, हिय-
डुं हींसे केम ॥ वि० ॥ २ ॥ मन गमता मेवा
लही जी, कुण खड खावा जाय ॥ आदर साहि-
बनो लही जी, कुण लये रांक मनाय ॥ वि० ३
रत्न छते कुण काचनें जी, अलवे पसारे हाथ ॥
कुण सुरतरुथी ऊठिनें जी, बावल घाले वाथ ॥
वि० ॥ ४ ॥ देव अवर जो हुं करुं जी, तो प्रभु
तुमची आण ॥ श्रीजिनराज भवो अवे जी, तुं-
हिज देव प्रमाण ॥ वि० ॥ ५ ॥ ॥

॥ मौन-एकादशिका स्तवन ॥

॥ समवसरण वेठा भगवंत, धरम प्रकाशे
श्रीअरिहंत ॥ वारे परषदा बैटी जुडी, मागशिर
शुद्धि इग्यारश वडी ॥ १ ॥ मल्लिनाथना तीन

कल्याण, जनम दीक्षा ने केवलज्ञान ॥ अर
 दीक्षा लीधी रूवड़ी ॥ मा० ॥ २ ॥ नमिने उप-
 नुं केवलज्ञान, पांच कल्याणक अति परधान ॥
 ए तिथिनी महिमा एवडी ॥ मा० ॥ ३ ॥ पांच
 भरत ऐरवत् इमहीज, पांचकल्याणिक हुवे तिम
 हीज, पंचासनी संख्या परगड़ी ॥ मा० ॥ ४ ॥
 अतीत अनागत गणातां एम, दोंढशें कल्याणक
 थाये तेम ॥ कुण तिथ छे ए तिथि जेवडी ॥ मा०
 ॥ ५ ॥ अनंत चोवीशी इण परें गिणो, लाभ अ
 नंत उपवासा तणो ॥ ए तिथि सहु तिथि शिर
 राखड़ी ॥ मा० ॥ ६ ॥ मौनपणें रह्या श्रोमल्लि-
 नाथ, एक दिवस संयम व्रत साथ ॥ मौन तणी
 परी व्रत इम पड़ी ॥ मा० ॥ ७ ॥ अठ पुहरी
 पोसो लीजियें, चोविहार विधिशुं कीजियें ॥ पण
 परमाद् न कीजें घडी ॥ मा० ॥ ८ ॥ वरस इग्यार
 कीजें उपवास, जावजीव पण अधिक उल्हास ॥
 ए तिथि मोक्ष तणी पावड़ी ॥ मा० ॥ ९ ॥ ऊज-

मणुं कीजें श्रीकार, ज्ञाननां उपगण इग्यार इ-
ग्यार ॥ करो काउसग्ग गुरु पाये पड़ी ॥ मा० १०
देहरे स्नात्र करीजें वली, पोथी पूजीजे' मन
रली ॥ मुगतिपुरी कीजें ढूकड़ी ॥ मा० ॥ ११ ॥
मौन इग्यारस महोटुं पर्व, आराध्यां सुख लहि-
यें सर्व ॥ व्रत पञ्चक्खाण करो आखड़ी ॥ मा०
॥ १२ ॥ जेसल शोल इक्याशी समे, कीधुं स्तव
न सहू मन गमे ॥ समयसुंदर कहे करो व्याहड़ी
मा० ॥ १३ ॥

॥ श्रीशांतिनाथजी का स्तवन ॥

श्रीसारद मात नमूं सिरनामी, हुं गाउं
त्रिभुवनके स्वामी ॥ संतहि संत जपै सब कोर्ड,
जां घर शांति सदा सुख होई ॥ १ ॥ शांति जपी
ने कीजै कांमा, सोई कांम हुवै अभिरामा ॥
शांति जपी परदेश सिधावै, ते कुशले कमला ले-
आवे ॥ २ ॥ गर्भथकी प्रभु मारि निवारी, शांत-
हि नाम दियो महतारी ॥ जे नर शांति तणा

गुण गावै, ऋद्धि अचिंती ते नर पावै ॥ ३ ॥ जा
 नरकूँ प्रभु शांति सुहाई, ता नरकूँ कुछ आरति
 नांही ॥ जो कछु वंछै सोही पूरै, दालिद्र दोष
 मिथ्यामत चूरे ॥ ४ ॥ अलख निरंजन ज्योति
 प्रकासी, घट घट के भीतर प्रभु वासी ॥ स्वामि
 सरूप कहुना नवि जावै, कहितां मो मन अचरज
 थावै ॥ ५ ॥ ढार दिया सबही हथियारा, जीता
 मोहतणा दल सारा ॥ नारि लजी शिवसुं रंग
 राचै, राज लज्या पिण साहिब साचै ॥ ६ ॥ महा
 बलवंत कहीजै देवा, कायर कुंथु न एक हणोवा
 ऋद्धि सहू प्रभु पास लहीजै, भिजा हारी नांम
 कहीजै ॥ ७ ॥ निंदक पूजक हे सम भायक, पिण
 सेवकूँ सदा सुख दायक ॥ तर्जा परिग्रह भए
 जग नायक, नाम अतीत सबै विध लायक ॥ ८ ॥
 शत्रु-मित्र सम चित्त गिणीजै, नांम देव अरिहंत
 भणीजै ॥ सयल जीव हितवंत कहीजै, सेवक
 जाण महा पद दीजै ॥ ९ ॥ सायर जैसा होय

गंभीरा, दूषण नहि इक मांहि सरीरा ॥ मेरुं अ-
चल जिन अंतरजामी ॥ पिण न रहै प्रभु एकरा
ठांसी ॥ १० ॥ लोक कहे प्रभुजी सब देखै, पिण
सुपनो कबहु नवि पखै ॥ रीस विना बावीस परी
सह, सैन्या जोती तें जगदीसह ॥ ११ ॥ सांन
विना जग आंण मनावै, माया विना सबसुं मन
लावै ॥ लोभ विना गुणरास ग्रहीजै, भिक्षु भये
त्रिगडो सेवीजै ॥ १२ ॥ निग्रंथपणै सिर छत्र
धरावै, नांभ जती पिण चमर दुलाव ॥ अभय
दान दाता सुखकारण, आगै चक्र चलै अरि दा
रण ॥ १३ ॥ श्राजिनराज दयाल भणीजै, कर्म
सनीको खूल खणीजै ॥ चौविह संघ जे तीरथ
थापै, लक्ष घणी देखी नवि आपै ॥ १४ ॥ विनय
वंत भगवंत कहावै, ना किसही कूं सीस नलावै ॥
अकिंचनको विरुद्ध धरावै, पिण सोवन पंकज
पगधावै ॥ १५ ॥ तजि आरंभ निज आत्म
ध्यावै, शिवरमणीकूं साथ चलावै ॥ राग नही

धन धरणां ॥ ६ ॥ वैसे पग ऊपर पग चडियां,
 थापै छाणा छडै टुंडगियां ॥ सूकवै कण्ठ पप्पड
 वडियां, नासीय छिपै नृप भय पडियां ॥ ७ ॥
 शोके रोवै विकथा ज कहै, इहां संख्या बैतालीस
 लहै ॥ हथियार घडेने दश्रु वांधै, तापै नांशो परखै
 रांधै ॥ ८ ॥ भांजी निस्सही जिनरुह प्रेसे, धरै छत्र
 ने अंडपसं वैसे ॥ पहिरै वस्त्र अने फलही, चामर
 वीर्ये मन ठाम नही ॥ ९ ॥ तनु तैल सचिच फल
 फूल लिपै, भूपसु तज आय कुरख्य धिये ॥ दरस-
 लयी स्तिर अंजली न धरै, इगसाडे उत्तरासंग न
 करे ॥ ११ ॥ छोरो स्तिरपेच सोड जोडे, दडिये
 राने वैसे होडे ॥ सधयासुं जुहार करे मुजरो,
 करे अंड चिष्टा कहै वचन दुर्गे ॥ १० ॥ धरै धर-
 णो अगडे उल्लंठी, स्तिर गूथै वांधै पालंठी ॥
 पसारै पग पहरे चावडियां, पग अटक दिरावै दु-
 खडियां ॥ १२ ॥ करदस लूहै मैथुन लडै, जू
 आवलि अंठ तिहां छंडै ॥ उघाड़े गुठ करै वयदा,

काढे व्यापार तणी कयदा ॥ १३ ॥ जिनहर पर-
नालनो नीर धरै, अंधोले पीवा ठाम भरै ॥ दूषण
जिनभवनमें ए दाख्या, देववंदनभाष्यमें जे
भाख्या ॥ १४ ॥ सुज्ञानी-श्रावक सगति छतां;
आशातन टालै वारसतां, परमाद् वसै कोई थायै;
आलोयां पाप सहू जायै ॥ १५ ॥ तंबोल नें भोजन
पांन जूआ, मल मूत्र शयन स्त्री भोग हुआ ॥
भूषण पनही ए जघन्य दसे, वरज्या जिनमंदिर
मांहि वसै ॥ १६ ॥ द्रव्यत ने भावत दोय पूजा,
एहनाहिज भेद कह्या दूजा ॥ सेवा प्रभुनी मन
शुद्ध करै, वंछित सुख लीला तेह वरै ॥ १७ ॥
कलश ॥ इम भव्य प्राणी भाव आंणी, विवेकी
शुभ वातना ॥ जिनबिंब अरचै परी वरजै, चो-
रासी आशातना ॥ ते गोत्र तीर्थकर अरजै, नमें
जेहने केवली ॥ उवभाय श्री घमसींह वंदे, जैन
शासन ते वली ॥ १८ ॥

॥ चौबीस तीर्थंकरोंके देह-प्रमाणका स्तवन ॥

प्रणमं ऋषभ जिनेसर पाय, धनुष पांचसै
 उंचो काय ॥ बीजो अजित जिन मुक्क मन वसै,
 मान धनुष साढाच्यारसै ॥ १ ॥ तीजो संभव
 सुख दातार, उंची काय धनुष सो च्यार ॥
 अभिनंदन जिनसुं मन लीन, देह धनुष सो
 साढातीन ॥ २ ॥ पंचम सुमतिनाथ भगवानं,
 धनुष तीनसो देही मान ॥ पदम प्रभू पूरै मन
 आस, देह धनुष दोयसे पच्चास ॥ ३ ॥ सामि
 सुपारस सत्तम होय, देह प्रमाण धनुष सो दोय ।
 चंद्राप्रभु जिन मुज मन वसै, देह प्रमाण धनुष
 दोढसै ॥ ४ ॥ सुविधनाथ नमिये सुविवेक, उंच
 प्रमाण धनुष सो एक ॥ शीतलनाथ नमें जग
 सवे, देह प्रमाण धनुष जसु निवै ॥ ५ ॥ श्री
 श्रेयांस नमूं उल्लासी, उंच प्रमाण धनुष तनु
 असी । वासपूज्य बारम जिन चंद, मान धनुष

सित्तरसुखकंद ॥६॥ विमलविमलगुणकर गंभीर,
 साठ धनुष जसु मान सरीर । अनंत ज्ञान अनंत
 प्रकाश, देह प्रमांण धनुष पच्चास ॥७ ॥ पनरम
 धरमनाथ जगदीस, मांन धनुष जस पेंतालीस ॥
 शांति करण शोलम जिन शांति, देह धनुष
 चालीस सोभंति ॥८॥ सतरम कुंथु जगदाधार,
 मांन धनुष पेंत्रीस उदार ॥ अर अठारम दीनद-
 याल, त्रीस धनुष तन अति सुविशाल ॥ ९ ॥
 मल्लिनाथ जिन उगणीसमो, मांन पच्चीस धनुष
 पय नमो ॥ वीसम मुनिसुव्रत अरिहंत, वीस
 धनु तनु मांन कहंत ॥ १० ॥ इकवीसम
 नमिजिनरा जान, धनुष पनरे तसु रूप निधान ।
 बावीसम श्रीनेमजिनंद, दस धन दीपै जांण
 दिणंद ॥ ११ ॥ तेवीसम श्री पारसनाथ, नील
 वरण सोहे नव हाथ ॥ चोवीसमा जिनवर श्री
 वीर, सात हाथ जगनाथ सरीर ॥१२॥ इण परि
 ए जिनवर चोवीस, प्रणामें प्रह शम धरिय जगी-

स ॥ तां घर ऋद्धि सिद्धि उछ रंग, रंग विनय
प्रणमें मुनि रंग ॥ १३ ॥

॥ चौवीस तीर्थकरोके आयुष्य-प्रमाणका स्तवन ॥

ऋषभदेव प्रणमुं जिनराय, लाख चोरासी
पूरव आय ॥ बीजो अजित जसु सूत्रै साख,
आउ बहुत्तर पूरव लाख ॥ १ ॥ तीर्थकर संभव
तीसरो, आउ लाख पूरव साठरो अभिनन्दन पूरे
मन आस, आउ लाख पूरव पच्चास ॥२॥ सुम-
तिनाथ पंचम जगदीस, आउ लाख पूरव
चालीस ॥ श्री पद्मप्रभूनी ए थितजांण, लाख
तीस पूरव परिमाण ॥ ३ ॥ श्री सुपाश्व लाख
पूरव वीस, दस लाख पूरव चंद्रप्रभु ईस ॥ सुवि-
धिनाथ लाख पूरव दोय, इक लाख पूरव शीतल
थित होय ॥ ४ ॥ आयु वरस चोरासी लाख, श्री
श्रेयांस तणी श्रुत साख । लाख बहुत्तर वरसां तणो,
वासुपूज्य परमायुष गिणों ॥५॥ विमल आयु लाख

साठ वरीस, वरस अनंत तणो लख तीस ॥ लाख
 वरस दस धरम दिणंद, लाख वरस श्री शांति-
 जिणंद ॥ ६ ॥ वरस सहस थिति पंच्याणवै,
 श्री कुंथुनाथ तणी संभवै ॥ सहस चोरासी अर
 जिनतणी, मल्लि सहस पचावन भणी ॥७॥ वरस
 संपूरण त्रीस हजार, मनिसुव्रत परमाउ उदार ।
 वीस सहस नमिजिन थित भणी, वरस सहस
 नेमीसरतणी । ८ ॥ पास वरस एक सो सुखकंद, वरस
 बहुत्तर वीरजिणंद ॥ ऋषभतणा तेरे अवतार,
 सात चंद्र शंतीसर बार ॥ ९ ॥ सुव्रत भव नव
 नव नेमीस, पाश्र्वं वीर दस सत्तावीस ॥ त्रिहुं २
 भव सतरे जगदीस, सगला भव एकसो अडतीस
 ॥ १० ॥ सिद्ध लही सहुने धन धन्न, गणधर च-
 वदेसै बावन्न ॥ सहुने मुनि लख अठावीस, स-
 हस ऊपरै अडतालीस ॥ ११ ॥ लाख चमाल छ
 याल हजार, षडधिक सहु साधवी सो च्यार ॥
 श्रावक लाख पचावन धुरै, अडतालीस सहस

ऊपरै ॥ १२ ॥ एक कोडि श्रावका सुजगीस, ला-
ख पांच सहस अड़तीस ॥ ए संघ चतुर्विध सह
जिनतणो, रंग विनय प्रणामें हित घणो ॥ १३ ॥

॥ तिरसठ शलाका-पुरुषों का स्तवन ॥

॥ ढाल १ ॥ धरम महारथ सारथ सारं एदेशी ॥

सद्गुरु चरण कमल मन धारं, त्रिसठ उत्तम
नर अधिकारं पभणसु श्रुत अनुसारं ॥ जेहने
नाम लियै निसतारं, आपण सफल हुवै अवतारं
पामीजै भव पारं ॥ १ ॥ ऋषभ अजित संभव
अभिनंदन, सुमति पदमप्रभु नयनानंदन, सत्तम
तेम सुपास ॥ चंद्रप्रभूने सुविध शीतल जिन श्रे-
यांस, वासुपूज्य जिन सुरमणि, विमल गुणेंकर
वास ॥ २ ॥ अनंत धर्म श्री शांति जिनेसर, कुं-
थुनाथ अर मल्लि सुहंकर, मुनिसुव्रत नमि नेम ॥
पार्श्व वीर ए जिन न्दोवीस ॥ जग वच्छल जग-
गुरु जगदीस, प्रणामीजै धर प्रेम ॥ ३ ॥

॥ ढाल दूसरी ॥ प्रथम सुपन गज निरख्यो एदेशी ॥

प्रथम भरत नरइंद, बीजो सगर सुरिंद,
मघवा तीजो उदार, चोथो सनतकुमार ॥ ४ ॥
पांचमो शांति चक्कीस, छठो कुंथु गणीस ॥ सा-
तमो अरि नरनाथ, आठमो संभूमि सनाथ ॥
५ ॥ नवमो पद्म नरेस, हरिषेण दसमो कहेस
इग्यारम जयनांम, बारस ब्रह्मदत्त नांम ॥ ६ ॥
एह चक्कीसर बार, क्षेत्र भरत सिणगार ॥ मघवा
सनतकुमार, पोहता सरग मभार ॥ ७ ॥ संभूम
अने ब्रह्मदत्त, सत्तम नयर निरत्त ॥ आठ थया
सिवगामी, ते प्रणमुं सिरनांमो ॥ ८ ॥

॥ ढाल तीसरी ॥ मुनिवर आर्य सुहस्ति ॥ एदेशी ॥

पहिलो त्रिपृष्टि जाण, द्विपृष्टि दूसरो, तीजो
स्वयंप्रभु जाणिये ए ॥ पुरुषोत्तम ए चोथो, पंचम
परगडो, पुरुषसिंह परमांणिये ए ॥ ६ ॥ छठो पु-
रुष पुंडरीक, दत्त तिम सातमो, लक्ष्मण नांम
आठमो ए ॥ नवमो कृष्ण नरेस, ए नव केसवा,

प्रह ऊठी ए पिण नमूं ए ॥ १० ॥ तिहां पहिलो
 वासुदेव, नारकी सातमी, अगला पांच छठी गया
 ए ॥ सातमो पंचमी नैर, चौथी आठमो, नवमो
 तीजी नारीया ए ॥ ११ ॥ अचल विजय नें भद्र,
 सुप्रभु सुदर्शन, आनंद नंदन शुभ मती ए ॥
 रामचंद्र बलभद्र, बलदेव ए नव, आठ थया तिहां
 सिव गती ए ॥ १२ ॥ बलभद्र ब्रह्म देवलोक,
 काल उसप्पणी, जास्यै सिव कृष्ण सासने ए ॥
 अथवा विपुलाक नाम, तीर्थकर होस्ये, चवदमो
 इम बहुश्रुत भणे ए ॥ १३ ॥

॥ ढाल ४ ॥ कुमरपौए प्रसु रहतां काल सुखै गमेए ॥ ए देशी ॥

अस्वग्रीव नें तारक मेरुकवलि मधु तिसाए,
 निशंभ वलय प्रह्लाद, रावण जरासिंधु जिस्ता
 ए ॥ ए नव प्रतिवासुदेव नरक गति गामिया ए,
 ते पिण भावि जिनेस केई प्रणमूं मुदा ए ॥ १४ ॥

॥ ढाल ५ ॥ सफल संसारनी ॥ ए देशी ॥

शाति नें कुंथु अरि एह भव एकही, चक्रधर

तीर्थकर दोय पदवी लही ॥ वीर वासुदेव अरिहंत
भव जूजूआ, देह तिणसाठ पिण जीव गुणसठ
थया ॥ १५ ॥ वासुदेव वलीय बलदेव केरा पिता,
एकहिज थाय नव एण लेखै छता ॥ तीन चक्र-
धर तणा मिलिय बारै टल्या, एम त्रेसठना तात
इकावन मिल्या ॥ १६ ॥ तीन चक्रवत्ततणी टाल
दीजे इसै, गाय सहुनी थई साठ लेखे इसै ॥ एह
नररयणानो ध्यांन नित जे धरे, तेह सुरपद लही
मोक्ष पदवी वरै ॥ १७ ॥

॥ कलश ॥

इम थुण्या तीर्थकर चक्कीसर वासुदेव बल-
देव ए, प्रतिवासुदेव सुसेव जेहनी करै सुरनर
सेव ए ॥ त्रेसठ शलाका पुरुष उत्तम जगत जय-
वंतो सदा, प्रह शमे तेहना चरण पंकज नमे
मुनि वसतो मुदा ॥ १८ ॥

॥ सिद्धगिरी का स्तवन ॥

श्र विमलाचल सिर तिलो, आदीसर श्री-

संघाते रे, एतो पोहता पद लोकांत ॥ या० ॥४॥
 काती पूनम कर्मने तोडी रे, जिहां सीधा मुनि
 दस कोडी रे, ते वंदो बे कर जोडी ॥ या० ॥५॥
 इम भरतेसरने पाटे रे, असंख्यात साधु थिर थाटे
 रे, पांम्या मुगति तणी ए वांट ॥ जा० ॥ ६ ॥
 दोय सहस मुनी परवारे रे, थावच्चा सुत सुख-
 कारे रे, सय पंच सेलग अणगार ॥ या० ॥ ७ ॥
 देवकी सुत सुजगीसे रे, सीधा बहु यादववंसे
 रे, ते नमो रे नमो मन हींसे ॥ या० ॥८॥ पाचे
 पांडव इण गिर आया रे, सीधा नव नारद ऋषि-
 राया रे, वली संव प्रज्जुन कहाय ॥ या० ॥ ९ ॥
 ए तीरथ महिमावंते रे, जिहां सीधा साधु अनंते
 रे, इम भाष्यो श्रीभगवंत ॥ या० ॥१०॥ उज्जल
 गिर सम नही कोइ रे, तीरथ सगला मे जोइ रे,
 जे फरस्यां पावन होइ ॥ या० ॥ ११ ॥ एकाहारी
 ने सचित्त पहारी रे, पदचारी ने भूमि संथारी
 रे, शुद्ध समकित ने ब्रह्मचारी ॥ या० ॥ १२ ॥ इम

छह री जे नर पाले रे, बहं दांन सुपात्रे आले रे,
 ते जनम-मरण भय टाले ॥ या० ॥ १३ ॥ धन २
 ते नर ने नारी रे, भेटे विमलाचल इक तारी रे,
 जइये तेहतणी वलिहारी ॥ या० ॥ १४ ॥ श्रीजि-
 नचंद्र सूरि सुपसाये रे, जिनहर्ष हिये हुलसाये
 रे, इम विमलाचल गुण गाये ॥ या० ॥ १५ ॥

॥ श्रीऋषभदेवजी कां स्तवन ॥

ऋषभ जिनेसर दिजकर साहिब, बीनतड़ी
 अवधारो रे ॥ जगना तारू ॥ मुक्त तारो जी
 कृपानिध स्वांमी, जग जसवाद प्रगट छै ताहरो,
 अविचल सुखदातारो रे ॥ ज० ॥ १ ॥ मु० ॥
 निज गुण भोक्ता पर गुण लोता, आतम शक्ति
 जगायो रे ॥ ज० ॥ अविनासी अविचल अविकारी,
 वासी जिनराया रे ॥ ज० ॥ २ ॥ मु० ॥ इत्यादिक
 गुण श्रवणो निसुणी, हुं तुम चरणे आयो रे ॥
 ज० ॥ तुम रीभावण हेते ततखिण, नाटक खेल
 मचायो रे ॥ ज० ॥ ३ ॥ मु० ॥ काल अनंत रह्यो

परम भक्त ताहरौ, तिण तारो हो नहीं ढीलनो
 काम ॥ वी० ॥४॥ सूलपाण प्रतिवूभ्र्या, जिण
 कीधा हो तुम्हने उपसर्ग ॥ डंक दियो चंडकोसिये,
 तें दीधो हो तसु आठमो सर्ग ॥ वी० ॥ ५ ॥
 गोशालो गुणहीन घणो, जिण बोल्या हो तोरा
 अवरणवाद ॥ ते बलतो तें राखीयो, सीतललेस्या
 हो मूंकी सुप्रसाद ॥ वी० ॥ ६ ॥ ए कुण छै
 इंद्रजालियो, इम कहतो हो आयो तुम तीर ॥
 ते गोतमनें तें कियो, पोतानो हो प्रभुतानो वजी
 र ॥ वी० ॥ ७ ॥ वचन उथाप्या ताहरा, ते भू-
 गड्या हो तुम्ह साथ जसाल ॥ तेहनें पिण पनरे
 भवे, शिवगांमी हो तें कीधो कृपाल ॥ वी० ॥
 ॥ ८ ॥ एमत्तो रिष जे रम्यो, जल मांहे हो बांधी
 माटीनी पाल ॥ तिरती मूंकी काछली ॥ तें
 ताख्यो हो तेहनें ततकाल ॥ वी० ॥ ९ ॥ मेघकुमर
 ऋषि दूहव्यो, चित चूको हो चारितथी अपार ॥
 एकावतारी तेहने, तें कीधो हो करुणा भंडार ॥

वी० ॥ १० ॥ बार वरस वेस्या घरे रह्यो, मंकी
हो संजमनो भार ॥ नंदिबेण पिण ऊधख्यो, सुर
पदवी हो दीधी अति सार ॥ वी० ॥ ११ ॥ पंच
महाव्रत परिहरी, ग्रहवासे हो वस्यो वरस चो-
वीस ॥ ते पिण आद्र कुमारेणें, तें ताख्यो हो तोरी
एह जगीस ॥ वी० ॥ १२ ॥ राय श्रेणक रांगी
चेलणा, रूप देखी हो चित चूका जेह ॥ समव-
सरण साधु-साधवी, तें कीधा हो आराधिक तेह
॥ वी० ॥ १३ ॥ विरत नही नही आखडी, नही
पोसो हो नही आदर दीख ॥ ते पिण श्रणिकरा-
यनें, तें कीधो हो सामी आप सरीख ॥ वी० ॥
॥ १४ ॥ इम अनेक तें ऊधख्या, कहुं तोरा हो
केता अवदात ॥ सार करो हिव माहरी, मनमांहे
हो आणो मोरडी वात ॥ वी० ॥ १५ ॥ सूधो संजस
नहि पलै, नहो तेहवो मुक्त दरसण ज्ञान ॥ पिण
आधार छै एतलो, इक तोरो हो धरुं निश्चलध्यान
वी० ॥ १६ ॥ मेह महितल वरसतो, नेवि जोवे

हो सम विखमी ठाम ॥ गिरुवा सहजे गुण करे,
 स्वांमी सारो हो मोरा वंछित कांम ॥ वी० ॥१७॥
 तुम नांमे सुख संपदा, तुम नांमे हो दुख जायै
 दूर ॥ तुम नांमे वंछित फलै, तुम नांमे हो मुझ
 आनंद पूर ॥ वो० ॥ १८ ॥ कलेश ॥ इम नगर
 जेसलमेरु मंडन, तीर्थकर चोवीसमो ॥ शासना-
 धांश्वर सिंह लंछन, सेवतां सुरतरु समो ॥ जिन-
 चंद त्रिसलामात नंदन, सकलचंद कला निलो,
 वाचनाचारज समयसुंदर ॥ संथुणयो त्रिभुवन
 मिलो ॥ १६ ॥

॥ चौवीस दंडक का स्तवन ॥

॥ ढाल १ ॥ आदर जीव क्षमा गुण आदर ॥ ए देशी ॥

॥ पूर मनोरथ पास जिनेसर, एह करूं अर
 दास-जी ॥ तारण तरण विरुद तुझ सांभलि,
 आयो हूं धरं आस जी पू० ॥ १ ॥ इण संसार
 समुद्र अथागै, भंमियो भंवजल मांहिजी ॥ गिल
 गिचिया जिम आयो गिडंतो, साहिव हाथे साहि

जी ॥ पू० ॥ २ ॥ तूं ज्ञानी तो पिण तुम्ह आगै,
 वीतक किहिये वात जी ॥ चोवोसे दंडक हूं भ-
 मियो ॥ वरणां तेह विख्यात जी ॥ पू० ॥ ३ ॥
 सांते नरक तणो इक दंडक, असुरादिक दस
 जाण जी ॥ पांच थावरनें, तीन विकलेन्द्री ॥ उ-
 गणीस गिणती आंण जी ॥ पू० ॥ ४ ॥ पंचेंद्री
 तिर्यञ्चने मानव, एह थया इकवीस जी ॥ व्यंतर
 ज्योतषी नें वैमाणिक, इम दंडक चोवीस जी ॥
 पू० ॥ ५ ॥ पंचेंद्री तिर्यच अने नर, पर्यासा जे
 होय जी, ए चोविह देवामें ऊपजै, इम देवां गति
 दोय जी ॥ पू० ॥ ६ ॥ असंख्यात आऊखै नर
 तिरि, निहचै देवज थाय जी ॥ निज आंऊखै
 सम के ओछै, पिण अधिके नवि जाय जी ॥ पू०
 ॥ ७ ॥ भवनपतीके व्यंतर ताई, समूर्च्छिम ति-
 र्यच जी ॥ सगर आठमां तांइ पोहचै, गरभज
 सुकृत संच जी ॥ पू० ॥ ८ ॥ आउ संख्यातै जे
 गरभज, नर तिरजंच विवेक जी ॥ बादर पृथवो

नें वलि पाणी, वनस्पती प्रत्येक जी ॥ पू० ॥ ९ ॥
 पर्यासा इण पांचे ठामे, आवि ऊपजै देव जी ॥
 इण पांचा माहे पिण आगै, अधिकाई कहं हेव
 जी ॥ पू० ॥ १० ॥ तीजा सरगथकी मांडी सुर,
 एकेंद्री नवि थाय जी ॥ अठमथी ऊपरला संग-
 ला, मानवमांहे जाय जी ॥ पू० ॥ ११ ॥

॥ ढाल ॥ २ ॥ आज निहेजोरे दीसै नाहलो ॥ ए देखी ॥

नरकतणी गति आगति इण परै, जीव भमै
 संसार ॥ दोय गति नें दोय आगत जांणियै,
 वलिय विशेष विचार ॥ न० ॥ १२ ॥ संख्याते
 आयु परजापता, पंचेंद्री तिरयंच ॥ तिमहोज म-
 नुष्य एहिज बे नरकमें, जायै पाप प्रपंच ॥ न०
 प्रथम नरक लग जाय असन्नियो, गोह नकुल
 तिम वीय ॥ गृद्ध प्रमुख पंखी त्रीजी लगे, सींह
 प्रमुख चोथीय ॥ न० ॥ १४ ॥ पंचमी नरकै सो-
 मा सापणी, छठी लग स्त्री जाय ॥ सातमियें
 माणस के माछलो ऊपजै गरभज आय ॥ न०

॥ १५ ॥ नरकथकी आवे बिहुं दंडकै, तिरयंचके
 नर थाय ॥ ते पिण गरभज ने परयापता ॥ सं-
 ख्याती जसु आय ॥ न० ॥ १६ ॥ नारकियां ने
 नरकथी नीसरथा, जे फल प्रापति होय ॥ उत्कृ-
 ष्टे भांगे करते कहूं, पिण निश्चै नहीं कोय ॥ न०
 ॥ १७ ॥ प्रथम नरकथी चवि चक्रवर्त्ति हुवै,
 बीजी हरि बलदेव ॥ तीजी लग तीर्थकर पद
 लहै ॥ चोथी केवल एव ॥ न० ॥ १८ ॥ पंचम
 नरकनो सरबविरति लहै, छठी देसविरत्त ॥ सा
 तमो नरकनो समकितहीज लहै, न हुवै अधिक
 निमत्त ॥ न० ॥ १९ ॥

॥ ढाल ॥ ३ ॥ करमपरीक्षा करण कुमर चलयो रे ॥ एदेशी ॥

मानव गति विन मुगति हुवै नही रे, एहनो
 इम अधिकार ॥ आउ संख्यातै नर सहु दंडके रे,
 आवी लहै अवतार ॥ मा० ॥ २० ॥ तेउ वाऊ
 दंडक बे तजी रे, बीजा जे बावीस ॥ तिहांथी
 आया थायै मानवी रे, सुख दुख कम सरीस ॥

मा० ॥ २१ ॥ नर तिरजंच असंखो आउखै रे,
 सातमी नरकना तेम ॥ तिहांथी मरिनें मनुष्य हुवे
 नही रे अरिहंत भाख्यो एम ॥ मा० ॥ २२ ॥
 वासुदेव बलदेव तथा वली रे, चक्रवर्त ने अरि-
 हंत ॥ सरग नरगना आया ए हुवै रे, नर तिरथी
 न हुवंत ॥ मा० ॥ २३ ॥ चोविह देव थकी चवि-
 उपजै रे, चक्रवर्ति बलदेव ॥ वासुदेव तीर्थकर ए
 हुवै रे, वैमानिकथी वेव ॥ मा० ॥ २४ ॥

॥ ढाल ॥ ४ ॥ नाभि अने मरुदेवा ॥ ए देखी ॥

हिव तिरयंच तणी गति आगति कहिये अ-
 शेष, जीवभमें इण पर भव मांहे करम विशेष ॥
 आउ संख्यातो जे नर तिर्यंच विचार, ते सगला
 तिरयंचा मांहे लहे अवतार ॥ २५ ॥ जिण तिर-
 यंचा मांहे आवे नारक देव, ते कह्या पहली तिण
 कारण न कहूं हेव ॥ पंचेंद्री तिर्यंच संख्यातें
 आउखै जेह, ते मरी चिहुंगतिमां जावे इहां नही
 संदेह ॥ २६ ॥ थावर पांच तीने विकलेंद्री आठ

कहावे, तिहांथी आउ संख्याता नर तिरयंचमें
 आवे ॥ विकल चवीलहै सरबविरति पिण मुगति
 न पावै, तेउ वाउथी आयो तेहने समकित नावै
 ॥ २७ ॥ नारक वरजीनें सगला ही जीव संसार,
 पृथवी आउ वनस्पतीमांहि लहै अवतार ॥ ए ती
 नें इहांथी चवि आवै दसे ठाने, थावर विकल
 तिरी नरमांहे उतपत पामै ॥ २८ ॥ पृथवीकाय
 आद देई दस दंडके एह, तेउ वाऊ मांहे आवी
 ऊपजै तेह ॥ मनुष्य विना नव मांहे तेउ वाउ बे
 जावै, विकलेन्द्री ते दसमांहि जावै पूठाही आवै
 ॥ २९ ॥ एम अनादितणो मिथ्यात्वी जीव ए-
 कंत, वनस्पती माहे तिहा रहियो काल अनंत ॥
 पुढवी पाणी अग्नि अनै चोथो बलि वाय, का,
 लचक्र असंख्याता तांइ जीव रहाय ॥ ३० ॥ ब्रे-
 इन्द्री तेइन्द्री अने चौरिंद्री मभारै, संख्याता वर
 सां लगै भमियो करम प्रकारै ॥ सात आठ भव
 लगि तां नर तिरयंचमें रहियो, हिव मानवभव

लहिनें साधुनें वेषमें रहियो ॥ ३१ ॥ राग द्वेष
छूटे नही किम हुवै छूटकवार, पिण छै माहरै
मनसुध ताहरो एक आधार ॥ तारण - तरण में
त्रिकरण सुद्धे अरिहंत लाधो, हिव संसार घणो
भमिवोतो पुदगल आधो ॥ ३२ ॥ तूं मन वंछि
त पूरण आपद चूरण सांमी, ताहरी सेव लही
तो में नवनिध सिद्ध पांमी ॥ अवर न कांइ इ-
च्छू इण भव तूंहिज देव, सूधै मन इक होज्यो
भव-भव ताहरी सेव ॥ ३३ ॥

॥ कलश ॥

इम सकल सुखकर नगर जैसलमेर महि-
मा दिन दिनें ॥ संवत सतर उगणतीसै, दिवस
दीवाली तणै ॥ गुणविमल चंद्र समान वाचक,
विजय हरष सुसीस ए ॥ श्री पासना गुण एम
गावै, धरमसी सुजगीज ॥ ३४ ॥

॥ इरियावही मिच्छामिदुक्कड संख्या-स्तवन ॥

॥ प्रभु प्रणमू रे पास जिनेसर थम्मणो ॥ ए देशी ॥

पद पंकज रे प्रणमो वीर जिनंदना, त्रिकर-
ण शुद्ध रे करि मुनिवर पय वंदणा ॥ एमत्ते रे
पडिक्कमी जिम इरियावहीं, श्री वीरनी रे वाणी
तहत्त कर सरदही ॥ उल्लालो ॥ सरदही वांणी
मन सुहाणी, चित्त आंणी ते वली ॥ मिच्छामि-
दुक्कड तणी संख्या, कहिसुं जिम कहे केवली ॥
भू दग जलण तिम वाउ, वणसइ विगल पण
इंद्री तणी ॥ करतां विराहण करम बंध्या, दुर ते
करिवा भणी ॥१॥ चाल ॥ पुडवि दगरे वाउ तेउ
वणस्सइ, पण थावर रे बादर सुहम दसे थई ॥
प्रत्येकज रे वणसइ इग्यारह थया, बावीसे रे पज्जत्तग
अपज्जत्तया ॥ उल्लालो ॥ पज्जत अपज्जत्तग वखा
णया, विगल तिय छह भाल ए ॥ जल-थल-खेचर
भुयंग दुइ, पण इंद्रिय तिरि अडयाल ए ॥ त-
स्मादि साते नरक पुडवी, नारकी तिहां सात जे ॥

ते चवद भेदे करी जाणो, पज्जत्तय अपजत्त जे
 ॥ २ ॥ चाल ॥ पनहर विध रे सुरगण परमा ह-
 म्मिया, किलविषिया रे त्रिविध करम ते निम्मि-
 या ॥ जंभिय दस रे नव लोकांतिक जांणियै, सो
 लह विधरे व्यंतर देव वखाणियै ॥ उल्लालो ॥
 वखाणियै दस विध भुवनपतिना, तार रवि सशि
 रिसिगहा ॥ चर थिर दसै विध जोइसी सुर, व-
 खाण्या जिनवर जिहां ॥ बारह विमाणह पण
 अनुत्तर, नवग्रीवेके नव भण्या ॥ पज्जत्त अपज-
 त्तग अठाणूं, अधिक सत संख्या गियां ॥

॥ ढाल ॥ २ ॥ मेव आगम सही ए ॥ देखी ॥

पंचभरत वलि ऐरवत पंच पंच विदेहवर
 भूमिका ए ॥ खेत्र ए पनरह करम भूमि जाणी-
 यै असि कसि मसिही आजीविकाए ॥ हेमवत
 खेत्र वलि तिम हरिवर्ष रम्यक ऐरण्यवत सहीए
 मेरूपिणा पाखती चारि २ खेत्र दस कुरु अकरम
 भूमीकहीए ॥ ४ ॥ हिमगिर सिहरीय दाढ ची-

यांरि लवण समुद्रमांहि विस्तरी ए ॥ सात २ अं
तर दोय पासै दीप छप्पन्न अन्तर धरीए ॥ दो-
इसै भेद दुइ आगला जांणी मणय पज्जत अप
ज्जतयाए ॥ एक सौ एक समुच्छिम भेद तीन-
सै तीन मणआ थयाए ॥ ५ ॥

॥ ढाल ॥ ३ ॥ हिव जनम्या जगगुरु ए ॥ देशी ॥

पणस्य त्रेसठिविध जीवसहस्रं छे एह अभिहय
आदिक दस गुणित करीजै तेह ॥ पणसहस्र छ-
सै वलि त्रीस अधिकते जाणि ॥ ते रागौ दोसै
दुगुण करी वखाण ॥ ६ ॥ हुइ सहस्र इग्यारह
दुइसय साठि प्रमाण ॥ ए प्रवचनवाणी जाणी
हितउर आण ॥ मनवच काया करि त्रिगुणाकरि
त्रिअंक ॥ तेतीस सहस्र सत सातअसी निःशंक
॥ ७ ॥ वलि करण करावण अनुमति त्रिगुण
किद्ध ॥ इकलवख सहस्रइग तिसय चालीस प्र-
सिद्ध ॥ अतीत अनागत वर्त्तमान वलिकाल जे
थइयविराधना तिणि त्रिगुण संभाल ॥ ८ ॥ तीन

लाख सहस च्यार बेसै अधिक ते थाय ॥ अरिहंत
प्रमुख छह साखै छगुण भाय ॥ इम लाख अठा-
रह वलि सहस चउवीस ॥ इकसो वीसोत्तर हुइ
संख्या निसदीस ॥ ६ ॥

॥ ढाल ४ थी ॥ चोपइनी ॥ ए देशी ॥

॥ इण परि मिच्छामि दुक्कडंदेई भविक तस्या
भवजल निधिकेई ॥ तरै अछै वलि आगलि तरि-
सी ॥ निरमल केवल लखमी वरिसी ॥ १० ॥
इरियावहो धरम गंगाजल ॥ न्हाण करै आतम
करि निरमल ॥ सैं मुखभाषै वीर जिणोसर ॥ सू-
त्रकरि गूथै ते श्रुतधर ॥ ११ ॥ इम पडिक्की
मुनिवर अइमत्तो ॥ वीरसोस केवल पदपत्तो ॥
त्रिकरण सुध तसु पय प्रणमी जै ॥ मानव जनम
सफल इम कीजै ॥ १२ ॥

॥ कलश ॥

॥ इम वीरजिणवर ग्यान दिणायर सयल-
लोय सुहंकरो ॥ तियलोय सामि सिद्धगामी

सुद्ध धरम धुरंधरो ॥ उवभाय, लक्ष्मी किति
सीसै जैनवाणी मन धरी ॥ गणि लच्छिबल्लभ
तवन करि इम संशुणयो भावै करी ॥ १३ ॥

॥ पांच समवाय का स्तवन ॥

॥ दोहा ॥ सिद्धारथ सुत वंदीए, जगदीपक
जिनराज ॥ वस्तुतत्व सवि जाणीए, जस आग-
मथी आज ॥ १ ॥ स्याद्वादथी संपजे, सकल
वस्तु विख्यात ॥ सप्त भंग रचना विना, बंधन
बेसे वात ॥ २ ॥ वाद वदे नय जूजुआ, आप
आपणे ठाम ॥ पूरण वस्तु विचारतां, कोइ न
आवे काम ॥ ३ ॥ अंध पुरुषे एह गज, ग्रहो अ-
वयव अनेक ॥ दृष्टिवंत लहे पूर्णगज, अवयव
मिली अनेक ॥ ४ ॥ संगति सकल नयें करी,
जुगति योग शुद्ध वाद ॥ धन्य जिनशासन जग
जयो, जिहां नहीं किशो विरोध ॥ ५ ॥

॥ ढाल ॥ १ ॥ राग आशावरी ॥

श्रीजिनशासन जग जयकारी स्याद्वाद शुद्ध

रूप रे ॥ नय एकांत मिथ्यात्व निवारण, अकल
 अभंग अनूप रे ॥ ६ ॥ श्री० ॥ कोइ कहे ए का-
 लतणो वस, सकल जगत गत होय रे ॥ कालै
 ऊपजै विणसे कालै, अवर न कारण कोइ रे ॥ ७
 श्री० ॥ कालै गर्भ धरै जग वनिता ॥ कालै ज-
 नमे पूत रे ॥ कालै बोलै कालै चालै, कालै भालै
 घरसूत रे ॥ ८ ॥ कालै दूधथकी दही थायै, का-
 लै फल परपाक रे ॥ विविध पदारथ काल उपावे,
 अंत करे बेवाक रे ॥ ९ ॥ श्री० ॥ जिन चउवी-
 सै वार चक्रवै, वासुदेव बलवंत रे ॥ कालै कवि-
 लत कोइ न दोसै, जसु करता सुर सेव रे ॥ १०
 ॥ श्री० ॥ उत्सर्पिणी अवसर्पिणी आरा, छै छै
 जूजूये भांते रे, षट् ऋतु काल विशेष विचारो ॥
 भिन्न २ दिन रात रे ॥ ११ ॥ श्री० ॥ कालै वा-
 ल विलास मनोहर, यौवन काला केश रे ॥ बुद्ध-
 पणो हुय वलि वली दुर्वल, सकत नही लवलेस रे
 ॥ १२ ॥ श्री० ॥

॥ ढाल ॥ २ री ॥ गिखा गुण श्रीवीरजी ॥ ए देशी ॥

तव स्वभाववादी वदै जी, काल किसुं करै
रंक ॥ वस्तु स्वभावे नीपजे जी, विणसै तिमज
निस्संक ॥ १३ ॥ सुविवेक विचारी जुओ २ वस्तु
स्वभाव ॥ ए आंकणी ॥ छते योग योवनवती
जी, वांभणि न जणै बाल ॥ मूछ नही महिला
मुखै जी, करतल ऊगै न वाल ॥ १४ ॥ सु० ॥
विण स्वभाव नवि संपजै जी, किमह पदारथ
कोय ॥ अंब न लागै नीबडै जी, वाग वसंते
जोय ॥ १५ ॥ सु० ॥ मोरपंछ कुण चीतरे जी,
कुण करै संव्यारंग ॥ अंग विविध सब जीवना
जी, सुंदर नयण कुरंग ॥ १६ ॥ सु० ॥ काटा
बोर वंबूलना जी, कुणें अणियाला कीध ॥ रूप
रंग गुण जूजूआ जी ॥ तस फल फल प्रसिद्ध ॥
१७ ॥ सु० ॥ विसहर मस्तकै नित वसे जी, म-
णि हरै विस ततकाल, परबत थिर चल वायरो
जी, ऊरध अगननी भाल ॥ १८ ॥ सु० ॥ मच्छ

तुंब जलमां तिरै जी, बूडै काग पाहाण ॥ पंख
जाति गयणे फिरै जी ॥ इण परै सहिज विनाण
॥ १६ ॥ सु० ॥ वाय सुंडथी उपशमें जी, हरडे
करै विरेच ॥ सोभै नही कण कांगडो जी ॥ स-
कल स्वभाव अनेक ॥-२० ॥ सु० ॥ देस विशेषै
काठनो जी, भुंयमां थायै पाखाण ॥ संख अस्थि
नो नीपजे जी, क्षेत्र स्वभाव प्रमांण ॥ २१ ॥ सु०
रवि तातो शसी सीयलो जी, भव्यादिक बहु
भाव ॥ छए द्रव्य आपायणा जी, न तजै कोइ
सुभाव ॥ २२ ॥ सु० ॥

॥ ढाल ॥ ३ ॥ कपूर हुवै अति ऊजलो रे ॥ ए देशी ॥

काल किसुं करै वापडो रे, वस्तु स्वभाव अ-
कज्ज ॥ जो न होय भवितव्यता जी, तो किम
सीजै कज्जा रे ॥ २३ ॥ प्रांणी म करो मन जंजा-
ल, ए तो भावी भाव निहाल रे ॥ प्रा० ॥ ए आ
कणी ॥ जलधि तरै जंगल फिरै जी, कोडि यतन
करै कोय ॥ अणभावी होये नही जी, भावी होय

ते होय रे ॥ २४ ॥ प्रा० ॥ आंबै मोर वसंतमां
 जी, डालै केइ लाख ॥ खस्या केइ खांखटी जी,
 केइ आंबा केइ साख रे ॥ प्रा० ॥ २५ ॥ वाउल
 जिम भव तव्यता जी, जिण जिण दिसे उजाय,
 परवस मन मानसतणो जी, तृण जिम पूठे धाय
 रे ॥ प्रा० ॥ २६ ॥ नियत वसै पिण चितव्यं जी,
 आवी मिलै ततकाल ॥ वरसां सोनुं चिंतव्यो जी
 नियत कर विसराल रे ॥ प्रा० ॥ २७ ॥ आठमो
 चक्री सुभूमिते जी, समुद्र पड्यो विकराल ॥
 ब्रह्मदत्त चक्री तणांजी, नयण हरै गोवाल रे ॥
 प्रा० ॥ २८ ॥ कोकूहा कोयल करै जी, किम रा-
 खीस रे प्राण ॥ आहेडी सर ताकियो जी, ऊपर
 भमें सीचाण रे ॥ प्रा० ॥ २९ ॥ आहेडी नागे
 डस्यो जी, बांण लग्यो सींचाण ॥ कोकूहो ऊडी
 गयो जी, कोउ नियत परमाण रे ॥ प्रा० ॥ ३० ॥
 शस्त्र हणया संग्राममां जी, रात पड्या जीवंत ॥
 मंदिरमांहे मानवी जी, राख्याहो न रहंत रे ॥
 प्रा० ॥ ३१ ॥

॥ ढाल ४ थी ॥ मारुणी-मनोहरणी ॥ ए देशी ॥

काल स्वभाव नियत मति रूढ़ी, करम करे
 ते थाय ॥ करमें नरय तिरिय नर सुर गति, जोव
 भवंतरै जाय ॥ ३२ ॥ चैतन चेतज्यो रे, करम न
 छूटै कोय ॥ ए आंकणी ॥ करमें राम वस्या वन
 वासै, सीता पामी आल ॥ कर्म लंकपति रावण
 नुं राज्य थयो विसराल ॥ ३३ ॥ चे० ॥ कर्म
 कीड़ी कर्म कुंजर ॥ कर्म नर गुणवंत ॥ कर्म
 रोग सोग दुख पीड़ित, जमन जायै विलसंत ॥
 ३४ ॥ चे० ॥ कर्म वरस लगे रिसहेसर, उदक
 न पामे अन्न ॥ कर्म जिनने जोउ निमारै, खीला
 रोप्या कन्न ॥ ३५ ॥ चे० ॥ कर्म एक सुखपाले
 वैसे, सेवक सैवै पाय ॥ एक हंय गय चढ्या
 चतुरनर, एक आगल उंजाय ॥ ३६ ॥ चे० ॥
 उद्यम मांनी अंधतणी पर, जग हीडै हाहूतो ॥
 कर्मवली ते लहै सकल फल, सुखभर सेजै सूतो
 ॥ ३७ ॥ चे० ॥ ऊंटर एके कीधो उद्यम ॥ कर्म
 रंडीयो करकोले ॥ मांहे घणा दिवसनो भूखो,

नाग रह्यो डमडोलै ॥ ३८ ॥ चे ॥ विवर करी मू-
षक तसु मुखमां, दीयै आपणं देह ॥ मार्ग लही
वन नाग पधास्या, कर्म मर्म जोवो एह ॥ चे ॥

॥ ढाले ५ मी ॥ तो चढियो धन मान गजै ॥ एं देशी ॥

हिव उद्यमवादी भणो ए, ए च्यारै असम-
च्छ तो ॥ सकल पदारथ साधवा ए, उद्यम एक
समरत्थ तो ॥ ४० ॥ उद्यम करतां मानवी ए,
स्युं नवि सीकै काज तो ॥ रामे रथणायर तणीं
ए, लीधो लंका राज तो ॥ ४१ ॥ करम नियत
ते अणुसरै ए, जेहमां सत्व न होय तो ॥ देवल
वाघ मुख पंखिया ए, पिउ पैसंता जोय तो ॥ ४२ ॥
विन उद्यम कीम निकले ए, तिल मांहेथी तेल
तो ॥ उद्यमथी उंची चढै ए, जोवो एकेंद्रिय बेल
तो ॥ ४३ ॥ उद्यम करतां इक समें ए, जेह न
सीकै काज तो ॥ ते फिर उद्यमथी हुवे ए, जो
नवि आवे वाज तो ॥ ४४ ॥ उद्यम करिं ऊस्यां
विना ए, नवि रंधायै अन्न तो ॥ आवी न पडे

कोलियो ए, मुखमां क्षेपे जतन्नु तो ॥ ४५ ॥
 कमे पूत उद्यम पिता ए, उद्यम कीधा कर्म तो ॥
 उद्यमथी दूरे टलै ए, जोउ कम्मनो मम्म तो
 ॥ ४६ ॥ दृढप्रहार हत्या करी ए, कीधा पाप आ-
 रंभ तो ॥ उद्यमथी खट मासमां ए, आप थया
 अरिहंत तो ॥ ४७ ॥ टीपै २ सरवर भरै ए, कां-
 करे २ पाल तो ॥ गिर जेहवा गढ़ नीपजे ए,
 उद्यम सकल निहाल तो ॥ ४८ ॥ उद्यमथी ज-
 लविंदुउ ए, करे पाहाणमां ठाम तो ॥ उद्यमथो
 विद्या भणै ए, उद्यम जोडै दांम तो ॥ ४९ ॥

॥ ढाल ॥ ६ ॥ ए छिडी किहां राखी ॥ ए देखी ॥

ए पांचेही वाद करंतां, श्रीजिन चरणे आवै ॥
 अमिय रसै जिन वयण सुणीनें, आणंद अंग न
 मावै रे ॥ ५० ॥ प्राणी समकित मति मन
 आणो ॥ नय एकांत म. ताणो रे ॥ प्रा० ॥ ते
 मिथ्या मति जाणो रे ॥ प्रा० ॥ ए आंकणी ॥ ए
 पांचे समवाय मिल्यां, विन, कोई काज न सीमै ॥

अंगुल जोगै कवल तणी पर, जे बूभे रे ॥ प्रा० ॥
 ५१ ॥ आग्रह आणी कोइ एकनें, एहमां दियै
 वड़ाई ॥ पिण सेना मिल सकल रणंगण, जीते
 सुभट लड़ाई रे ॥ प्रा० ॥ ५२ ॥ तंतु स्वभावे पट
 उपजावै, काल क्रमें वणाई ॥ भवितव्यता होय
 ते नोपजे, नही तो विघन घणाई रे ॥ प्रा० ॥ ५३ ॥
 तंतुवाय उद्यम भोक्तादिक, भाग्य सबल सहका-
 री ॥ ए पांचे मिल सकल पदारथ, उतपत जोवो
 विचारी रे ॥ प्रा० ५४ ॥ नियत वसे हलु कर्म
 थईनें, निगोदथकी नीकलियो ॥ पुण्यें मनुज
 भवादिक पांमी, सद्गुरुनें जइ मिलियो रे ॥ प्रा० ॥
 ५५ ॥ भवथितनो परपाक थयो तब, पंडित वीर्य
 उल्लसियो ॥ भव्य स्वभावै शिवगति गांमी, शिव-
 पुर जइनें वसियो रे ॥ प्रा० ॥ ५६ ॥ वद्धमान
 जिन इण पर वीनवै, शासन नायक गावो ॥ संघ
 सकल सुखदाई छेहथी, स्याद्वाद रस पावो रे
 ॥ प्रा० ॥ ५७ ॥

॥ कलश ॥

इम धर्म नायक मुगति दायक, वीर जि-
नवर संशुण्यो ॥ सय सतर संवत वहि लोचने,
वर्ष हर्ष धरी घणो ॥ श्रीविजय देव सुरिंद पट-
धर, विजयप्रभ मुणिंद ए ॥ कीर्तिविजय वाचक
सीस इण पर, विनय कहे आणंद ए ॥ ५८ ॥

॥ चउदह गुणठाणों का स्तवन ॥

॥ यमणपुर श्रीपास जिणदे ॥ ए देशी ॥

सुमति जिणंद सुमति दातार, वंदू मन
सुध वारंवार, आणी भाव अपार ॥ चवद गुण
थानक सुविचार, कहिस्युं सूत्र अरथ मन धार,
पांसे जिम भव पार ॥ १ ॥ प्रथम मिथ्यात कह्यो
गुणठाणो, वीजो सास्वादन मन आणो, तीजो
मिश्र वखाण ॥ चोथो अविरत नाम कहाणो;
देशविरति पंचम परमाणो, छट्टो प्रमत्त पिछाण
॥ २ ॥ अप्रमत्त सत्तम सलहीजै, अष्टम अपुरव
करण कहीजै, अनित्ति नाम नवम्स ॥ सुखम

लोभ दसम सुविचार, उपशांत मोह नाम इग्यार,
खीणमोह बारम्म ॥३॥ तेरम सयोगी गुणधाम,
चवदम थयो अजोगी नाम, वरणुं प्रथम विचार
कुगुरु कुदेव कुधम्म वखाणौ, ए लक्षण मिथ्या
गुणठाणौ, तेहना पंच प्रकार ॥ ४ ॥

॥ ढाल ॥ २ ॥ सफल सत्सरनी ॥ ए देशी ॥

॥ जेह एकांतनय पच् थापी रहै. प्रथम एकांत
मिथ्यामता ते कहै ॥ जैन शिव देव गुरु सहु नमै
सारखा, तृतीय ते विनय मिथ्यामती पारिखा ॥
सूत्र नवि सरदहै रहै विकल्प घणों, संसयी
नाम मिथ्यात चौथो भणौ ॥ ६ ॥ समझ नही
काय निज धंद रातो रहै, एह अज्ञान मिथ्यात
पंचम कहै ॥ एह अनादि अनंत अभव्यनें, करिय
अनादि थिति अंतसुभव्यनें ॥ ७ ॥ जेम नर खीर
घृत खंड जिमनें वमें, सरस रस पाय वलि स्वाद
केहवो गमें ॥ चौथ पंचम छठे ठाण चढ़ने पड़े,
किणहि कषाय वस आय पहलै अड़ै ॥ ८ ॥ रहै

त्रिच एक समयादि षट आवली, सहीय सासा-
दनें थित इसी सांभली ॥ हिव इहां मिश्र गुण-
ठाण तीजो कहै, जेह उत्कृष्ट अंतरमहुरत लहै ॥६॥

॥ ढाल ॥ ३ वे कर जोडी तांम ॥ ए देशी ॥

॥ पहिला च्यार कषाय, सम कर समकिती,
कैतो सादि मिथ्यामती ए ॥ ए बेहिज लहे मिश्र,
सत्य असत्य जिहां, सर दहणा बेऊं छती ए ॥
१० ॥ मिश्र गुणालय मांहि, मरण लहै नही,
आउ बंधनपड़ै नवो ए ॥ कै तो लहै मिथ्यातकै
समकित लहै, मति रसखी गति परभवै ए ॥११॥
च्यार अप्रत्याख्यान, उदय करी लहै, मति विन
किहां समकितपणो ए ॥ ते अविरत गुणठाण,
तेत्रीस सागर, साधिक थिति एहनी भणी ए ॥
१२ ॥ दया उपशम संवेग, निरवेद आसता,
समकित गुण पांचै धरै ए ॥ सहु जिन वचन
प्रमांण, जिन शासन तणी, अधिक २ उन्नत
करै ए ॥ १३ ॥ कोईक समकित पाय, पुदगल

अरधतां, उत्कृष्टा भवमें रहै ए ॥ केइएक भेदी
 गंठि, अंतरमहुरते, चढ़ते गुण शिवपद लहै ए
 ॥ १४॥ च्यार कषाय प्रथम्म, त्रिण वलि मोहनी,
 मिथ्या मिश्र सम्यक्तनी ए ॥ साते प्रकृति जास,
 परही उपशमें, ते उपशम समकित धणी ए ॥ १५॥
 जिण साते क्षय कीध, ते नर क्षायकी, तिणहिज
 भव शिव अनुसरै ए ॥ आगलि बांध्यो आऊ,
 ताते तिहां थकी, तीजै चोथे भव तिरै ए ॥ १६॥

॥ बाल ॥ ४ ॥ इण पुर कवल कोइ न लेसी ॥ ए देशी ॥

पंचम देसविरति गणठाण, प्रगटै चोकड़ी
 प्रत्याख्यान ॥ जेण तजैवा वीस अभक्त, पांम्यो
 श्रावकपणो प्रत्यक्ष ॥ १७ ॥ गुण इकवीस तिके
 पिण धारै, साचा बारै व्रत संभारै ॥ पूजादिक
 षट् कारज साधै, इग्यारै प्रतिमा आराधै ॥ १८ ॥
 आर्त्त रौद्र ध्यान ह्वै मंद; आयो मध्य धरम
 आणंद ॥ आठ वरस ऊणी पुव्वकोड़, पंचम
 गुणठाणे थित जोड़ ॥ १९ ॥ हिव आगे साते

गुणयान, इक २ अंतरमहुरत मान ॥ पंच प्रमाद
 वसै जिण ठाम, तेण प्रमत्त छठो गुणधाम ॥२०॥
 थिवरकल्प जिनकल्प आचार, साधै षट् आव-
 श्यक सार ॥ उद्यत चोथा च्यार कषाय, तेण
 प्रमत्त गुणठाण कहाय ॥ २१॥ रूधो राखै चित्त
 समाधै, धरम ध्यान एकांत आराधै ॥ जिहां
 प्रमाद क्रिया विध नासै, अपरमत्त सत्तम गुण
 भासै ॥ २२ ॥

॥ ढाल ॥ ५ नदी यमुनाके तीर उडै दोय पखिया ॥ ए देशी ॥

पहिले अंसे अष्टम गुणठाणातणें, आरंभे
 दोय श्रेण संख्येपै ते गणें ॥ उपशम श्रेणि चढै
 जे नर हुवै उपशमी, जपकश्रेणि जायक प्रकृति
 दस जय गमी ॥ २३ ॥ तिहां चढता परिणाम
 अपूरव गुण लहै, अष्टम नाम अपूरव करण तिणें
 कहै ॥ सुकल ध्याननो पहिलो पायो आदरै, निर-
 मल मन परिणाम अडिम ध्याने धरै ॥ २४ ॥
 हिव अनिवृत्त करण नवसो गुण जाणियै, जिहां

भाव थिररूप निवृत्ति न जांणियै ॥ क्रोध मान
 ने माया संजलणा हणें, उदें नही जिहां वेद अ-
 वेदपणो तिणें ॥ २५ ॥ जिहां रहै सुखम लोभ
 कांद्रक शिव अभिलखै, ते सुखम संपराय दसम
 पंडित अखै ॥ संत मोह इण नांम इग्यारम गुण
 कहै, मोह प्रकृति जिण ठांम सहू उपशम लहै
 ॥ २६ ॥ श्रेणि चढयो जो काल करै किणही परै,
 तो थायै अहमिंद्र अवर गति नादरै ॥ च्यार वार
 समश्रेणि करै संसारमें, एक भवे दोय श्रेण अ-
 धिक न हुवे किमें ॥ २७ ॥ चढि इग्यारम सीम
 समीप पहिले पडै, मोह उदय उत्कृष्ट अरध पुद-
 गल रडै ॥ जपकश्रेणि इग्यारम गुणठाणो नही,
 दशमथकी बारम्म चढै ध्यांने रही ॥ २८ ॥

॥ ढाल ॥ ६ ॥ एक दिन कोइ मागध आयो, पुरंदर पास ॥ ए देशी ॥

खीणमोह नामे गुणठाणो बारस जाण,
 मोह खपायो नेडो आयो केवलज्ञान ॥ प्रगटपणे
 जिहां चरित अमल यथा आख्यात, हिव आगे

तेरम गुणथान तणी कहै वात ॥ २६ ॥ घातीय
 चोकडी जय गई रहोय अघातीय एम, प्रकृति
 पिच्यासी जेहने जूना कप्पड जेम ॥ दरसण ज्ञान
 वीरज सुख चारित पंच अनंत, केवलज्ञान प्रगट
 थयो विचरै श्रीभगवंत ॥ ३० ॥ देखे लोक अ-
 लोकनी छानी परगट वात, महिमावंत अढारै
 दोषण रहित विख्यात ॥ आठे वरसे ऊणी कही
 इक पूरवकोडि, उत्कृष्टै तेरम गुणठाणें ए थिति
 जोडि ॥ ३१ ॥ कर सेलेसी करण निरूध्या मन
 वच कायं, तेण अयोगी अंत समय सहु प्रकृति
 खपाय ॥ पांचे लघु अक्षर ऊचरता जेहनो मानं,
 पंचम गति पांमें सिवपद चउदम गुणथान ॥ ३२ ॥
 त्रीजे वारमें तेरमें मांहे न मरै कोय, पहिलो
 वीजो चोथो परभव साथे होय ॥ नारक देवनी
 गति मांहे लाभै पहिला च्यार, धुरला पांच तिरी
 मांहे मणु ए सर्व विचार ॥ ३३ ॥

॥ कलश ॥

इम नगर वाहड मेभ मंडण, सुमति जिन
सुपसाउलै ॥ गुणठाण चवद विचार वरणयो, भेद
आगमनें भलै ॥ संवत सतरैसै छत्तीसै, श्रावण वदि
एकादशी ॥ वाचक विजय श्री हरष सानिध, कहै
मुनि इम धमसी ॥ ३४ ॥

॥ नव तत्त्व भाषा-गर्भित स्तवन ॥

दूहा ॥ नमस्कार अरिहंतनें, सिद्ध सुरि
उवभाय ॥ साधु सकल प्रणामी करी, प्रणामी
श्रीगुरु पाय ॥ १ ॥ करस्युं हूं नव तत्त्वनी, गाथा
भासा रूप ॥ मंद बुद्धि गुरु सानिधै, कहिस्युं
सुगम सरूप ॥ २ ॥

॥ ढाल १ ॥ सूस्ती महीनानी ॥ ए देशी ॥

जीव अजीवें पुण्य पाप तिम आश्रव सोय,
संवर निज्जर बंध मोक्ष ए नव तत होय ॥ च-
वद २ बायाल बयासी, वलि बायाल, सत्तावन
बारै चौ नव क्रम भेदनी माल ॥ १ ॥ इग दु ति

चौविह पणविह छविह जीव कहाय, चेतन त्रस
थावर वेदै गई करणो काय ॥ एगेंदी सुखम वा-
दर ए दोय जिय ठाण, सन्नि असन्नी पणिंदी
वी ति चोरिंद्री आण ॥ २ ॥ ए सग पज्जत्ता अ-
पज्जता चवदै होय, अनुक्रम जीव ठाण ए सूत्र
प्ररूपा सोय ॥ नाण दंसण चारित वीरज तप
तिम उपयोग, ए षड लक्षण लक्षित जीव द्रव्य
इह लोग ॥ ३ ॥ इग आहार संरीर इंदिय प-
ज्जत्ती तीन, सासोसास भाषा मन षड ए अनु-
क्रम लीन ॥ च्यार एगेंदी पंच पज्जती विगलें
जोय ॥ पंच असन्नि सन्नितें षड पज्जत्ती होय
॥ ४ ॥ इन्द्रिय पांच उसास आऊ वल ए दस
प्राण, च्यार छ सात आठ एगिंदी विगलें जाण,
असन्नि सन्नि पंचेंद्री नें नव दस क्रम थाय, प्रा
णाथी जेवि प्रयोग जिय सरण कहाय ॥ ५ ॥
धम्मधम्म आगास तीनूना त्रिण २ भेद, काल
दसम इग आगास पुग्गल च्यार विच्छेद ॥ खंधा

देस पणस परमाणू चवद अजीव, धम्माधम्मं पु
गल नभ काल ए पांच न जीव ॥ ६ ॥ चलाण
सहाई धम्मं थिर संठाण अधम्म, अवगाह पूरण
गलणं नभ पुगल धम्म ॥ समयावलिय महुत्त
दोह पख मास नें साल पल्योपम सागर उसप्प-
णी सप्पणी काल ॥ ७ ॥ षड इग दो सग सग
सग षड इग अंक गिणाय, एग मुहुत्तं आवलि
संख्या सूत्र कहाय ॥ तीन सात वलि सात तीन
ऊसासैं माण, केवलनाणो भणियो एह महुत्त
प्रमाण ॥ ८ ॥ साता उच्च गोय मण सुर हुग पं-
चिंदि जाय, पांच शरीर आदि प्रति सरीर उवंग
कहाय ॥ आदि संघैण संठाण चौवणं अगुरु लहु
होय, परघ उसास तेम वलिआ तप ने उज्जीय
॥ ९ ॥ सुभखगइ निम्माणत सादि दशु नीमाल,
सुर नर तिरि आऊ तित्थंकर पुण्य वयाल ॥ त
स वादर पज्जत पत्तेय थिरं सुभ सोय ॥ सुभग
सुंस्तर आइज्ज जसैं तस दसको होय ॥ १० ॥

नाणंतराय दस कनव वीजा नीचअसाय, मिथ
 थावर दशनादग त्रिक पचवीस कसाय ॥ तिरि-
 यंच दुग एकेंद्री वि ति चोरिंद्री तेय, कूखगई उप-
 धा अपसत्तथ वरण चौ भेयं ॥ ११ ॥ पढम संघयण
 विना संघेण तेम संठाण, एम बयासी प्रकृति
 पाप ततनी ए जाण ॥ थावर सुहम अपज्ज साहा
 रण अधिरै गेय, असुभ दुभग दू सरणा इज्ज अ-
 जस दस लेय ॥ १२ ॥ पण चौ पण तिय इंदी
 कसाय अव्वय तिम जोग वायालीस सेष पच्चीस
 क्रिया संजोग ॥ काइय अहिगरणीया पावसिया
 परिताप, प्राणातिपात आरंभकी परिगहियानो
 तोप ॥ १३ ॥ माया प्रत्यय मिच्छादेसण वत्ती
 तेम, अपच्चखाणकी दिठ पुठ पाडुच्चिय जेम ॥
 सामंतो पनवणिय ने सत्थि सहत्थै जेह, आज्ञा-
 पनको वेयारण अणभोगा तेह ॥ १४ ॥ अणव
 कंख पच्चयना उवउगी समुदाय, प्रेम द्वेष इरि-
 यावही किरिया ए कहिवाय ॥ सुमति गुपति परि

सहज इ धम्म भावण चारित्त, पणतिग बावीस
दस बारै पण संवर तत्त ॥ १५ ॥ इरिया भाषा
एषणा सुमतीना भेद होय, आदान भंड उच्चार
निस्कैवण पांचे जोय ॥ मनगुत्ती वयगुत्ती कायं-
गुत्ती त्रिण जाण, हिव आगे बावीस परिसह कहुं
हित आण ॥ १६ ॥ भूख पिपासा सीत उसन
डांसा निरवत्थ, अरति जोषा चरिआ नैषिद्या
सिज्जा सत्त ॥ अक्रोसवहजायण अलाभ रोग
त्रिण भास, मल सक्कार यन्ना अन्नाण समत्त
समास ॥ १७ ॥ खंति महव अज्भव मुत्ती तव
संजम सम्म, सत्यं शौच अकिंचन बंभचेरज इ
धम्म ॥ पढम अनित्य असरण संसार एग अत्त-
त्त, अशुचि आश्रव संवर निज्भर भवि भावो
नित्त ॥ १८ ॥ लोक सुभाव बोध दुरलभ इग्या-
रम गाम, धरम साधक अरिहंत ए बारै भावना
भाव ॥ सापायक छेदोपस्थापन बीजो सोय,
परिहार विशुद्ध सूखम संपराय चउत्थो जोय ॥ १९ ॥

तिम अहक्याय चरित्त सरब जिय लोग प्रसिद्ध,
 जेह सुविधि आचरणे के जिय पांम्या सिद्ध ॥
 वारै विध निज्जर तत्व बंधना च्यार प्रकार, प्रकृ-
 ति ठिई अनुभाग प्रदेश भेदे निरधार ॥ २० ॥

अणसण उणोदर वृत्ति संखेप रसनो त्याग, का
 य कलेस सल्लीनता वाहिर तप षड् भाग ॥ पाय
 च्छित विनय वेयावच्च तेम सिज्झाय, ध्यान का-
 उसग अभ्यंतर तप षड् विध थाय ॥ २१ ॥ प्र-

कृति सुभाव काल अवधारण थित निरवंच, अनु
 भागै रस तेम प्रसेदे दलनो संच ॥ पट प्रतिहार
 धार तरवार मद्य वलि तेम, निगड चित्र कर
 कुंभकार भंडारी जेम ॥ २२ ॥ अनुकस आठ ना-

मना भाष्या जे जे भाव, तिम ज्ञानावरणादिक
 अंडना एह सभाव ॥ इम संसेपे विवरण कोना
 आधि तत, प्रस्तावै पांम्यो वरण वस्युं हिव मोख
 तत्त ॥ २३ ॥ संत पदै परूपण द्रव्य नें खेत्र प्र-
 माणा, फरसन काल पांचमो छठो अंतर जाण ॥

भाग सातमो भाव आठ तिम अल्प बहुत्त ॥
 ए नव भेदें भावन कस्युं नवमो तत्त ॥ २४ ॥
 मोक्ष एक पदवी छै जे पदे अविनाभाव, व्योम
 कुसुम तिम ससिक शृंग जिम नहीय अभाव ॥
 एहवो जे पद मोक्ष तेहनो मग्गण द्वार, विवरण
 कर वरणवस्युं सुणज्यो सुहुम विचार ॥ २५ ॥
 संमत्तै चायक सन्नी असन्नी येसन्नी, अणहारी
 आहारी अणहारी ऊपन्न द्रव्य प्रमाणे सिद्ध
 जीव ॥ द्रव्य होय अनंत, लोग असंखम भाग
 एग सिद्ध होय अणंत ॥ २६ ॥ फरसन क्षेत्रथी
 अधिक काल इग सिद्ध प्रतीत, सादि अनंती
 थित जिन आगमथी सुविदीत ॥ प्रतिपातां भावै
 नहि सिद्धां अंतर जोय, सरव जीवथी भाग अ-
 नंतम सहू सिद्ध होय ॥ २७ ॥ दंशण नाण जे-
 हने बे ते चायक भाव, जीवत जेहने वलि पर-
 णामक भाव समाव ॥ सहूथी थोड़ा वेद नपु-
 सकथी जे सिद्ध, तेहथी थीनर अनुक्रम संख

गुणा सुप्रसिद्ध ॥ २८ ॥ जे जाणे जीवादिकान्व
 त्त तस सम्मत्तं; अणजाणांताने हुय जे सरधा
 नेरत्त ॥ सरव जिनेसर मुखथी भाष्या वयण ज
 हत्थ, ए बुद्धी जेहने मन संमत निच्चल तत्थ ॥
 २९ ॥ अंतरमहुरत एण मात्र फरस्यो सम्मत,
 अर्द्ध पुग्गल परियट्ट नियम संसार निमित्त ॥ उ-
 सप्पणिय अणांते इण पुग्गल परियट्ट, अनंत अ-
 तीत अनागत तद्गुण वयण प्रगट्ट ॥ ३० ॥ इम
 नव तत्त भेद पडिभेदै विवरण कींध, श्रावक
 आग्रह कीन सहाय पूरण रस पीघ ॥ कोटिक
 गण सुभ सदन प्रकास नदी उपमानं, श्रीजिन-
 लाभचंद कुल पूनमचंद समान ॥ ३१ ॥ अज्ञा-
 नादक करिवर सिंहे वयरी साख, रत्तराजमुनि
 ते वड साखानी पडिसाख ॥ ग्यानसार ते पडि-
 साखानी सूखम डाल, ए नव पद नव रयणे वि-
 नारणे गूंथी माल ॥ ३२ ॥ संवच्छर निश्चय नय
 विगई प्रवचन माय, परम सिद्धि पद वाम गते

ए अंक गिणाय ॥ माघ किसन ससि वार मेरु
तिथ परन कीध, च्यार कथा तजि तत्वकथा भज
नर फल लीध ॥ ३३ ॥ इति नवतत्व भाषा-गर्भि-
त स्तवनम् ॥

॥ दंडक भाषा-गर्भित स्तवन ॥

दोहा ॥ ऋषभादिक चोवीस नमि, तेहनो
सूत्र विचार ॥ दंडक रचनार्ये तवुं, संखेपे निर-
धार ॥ १ ॥ नरक सात दंडक प्रथम, असुरा नाग
सुवन्न ॥ विज्जु अगन दीवो दही, दिसि पवणें
थणियन्न ॥ २ ॥ पुढवी आउ तेउ वलि, वाउ
वणस्सइ काय ॥ बी ति चौरिंदी गब्भधर, तिरि
नर तिहां मिलाय ॥ ३ ॥ व्यंतर जोइस वेमाणि
या, ए दंडक चोवीस ॥ एहना द्वार कहूं हिवै,
गणनाये ते वीस ॥ ४ ॥

॥ ढाल ॥ १ ॥ वीर जिणोसरनी ॥ ए देशी ॥

सरीर उगाहण संघयणेंसणा संठांण, कोहा
ई लेसिदिय दो समुग्घाय प्रमाण ॥ दिट्ठी दंसण

नाण जोग तिम वलि उवयोग, उपपात वलि
चवण ठिई पज्जत्ति प्रयोग ॥ १ ॥ केंदिसिनो आ
हार सन्नि गई आगयवेय, दार गाहा दुंगनो ए
अरथ कह्यो संचेव ॥ हिव तेवीस दारनो रहिस
समय अनुसार, अल्प रुची हुं तेहथी कहिसुं
अल्प विचार ॥ २ ॥

॥ बाल ॥ २ री ॥ देशी सुरती महीनानी ॥ ए देशी ॥

चौ गढभय तिरि वाऊ कायें च्यार सरीर,
मनुष्य सें पांच दंडक इगवीस रद्या ति सरीर ॥
थावर च्यारनें जघन्य उक्कोसे देह प्रमाण, भाग
असंख्यात इग अंगुलनो परिमाण ॥ १ ॥ सर-
वनो जघन्य स्वभावक अंगुल भाग संख्यात,
उक्कोसे पणसै धनु सागरने विंचात ॥ सुरनो
सात हाथ गढभय तिरि वणस्सय काय, जोयण
सहस साधक इक सहस अनुक्रम थाय ॥ २ ॥
नर तेइं दि तिगाउ वेइं दी जोयण वार, एग जो
यण चउरेंद्री देह उंचै आकार ॥ आरंभ काले

वैक्रिय देहनो ए परिमाण, भाग एक इग आंगु-
लनो संख्यातम जांण ॥ ३ ॥ सुर नरने साधिक
इक लाख जोयण इक लाख, नवसै जोयण तिर-
यंचने ए सूत्रे साख ॥ साभावकथा दुगणो नार-
क वैक्रिय काय, एक महरत नारय नर तिरि
च्यार कहाय ॥ ४ ॥ सुरने पक्ष एक उक्कोसविउ-
व्वण काल, विगल संघयणी थावर सुर नारकनी
माल ॥ गब्भय तिर तिरने षड् विगलने छेवठ
एक, सरव जीवने च्यार दसेसणाये लेष ॥ ५ ॥
नर तिरने षड् सुरने समचौरंस संठाण, हुंडग
इग नारग विगलेंद्री सूत्र प्रमाण, नाणाविह धय
सूर्इ मरुरनी चंद्र आकार, वणसइ वाऊ तेऊभू
वुद्वुद अप्पाकार ॥ ६ ॥ सहूने च्यार कसाय
गब्भय षड् नर तिरि दोय वेमाणिय नागर तेउ
वाउ विगल त्रिक होय ॥ जोयसि तेऊ लेसा
सेस रह्याने च्यार, दार इंद्रियनो सुगम तेहनो
स्युं विसतार ॥ ७ ॥ समुदघात सग नरने पण

गव्भय तिरि देव, नरग वायुनें च्यार सेसनें तीनुं
 भेव ॥ दिट्ठी दोय विगलमें थावरने मिथ्यात,
 सेसने तीन दिट्ठी जिम प्रवचनमें विद्यात ॥ ८ ॥
 थावर वितिनें एक अचक्खु दंसण होय, चौरिं-
 द्री ते चत्तु अचक्खु दंसण होय ॥ मनुजने
 च्यार सेस दंडगमें दंसण तीन, नाण अनाण
 तीन सुर तिर नारगनें लीन ॥ ९ ॥ थावर दोय
 अनाण विगल दो नाण अनाण, गव्भय मण
 नें तीन अनाणनें पांचू नाण ॥ सुर नारग एका-
 दस तिरनें तेरै जोग, मनुजने परै च्यार
 विगलनें जोग प्रयोग ॥ १० ॥ वाऊकायनें
 पांच तीन थावर संयोग, मनुजने वार नगर
 तिरदेवनें नव उपयोग ॥ विगल दुगै पण
 षड् चौरिंद्री थावर तीन, उववाय इग च-
 वण दार दोनुं समकीत ॥ ११ ॥ एग समै सं-
 ख्यात असंख्या चवण पपात, गव्भय विकलेंद्री
 नायर सुरनी ख्यात ॥ मणआ अथावर वणस्सइ

संख संख अणंत, मणुज असन्नी असंख चवंत
 तेम उपजंत ॥ १२ ॥ बावीस सात दीन दस व
 रस सहस उक्किठ, वसणई च्यारनें तीन दिवसे
 तेउने जिठ ॥ नर तिर तीन पल्य सुर नागर
 अयर तेतीस, व्यंतर पल्य अधिक लख वरष प-
 ल्य जोइस ॥ १३ ॥ असुरादिक दसनें इक सा-
 गर अधिको आय, देसैं ऊणा दोय पल्यनो न-
 वेय निकाय ॥ विगलनें वार वरस गुणचास दि-
 वस छम्मास ॥ अंतमुहुत्तजहन्नें पुढवाई दस
 रास ॥ १४ ॥ भुवनपती नारग व्यंतर दस वरस
 हजार, पल्य तेना अडंस वेमाणिय जोइस धार,
 सुर नर तिरि नारगनें षट थावरनें च्यार ॥ विग
 लनें पंच पज्जत्ती ए अधरम दार ॥ १५ ॥ सरब
 जीवनें होय छए दिवसनो आहार ॥ होय न हो
 य पंचादिक दिस ए सब मभार, दीह कालकी
 चौविह सुर नागर तिरयंच ॥ विगलनें हेउ प-
 णसा सन्नि रहित थिर पंच ॥ १६ ॥ गब्भय म-

एजनें दीह कालकी सन्ना होय, केइक आचा-
 रज कहे दिठिवाय थी दाय ॥ निच्चय पज्जत्ता
 पंचिंदि तिरि नर जेह, चौविह देवां माहे आवी
 उपजै तेह ॥ १७ ॥ संखाउपज्जत पंचेंदी तिरि
 नर तेम, पज्जत्ता भू दग पत्तेय वणस्सई जेम ॥
 ए सवरमें निश्चै सुरनी आगधि हंति, पज्जत
 संख गब्भय तिरि नर सब नरके जंत ॥ १८ ॥
 नरक उद वरत्या नर तिर उपजै न हुवे सेस,
 भू अप्प वणस्सइमें नरग विण उपजै असेस ॥
 पुढवाई दस पयमें भू आऊ वणजंति, पुढवाई
 दस पयमें तेउ वाऊ उवजंत ॥ १९ ॥ तेउ वाऊ
 नो गमण पुढवी पद नवमें हुत, पुढवाई दस
 पदमें विगल जावंत आवंत ॥ सहुमें तिर गति
 आगति मणुआ सहुमें जाय, तेउ वाऊथी मरीने
 जीव मनुज नवि थाय ॥ २० ॥ श्रीपुरसै चौविह
 सुर तिरि नर तीनुं वेद, थावर विगल नारकनें
 एक नपुंसक भेद ॥ पज्जता मण वादर अगन

वेमाणिक तेम भवण नरग व्यंतर जोइस चौप-
 ण तिरि, एम ॥ २१ ॥ बेइन्द्री तेइन्द्री पृथवीने
 अपकाय, वायु वणस्सइ अधिक अनुक्रम करि
 कहिवाय ॥ हे जिन ए सहु भावमें पांम्या वार
 अनंत, तेहनो अनुक्रम गिणतां किमही न आवै
 अंत ॥ २२ ॥ नर सुर विन सहु दंडगमें ते गति
 संयोग, लाधो नही तुह दंसण कीनो कम्म प्रयोग ॥
 सुरमें पिण दंसण लहि विरत न पांमी मूल,
 ते सुर जात सहावे देसविरत प्रतिकूल ॥ २३ ॥
 आरजदेश आरजकुल शुद्ध सुगुरु उपदेश, तेहथी
 तुह दरसणनो किंचित पांम्यो लेस ॥ धारक
 तारक कारक वारक दंशण देव, आतम गुण सं
 सार समत्त कम्म सयमेव ॥ २४ ॥ खरतर गच्छ
 भट्टारक श्रोजिनलाभ सुरिंद, रत्तराजमुनि सीस
 तेहना पद अरविंद ॥ रज मकरंदे लीनो ग्यान-
 सार तसु सीस, तेण तव्या तेवीस दार दंडग
 चोवीस ॥ २५ ॥ संवत ससि रस वारण तेम

चंद्र निरधार, पोस मास पख उज्जल सातमने
सोमवार ॥ श्रावक आग्रहथी ए कीनो अल्प
विचार, अट्टम चौमासो कर जैपुर नगर अकार
॥ २६ ॥ इति श्री चौबीस-दंडक स्तवनम् ॥

॥ जीवविचार भाषा-गर्भित स्तवन ॥

॥ दुहा ॥ भुवन प्रदीपक वीर नमि, किंचित्
जीव स्वरूप ॥ कहस्युं पूर्वाचाये जिम, वालवोध
गुरुरूप ॥ १ ॥

॥ ढाल १ ली ॥ देशी सुरती महीनानी ॥ ए देशी ॥

एक मुगति बीजा संसारी जीव दु भेद,
सत्ता भिनै सिद्ध अनंतै रूप अभेद ॥ संसारी
थावर इग तिम त्रस दोय प्रकार, भु अप वाउ
तेउ वणस्सइ थावर धार ॥१॥ फिटक रबण मणि
विद्रुम हिंगुल वलि हरियाल, मनसिल पारो सु-
वरण आदि धातुनी माल ॥ सेढी वशी अरणोटो
पालेवो पापाण ॥ भोडल तूरी उस भूमि पाहण
जे खाण ॥ २ ॥ सुरमो लूण जात ए पुढधी काय

विछेद ॥ भूमि आकास उत्स हिम करग आऊना
 भेद, हरित घास ऊपर जे जलकण धूं अर तेम
 ॥ होय घणो दधि अप्पकाय पिण घाहण जेम
 ॥ ३ ॥ अंगारा भाला भोभर तिम उलकापात,
 असणि करण विद्युत्तादिक अगनि जीव विदात
 उब्भामग उकलिका मंडल वलि मुख वात, सुद्ध
 गूँज तिम घण तणु वाऊ भेदें दात ॥ ४ ॥
 साधारण पत्तेय वणस्सई जीव दु भेय, एग
 सरीर अनंत जीव साधारण नेय ॥ कंदा अंकुर
 कूपल फूलण वलि जंबाल, भूफोड़ा अदत्तिय
 सरवे जे फल वाल ॥ ५ ॥ गाजर मोथ वाथलो
 थेग पालंको साग, गुपत सिरा सांधा गांछो भांजे
 सम भाग ॥ काटी डाल भूमिमें रोप्यां पल्लव थाय,
 जाल पान इत्यादिक साधारण वणकाय ॥ ६ ॥
 एग सरी रे एक जीव जे ते प्रत्येक, फूल छाल
 फल मूल काठ बीजै जिय एक ॥ वण पत्तेय
 विना जे पांचे पुढवीकाय, सयल लोगमें व्यापक

अंतमु हुत्तै आय ॥ ७ ॥ सूखमथी ते नियमा
 दिठी निजर न होय, लोका लोक प्रकास थी
 वलि अल्प न कोय ॥ कवडी संख गंडोला
 लहिगा लटनी जात, चंदन काअलसी मेहर जोका
 विचात ॥ ८ ॥ माय वाहाक्रम पौरादिक वेइन्द्री
 होय, गंामी मांकिण जूआ कीडा कीडी दोय ॥
 दीपक ईली घीवेली गोगीडा जात, चरम जूका
 गादहिया गोवर कृम उतपात ॥ ९ ॥ धनकीडा
 जिम चोरकीडा गोवालो तेह, ईली कंथुक इन्द्र-
 गोप तेइंद्री एह ॥ वीछू ढंकरा भमरा भमरी
 इन्द्री च्यार, तीड़ा माखी डांस मच्छर कंसारी
 धार ॥ १० ॥ कवडोला मांकड़िय पतंग इत्या-
 दिक भेद, नारक तिरि मणू देव पंचेंद्री च्यार
 विच्छेद ॥ धम्मा वंसा सेला अंज रिठा जात,
 मघा माघवई नारग ए नामे सात ॥ ११ ॥ जल
 चारी थलचारी नभचारी तिरयंच, मच्छ कच्छ
 सुसमार मगर गाहा जल अंच ॥ चौपय उरपरी

भुजपरी साप भु चारी लेय, तिविहा गाय साप
 तिम नकुल अनुक्रम देय ॥ १२ ॥ खेचर चरम
 रोम पंखी चमचेड़ कपोत, मनुजलोकथी बाहिर
 समुग विगय पंख होत ॥ सरबे जल थल खेचर
 समुच्छम गब्भय दोय, कम्म अकम्म भूमि अं
 तर दीवा मण जोय ॥ १३ ॥ असुरादिक दस
 होय वाण व्यंतरिया अछ, जोइस पंच वेमाणिय
 दुविहासु तें दिध ॥ पनरे भेदे सिद्ध कहा ए
 जीव प्रकार, तनु मानादिक हिव एहनो कहिसुं
 अधिकार ॥ १४ ॥ देह आउखो एक सरीरे थि-
 तनो मान, प्राण जेहने जेता तिम बलि योन प्र
 माण अंगुल भाग असंख सहू एगिंदी काय,
 जोयण सहस साधिक पत्तिय वणस्सई काय १५
 बी ति चउरेंद्री अनुक्रम उक्किठदेह ऊंचास, बारै
 जोयण तीन गाउ इग जोयण भास ॥ सत्तमना
 नेरइया धण सय पंच प्रमाण, तेहथी अरध २
 ऊणा अनुक्रम रयणाण ॥ १६ ॥ जोयण सहस

गन्धधर मच्छ उरगनो देह, गाउ धणुअ पुहत्त
 भूचारी पंखी जेह खेचर नव घण उरग भुयंग
 जोयण नव होय, नव गाऊ परिमाण समुच्छम
 चौपय सोय ॥ १७ ॥ खड़ गाउ ऊंचास चउष्य
 य गन्धय भांण, तीन कोस उक्कोस मनुजनो
 काय प्रमाण ॥ भुवन व्यंतर जोइस वेमाणिय
 ईसाणंत, सात हाथ उक्कोसै ऊंचपणौ तणुहुंत ॥
 १८ ॥ सनतकुमार माहेंद्रै षड़ ब्रह्म लांतक पांच
 शुक्र सहस्रारे उक्कोस च्यार कर वांच ॥ आण-
 त प्राणत आरत अच्युत हाथें तीन, नवग्रैवेयक
 दोष पंचाणु तरइग लीन ॥ १९ ॥ बावीस सात
 तीन दस वरस सहस्सें आय भू आऊवाऊ व-
 णती दिन तेऊकाय ॥ बार वरस गुणचास दि-
 वस तिम बलि छम्मास, अनुक्रम वेइंद्री तेइंद्री
 चौरिंद्री रास ॥ २० ॥ सुर नागर तेतीस अयर
 उक्कोसें आय, चोपय तिरिय मनुजनों तीन
 पल्योपम थाय ॥ जलचर उरपर भुजपर उक्कासे

पुव्वकोडिं, पंखीने इग भाग असंख्य पल्यनो
जोड़ ॥ २१ ॥ सरब सूखम साधारण समुच्छम
मणुं जेह, जहन्न उक्कोसें अंतमुहुत्त नियम थिति
तेह, इम उगाहण आख्यो संखेपे अधिकार, जे
वलि इत्थ विसेस २ सूत्रसू धार ॥ २२ ॥ असंख्य
उसप्पिणी सहु एगिंद्री आपणी काय, उपजै
चवै अनंत साधारण वणस्सई काय ॥ संख्याता
संवच्छर विगल आपणी देह, सात आठ भव
पंचेद्री तिरि मणुआ जेह ॥ २३ ॥ नारकथी उद
वरती जीव नरक नवि जाय, देव चवीने ते वलि
देवपणै नवि थाय ॥ इन्द्रिय सासोसास आउ
वल ए दस प्राण, च्यार छ सात आठ इग दु ति
चौरिद्रोय जाण ॥ २४ ॥ सन्नि असन्नि पंचेद्री
दस नव अनुक्रम जोय, प्राणथकी जेवि प्रयोग
जिय मरणें होय ॥ भोम सायर संसार अपार
अनंती वार, भमियो जीव धरम विन जोण अ-
सोने च्यार ॥ २५ ॥ सग सग सग सग दस

चवदे दो दो दो लाख, च्यार च्यार तिम च्यार
 चवद लख सूत्रें साख ॥ भू आप तेउ वाऊ वण
 पत्तेय साधारण, बित्ति चौपण तिरि नारग सुर नर
 अनुक्रम धार ॥ २६ ॥ काय न आय न पाण न
 जोणी कुल नही जात, सादि अनंत भंग जिन
 आगम थित विज्ञात ॥ रोग न सोग न भोग
 जोग नही नारी लिंग, नहीय नपुंसक पुरसतणा
 नही अंग-उपांग ॥ २७ ॥ नाण दरस चारित
 वीरज ए च्यार अनंत, सिद्ध थया तेहथी सिद्धा-
 तै सिद्ध कहंत ॥ इम ए जीवविचार गाथार्थी
 माषारूप श्रावक, आयहथी में कोनो सुगम-सुगम
 सरूप ॥ २८ ॥ खरतर गच्छ भट्टारक श्रीजिन-
 लाभ सूरीस, रत्नराज गणि ग्यानसार मुनि सीस
 जगीस ॥ संवत ससि रस वारण ससिहर धर
 सिरधार, माघ चोथ दिन कोनो जैपुर नगर म-
 भार ॥ २९ ॥ इति श्री जीवविचार-स्तवन
 संपूर्णम् ॥

॥ समवसरण-विचार-गर्भित स्तवन ॥

॥ दूहा ॥ श्रीजिनशासन सेहरो, जगगुरु पास
जिगांद ॥ प्रणामी जेहना पाय कमल, आवी चो
सठ इंद ॥ १ ॥ तीर्थकर आवे तिहां, त्रिगडो
करै तइयार ॥ समकित करणी साचवै, एह कहू
अधिकार ॥ २ ॥ करै प्रशंसा समकित्ती, मिथ्या-
त्वो होवे मूक ॥ सूर्य देख हरखे सहू, जिम अं-
धारे घूक ॥ ३ ॥

॥ ढाल ॥ १ ॥ वीर वखाणी राणी चेलणा ॥ ए देशी ॥

आप अरिहंत भलै आविया जी, गावै अप-
छरह गंधर्व ॥ समवसरण रचै सुरवराजी, संखे-
पे ते कहूँ सवे ॥ ४ ॥ आ० ॥ भुवनपति वीस
इंद्रै मिल्याजी, सोलह व्यंतर सार ॥ जोइस दु
दस वेमाणिय जुडया जी, चौसठ इन्द्र सुविचार
॥ ५ ॥ आ० ॥ पवन सुर पूंज परमारजै जी,
भूमि योजन सम भाउ ॥ मेघकुमर रचै मेघने
जी, करिय सुगंध छिड़काव ॥ ६ ॥ आ० ॥ अ-

गर कपूर सुभ धूपणा जी, करय श्री अगनकुमार
 वाण-व्यंतर हिव वेगसू जी, रचय मणि पीठका
 सार ॥ ७ ॥ आ० ॥ पुहप पंच वरण उरधं मुखै
 जो, वरषए जाण प्रमाण ॥ भवणवइ देव त्रिगडो
 भलो जी, करय ते सुणउ सुजांण ॥ आ० ॥ ८ ॥
 रचय गढ प्रथम रूपातणोजी, सोवन कांगरै
 सार ॥ रवि-ससि-रयण कोसीसकोजी, कनकनो
 वोच प्रकार ॥ आ० ॥ ९ ॥ रतनगढ रतनने कां-
 गरे जी, रचय वेमाणि सुरराज ॥ भलो त्रीजो
 गढ भीतरे जी, जिहां विराजै जिनराज ॥ आ०
 भौत उंची धणुं पांचसै जी, सवातेतीस विस-
 तार ॥ धनुषसे तेर गढ आंतरा जी, प्रौल पचास
 धण च्यार ॥ आ० ॥ ११ ॥ दस पंच २ त्रिहुं
 गढ तणो जी, पावडी वीसहजार ॥ थाक श्रम
 नहिय चढतां थकां जी, एक कर उच्च विस्तार ॥
 आ० ॥ १२ ॥ पंच धण सहस पृथवी थकी जी,
 उच्च रहे त्रिगढ आकास ॥ तेह तल सहू यथा-

स्थित वसै जी, नगर आराम आवास ॥ आ० ।
 १३ ॥ तोरण चिह्न २ दिस तिहां जी, नीलमणि
 मोर निरमांण ॥ दुसय धणु मध्य मणि पीठक
 जी, उच्च जिण देह परिमाण ॥ आ० ॥ १४ ॥
 च्यार आसण तिहां चिहं दिसे जी, मोतीये
 भाक-भूमाल ॥ सम विच कूण ईसाणमें जी, देव
 च्छंदो सुविशाल ॥ आ० ॥ १५ ॥ देवदुंदुभि
 नाद उपदिसे जी, जिन गुण गावसी तेह ॥ अह
 जिम आइ सिर ऊपरे जी, गाजसी तेह गुण
 गेह ॥ १६ ॥ आ० ॥

॥ ढाल २ ॥ सफल संसारनी ए देशी ॥

पुव्व दिसि आमणे आय वेसे पहू, सुर कृत
 चौमुख रूप देखै सहू ॥ दीपै असोक तस वार
 गुण देहथी, देखि हरखै सहू मोर जिम मेहथ
 ॥ १७ ॥ मोतियां जालि त्रिण छत्र सुविशाल ए
 रूप चिहं २ दिसै चामर ढाल ए ॥ योजनग
 मनी वांण श्रीजिनतणां, भगवंत उपदिसै वा

परपद भणी ॥ १८ ॥ प्रदक्षिणारूपथी अग्नि-
 कुणै करी. गणधर साधची तिम वेमाणिय सुरी
 ज्योतषी भुवणानी विंतरी स्त्रीपणें, नैऋतकूण
 जिनवांण उभी सुणें ॥ त्रिहूंतणा पति वायव-
 कूणमें जाण ए, सुर वैमाणिय नर नारि ईसाण
 ए ॥ वारह परखदा मद मच्छर छोड ए, भूख
 त्रिस विसरै सुणै कर जोड ए ॥ १९ ॥ पूठ
 भामंडल तेज प्रकास ए जोयण सहस ध्वज उं
 च आकास ए, भलहलै तेज ध्रुव चक्र गगने
 सही, महक सहु वारणें धूपधाणा सही ॥ २० ॥
 वाहण वहिल सहु धरिय पहिले गढै, होय पग-
 चार नर नार उंचा चढै ॥ जिनतणी वाणि सु-
 णि जीव तिरयंच ए, वैर तजि वीय गढ रहे सुख
 संच ए ॥ २१ ॥ पुन्यवंत पुरुष ते परपद वारमें
 सुणें जिनवाणि धन गणिय अवतारमें ॥ चौ-
 विह देव जिनदेव सेवा रचै, मणिमयी मांहिलो
 प्रौल माहे वसै ॥ २२ ॥ चिहुं दिसि वाटली वावि

चौजाणियै, विदिसि चौ कूण दोय २ वखाणिये ॥ आठ जिहां वावि जल अमृत जेम ए, स्नान पाने वपु निरमल हेम ए ॥ २३ ॥ जय विजय जयंत अपराजिया, मध्य कंचण गढै प्रोल वसंतिया ॥ तुंबरु पुरुष खट्टंग अचिं माल ए, रजतगढ प्रौलना एह रखावाल ए ॥ २४ ॥ पहिलो त्रिगडो नहुयपुर जिण ग्राम ए, देव महर्द्धिक रचै तिण ठाम ए ॥ करण वारवार नही कारण कोय ए, आठ प्रातीहारज ते सही होय ए ॥ २५ ॥ जिण समवसरणी ऋद्धि दीठी जियै, तेह धन धन्न अवतार पायो तियै ॥ पास अरदास सुणी वंछित पूरज्यो, हिव मुक्क ताहरो शुद्ध दरसन हुज्या ॥ २६ ॥

॥ कलश ॥

इम समवसरणौ ऋद्धि वरणौ सहू जिनवर सारखी ॥ सरदहे ते लहे शुद्ध समाकित परम जिनधर्म पारखी ॥ प्रकरण सिद्धांत गुरु परंपरा

सुणी सहु अधिकार ए, संस्तव्यो पासजिनंद
पाठक धर्म वर्द्धन धार ए ॥ २७ ॥ इति समव-
सरण विचार-गभित स्तवनं सम्पूर्णम् ॥

॥ श्री ऋषभदेवजीका स्तवन ॥

॥ ढाल ॥ पाटोधरजी पाटियै पधारो ॥ ए देशी ॥

॥ सुण २ सैत्रुंजगिर स्वामी, जग जीवण
अंतरजामी, हूं तो अरज करूं सिरनांमी ॥ कृ-
सानिध विनतो अवधारो, भवसागर पार उतारो,
निज सेवक वांन वधारो ॥ कृ० ॥ १ ॥ प्रभू
मूरति मोहनगारी, निरख्यां हर्षै नर नारी, जाउ
वारी हूं वार हजारी ॥ कृ० ॥ २ ॥ हिव किसिय वि
मासण कीजै, मुझ ऊपर महिर धरीजै, दिल रं-
जन दरसण दीजै ॥ कृ० ॥ ३ ॥ आज सयल
मनोरथ फलिया, भव २ ना पातिक टलिया, प्रभु
जी मुझसे मुख मिलिया ॥ कृ० ॥ ४ ॥ समस्या
संकट टलि जावै, नव नव नित मंगल थावै, मु-
झ आतम पुन्य भरावै ॥ कृ० ॥ ५ ॥ करजोडी

हती ॥ ८ ॥ नवमें पूरण कूंभ, भरियो निरमल
 अंभ ॥ देखि सरोवर दसमें, मनह थयो अति
 विसमें ॥ ९ ॥ समुद्र इग्यारमें ठामें, खीरजलधि
 इण नामें ॥ बारम देव विमान, वाजित्र धन गीत
 गान ॥ १० ॥ तेरम रतननी रासि, दह दिसी
 ज्योति प्रकासो ॥ सुपन चवदमें ए दीठो, पाति
 क धूमनीठो ॥ ११ ॥ सुपन कह्या सुत्रिचार,
 हरख्यो भूप ऊदार ॥ पुत्ररतन होस्यै ताहरै, था-
 स्यै उदय हमारै ॥ ११ ॥

॥ दूहा ॥

चवद सुपन श्रवणे सुणो, हरख कियो सु-
 विचार ॥ सुंदर सुत तुमें जनमस्यो, कुलदीपक
 आधार ॥ १३ ॥ वामा प्रीतम वचन सुण, आवी
 मंदिर भक्ति ॥ देव सुगुरु कोरति करै, जनम
 कियो सुकयत्थ ॥ १४ ॥ इण अनुक्रम उगो
 दिवस, कीधा सुपन विचार ॥ ते घर पहुता आपणै,
 दीधां दान अपार ॥ १५ ॥

वणारसी ए, सुरनयरी जिण ऋद्धे हसी ए ॥ तेण
 पूरी छै दीपतो ए, अश्वसेन राजा रिपु जीपतो
 ए ॥ २ ॥ वामा तसु घर नार ए तसु गुणहि न
 लब्धै पार ए ॥ तास उयर अवतार ए, तसु अ-
 तिश्य रूप उदार ए ॥ ३ ॥ चवद सुपन तिण
 निसि लह्या ए, अनुक्रम करि ते सहु मन ग्रह्या
 ए, पूछै भूपतिनें कह्या ए, करजोड़ि कह्या ते जिम
 लह्या ए ॥ ४ ॥

॥ ढाल ॥ १ ॥

प्रथम सुपन गज निरख्यो, मायतणो मन
 हरख्यो ॥ वीजै वृषभ ऊदार, धरणी जिण धर्यो
 भार ॥ ५ ॥ तीजै सिंह प्रधान, जसु बल कोय
 न मान ॥ चउथै देखी श्रीदेवी, कमल वसै सुर
 सेवी ॥ ६ ॥ पांचमैं पुष्फनी माला, पंच वरण
 सुविशाला ॥ छठै दीठो ए चंद, ग्रहगण केरो ए
 इंद ॥ ७ ॥ सातमैं सूरज सार, दूर कियो अंध
 कार ॥ आठमैं धज लहकंती, वरण विचित्र सो-

हती ॥ ८ ॥ नवमें पूरण कूंभ, भरियो निरमल
 अंभ ॥ देखि सरोवर दसमें, मनह थयो अति
 विसमें ॥ ९ ॥ समुद्र इंग्यारमें ठामें, खीरजलधि
 इण नामें ॥ बारम देव विमान, वाजित्र धून गीत
 गान ॥ १० ॥ तेरम रतननी रासि, दह दिसी
 ज्योति प्रकासो ॥ सुपन चवदमें ए दीठो, पाति
 क धूमनीठो ॥ ११ ॥ सुपन कह्या सुविचार,
 हरख्यो भूप ऊदार ॥ पुत्ररतन होस्यै ताहरै, था-
 स्यै उदय हमारै ॥ ११ ॥

॥ दूहा ॥

चवद सुपन श्रवणो सुणो, हरख कियो सु-
 विचार ॥ सुंदर सुत तुमें जनमस्यो, कुलदीपक
 आधार ॥ १३ ॥ वामा प्रीतम वचन सुण, आवी
 मंदिर भक्ति ॥ देव सुगुरु कोरति करै, जनम
 कियो सुकयत्थ ॥ १४ ॥ इण अनुक्रम ऊगो
 दिवस, कीधा सुपन विचार ॥ ते घर पहुता आपणै,
 दीधां दान अपार ॥ १५ ॥

॥ दाल ३ ॥

हिव जनम्या जगगुरु जगत्र थयो जयकार,
 खिण इक नार किये पायो सुख अपार ॥ दि-
 सिकुमरी मिलकर सूत्रकरम निसि कीध, कर
 थांनक पोहती वंछित तेहनो सिद्ध ॥१६॥ तिण-
 हीज निसि चोसठ इन्द्र मिली तिहां आवै, लेइ
 निज भक्तै सुरगिरि स्नात्र करावै ॥ करी जनम
 महोच्छव जननी पासै ठावै, तिहांथी सुर सब
 मिल द्वीप नंदीश्वर जावै ॥ १७ ॥ इम रयण
 विहाणी ऊगो दिवस ऊदार, घर २ गाई जैकीजै
 मंगलाचार ॥ इग्यारमें दिवसे मिली सहू परि-
 वार, तसु नाम दियोश्रो उत्तम पासकुमार ॥१८॥
 प्रभु वाधै दिन २ कला करी जिम चंद, त्रिहुं
 ज्ञान विराजित रूप जिसो देविंद ॥ गुणकला
 विचक्षण विद्यातणो निधान, जोवनवय आयो
 परणायो राजान ॥ १९ ॥

॥ ढाल ४ ॥

कुमरपद प्रभु रहतां काल सुखै गमै ए, आयो
मन वैराग संजम लेवा समै ए ॥ तब लोकांतिक
देव जणावै अवसरू ए, देइ संवच्छरी दान
याचक जन सुखकरू ए ॥ २० ॥ स्वामी संजम
लेय इन्द्रादिक सब मिल्या ए, देस विदेस विहार
करी कर्म निरदल्या ए, पांमीय केवलज्ञान सुरै
महिमा करी ए, थापीय चौविह संघ मुगति
रमणी वरी ए ॥ २१ ॥

॥ ढाल ५ ॥

इम श्री गौडीपासतणा गुण जे नर गावै,
ते नर नारी इह परलोग सुवंचित पावै ॥ संघ
करी संघपति जिके गवडीपुर जावै, चोर धाड
संकट टलै विघन बुराइ न आवै ॥ २२ ॥ धरण-
राय पउमावइ जास वहे सिर आंण, आंमल
वरण सुसोभित नव कर काय प्रमांण ॥ कल्पवृक्ष
चिंतामणि कांमगवी सम तोलै, श्री गुणशेखर
सीस समयरंग इण पर बोलै ॥ २३ ॥

॥ अजित शांतिजिन-स्तवन ॥

मंगल कमलाकंद ए, सुख सागर पूनम चंद्र
 ए ॥ जगगुरु अजित जिणंद ए, शांतीसर नय-
 णानंद ए ॥ १ ॥ विहुं जिनवर प्रणामेव ए, विहुं
 गुण गाइस संखेव ए ॥ पुण्यभंडार भरेसु ए,
 मानव भव सफल करेसु ए ॥ २ ॥ कोडहि लाख
 पचास ए, सागर जिनशासन भास ए, रिसह
 जिनेसर वंस ए, उवभाय सरोवर हंस ए ॥ ३ ॥
 इण अवसर तिहां राजियो ए, राजा जितशत्रु
 तिहां गाजियो ए ॥ विजया तसु घरनार ए, विहुं
 रमयति पासा सार ए ॥ ४ ॥ कूखहि जिन अव-
 तार ए, तिण राय मनाव्यो हार ए ॥ उयर वस्यो
 दस मास ए, प्रभू पूगे जननी आस ए ॥ ५ ॥
 विहुं जण मन अणंदियो ए, सुत नाम अजिय
 जिण तो दियो ए ॥ तिहुअण सयल उच्छाह ए,
 क्रम २ वाधे जगनाह ए ॥ ६ ॥ हंस धवल सारिस
 तणी ए, गति सुललित निज गति निरजणी ए ॥

मलपति चालै गैल ए, जाणो नयण अमीरसरेल
 ए ॥ ७ ॥ अवर न समो संसार ए, वलि ज्ञान
 विवेक विचार ए ॥ गुण देखो गज गह गह्यो
 ए, लंछन मिसि पग लागी रह्यो ए ॥८॥ जोवन
 वय जब आवियो ए, तब वर रमणी परणावियो
 ए ॥ पीय साधै सब काज ए, प्रभु पालै पुहवी
 राज ए ॥ ९ ॥ हिव हथणापुर ठाम ए, विश्वसेन
 नरेश्वर नांम ए, राणी अचिरा देव ए, मनहर
 सुख माणे वेव ए ॥ १० ॥ चवदह सुपनें परवस्यो
 ए, अचिरा उयरें सुत अवतस्यो ए ॥ मानव देव
 वखाणियो ए, चक्कीसर जिणवर जांणियो ए ॥११॥
 देस नयर हुय संत ए, तिण नांम दियो श्रीशांत
 ए ॥ जिन गुण कुल जांणै कही ए, त्रिहुं भुवणे
 तसु उपम नहो ए ॥ १२ ॥ नयण सलूणो हिर-
 ण लोए, वन सिंहे बीहै, एकलो ए ॥ नयण
 समाधि निरोध ए, इण नयणे नारि विरोध ए
 ॥१३॥ गीतहि राग सु रंग ए, पिण पभणै लोक

कुरंग ए ॥ तो उलग्यां ससि संक ए ॥ तिण
 पांम्यो नाम कलंक ए ॥ १४ ॥ इण पर भृग अति
 खलभल्यो ए, भय भंजण सांमि सांभल्यो ए ॥
 आणंदियो मन आपणो ए, पाय सेवे मिस लंछन
 तणो ए ॥ १५ ॥ लीला पति परणे घणी ए, नव
 नविय कुमर रायां तणो ए ॥ वल छल आवै
 यण जोगवे ए, पीय राज भली पर भोगवे ए
 ॥ १६ ॥ कुमर तणें मंडल समें ए, पंचास सहस
 वरसां गमे ए ॥ तो तेजै दिणायर जिसो ए,
 ऊपन्नो चक्रयण तिसो ए ॥ १७ ॥ साधी भरह
 छखंड ए, वरतावी आण अखंड ए ॥ चवद रयण
 नव निहि सही ए, वसु सोल सहस जक्खे अही
 ए ॥ १८ ॥ सहस बहुत्तर पुर वरा ए, वत्तीस
 मौडवद्ध नरवरा ए ॥ पायक गांमै कोड ए, छिन्न
 वे नमें वे कर जोड ए ॥ १९ ॥ हय गय रहवर
 जुजुवा ए, लख चौरासी मंदिर हुआ ए ॥ लाख
 त्रि वाजिन्न घमघमें ए, वत्तीस सहस नाटिक रमें

ए ॥२०॥ रूप जिसी सुरसुंदरी ए, लक्षणा लावण्य
लीला भरी ए ॥ जंगम सोहग देहरी ए, एसी
चौसठ सहस अतेउरी ए ॥२१॥ अवरज ऋद्धि
प्रकार ए, मणि कंचण रयण भंडार ए ॥ ते क-
हिवा कुण जांण ए, वपुवपुरे पुण्य प्रमांण ए
॥ २२ ॥ इम चक्कीसर पंचमो ए, चोथो दूसम
सूसम समो ए ॥ वरस सहस पचवीस ए, सब
पूरी मनह जगीस ए ॥२३॥ इण पइ विहुं तीर्थ-
करा ए, चिर पालिय राज विविह परा ए ॥ जाणी
अवसर ए सार ए, विहुं लोधो संजम भार ए
॥ २४ ॥ विहुं खम दम धीरज धरी ए, विहुं
मोह मयण मद परिहरी ए ॥ विहुं जिन भाण
समाण ए, विहुं पांम्या केवलनाण ए ॥ २५ ॥
विहुं देवहि कांडहिमहि ए, विहुं चौतीसै अति-
सय सहि ए ॥ समवसरण विहुं ठाण ए, विहुं
योजनबाण वखाण ए ॥ २६ ॥ नाचे रणकत
नेउरी ए, विहुं आगलि इन्द्र अंतेउरी ए ॥

टिगमिग चोवे जग सहू ए, रंगहि गुण गावै
 सुरबहू ए ॥ २७ ॥ विहुं सिर छत्र चमर विमल,
 विहुं पग तल नव सोवन कमल ॥ विहुं जिन-
 तणें विहार ए, नवि रोग न सोग न मारि ए ॥
 ॥ २८ ॥ विहुं उवयार भुवन भरी ए, विहुं सिद्ध
 रमणसुं परवरी ए, विहुं भंजी भव फंद ए, विहुं
 उदयो परमाणंद ए ॥ २९ ॥ इम वीजो ने सो-
 लमो ए, जांणे चिंतामण सुर तरु समो ए ॥
 थुणि अति संभ विहाण ए, तिहां इह परभव
 नवि हांण ए ॥ ३० ॥ विहुं उच्छव मंगल करण,
 विहुं संघ सयल दुरिय हरण ॥ विहुं वर कमल
 नयण वयण, विहुं श्रीजिनराज भुवण रयण
 ॥ ३१ ॥ इम भगते भोलिमतणी ए, श्रीअजिय
 शांति जिण थुय भणि ए ॥ सरण विहुं जिण
 पाय ए ॥ श्रीमेरुनंदन उवभाय ए ॥ ३३ ॥

॥ मुहपत्ती पडिलेहण का स्तवन ॥

॥ ढाल ॥ १ ॥ कपूर हुवै अति ऊजलो रे ॥ ए देशी ॥

वरधमान जिनवरतणा जी, चरण नमूं चित
लाय ॥ ज्ञान क्रिया जिण उपदिसि जी, सब
सुख तणो उपाय ॥ भविक जनधर श्रीजिन उप-
देस, छूटे कमे कलेस ॥ भ० ॥ ए आंकणी ॥ पडि-
लेहण मुहपत्ती तणी जी, भाखी छै पचवीस ॥
तिहां ए भाव विचारिये जी, इम भाखै जगदोस
भ० ॥ २ ॥ प्रथम बे पास विलोकिये जी, सूत्र
अरथनी दृष्टी ॥ ए पडिलेहण दृष्टिनी जी, करै
धर्मनी पुष्टि ॥ भ० ॥ ३ ॥ समकित मिथ्या मि-
श्रनी जी, मोहनी तीननो त्याग ॥ काम-राग
स्नेहरागनें जो, तज वलि तिम दृष्टिराग ॥ ४ ॥
भ० ॥ सीष वधू टक गुरुथकी जी, वाम हाथ
करनाउ ॥ नव अखोडा आदरो जी, नव पखोडा
गमाउ ॥ ५ ॥ भ० ॥ देवतत्व गुरुतत्वसूं जी,
धमतत्व ग्रह सार ॥ कुगुरु कुदेव कुधर्मनो जी,

तीनतणो परिहार ॥ ६ ॥ भ० ॥ ग्यान दरसण
 चारित्रना जी, संग्रह तीन आचार ॥ तजो विरा-
 धन तीन ए जी, एह अरथ अवधार ॥ भ० ॥ ७ ॥
 मन वच कायानी सदाजी, गुपति गृहीजे शुद्ध ॥
 परिहरिये वलि जांणनें जी, तीनें दंड विशुद्ध ॥
 भ० ॥ ८ ॥ पड़िलेहण पचवीस ए जी, मुंहपत्ती
 नी सार ॥ हिव पड़िलेहण अंगनी जी, ते पिण
 चतुर विचार ॥ भ० ॥ ९ ॥ हास्य अरति रति
 धोयनें जी, शुद्ध करो वांम वाह ॥ तजभय शोक
 दुगंछना जी, दक्षिण पिण करै साह ॥ १० ॥ भ०
 धुरली लेस्या तीन ए जी, ते सिरथी करि दूर ॥
 रिद्ध रस साता गारवोजी, करि मुखथी चकचूर
 ॥ ११ ॥ भ० ॥ काढ सल्य तीन उरथकी जी,
 माया नियाण मिथ्यात ॥ च्यार कपाय वेव गलथी
 जी, क्रोधादिक करी घात ॥ १२ ॥ भ० ॥ तज
 षट्काय विराधना जी, चरण चिन्हे शुद्ध होय ॥
 ए पड़िलेहण अंगनी जी, पचवीसे तू' जोय १३

भ० ॥ इम पड़िलेहण जे करै जी, धर मन ज्ञान
विवेक ॥ सकल करम दूरै करै जी, पांमैं सुख
अनेक ॥ १४ ॥ भ० ॥ कलस ॥ इम वीर जिन-
वरतणा मुखथी, अरथ गणधर सांभली ॥ कहै
सूत्रवांणी मन सुहाणी, सुणो भवियण मन रली ।
उवभाय वर श्रीलच्छिकीरत, मुखथकी ए संग्रही ॥
मुंहपतो पड़िलेहण तणो विध, लच्छिकीरत गणि
कही ॥ इति श्रीमुहपत्ती पड़िलेहण स्तवनम् ॥

॥ आलोयण-स्तवन ॥

॥ ढाल ॥ सफल संसारनी ॥ ए देशी ॥

ए धन शासन वीर जिनवरतणौ, जास पर-
साद उपगार थायै घणौ ॥ सूत्र सिद्धांत गुरुमुख-
थकी सांभली, लहिय समकित अनें विरति
लहिये वलो ॥ १ ॥ धर्मनो ध्यान धर तप जप
खप करै, जिणथकी जीव संसार-सागर तिरै ॥
दोष लागा जिके गुरुमुख आलोइयै, जीव निमेल
हुवै वस्त्र जिम धोइयै ॥ २ ॥ दोष लागे तिके

चार प्रकारना, धुरथकी नांमनें अरथ ते धारणा,
 किणही कारण वसै पाप जे कीजियै, प्रथम ते
 नांम संकप्प कहीजियै ॥ ३ ॥ कीजीये जेह कंद-
 र्प्य प्रमुखै करी, दोष तेवीय परमाद् संज्ञा धरी ॥
 कूदतां गवतां होय हिंसा जिहां, दर्प इण नांम
 करि दोष तीजो तिहां ॥ ४ ॥ विणसतां जीव
 जीवनेगिनर करे जिको, चोथौ आकुट्टिया दोष
 ऊपजै तिको ॥ अनुक्रमें च्यार ए अधिक एक
 एकथी, दोष धर प्रायच्छित्त लेह विवेकथी ॥५॥

॥ बाल २ ॥ अन्य द्विस कोइ मागव आयो पुरंदर पास ॥

पाटी पोथी कवली नवकरवाली जोय, ग्या-
 नना उपगरणतणी आसातन कीधी होय ॥ जघ
 न्यथी पुरमढ्ढ एकासणो आंवल उपवास, अनु-
 क्रम एह आलोयण सुगुरु वताई तास ॥ ६ ॥ ए
 जा खंडित थायै अथवा किहांई गमाय ॥ तो
 वलि नवा करायां दोष सहू मिट जाय ॥ थापना
 अणपड़िलेह्यां पुरिमढनो तप धार, गिरतां एका-

सण्णनें गणता चोथ विचार ॥ ७ ॥ दशनना अति
 चार तिहां पुरमढ्ढ जघन्य, एकासण आंबिल
 अठम चिहुं भेद मन्न ॥ आशातन गुरु देवनी
 साहमीसुं अप्रीति ॥ जघन्य एकासणनी आलो-
 यण चढती रीत ॥ ८ ॥ अनंतकाय आरंभ वि-
 णास्यां चोथ प्रसिद्ध, बी ति चउरेंद्री त्रसायां ए-
 कासणथी वृद्ध ॥ बहु वि ति चौरेंद्रिय हणया वि ति
 चउ उपवास, संकल्पादि चिहुं विधि दुगुणा दु-
 गुण प्रकास ॥ ९ ॥ उद्देही कुलियावडा कीड़ी
 नगरा भंग, बहुत जलोयां मूक्या दस उपवास
 प्रसंग ॥ वसन विरेचन कृमि पातन आंबिल इक
 एक, जीवाणी ढोलंता दोय उपवास विवेक ॥ १० ॥
 संकल्पादिक एक पंचेंद्रो उपद्रव होय, दोइ त्रिण
 आठ दसै उपवासै आलोयण जोइ, बहु पंचेंद्री
 उपद्रव छठ अठमें दस वीस ॥ चिहुं प्रकारै च
 ढती आलोयण सुणले सीस ॥ ११ ॥ पंचेंद्रीनें
 लकड़ी प्रमुखै कीध प्रहार, एकासण आंबिल उ-

पवास नें छठ विचार ॥ साध समजें लोक समजें
 राज समज, कुड़ा आल दियां दुइ चौथरु छठ
 प्रत्यज ॥ १२ ॥ उपवास दस दंडायां तेम मरा
 यां वीस, इक लख असी सहस नवकार गुणो
 तजि रीस ॥ पख चौमास वरस लग इक त्रिण
 दस उपवास, अधिको क्रोध करे तो आलोयण
 नहि तास ॥ १३ ॥ सूआवड़ना दोष कियां गुरु
 ऊपर रोस, जीव विराधन कीधां बहु असतीने
 पोस ॥ करीय दुवालस वार हजार गुणो नवकार,
 मिच्छादुक्कड़ देइ आलोवो वारोवार ॥ १४ ॥

॥ ढाल ॥ ३ ॥ वे कर जोडी तांम ॥ ए चाल ॥

॥ विण कीधा पच्चखाण, विण दीधां वांद-
 गां, पड़िकमणा विध पांतरे ए ॥ अणोभा नें
 असिभाय, तिहा अविधै भएया, इक २ आंविल
 आचरै ए ॥ १५ ॥ गंठसीनें एकत्र, निवी आंवि
 ल, भांगै आलोयण इमें ए ॥ एक पांच पट आ
 ठ, नवकरवालीय ॥ गुण नवकार अनुक्रमे ए ॥

१६ ॥ उपवास भंग उपवास, आंबिल उपरां,
 अधिको दंड वखाणिये ए ॥ पांचम आठम आ-
 दि, भंग क्रियां वली, फिर ग्रही पातिक हांणीयै
 ए ॥ १७ ॥ ऊखल मूसल आग, चूलै घरटियै,
 दीधै अठम तप करै ए ॥ मांगी सूई दीध, का-
 तरणी छूरी आंबिल चढता आदरै ए ॥ १८ ॥
 जीव करावै युद्ध, रात्री भोजन, जल तिरणो
 खेंलण जूओ ए ॥ पापतणा उपदेश, परद्रोह चीं
 तव्या, उपवास एक २ जूजूआ ए ॥ १९ ॥ पनरे
 करमांदान, नियम करो भंग, मद्य मांस माखण
 भणया ए ॥ आलोयण उपवास, संकप्पादिक,
 चिहुं भेदे चढतां लिख्या ए ॥ २० ॥ वोल्या
 मिरखावाद, अदत्तां दांन त्युं, जघन्य एकासण
 जाणीये ए ॥ अति उत्कृष्टी एण, जांण आलो-
 यण, उपवास दस २ आंणियै ए ॥ २१ ॥

॥ ढाल ॥ ४ ॥ सुगण सनेही मेरे लाल ॥ ए चाल ॥

॥ चौथे व्रत भागे अतीचार, जघन्य छट

आलोयण धार ॥ मध्ये दस उपवास विचार,
 उत्कृष्टा गुण लख नवकार ॥ २२ ॥ परिग्रह विर
 मण दोष प्रसंग, तीन गुणव्रतमांहे भंग ॥ च्यार
 शिचा व्रतने अतिचारे, आंविल त्रिण प्रत्येके धारे
 ॥ २३ ॥ शीलतणी नववाडि कहाय, तिहां जो
 लागो दोष जणाय ॥ त्रियनें फरस हुआं अवि-
 वेके, एक आंविल कीजे प्रत्येके ॥ २४ ॥ साधु
 अने श्रावक पोसीध, एकेंद्री सच्चित्त संघट्टे कीध ॥
 वीसर भोले सच्चित्त जल पीध, दंड एकासण
 आंविल दोध ॥ २५ ॥ विण धायां विण लूह्यां
 पात्रै, एकासण तिमःपुरिमढ्ढ मात्रै ॥ गइ मुहप-
 त्ती आंविल सारो, तिम उधै अठम अवधारो ॥
 २६ ॥ च्यार आगार छोंडो राखै, व्रत पच्चखांण
 करै षट् साखै ॥ दोषे मिच्छामिदुक्कड़ दाखै, आ-
 लोयण लेतां अभिलाखै ॥ २७ ॥ आलोयणनो
 अति विस्तार, पूरो कहिता नावै पार ॥ तोपिण
 संक्षेपै तंत सार ॥ निरमल मन करतां विस्तार

॥ २८ ॥ इम श्रीवीर जिनेसर स्वांमो, जसु आ-
गम वचने विधि पांमी ॥ जीतकल्प ठाणांगे आ
दि, वली परंपर गुरु सुप्रसाद ॥ २६ ॥

॥ कलश ॥

॥ इम जेह धरमी चित्त विरमी, पाप सव
आलोयनें ॥ ए कांत पूछै गुरु वतावै, शक्ति वय
तसु जोयनें ॥ विध एह करसी तेह तिरसी, धर-
मवंततणै धुरै ॥ ए तवन श्रीध्रमसिंह कीधो, चौ-
पने फल वधी पुरै ॥ ३० ॥

॥ नंदीश्वर द्वीपका स्तवन ॥

नंदीसर बावन जिनालय, शास्त्रता चोमुख
सोहेरे ॥ ऋषभानन चंदानन वारिषेण, वर्द्ध-
मान मनमोहे रे ॥ नं० ॥ १ ॥ आठमो द्वीप नं-
दीसर अद्भुत, वलयाकार विराजै रे ॥ तेहने म-
ध्य चिहुं दिस शोभित, अंजन गिरिवर छाजै रे
॥ नं० ॥ २ ॥ जोयण सहस चोरासी ऊंचा, ऊंच
पणे अभिरामा रे ॥ मूलै प्रथुल सहस दस जोय

ण, उवरी सहस कर विसाला रे ॥ नं० ॥ ३ ॥ ते
 ऊपर प्रासाद प्रभूना, अति उत्तंग उदारा रे ॥ साधू
 जंघा विद्याचारण, वांदे विविध प्रकारा रे ॥ नं०
 ॥ ४ ॥ चैत्यै ए इकसो चोवीस, विंव संख्या सब
 दाखी रे ॥ ध्यावो सेवो भविजन भगते, सुध आ
 गम कर साखी रे ॥ नं० । ५ ॥ उंचपणै सह
 जोयण बहुत्तर, सो जोयण आयामा रे ॥ पिहुल
 पणै पचास जोयणना, प्रभू प्रासाद सुठामा रे
 ॥ नं० ॥ ६ ॥ धनुष पांचसै आयत प्रभुनी, विविध
 रतनमई काया रे ॥ जिन कल्याणक उच्छ्रव कर
 वा, सुरपति भक्ते आया रे ॥ नं० ॥ ७ ॥ अंजन
 अंजनगिरि चहुं उवरै, चोमुख च्यार विसाला रे
 वाव २ विच इकर पवत, राजत रंग रसाला रे ॥
 नं० ॥ ८ ॥ चोसठ सहस जायण उत्तंगै, दस
 सहस सत पिहुला रे ॥ चिहूं दिसि सोल सहस
 दधिमुखगिरि, तिहां प्रासाद सुविमला रे ॥ नं०
 ॥ ९ ॥ वाव २ नं अंतर विदसें, रतिकर परवत रु

डारे ॥ दोय २ संख्या जगदीसै कह्या नही ए
 कडा रे ॥ नं० ॥ १० ॥ जोयण सहस मान दस
 उंचा, दस २ सहस विस्तारारे ॥ भल्लरि सम
 संठाण जगत गुरु, निश्चय ए निरधाच्या रे ॥ नं०
 ॥ ११ ॥ तेह ऊपर प्रासाद सतोरण, अंजनगिरि
 परमाणै रे ॥ जिनपडिमानी संख्या तेहिज, श्री-
 जिनराज वखाणै रे ॥ नं० १२ ॥ इम प्रासाद
 प्रभूना वावन, नंदीसर वर दीपे रे ॥ द्रव्य भाव
 विधि पूजा करतां, मोह महा भड़ जापै रे ॥ नं०
 ॥ १३ ॥ प्रवचन सार उद्धार प्रकरणें, जीवाभि-
 गमें जाणो रे ॥ इम अधिकार छै ग्रंथ अनेकै,
 इहां संका मत आणो रे ॥ नं० ॥ १४ ॥ जिम
 सुरपति विरचै तिहां पूजा, ते अनुभव इहाल्या-
 वारे ॥ ध्यावो जिम पावो परमात्म, जैनचंद्र गुण
 गावो रे ॥ नं० ॥ १५ ॥ इति नंदीश्वर स्तवनम् ॥

॥ अढाइ द्वीपै वीस विहरमाण-स्तवन ॥

॥ वंदु मनसुध विहरमाण- जिणोसर वीस,

द्वीप अढीमें विचरै जयवंता जगदीस ॥ केवल-
 ग्यानने धारै तारै कर उपगार, किण २ ठामे
 कुण २ जिन कहस्युं सुविचार ॥ १ ॥ पैतालीस
 लक्ष योजन मानुषक्षेत्र प्रमाण, बलयाकारे आधे
 पुष्कर सीमा जाण ॥ दोय समुद्रै सोह द्वीप अ
 ढाई सार, तिणमें पनरै करमाभूमीनो कहूं अधि
 कार ॥ २ ॥ पहिलो जंबूद्वीप समै विच थाल
 आकार, लांबो पिहुलो इक लख जोयणनें विस-
 तार ॥ मोटो तेहने मध्य सुदरसन नामें मेर,
 तिणथी दिसि विदसानी गिणती च्यारे फेर ॥३
 मेरुथकी दक्षिण दिसि एह भरत सुभ क्षेत्र, पांचसे
 छव्वीस जोयण छ कला तेहनो क्षेत्र ॥ उत्तरखं-
 डमें एहवो एखत क्षेत्र कहाय ॥ इण चिहु कर-
 मांमूमी छए आरा फिरता जाय ॥ ४ ॥ तेत्रीस स-
 हस छसे चोरासी जोयण जाण, च्यार कला ए
 महाविदेह विखंभ वखाण ॥ बावीससै तेरे जोय-
 ण एक विजय पहुलाण, एहवी वत्तीस विजय

विराजै जेहने ठाण ॥ ५ ॥ मेरु विचै कर पूरव
 पश्चिम दोय विभाग, सोलै २ विजय तिहां वि-
 चरै श्रीवीतराग ॥ सासते चोथे आरे तारै श्री-
 अरिहंत, एहवे महाविदेह करमभूमि त्रीजी तंत
 ॥ ६ ॥ पूरव विदेह विजय पुष्कलावती आठमी
 ठांम, पुंडरीकणी नगरी तिहां श्रीसीमंधरस्वांमि ॥
 वप्रविजय पचवीसमी विजयापुरनो नांम, पच्छिम
 विदेह बीजो युगमंधिर कीजै प्रणाम ॥ ७ ॥ ति-
 महिज नवमी वच्छविजय वलि पूरव विदेह, नयर
 सुसीमा त्रीजो बाहु नमं धरि नेह ॥ नलिनावर्त्त
 चोवीसमी पच्छिम विदेह वखाण, वीतशोका
 नगरी तिहां चोथो सुबाहु सुजांण ॥ ८ ॥ ए च्यारेइ
 जिणवर जंबूद्वीप मभार, महाविदेह सुदरसण
 मेरुतणें परकार ॥ एहवो जंबूद्वीप महा गढ जेम
 गिरिंद, खाई रूपै दोय लख जोयण लवण स-
 मंद ॥ ९ ॥

॥ दाल २ ॥ दिवाली दिन आवियो ॥ ए चाल ॥

दीपै बीजो द्वीप ए, धन २ धातकी खंड ॥
 पिहुलो चिहुं लख जोयणो, मंडल रूपे मंड ॥१०
 ॥ दी० ॥ दोय भरत दोय एरवत, दोय वलि
 महाविदेह ॥ करमभूमि षट छै जिहां, उणहिज
 नामें एह ॥ ११ ॥ दी० ॥ पूरव पश्चिम धातकी,
 खंड गिणीजै दोय, विजयमेरु पूरव दिसै, पच्छिम
 अचलमेरु जोय ॥ १२ ॥ दी० ॥ इक २ मेरुने
 अंतरे, करमभूमि तीन २ ॥ निज २ मेरुथी मां-
 डिने, लेलो चिहुं दिसि लीन ॥ १३ ॥ दी० श्री
 सुजात जिन पांचमो, छठो स्वयंप्रभु ईस ॥ ऋष
 भानन जिन सातमो, समरीजै निस दीस ॥१४॥
 दो० ॥ अनंतवीरज जिन आठमो, ए च्यारे जि
 नराय ॥ पूरव धातकी खंडमें, महाविदेह रहाय ॥
 दी० ॥ १५ ॥ पहिली विहुं जिननी परे, विजय-
 नगर दिसी ठाण, ॥ तिणहिज नामे अनुक्रमें,
 विजयमेरु अहिनांण ॥ दी० ॥ १६ ॥ नवमो सूर

प्रभु नमूं, दसमो देव विसाल ॥ इम वज्रधर
 इग्यारमो, त्रिकरण नमूं त्रिहुं काल ॥ दी० ॥ १७
 बारमो चंद्रानन जिन, पच्छिम धातकी मांहि ॥
 विचरै च्यारुं जिणवरा, अचलमेरु उच्छाहि ॥
 दी० ॥ १८ ॥ एहवो धातकी खंड ए, परदक्षणा
 परकार ॥ अठ लाख जोयण वींटीयो, समुद्र
 कालोदधि सार ॥ १९ ॥ दी० ॥

॥ ढाल ॥ ३ जी ॥ पहिली प्रतिमा एका मासनी ॥ ए चाल ॥

कालोदधिने पैलै पार ए, वींठ्यो चूडी जेम
 विचाल ए ॥ सोलह लाख जोयण विसतार ए,
 दीप पूखरवर अति सुखकार ए ॥ उलालो० सु-
 खकार पुष्करद्वीप, त्रीजो, तेहनें आधै पगै ॥ विच
 पड्यो परवत मानुष्योत्तर, मनुष्यक्षेत्र तिहा लगै
 तिण आधिकर अठ लाख योजन, अर्ध पुष्कर
 एम ए ॥ तिहां करमभूमी छ ए कहीजै, धातकी
 खंड जेम ए ॥ २० ॥ ढाल ॥ आधै पुष्करनें पूख-
 दिसै, मंदिर नामे मेरु तिहां वसै ॥ पच्छिम वि-

ज्जुमाली मेर ए, इहां किण इतरो नांमे फेर ए
 ॥ उ० ॥ फेर ए इतरो इहां नांमे, अवर ठामेको
 नही ॥ एक २ मेरे तीन तीने, करमभूमि तिहां
 कही ॥ इम भरत एरवत माहाविदेहे, नांम सरखा
 हेत ए ॥ तिणहीज नांमे विजय सगली, सासता धर्म
 खेत ए ॥ २१ ॥ ढाल ॥ धातकी खंडै तिम पुष्कर
 सही, इहां चेत्रानी रचना विध कही वार २ कहतां
 ए विसतार ए, पहिला पर लेज्यो सुविचार ए ॥ उ० ॥
 सुविचार ए वाकी तेह सगलो, नगर तिमहिज मन
 गमें ॥ पूरवे पच्छिम जेहनी ते, तेह तिमहीज अ
 नुक्रमें ॥ श्रीचंद्रवाहु भुजंग ईसर नेम च्यार ती-
 थंकरा, पूरवे पुष्कर अरध मांहे, सरव जीव सुखं
 करा ॥ २२ ॥ ढाल ॥ वैरसेन वंदू जिन सतरमो,
 श्रीमहाभद्र अठारम नित नमो ॥ देवजता उग-
 णीसम देव ए, जसो रिद्ध वीसम जिण देव ए
 ॥ उ० ॥ जिण च्यार पुष्कर अरध मांहे, कह्या
 पच्छिम भाग ए, तिहां मेरु विद्युनमालि चिहुं

दिसि, विचरता वीतराग ए ॥ चौरासी पूरब
 लाख वरसां, आउ इक २ जिण तणो ॥ पांचसै
 धनुष सरीर सोहे ॥ सोवन वरण सुहामणो २३
 ढाल ॥ काल जघन्ये ए जिण वीस ए ॥ हिव
 उत्कृष्टे भेद कहीस ए ॥ एकसो सत्तर तिहां जि
 नवर कहै, पांचे भरते जिम पांचे लहै ॥ ३० ॥
 जिण लहै पांचै तेम पांचै, एरवत मिल दस हुवा
 इक २ विदेहे बत्तीस विजया, तिहां पिण छै
 जूजूआ ॥ एकसो सत्तर एम जिनवर, कोड़ि नव
 सय केवली, नव सहस कोड़ी अवर मुनिवर, वं-
 दियै नित ते वली ॥ २४ ॥ ढाल ॥ इहां भरते
 एरवतें आज ए, पंचम आरै नही जिनराज ए ॥
 धन २ पांचे महाविदेह ए, विचरे वीसै जिन
 गुणगेह ए ॥ ३० ॥ गुणगेह दोष अढार वरजित
 अतिसयां चोतीस ए ॥ चौशठि इंद नरिंद से-
 वित, नमूं ते निसदीस ए ॥ तिहां आजे तारण
 तरण विचरै, केवली दोय कोड़ ए ॥ दोय सहस

कोड़ी सुसाधु बीजा, नमं वे कर जोड़ ए ॥ २५
 कलश ॥ इम अढी द्वीपे पनर करमा भूमी क्षेत्र
 प्रमाण ए, सिद्धांत प्रकरण तेह भाख्या बीस वि
 हरमाण ए ॥ श्रीनगर जेसलमेर संवत सतर गुण
 तीसै समै, सुखविजय हरख जिनंद, सानिध नेह
 धरि ध्रमसां नमें ॥ २६ ॥ इति अढी द्वीप-स्तवन
 संपूर्णम् ॥ १ जंबूद्वीप २ धातकी खंड ३ आधापु-
 ष्करद्वीप एवं २॥ द्वीपमें ५ भरत ५ एरवत ५ म
 हाविदेह १५ कर्मभूमीमें विचरता साश्वता २०
 विहरमानको मेरा नमस्कार हो ॥

॥ आवृजीतीर्थ का स्तवन ॥

जात्रीड़ाभाई आवृजीनी जात्रा करज्यो,
 जात्रा भणी उमहेज्यो, तुम्हे नरभव लाहो लीज्यो
 रे ॥ जात्रो ॥ पंचतीर्थी मांहे छाजै, आवृ
 मारुडै देस विराजे रे ॥ जा० स्वरगथी वादे लागो,
 उंचो अंवरियै जड़ लागो रे ॥ जा० ॥ १ ॥ एतो
 देवानो वास कहावै, निरखंता त्रिपति न थावे रे

जा० ॥ एतोऽडुंगरियानो राजा, एहनी छै बारह
 पाजा रे ॥ जा० ॥ २ ॥ छह ऋतु वास वणायो,
 एतो चंपला अंबला छायो रे ॥ जा० ॥ सरवर
 भरणा भाभा, जिहां तिहां वनवेल्या आभा रे ॥
 जा० ॥ ३ ॥ भार अठारे वणराई, एतो इहांहिज
 निजरे आइ रे ॥ जा० ॥ दहदिसि परिमल आवै
 फूलडानो रंग सुहावै रे ॥ जा० ॥ ४ ॥ ऊपर
 भूमि विसाला, देवल दीठा रलियाला रे ॥ जा०
 विमलमंत्री वरदाई, चक्केसरि देवी सहाई रे ॥
 जा० ॥ ५ ॥ पोरवाड वंस वदीतो, जिण दलपति
 साहि जी तो रे ॥ जा० ॥ देवल तेण करायो,
 पाहण आरास मंडायो रे ॥ जा० ॥ ६ ॥ भीणी
 २ कोरणी भेस्यो, दल माखण जेम उकेस्यो रे
 जा० ॥ नवी २ भांति वणराई, जिहां तिहां कोरे-
 णिया भिणराई रे ॥ जा० ॥ ७ ॥ उत्तरे पाहण
 जेतो, जोखीजे पाहण तेतो रे ॥ जा० ॥ आदि
 जिनेसर सांमी, प्रतिमा थापी हितकारी रे ॥

जा० ॥ ८ ॥ उगणिस कोड सोनइया, द्रव्य ला-
गत करि जस लीया रे जा० ॥ करजोड़ीने आगै,
मंत्री जिनवर पाय लागै, रे ॥ जा० ॥ ९ ॥ पुछै
चढिया हाथी, मंडाणा पति साह साथी रे ॥ जा०
इण देवल समवड़ कोई, भूमंडल मांहि न होई
रे जा० ॥ १० ॥ वलि तिण वंस विगताला,
वस्तुपाल अनै तेजपाला रे ॥ जा० ॥ देव नमी
ऋद्धि पाई, इहां तियां पिण सफल कराई रे ॥
जा० ॥ ११ ॥ ते हवो जिणहर पासै, वार कोड-
नी लागति भासै रे ॥ जा० ॥ देराणी जेठाणी.
आलानी अजव कहाणी रे ॥ जा० १२ ॥ इहां
देवल सोह वधारी, नेमनाथजी वाल ब्रह्मचारी रे
॥ जा० ॥ कस बट पाहण केरी, मूरत सुरमा रंग
हेरी रे ॥ जा० ॥ १३ ॥ देवल वाडो दीठो, ते
तो लागै नयणै मीठोरें ॥ जा० ॥ तिहां केइ देव
ल पासै. लोक जोवे घणो तमासै रे ॥ जा० १४ ॥
त्रिण गाउ आगल जाइये, देवल देखी सुब्र ल-

हिये रे ॥ जा० ॥ चोमुख प्रतिमा च्यारो, आदि-
नाथ देव जुहारो रे ॥ जा० ॥ १५ ॥ सोवन्नमें साते
धातो, भिगमिग रही दिनने रातो रे ॥ जा० ॥
मण चवदेसै चम्मालौ, जिण विंबनो भाव नि-
हालो रे ॥ जा० ॥ १६ ॥ श्रीमाली भोम सोभागी,
जिणवरथी जसु लय लागी रे ॥ जा० ॥ एहनी करणी
वाहवाहो, इहां लीधो लखमी लाहो रे ॥ जा० ॥ १७ ॥
इण हुंगरियै आवी, जिण जात्र करै मन भावी रे ॥
जा० ॥ जिहां तिहां पूज रचावै, नाटकिया नाच
करावै रे ॥ जा० ॥ १८ ॥ रातीजोगो दियरावो,
जिनवरना जस गुण गावो रे ॥ जा० ॥ साहमी व-
च्छल कीज्यो, जातडलो नो जसलीजो रे ॥ जा०
॥ १९ ॥ आगेथी आवी चाली, वातां केइ अच-
रज वाली रे ॥ जा० ॥ सुणिये छै जे कोई, अहि
नांगो जोज्यो तेई रे ॥ जा० ॥ २० ॥ ए तीरथथी
गुण गावै, जात्रानो फल ते पावे रे ॥ जा० ॥ ए
तीरथ समतोलै, कुण आवै रूपचंद्र बोले रे ॥
जा० ॥ २१ ॥ इति आबूजी स्तवनम् ॥

॥ सकल शास्वता चैत्य-नमस्कार-स्तवन ॥

॥ ऋषभानन वर्द्धमान, चंद्रानन जिन, वारि-
षेण नामे जिणो ए ॥ १ ॥ तेह तणा प्रासाद,
त्रिभुवन सासता, प्रणमं विंब सोहामणा ए ॥ २
चेईहर सग कोडि, लाख बहुत्तर, चेइय प्रतिमा
सो असी ए ॥ ३ ॥ तेरेसे निव्यासी कोडि, साठ
लाख सुन्दर, भुवनपती मांहि मन वसी ए ॥ ४ ॥
वारे देवलोक प्रासाद, चौरासी लाख, सहस छि-
न्नू नें सातसे ए ॥ ५ ॥

॥ बाल ॥ २ ॥ आब्यो तिहां नरहर ॥ ए चाल ॥

हिवै नवग्रीवकै पंचानुत्तर सार, चेईहर त्रण
सय त्रेवीसा सुविचार ॥ प्रत्येके प्रतिमा वीसासो
तिहां जाण, अडत्रीस सहस सत साठ अछै गुण
खाण ॥ ६ ॥ नंदीसर बावन कुंडल रुचक वखाण
चउ २ चेईहर साठ सवे त्रिहुं ठाण ॥ इकसो
चोवीसै गुण प्रतिमा चिहुं नाम, च्यारसै चालि-
सा सात सहस प्रणमाम ॥ ७ ॥ नंदीसर विदिसै

सोलस कुल गिरि तीस, मेरू वन अस्सी दस
 कुरु गजदंते वीस ॥ मानुषोत्तर परवत च्यार २
 इख्रकार, असो अति सुन्दर वत्त सकार
 मभार ॥ ८ ॥

॥ ढाल ३ ॥

॥ दिग्गजगिरि चालीस, असी द्रह सुजगीस
 कंचन गिर वरु ए, एक सहस धरु ए ॥ ९ ॥ वृत
 दीरघ वैताढ्य, वीस सत रसो आढ्य ॥ सतर
 महानदी ए, पंच चूला सदी ए ॥ १० ॥ जंबू प्र-
 मुख दस रुख, इग्यारैसै सत्तर सुक्क ॥ कुंड
 त्रणसय असी ए, वीसजमगवसी ए ॥ ११ ॥

॥ ढाल ४ ॥

॥ त्रिण सहस सो एक निवाणूं रे, जिनवर
 प्रासाद वखाणूं, वीस सो ए अंक गुणियै रे,
 तीर्थकर प्रतिमा थुणियै ॥ १२ ॥ त्रिण लाख सह-
 स वलि त्रयासी रे, प्रतिमा आठसो ने असी ॥
 सरवालै सव मेलीजै रे, जिनवर प्रासाद नमीजै
 ॥ १३ ॥ आठ कोडि सत्तावन लक्खारे, दोयसै

निव्यासी कयरुखा ॥ हिव प्रतिमा ग्यान कहीजै
रे, जिनवरनी आण वहीजै ॥ १४ ॥ पनरेसै वेता
लीस कोडी रे, अड़वन लख अधिके जोड़ी ॥
छत्तीस सहस अधिक कहीयै रे, प्रतिमा सगली
सरदहियै ॥ १५ ॥

॥ ढाल ५ ॥

जोइस वितर प्रतिमा सासती, असंख्यात
वलि जेहो जी ॥ पायकमल तेहना नित प्रणमियै,
सोवन वरण सुदेहो जी ॥ १ ॥ विनय करी जिन
प्रतिमा वंदियै, सुन्दर सकल सरूपो जी, पूजै
प्रतिमा चोविह देवता, वलिय विद्याधर भूपो जी
॥ २ ॥ वि० ॥ जिनप्रतिमा बोली जिन सारखो,
हित सुख मोक्ष निदानो जी ॥ भवियणने भव-
सायर तारवा, प्रवहण जेम प्रधानो जी ॥ ३ ॥
वि० ॥ जीवाभिगम प्रमुख सांहि भाखीयो, ए
सहू अरथ विचारो जी ॥ सांभलतां भणतां सुख
संपदा, हियडै हरख अपारो जी ॥ ४ ॥ वि० ॥

॥ कलश ॥

इम शासता प्रासाद प्रतिमा संथुण्या जिन-
वर तणा, चिहुं नाम जिनचंद तणा त्रिभुवन
सकलचन्द सुहावणा ॥ वाचनाचारिज समथसु-
न्दर गुण भणें अभिराम ए, त्रिहुं काल त्रिक-
रण सुद्ध होयज्यो सदा मुक्त परणाम ए ॥ ५ ॥

॥ सूरत शहर शीतल जिन-चैत्यप्रतिष्ठा स्तवन ॥

भविजन पूजो रे शीतल जिनपती रे, नयना
नन्दन चन्द ॥ प्रभूजी विराजै रे सूरत बिन्दरै रे,
नंदादेवीना नंद ॥ १ ॥ भ० ॥ जगहितकारी रे
जिनजी अवतरथा रे, श्रीदृढरथ नृप गेह ॥ श्री
वच्छ सोहे रे लांछन सूंदरू रे ॥ कनक वर्ण प्रभु
देह ॥ २ ॥ भ० ॥ विषह निवारी रे संजम संग्र-
ह्यो रे, लाधुं केवलनाण ॥ सघन घनाघन जिम
धर्म वरसता रे, विचरया त्रिभुवन भाण ॥ भ० ३
वदनी प्रमुख जे शैव रह्या हुता रे, च्यार अघाती
कम ॥ दूर निवारया रे अनुक्रम तेहने रे, पाम्युं

शिवपद शर्म ॥ ४ ॥ भ० ॥ संप्रति कालै रे श्री
 जिनराजनो रे, पूजीजे प्रतिविंब ॥ प्रतिदिन ल-
 हियै रे प्रभु सुप्रसादथी रे, मन वांछित अविलंब
 ॥ ५ ॥ भ० ॥ श्रीजिनवरनो विंब विलोकतां रे,
 दुष्कृत दूर पुलाय ॥ इन्द्रिय निग्रह सुग्रह संपजे
 रे, समकित पिण दृढ थाय ॥ ६ ॥ भ० ॥ श्रीस-
 द्गुरुना सुखथी सांभल्या रे, एहवा वचन विलास ॥
 ते बहुमाने रे निज चित्तमें धरया रे, नेमी सुत
 भाईदास ॥ ७ ॥ भ० ॥ चैत्य कराव्युं रे सुंदर सोभतो
 रे, मनधर अधिक उलास ॥ शीतल प्रभुनो रे
 विंब भरावियो रे, सहस्रफणा वलि पास ॥ ८ ॥
 भ० ॥ वरस अठारह सत्तावीसमें रे, माधव मास
 मभार ॥ उज्जल द्वादशी दिवसे आवियो रे, विंब
 अनेक उदार ॥ ९ ॥ भ० ॥ एकसो इक्यासी सह
 मेले थया रे, विंवादिक सुविचार ॥ कीध प्रती-
 ष्ठा ते दिन तेहनी रे, विधि पूर्वक मन धार ॥ १०
 ॥ भ० ॥ श्रीजिनलाभ सूरीश्वर दीपता रे, श्री-

खरतर गच्छ भाण ॥ तास पसायमें शीतल जिन
थुण्या रे, विबुध क्षमा कल्याण ॥ ११ ॥ भ० ॥

॥ श्रीधरमनाथ स्वामी का स्तवन ॥

हारे हूं तो भखा गइयी तट जमुनाके तीर जो ॥ ए चाल ॥

हारे मारे धरम जिनंदसुं लागी पूरण प्रोत
जो, जीवड़लो ललचाणो जिनजीनी उलगे रे
लो ॥ हारे मुंने थास्यै कोइयक समें प्रभु सुप्र-
सन्न जो, वातड़ली तव थास्यै महारी सवि वगेरे
लो ॥ १ ॥ हारे कोइ दुर्जननो भंभेस्यो माहरो
नाथ जो, उलवस्यै नही क्यारे कीधी चाकरी रे
लो ॥ हारे मारे स्वामी सरिखो कुण छै दुनियां
मांह जो, जइये रे जिम तेहने घर आस्या करी
रे लो ॥ २ ॥ हारे मारे जस सेव्यांथी स्वारथनी
नही सिद्ध जो, ठाली रे, सी करवी तेहथी गोठ
ड़ी रे लो ॥ हारे कांइ भुठूं खाई ते मिठाईने मा-
टे जो, क्यांही रे परमारथनी नही प्रीतड़ी रे लो
॥ ३ ॥ हारे प्रभु अंतरजांमी जीवत प्राणाधार

जो, वाणयो रे नवि जायो कलियुग वाचरो रे लो,
 हारे मोरा लायक नायक भगत वच्छल भगवंत
 जो, वारू रे गुण केरा साहिव सायरू रे लो ॥ ४
 हारे प्रभु लागी मुक्कने ताहरी माया जोर जो,
 अलगा रे रह्यांथी होइ उभोगलो रे लो ॥ हारे
 कुण जाणें अंतर गतिनी विण माहाराज जो,
 हेजे रे हसी वोलो छंडी आमलो रे लो ॥ ५ ॥
 हारे तारे मुखनें मटके अटक्यूं माहरो मन्न जो,
 आंखडली अणियाली कामणगारीयूं रे लो ॥ हारे
 मारे नहणा लंपट जोवे खिण २ तुभु जो, राती
 रे प्रभु रागे न रहे वारीयां रे लो ॥ ६ ॥ हारे
 प्रभु अलगा ते पिण जाणज्यो करीनें हजूर जो,
 ताहरी रै वलिहारो हूं जाउं वारणे रे लो ॥ हारे
 कवि रूप विबुधनो मोहन करै अरदास जो, गि-
 रुआ थइ मन आंणो उल्लट अति घणो रे लो ॥

॥ राणपुराका स्तवन ॥

राणपुरे रलियामणो रे लाल. श्रीआदीसर

देव, मन मोह्युं रे ॥ उत्तंग तोरण देहरुं रे लाल
निरखीजै नित्य मेव ॥ म० ॥ रा० ॥ १ ॥ चोवीस
मंडप चिहं दिसे रें लाल, चौमुख प्रतिमा
च्यार ॥ म० ॥ त्रिभुवन दीपक देहरो रे ला०,
समवड नही संसार ॥ म० ॥ २ ॥ रा० ॥ देहरी
चोरासी दीपती रे लाल, मांडयो अष्टापद मेर ॥
म० ॥ भलें जुहारथा भोयरा रे लोल, सूतां ऊठ
सवेर ॥ म० ॥ ३ ॥ रा० देस जाणीतूं देहरुं रे
लाल, मोटो देस मेवाड ॥ म० ॥ लख नवाणुं
लगाविया रे लाल, घन धन्नो पोरवाड ॥ म० ॥
४ ॥ रा० खरतर वसई खंतसू रे लाल, निर
खंता सुख थान ॥ म० ॥ पांच प्रासाद बीजा
वली रे लाल, जोतां पातिक जाय ॥ म० ॥ ५ ॥
रा० ॥ आज कृतारथ हुं थयो रे लाल, आज
थयो आणंद ॥ म० ॥ यात्रा करी जिनवरतणी
लाल, दूर गयूं दुख दंद ॥ म० ॥ ६ ॥ रा० ॥
संवत सोल छियंतरे रे लाल, मिगसि... म-

भार ॥ म० ॥ राणपुरै यात्रा करी रे लाल, समयसुन्दर सुखकार ॥ म० ॥ ७ ॥

॥ दर्शनद्वार-श्रीआदिजिन-स्तवन ॥

समकित द्वार गुंभारै पैसतां जी, पाप पडल गयां दूर रे ॥ मोहन मारूदेवीनो लाड़लो जी, दीठो मीठो आनन्द पूर रे ॥ स० ॥ १ ॥ आयू वरजित साते कमनी जी, सागर कोड़ाकोड़ी हीण रे ॥ स्थिती पढम करणें करी जीवनें जी, वीरज अपूरवनो घर लीध रे ॥ २ ॥ स० ॥ भुंगल भांगी आदि कपायनी जी, मिथ्यात मोहन सांकल साथ रे ॥ वार ऊघाड़ा सम संवेगना जी अनुभव भवनें वेठो नाथ रे ॥ ३ ॥ स० ॥ तोरण वांधू जीवदया तणूं जी, साथियो पूरो सरघा रूप रे ॥ धुपघटी प्रभुगुण अनुमोदना जी, द्विगुज मंगल आठ अनूप रे ॥ ४ ॥ स० ॥ संवर पाणी अंग पखालनें जी, केशर चंदन उत्तम ध्यान रे ॥ आतम गुण रुचि भृगमद महमहे जी,

पंचाचार कुशमं परधानं रे ॥ ५ ॥ सं० ॥ भाव-
पूजाने पावत आतमां जी, पूजो परमेश्वर पूण्य
पवित्र रे ॥ कारण जोगें कारज नीपजै जी, जमा
विजय जिन आगम रीत रे ॥ ६ ॥ सं०

॥ श्रीआदीश्वर जिन-स्तवन ॥

आदि जिनेसर अरज सुणीजै, मोहन महिर
धरीजै रे ॥ दिलरंजन प्रभु दरसण दीजै, म्हारो
मनडो रीभै रे ॥ आ० ॥ १ ॥ प्रभु दरसन लहि-
वो जग दुरलभ, विन दरसन नहीं किरिया रे ॥
जे दरसण विन किरिया पालै, ते नवि कहियै त
रिया रे ॥ आ० ॥ २ ॥ नय एकांते दरसन थापै,
पिंड भरें ते पापे रे ॥ आप आपणा मति आलापै,
ते भूला भव थापे रे ॥ आ० ॥ ३ ॥ शुद्ध दरसन
स्याद्वादनें संगे, जे ग्रहे आत्म उमंगे रे ॥ आन-
न्दघन उपजै तसु अंगै, सिद्धरमणने रंगे रे ॥
आ० ॥ ४ ॥ भव कोडाकोडीमें भमतां, तुम्ह दर
सन नहीं पायो रे ॥ सुकृत संयोगे ताहरे सनमुख,

आज भले हुं आयो रे ॥ आ० ॥ ५ ॥ ताहरी म
हिर लहिरनो लटकौ, जो जगगुरु हुं पाउं रे ॥
सहजे एक पलकमें अदभुत, आतम गुण उपजा
उंरे ॥ आ० ॥ ६ ॥ मरुदेवानन्दन जग वंदन,
स्वामी दरसण दीजै रे ॥ लाभउदय जिनचंद
लहीने, सगला कारज सीभै रे ॥ आ० ॥ ७ ॥

॥ श्री अजितनाथजी का स्तवन ॥

॥ अन्त जीन आपज्योरे ॥ ए चाल ॥

ज्ञानादिक गुण संपदा रे, तुभ अनंत अपार,
ते सांभलतां उपनी रे, रुचि तिण पार उतार ॥
अजित जिन तारज्यो रे ॥ तारज्यो दीनदयाल.
अ० ॥ ता० ॥ १ ॥ ए आंकणी ॥ जे जे कारण
जेहनो रे, सामग्री संयोग ॥ मिलतां काथ नीपऊं
रे, कर्ता तनय, प्रयोग ॥ अ० ॥ ता० ॥ २ ॥ का-
र्य सिद्धि कर्ता वसु रे, लहि कारण संयोग ॥
निज पदकारक प्रभु मिल्यारे, होय निमित्तम
भोग ॥ अ० ॥ ता० ॥ ३ ॥ अज कुलगत केरीस

लहे रे, निज पद सिंह निहाल ॥ तिम प्रभु भक्तों
 भवि लहे रे, आत्म शक्ति संभाल ॥ अ० ता०
 ॥ ४ ॥ कारण पद कर्तापणों रे, करि आरोप अ-
 भेद ॥ निज पद अर्थी प्रभुथकी रे, करै अनेक
 उमेद ॥ अ० ॥ ता० ॥ ५ ॥ अहवा परमात्म
 प्रभु रे, परमानंद सरूप ॥ स्याद्वाद सत्तारसी रे,
 अमल अखंड अनूप ॥ अ० ॥ ता० ॥ ६ ॥ आरो
 पित सुख भ्रम टल्यो रे, भास्यो अव्याबाध ॥
 समस्यो अभिलाखीपणो रे, कर्ता साधन साध्य ॥
 अ० ॥ ता० ॥ ७ ॥ ग्राहकता स्वामित्वता रे,
 व्यापक भोक्ता भाव ॥ कारणता कारज दसारे,
 सकल ग्रह्युं निज भाव ॥ अ० ॥ ता० ॥ ८ ॥
 श्रद्धा भासन रमणता रे, दानादिक परिणाम ॥
 सकल थमा सत्तारसी रे, जिनवर दरसन पामि
 ॥ अ० ॥ ता० ॥ ९ ॥ तिणें निर्यामक माहणो रे,
 वैद्य गोप आधार ॥ देवचंद्र सुख सागरू रे, भा-
 वधरम दातार ॥ अ० ॥ ता० ॥ १० ॥

॥ आलोयण-वृद्ध स्तवन ॥

॥ वे कर जोड़ी वीनवूं जी, सुणि स्वामी
 सुविदीत ॥ कूड़ कपट मूंकी करी जी, वात कहूं
 आप वीत ॥ १ ॥ कृपानाथ मुक्त विनती अवधार,
 ए आंकणी ॥ तू समरथ त्रिभुवन धणी जी, मुक्तने
 दुत्तर तार ॥ कृ० ॥ २ ॥ भवसागर भमतां थकां
 जी, दीठां दुख अनंत ॥ भागसंयोगे भेटियो जी,
 भय-भंजण भगवंत ॥ कृ० ॥ ३ ॥ जे दुःख भांजे
 आपणा जी, तेहनें कहिये दुःख ॥ परदुख भंज-
 ण तूं सुणयो जी, सेवगने द्यो सुख ॥ कृ ॥ ४ ॥
 आलोयण लीधां पखै जी, जीव रुले संसार ॥
 रूपी लक्ष्मणा महासती जी, एह सुणयो अधि-
 कार ॥ कृ० ॥ ५ ॥ दूपमकालें दोहिलो जी, सूधो
 गुरु संयोग ॥ परमारथ पीछें नहीं जी, गडरप्रवा
 ही लोक ॥ कृ० ॥ ६ ॥ तिण तुक्त आगल आप-
 णा जी, पाप आलोउं आज ॥ माय वाप आगल
 वोलतां जी, वालक केहो लाज ॥ कृ० ॥ ७ ॥

जिन धर्म र सहू कहै जी, थापै अपणी जो वात ॥
समाचारी जुड़ जुड़ जो, शंसय पड्यां मिथ्यात ॥
कृ० ॥ ८ ॥ जाण अजाणपणे करी जी, बोल्या उत्सूत्र
बोल ॥ रतने काग उडावता जी, हारयो जनम
निटोल ॥ कृ० ॥ ९ ॥ भगवंत भाष्यो ते किहा
जी, किहां मुक्त करणी एह ॥ गज पाखर खर
किम सहे जी, सबल विमासण तेह ॥ कृ० ॥ १० ॥
आप परुंपुं आकरो जी, जाणो लोक तहंत ॥
पिण न करुं परमादियो जी, मासाहस दृष्टांत ॥
कृ० ॥ ११ ॥ काल अनंते में लह्या जी, तीन
रतन श्रीकार ॥ पिण परमादे पाड़िया जी, किहां
जड़ करुं पुकार ॥ कृ० ॥ १२ ॥ जाणूँ उत्कृष्टी
करुं जी, उद्यत करुं अविहार ॥ धीरज जीव
धरै नहीं जी, पोते बहु संसार ॥ कृ० ॥ १३ ॥
सहज पड्यो मुक्त आकरो जी, न गमें भूँडी
वात ॥ परनिंद्या करता थकांजी, जायै दिननें रात
॥ कृ० ॥ १४ ॥ किरिया करतां दोहिली जी,

आलस आणे जीव ॥ धरम पखै धंदे पड्यो जी, नरकै
 करसी रीव ॥ कृ० ॥ १५ ॥ अणहंता गुणको
 कहे जी, ता हरखूं निसदीस ॥ को हितसीख
 भली दियै जी, तो मन आणूं रीस ॥ कृ० ॥ १६ ॥
 वादभणी विद्या भणी जी, पररंजण उपदेश ॥
 मन संवेग धर्यो नही जी, किम संसार तरेस ॥
 कृ० ॥ १७ ॥ सूत्र सिद्धांत वखाणतां जी, सुणता
 करम विपाक ॥ खिण इक मनमांहे उपजै जी.
 मुक्त मरकट वैराग ॥ कृ० ॥ १८ ॥ त्रिविध २ कर
 उच्चरूं जी, भगवंत तुम्ह हजार ॥ वार २ भांजू
 वली जी, छूटकवारो दूर ॥ कृ० ॥ १९ ॥ आप
 काज सुख राचतां जी, कीधा आरंभ कोड़ ॥ ज
 यणा न करी जीवनी जी, देवदया पर छोड़ ॥
 कृ० ॥ २० ॥ वचन दोपव्यापक कह्या जी, दा-
 र्ख्यां अनरथ दंड ॥ कूड़ कपट बहु केवली जी.
 व्रत कीधा संत खंड ॥ कृ० ॥ २१ ॥ अणदीधो
 लीजे तृणो जी, तोही अदत्तादान ॥ ते-दृपण

लागा घंणा जो, गिणतां नावे ज्ञान ॥ कृ० ॥ २२ ॥
 चंचल जीव रहे नही जी, राचै रमणी रूप ॥
 काम विटंबन सी कहूं जी, ते तूं जाणो सरूप ॥
 कृ० ॥ २३ ॥ माया ममतामें पड्यो जी, कीधो
 अधिको लोभ ॥ परिग्रह मेल्यो कारमो जी, न
 चढी संजम सोभ ॥ कृ० ॥ २४ ॥ लाग्या मुक्कनें
 लालचें जी, रात्रोभोजन दोष ॥ में मन मूक्यो
 माधुरो जी, न धस्यो धरम संतोष ॥ कृ० ॥ २५ ॥
 इण भव परभव दूहव्या जी, जीव चोरासी लाख ॥
 ते मुक्क मिच्छामिदुक्कडं जी, भगवंत तोरी साख
 ॥ कृ० ॥ २६ ॥ करमादान पनरे कह्या जी, प्रगट
 अठारे जी पाप ॥ जे में कीधा ते सहूजी, वगस
 २ माइ वाप ॥ कृ० ॥ २७ ॥ मुक्क आधार छै
 एतलो जी, सरदहणा छै शुद्ध ॥ जिनधमं मीठो
 जगतमें जी, जिम साकरने दूध ॥ कृ० ॥ २८ ॥
 ऋषभदेव तूं राजियो जी, सैत्रुंजागिर सिणंगार ॥
 पाप आलोयां आपणा जी, कर प्रभु मोरी सार ॥

कृ० ॥ २६ ॥ मर्म एह जिनधमनो जी, पाप आ-
 लोयां जाय ॥ मनसुं मिच्छामिदुक्कडं जी. देतां
 दूर पुलाय ॥ कृ० ॥ ३० ॥ तूं गति तूं मति तूं
 धणी जी, तूं साहिव तूं देव ॥ आण धरुं सिर
 ताहरीजी, भव २ ताहरी सेव ॥ कृ० ॥ ३१ ॥
 ॥ कलश ॥ इम चढिय सेत्रुंजा चरण भेख्या ना-
 भिनंदन जिन तणा, करजोडि आदिजिनंद आगे
 पाप आलोयां आयणां ॥ श्रीपूज्य जिनचंदसूरि
 सद्गुरु प्रथम शिष्य सुजस घणें, गणि सकलचंद
 सुशिष्य वाचक समयसुन्दर गणि भणें ॥ ३२ ॥

अनंतदुष्कृती कृत स्तवक

॥ श्री ऋषभदेव स्वामीका स्तवन ॥

॥ करम परीक्षा करण कुमर चलो रे ॥ ए चाल ॥

ऋषभ जिनेसर प्रीतम माहरो रे, उर न चा
 हंरे कंत ॥ रीज्यां साहिव संग न पहिरे रे, भांगे
 सादि अनंत ॥ ऋ० ॥ १ ॥ प्रीत सगाडरे जगमां

सहु करे रे, प्रीत सगार्ड न कोय ॥ प्रीत सगार्ड
 रे निरूपाधिक कही रे, सोपाधिक धन खोय ॥
 ऋ० ॥ २ ॥ कोइ कंत कारण काष्ट भक्षण करे
 रे, मिलसुं कंतने धाय ॥ ए मेलो नवि कहियै
 संभवे रे, मेलो ठाम न ठाय ॥ ऋ० ॥ ३ ॥ कोइ
 पति रंजन अति घणो तप तपै रे, पति रंजन तन
 ताप ॥ ए पति रंजन में नवि चित धरयुं रे, रंजन
 धातु मिलाप ॥ ऋ० ॥ ४ ॥ कोइ कहे लीलारे
 अलख अलख तणी रे, लख पूरै मन आस ॥
 दोष रहितने लीला नवि घटे रे, लीला दोष वि-
 लास ॥ ऋ० ॥ ५ ॥ चित्त प्रसन्ने रे पूजन फल
 कह्यो रे, पूज अखंडित एह ॥ कपट रहित थई
 आतम अरपणा रे, आनंदघन पद रेह ॥ ऋ० ॥ ६ ॥

॥ श्री अजितनाथ स्वामीका स्तवन ॥

मारु मन मोह्यु रे श्री विमलाचले रे ॥ ए चाल ॥

पंथडो निहालुं रे वीजा जिनतणो रे, अजि
 त २ गुण धाम ॥ जे तें जीत्यारे तेणे हूं जीतियो

रे, पुरुष किस्सुं मुक्त नांम ॥ पं० ॥ १ ॥ चरम
 नयण करी मारग जोवतो रे, भूलो सयल संसार ।
 जेणें नयणे करी मारग जोइये रे, नयण ते दिव्य
 विचार ॥ पं० ॥ २ ॥ पुरुष परंपर अनुभव जोव-
 तां रे, अंधोअंध पुलाय ॥ वस्तु विचारे रे जो आ
 गमे करी रे, तो चरण धरण नही ठाय ॥ पं० ॥
 ३ ॥ तर्क विचारे रे वाद परंपरा रे, पार न पहुंचे
 कोय ॥ अभिमते वस्तु वस्तुगते कहे रे, ते विरला
 जग जोय ॥ पं० ॥ ४ ॥ वस्तु विचारे रे दिव्य
 नयणतणे रे, विरह पड्यो निरधार ॥ तरतम जोगे
 रे तरतम वासना रे, वासित बोध आधार ॥ पं०
 ॥ ५ ॥ काल लवधि लही पंथ निहालसुं रे, ए
 आस्या अविलंब ॥ ए जग जीवे रे जिनजी जां-
 गज्यो रे, आनंदघन मत अंब ॥ पं० ॥ ६ ॥

॥ श्री संभवनाथजी का स्तवन ॥

॥ रातडी रमिनें किहांयी आविया रे ॥ ए चाल ॥

॥ संभव देव ते धुर सेवो सवे रे, लहि प्रभू

भेद ॥ सेवन सेवन कारण पहली भूमिका रे, अ
भय अद्वेष अरवेद ॥ सं० ॥ १ ॥ भय चंचलता
हो जे परिणामनी रे, द्वेष अरोचक भाव ॥ खेद
प्रवृत्ति हो करतां थाकिये रे, दोष अवोधि लखा-
व ॥ सं० ॥ २ ॥ चरमावर्त्त हो चरम करण तथा
रे, भव परिणति परिपाक ॥ दोष टले वली दृष्टी
खुले भलो रे, प्रापति प्रवचन वाक ॥ सं० ॥ ३ ॥
परिचय पातिक घातक साधसूं रे, अकुशल अप-
चय चेत ॥ ग्रन्थ अध्यातम श्रवण-मनन करी रे,
परिशोलन नय हेत ॥ सं० ॥ ४ ॥ कारण जोगे
हो कारज नीपजे रे, एमां कोइ न वाद ॥ पण
कारण विण कारज साधिये रे, ए जित्तमत उन-
माद ॥ सं० ॥ ५ ॥ मुग्ध सुगम करी सेवन आ-
दरे रे, सेवन आगम अनूप ॥ देजो कदाचित्त से-
वक याचना रे, आनंदघन रसरूप ॥ सं० ॥ ६ ॥

॥ श्रीअभिनंदन स्वामी का स्तवन ॥

॥ आज निहेज्यां रे दीसे नाहलो ॥ ए चाल ॥

॥ अभिनंदन जिन दरशन तरसियै, दरसण
दुर्लभ देव ॥ मत २ भेदे रे जो जइ पूछिये ॥
सहु थापै अहमेव ॥ अभि० ॥ १ ॥ सामान्ये क-
री दरिसण दोहलूं, निरणय सकल विशेष ॥
मदमें घेच्यो रे अंधो किम करे, रवि-शशि रूप
विलेख ॥ अ० ॥ २ ॥ हेतु विवादे हो चित्त धरि
जोइये, अति दुरगम नय वाद ॥ आगम वादे हो
गुरुगम को नही, ए सवलो विखवाद ॥ अ० ॥ ३
घाती डंगर आडा अतिघणा, तुभ दरिसण ज-
गनाथ ॥ धीठाइ करी मारग संचरूं, सेंगु न कोइ
साथ ॥ अ० ॥ ४ ॥ दरिसण २ रटतो जो फिरूं,
तो रणरोभ समान ॥ जेहने पीपासा हो अभृत
पाननी, किम भाजै विष पान ॥ अ० ॥ ५ ॥ तरस
न आवे हो मरण-जीवन तणो, सीभे जो दरिसण
आज ॥ दरिसण दुलभ सुलभ कृपाथको, आनंद-
घन माहाराज ॥ अ० ॥ ६ ॥

॥ श्रीसुमतीनाथ स्वामी का स्तवन ॥

॥ गग वसंत तथा केदारा ॥

॥ सुमति चरण पंकज आतम अरपणा, दर-
पण जिम अविकार सुग्यानी ॥ मति तरपण बहु
सम्मत जांणिये, परि सरपण सुविचार ॥ सुग्या-
नी सु० ॥ १ ॥ त्रिविध सकल तनु धर गत आत
मा, बहिरातम धुरि भेद ॥ सु० ॥ बीजो अंतर
आतम तीसरो, परमातम अविच्छेद ॥ सु० सु०
॥ २ ॥ आतम बुद्धे हो कायादिक अह्यो, बहिरा-
तम अघ रूप ॥ सुग्यानी ॥ कायादिकनो हो सा
खीधर रह्यो, अंतर आतम रूप ॥ सुग्यानी ॥ सु०
॥ ३ ॥ ज्ञानानंदे हो पूरण पावनो, वरजित सकल
उपाधि सुग्यानी ॥ अतिंद्रिय गुण गण मणि
आगरू, ड्य परमातम साध सुग्यानी ॥ सुम०
॥ ४ ॥ बहिरातम तज अंतरआतमा, रूप सुग्यां
नी थड् थिर भाव ॥ परमातमनू हो आतम भा-
ववूं, आतम अरपण दाव सुग्यानी ॥ सुम० ॥ ५

आतम अरपण वस्तु विचारतां, मरम टलै मति
दोय ॥ सु० ॥ परम पदारथ संपति संपजै, आनं-
दघन रस पोष ॥ सु० सुम० ॥ ६ ॥

॥ श्रीशीतलनाथजी का स्तवन ॥

॥ गुणह विसाला मंगलीक माला ॥ ए चाल ॥

॥ शीतल जिनपति ललित त्रिभंगी, विविध
भंगी मन मोहे रे ॥ करुणा कोमलता तीक्ष्णता,
उदासीनता सोहे रे ॥ शी० ॥ १ ॥ सर्व जंतु हित-
करणी करुणा, कर्म विदारण तीक्ष्णता रे ॥ हाना
दाना रहित परणामी, उदासीनता विक्षणा रे ॥
शी० ॥ २ ॥ परदुःख छेदन इच्छा करुणा, तीक्ष्ण-
ता परदुःख रीक्षे रे ॥ उदासीनता उभय विलक्षण,
एक ठामे केम सीक्षे रे ॥ शी० ॥ ३ ॥ अभय-
दान ते मल क्षय करुणा, तीक्ष्णता गुण भावे रे ॥
प्रेरण विण कृत उदासीनता, इम विरोध मति
नावे रे ॥ शी० ॥ ४ ॥ शक्ति व्यक्ति त्रिभुवन
प्रभुता, निग्रन्थता संयोगे रे ॥ योगी भोगी वक्ता

मौनी, अनुपयोगी उपयोगे रे ॥ शी० ॥ ५ ॥
इत्यादिक बहु भंग त्रिभंगी, चमत्कार चित्त
देती रे ॥ अचरजकारी चित्र विचित्रा, आनंदघन
पद लेती रे ॥ शी० ॥ ६ ॥

॥ श्रीकुंथुनाथ स्वामी का स्तवन ॥

॥ राग गुर्जरी ॥

॥ मनडो किमही न बाजे हो, कुंथु जिन
म० ॥ जिम २ जतन करीनें राखूं, तिम २ अ-
लगो भाजे हो ॥ कुंथुजिन म० ॥ १ ॥ रजनी
वासर वसती ऊजड़, गर्यण पायालें जाय ॥ सांप
खायने मुखडं थोथुं, ए ओखाणो न्याय हो ॥ कुं-
थु जिन म० ॥ २ ॥ मुगतितेणा अभिलाषी त-
पिया, ज्ञाननें ध्यान अभ्यासें ॥ वयरीडुं कांड
एहवुं चिंतै, नाखे अब्रले पासे हा ॥ कुं० म० ॥
३ ॥ आगम आगम धरनें हाथे, नावै किरण विध
आंकू ॥ किहां कणे जो हठ करी हटकूं, तो व्या-
लतणी पर वांकू हो ॥ कुं० ॥ म० ॥ ४ ॥ जो

ठग कहूं तो ठग, तो न देखूं, साहूकार पिण
नांही ॥ सर्वमांह ने सहुथी अलगूं, ए अचरिज
मनमांही हो ॥ कुं० म० ॥ ५ ॥ जे जे कहूं ते
कान न धारे, आप मते रहे कालो ॥ सुरनर पंडि-
त जन समभावै, समभै न माहारो सालो हो ॥
कुं० म० ॥ ६ ॥ में जाण्युं ए लिंग नपुंसक,
सकल मरदने ठेले ॥ वीजी वातें समरथ छै नर,
एहने कोई न भेले हां ॥ कुं० ॥ म० ॥ ७ ॥
मन साध्युं तिण सगलूं साध्युं, एह वात नही
खोटी ॥ एम कहे साध्युं ते नवि मानं, ए कहि
वात छै मोटी हो ॥ कुं० ॥ म० ॥ ८ ॥ मनहुं
दुराराध्य तें वस आणं, ते आगमथी मति आणुं ॥
आनंदघन प्रभु माहारो आणो, तो साचं कर
जाणुं हो ॥ कुं० ॥ म० ॥ ९ ॥

॥ प्रतिक्रमणमें कहने योग्य पार्श्वनायकीके छोटं स्तवन ॥

॥ पहला पद ।

॥ श्रीसंखेसर पास जिनेसर भेटिये, भवना

संचित पाप परा सब मेटियै ॥ मन धर भाव अनंत चरण युग सेवतां, अणहूँते एक कोड़ि चतुर विध देवता ॥ १ ॥ ध्यान धरुं प्रभू दूरथकी में ताहरो, जल जिम लीनो मीन सदा मन माहरो ॥ भव २ तुमहीज देव चरण हूं सिर धरुं, भवसा- यरथी तार अरज आहोज करुं ॥ २ ॥ भूख त्रिषा तप सीत आतप ए ना सहै, तप जप संज- स भार तणी नवी निरवहै ॥ पिण जिनवरजीना नांमतणी आसत घणी, एहिज छै आधार जगत गुरु अम्ह भणो ॥ ३ ॥ तुम्ह दरिसण विण स्वां- स भवोदधि हूं फिख्यो, सहीया दुख अनेक न कारज को संख्यो ॥ मिलिया हिव प्रभु मुझ सदा सुख दोजियै, चौ गड़ संकट चुर जगत जस लीजियै ॥ ४ ॥ यादवपति श्रीकृष्णतणी आरति हरी, सैन्या कोध सचेत जरा दूरे करी ॥ परचा पूरण पास रथण जिम दीपतो, जयवंतो जिण- चंद सयल रिपु जीपतो ॥ ५ ॥

॥ दूसरा पद ॥

मनमोहन महाराज, तीन भुवन सिरताज ॥
 आछेलाल, नगर ब्रह्मानपुर राजीया जी ॥ १ ॥
 पास जिनंद प्रधान, निरमल सुगुण निधान ॥
 आछेलाल, वामासुत वडभागीयाजी ॥ २ ॥ सेव-
 कनी संभाल, करिय खरी ततकाल ॥ आछेलाल,
 संकट सहु प्रभु परिहस्या जी ॥ ३ ॥ चिंता करी
 चकचूर, प्रगढ्यो आनंद पूर ॥ आछेलाल, वाट
 विपमता पिण टली जी ॥ ४ ॥ प्रभुजीने परसाद
 वीता सहु विखवाद ॥ आछेलाल, मन वंछित
 मुक्त सहु फल्या जी ॥ ५ ॥ ध्यान समाधिनी
 थाप, मिलिया छो प्रभु आप ॥ आछेलाल, देज्यो
 दरिसण वलि सदा जी ॥ ६ ॥ अमृतधर्म सुजा-
 ण, शिष्य जमाकल्याण ॥ आछेलाल, वाचक इम
 वीनती करे जी ॥ ७ ॥

॥ तीसरा पद ॥

जयकारी जिनराज, पुरिसादाणी रे ॥ वामा-

सुत वरदाय, निरमल नांणी रे ॥ १ ॥ पांच क-
मल प्रभु अंग, निरुपम निरख्या रे ॥ तीन कमल
मुक्त संग, आतम हरख्या रे ॥ २ ॥ वदन महो-
दय देख, चंद लजाण रे ॥ गगन भमे निस-
दीस, इम मन आण रे ॥ ३ ॥ सुरमणि ज्युं सु-
खकार, नयण विराजै रे ॥ हृदयकमल सुविलास,
थाल ज्युं छाजै रे ॥ ४ ॥ प्रभु कर चरण विलोक,
पंकज हास्यो रे ॥ ततखिण निज संवास, जलमें
धास्यो रे ॥ ५ ॥ इम सरवंग उदार, श्रीजिनराया
रे ॥ साचै पुण्य संयोग, साहिब पाया रे ॥ ६ ॥
प्रभुगुण अनुभव नीर, सांग सुरंगे रे ॥ टाल्यो
पातिक पंक, आतम संगे रे ॥ ७ ॥ वरस अढार
चोतीस, वदि वैसाखै रे ॥ मनुहर पांचम दीस,
सहु संघ साखै रे ॥ नगर महेवा मांहि, पास जु-
हास्या रे ॥ श्रीजिनचन्द मुणिंद, वांछित सा-
खारे ॥ ८ ॥

॥ चौथा पद ॥

वालेसर मुक्त वीनती गोडीचा, अलवेसर
 अवधार हो गोडीचाराय ॥ प्रगट थई पातालथी
 गोडीचा, सेवक जिन साधार हो गो० ॥ वा० ॥ १ ॥
 आंख थई ऊतावली, गो० ॥ दरसण देखण का
 ज हो ॥ गो० ॥ पांणीनखमे पातली, गो० ॥ दो
 दरसण महाराज हो ॥ गो० ॥ वा० ॥ २ ॥ तू
 साहिव सुपनंतरे, गो० ॥ मिलियो छै नित मेव
 हो ॥ गो० ॥ तोपिण आयां ऊमही, गो० ॥ सं-
 प्रति करवा सेव हो, गो० ॥ वा० ॥ ३ ॥ जो पो-
 तानो त्रेवडो, गो० ॥ सगलो भाति सदीव हीं,
 गो० ॥ उंची नीची वातमें, गो० ॥ थे मति
 घालो जीव हो ॥ गो० ॥ वा० ॥ ४ ॥ देव घणां
 ही देवलै, गो० ॥ दीठां ते न सुहाय हीं ॥ गो०
 इक दीठां मन ऊलसे, गो० ॥ इक दीठां उल्हाय
 हो ॥ गो० ॥ वा० ॥ ५ ॥ कालै वाल्हे माहरे,
 गो० ॥ कीधी खरी सभीड हो ॥ गो० ॥ दरसण

देवानी नकी, गो० ॥ पाणीवलि पिण ढील हो ॥
 गो० ॥ वा० ॥ ६ ॥ तें कीधी तिम तूं करै, गो०
 राखी चिहुं मांहे लाज हो ॥ गो० ॥ वलि अव-
 सर संभारज्यो, गो० ॥ इम जंपै जिनराज हो ॥
 गो० ॥ वा० ॥ ७ ॥

॥ पांचवां पद ॥

अरज सुणीजै अंतरजामी, पास जिनेसर
 स्वांमी रे ॥ अश्वसेन वामाजीके नंदन, त्रिभुवन
 जन विसरामी रे ॥ अ० ॥ १ ॥ गुण गिरवा गो-
 डीचा स्वामी, नाथ निरंजन नामी रे ॥ अ० ॥
 भव अटवी वन घन विच भमतां, पुण्ये सेवा
 पामी रे ॥ अ० ॥ २ ॥ दीनदयाल दया कर
 दीजै, अनुभव गुण अभिरामी रे ॥ अ० ॥ चरण
 कमल सेवा चित चाहत, सुगण सदा हितकामी
 रे ॥ अ० ॥ ३ ॥

॥ छठा पद ॥

प्यारी पासकी, देखी सूरत मो मन भाय ॥

प्या० ॥ अश्वसेन वामाजीके नंदन, देख्यां विल
हरखाय ॥ प्या० ॥ १ ॥ तीन लोकमें महिमा
जाकी, सुर नर मुनि गुण गाय ॥ प्या० ॥ नीले
वरण मनमोहन निरख्यो, नाथ गोडीचा राय ॥
प्या० ॥ २ ॥ सुगण सेवगकी येही अरज हे,
भवदुख ताप मिटाय ॥ प्या० ॥ ३ ॥

॥ सातवां पद ॥

॥ श्रीचिंतामण पासजी, अजव सुरंग अनूप ॥
सवाइ प्रभूजी, थांरी सांवली सूरत म्हानु प्यारी
लागे राज ॥ वामाजी नंदन वांदवा, चितडामें
लागी छै चूप ॥ सवाइ प्रभूजी ॥ १ ॥ अणिया-
ली प्रभू आंखडी, वदन सरोज विकास ॥ स० ॥
थां० ॥ नयण सलूणे जी निरखतां, ऊपजै अधि
क उल्हास ॥ स० ॥ थां० ॥ २ ॥ अंगज नृप अ-
श्वसेननो, करुणा निधि करतार ॥ स० थां० ॥
पुण्य संयोगे जी पांमीयो, दिल रंजन दीदार ॥
स० थां० ॥ ३ ॥ तो दिन सफलो जांणियै, सो-

य घड़ी सुप्रमाण ॥ स० ॥ भगतवच्छूल भल भे
 टियै, जिनवर चतुरसुजाण ॥ स० ॥ थां० ॥ ४॥
 जालम जेसलगढ जयो, श्रीचिंतामणि पास ॥
 स० ॥ जगपति श्रीजिनचंद्रनी, अविचल पूरो
 जी आस ॥ स० ॥ थां० ॥ ५ ॥

॥ आठवां पद ॥

॥ जीवन मारा तेवीसमा जिनराय रे, जिन-
 वरजी ॥ तुम विन देख्यां एक घड़ी न रहाय,
 म्हारा जिनवरजी ॥ १ ॥ तुमे अमारा हीयडला-
 ना हार रे, जि० ॥ अमे तुमारा दास छियै निर
 धार ॥ म्हारा जि० ॥ लागी तुमसुं लगन हमारी
 जोर रे, जि० ॥ चंद चकोरा जलधरनें जिम मोर ॥
 म्हारा जि० ॥ २ ॥ नयण तुमारा कामणगारा
 जोर रे, जि० ॥ चितडो लीधो जिम तिम करि नें
 चोर ॥ म्हारा जि० ॥ अरज हमारी मानो मोटा
 देव रे, जि० ॥ आपो भव २ चरणकमलनी सेव
 म्हारा जि० ॥ ३ ॥ आस धरीनें आवे जे तुह्य

पास रे, जि० ॥ नवि मंकीजे स्वामी तेह निरास
 म्हारा जि० ॥ मोटानी तो मोटी थायै बुद्धि रे,
 जि० ॥ इम जांणिने करज्यो माहरी शुद्ध ॥ म्हा-
 रा जि० ॥ ४ ॥ राखज्यो मुक्त उपर निविड सने-
 ह रे, जि० ॥ अवगुण जांणी छिटक न देज्यो
 छेह ॥ म्हारा जि० ॥ खरतर गच्छपति श्रीजिन-
 लाभ सूरिंद रे, जि० ॥ तासु पसायें पभणें अ-
 नोपमचंद ॥ म्हारा जि० ॥ ५ ॥

॥ नवां पद ॥

सुगण सनेही प्रभुजी अरज सुणीज्यो, अर-
 ज सुणीने मोसुं महिर धरीज्यो राज ॥ सु० ॥
 तुं छै प्रभूजी म्हारो अंतरजामी, पूरव पून्यै थांरी
 सेवा में पांमी राज ॥ साहिवमें तो तुभनें जाणयो
 छै साचो, कदिय न दिलमांहे आणूं हुं काचो
 राज ॥ सु० ॥ १ ॥ साचे तो दिलसुं राज करीय
 सगाई, सुगण प्रभुजीस्युं वधज्यो प्रीत सवाई
 राज ॥ सु० ॥ दरसण प्रभुजी ताहरो दिलमांहे

वसियो, रात दिवस थारा गुणानो छूं रसियो
 राज ॥ सु० ॥ २ ॥ खिजमतगारो प्रभुजी चाकर
 छूं खासो, कदिय न मेलूं प्रभुजी पलभर पासो
 राज ॥ सु० ॥ मोटानी महरे राज मोटा कहीजै,
 लाहो लाखीणो प्रभुजी संगे लहीजै राज ॥ सु०
 ॥ ३ ॥ पिंजर तो फिरसी राज केड परदेसे, राज
 सदाइ मारा दिलमांहे रहसी राज ॥ सु० ॥ रंगै
 हूं चोल मजीठ रंगाणा, नहिय विसरस्युं प्रभुजी
 दरसण टाणो राज ॥ सु० ॥ ४ ॥ लुलि २ हूं
 तुम पाये जी लागूं, मोज महिर तुम पासे हूं
 मांगू राज ॥ सु० ॥ श्रीजिनचंद्र सदा साधारो,
 तारक प्रभुजी थे भवजल तारो राज ॥ सु० ॥ ५ ॥

॥ दसवां पद ॥

॥ मोरा पास जिनराज, सूरत थारी लागे
 प्यारी ॥ दीठा आवे दाय, मो० ॥ जिम २ सूरत
 देखियै प्रभु, तिम २ वाधे प्रीत ॥ तन मन मारा
 उलसै कांइ, रूडी प्रीतनी रीत ॥ मो० ॥ १ ॥

नयण कमलदल पांखडी प्रभु, मुखड़ो पूनमचन्द्र ॥
 दीपशीखासी नासिका काइ, दीठा परमानंद ॥
 मो० ॥ २ ॥ काने कुंडल भिगमिगे प्रभु, कंठै
 नवसर हार ॥ चंपकली सोहे भली कांइ, मुखडै
 ज्योत अपार ॥ मो० ॥ ३ ॥ तूं छै जगनो बाल
 हो प्रभु, थारे सेवग कोड ॥ म्हारे तूंहिज साहि
 वो कांइ, वंदू वेकर जोड, ॥ मो० ॥ ४ ॥ आज
 मनोरथ सब फल्या, में दीठा श्रीजिनराज ॥
 सदानंद पाठक तणा कांइ, सीधां सगलां काज ॥
 मो० ॥ ५ ॥

॥ ग्यारहवा पद ॥

जिनजी महिर करोने राज, दरसण वहिलों
 दीजै ॥ दीजै २ जी महाराज, कारज सगला
 सीभै ॥ ए आंकणी ॥ मुझ मन भमरतणी पर
 मोह्यो, छोड़ायो नवि छूटै ॥ प्रेम राग बंधाणो
 पूरण, ते तो कदेय न खूटै ॥ जि० ॥ १ ॥ अल-
 गथकां पिण हूं प्रभु तुमने, नहिय विसारुं दिल-

सुं ॥ रात दिवस एहवी मन वरतै, जाणूं जइ
मिलुं तुमसुं ॥ जि० ॥ २ ॥ पूरव पुण्यथकी में
पायो, ए अवसर आजूणो ॥ मिलियो तूं प्रभु
पास चिन्तामण, साहिव सहज सलूणो ॥ जि०
॥३॥ थारे तो सेवग छै बहुला, मो सरिखा लख
ग्याने, माहरे तो इण जगमे जोतां, थारे नही
कोइ टाणे ॥ जि० ॥ ४ ॥ अस हिये इक ताहरी
राखूं, बीजो मुख नही भाखूं ॥ अमृत जेम लही
गुणरस, खारो जल किम चाखूं ॥ जि० ॥ ५
मोहन ए मुद्रानी महिमा, कहतां पार न आवे ॥
सायर लहर मालानें गिणतां, कहो कुण मति उ
पजावै ॥ जि० ॥ ६ ॥ भगतपणै किंचित गुण भाखूं, हूं
म्हारी मति सारू ॥ निरुपमा अनुपम तुभु गुण
लायक, त्रिभुवन जीवन सारू ॥ जि० ॥ ७ ॥
वरस अठार वली इकताले, मिगसर पख उज-
वाले ॥ इग्यारस दिन अधिक सनेहे, यात्रा करी
सुविशाले ॥ जि० ॥ ८ ॥ जेसलगिरि श्रीसंघ

जुगतसुं, मेलो तिहां मंडायो ॥ लाभ उंदय जि-
नचन्दने प्रभुजी, वांध्यो प्रेम सवायो ॥ जि० ॥६॥

॥ वारहवां पद ॥

॥ तूं मेरे मनमें प्रभु तूं मेरे दिलमें, ध्यान
धरूं पल २ में ॥ पास जिनेसर अंतरजामी, सेवा
करूं छिन २ में ॥ तूं० ॥ १ ॥ काहूको मन त-
रुणीसैं राच्यो, काहूको चित्त धनमें ॥ मेरो मन
प्रभु तुमहीसे राच्यो, ज्युं चातक चित्त घनमें ॥
तूं० ॥ २ ॥ जोगीसर तेरी गति जांगौ, अलख
निरंजन छिनमें ॥ कनककीरत सुखसागर तूंही,
साहिव तीन भुवनमें ॥ तूं० ॥ ३ ॥

॥ निर्वाण-कल्याणक-स्तवन ॥

॥ मारगदेशक मोक्षनो रे, केवल ज्ञान नि-
धान ॥ भाव दयासागर प्रभु रे, पर उपगारी प्र-
धानो रे ॥ १ ॥ वीर प्रभु सिद्ध थया, संघ सकल
आधारो रे ॥ हिव इण भरतमां, कुण करणे उप-
गारो रे ॥ वीर० ॥ २ ॥ नाथ विहूणं सैन्य ज्यं

रे, वीर विहूणो रे संघ ॥ साधे कुण आधारथी रे,
परमानंद अभंगो रे ॥ वीर० ॥ ३ ॥ मात विहू-
णां बाल ज्युं रे. अरहां परहा अथड़ाय ॥ वीर
विहूणा जीवड़ा रे, आकुल व्याकुल थायो रे ॥
वीर० ॥ ४ ॥ संशय छेदक वीरनो रे, विरह ते
केम खमाय ॥ जे दीठे सुख ऊपजे रे, ते विण
किम रहिवायो रे ॥ वीर० ॥ ५ ॥ निर्यामक भव
समुद्रनो रे, भव अटवी सत्थवाह ॥ ते परमेसर-
विण मिल्यारे, किम वाधे उत्साहो रे ॥ वीर० ॥ ६ ॥
वीर थकां पण श्रुत तणो रे, हुंतो परम आधार ॥
हमणां श्रुत आधार छे रे, ए जिन आगम सारो
रे ॥ वीर० ॥ ७ ॥ इण कालें सवि जीवने रे, आ
गमथो आनंद ॥ ध्यावो सेवो भविजना रे, जिन
पडिमा सुखकंदो रे ॥ वीर० ॥ ८ ॥ गणधर आ-
चारिज मुनि रे, सहुनें इण परसिद्ध ॥ भव भव
आगम संगथो रे, देवचंद्र पद लीधारे ॥ वीर० ॥ ९ ॥

॥ श्रीतीर्थ मालाका स्तवन ॥

॥ शत्रुंजय ऋषभ समोसखा, भला गुण
 भखा रे ॥ सिद्धा साधु अनंत, तीरथ ते नमुं रे ॥
 तीन कल्याणक तिहां थयां, मुगतें गया रे, ने-
 मीसर गिरनार ॥ ती० ॥ १ ॥ अष्टापद, एक दे-
 हरो, गिरिसेहरो रे ॥ भरतें भराव्यां विंव ॥ ती०
 आवु चौमुख अति भलो, त्रिभुवन तिलो रे ॥
 विमल वइस वस्तुपाल ॥ ती० ॥ २ ॥ समेतशि-
 खर सोहामणो, रलियामणो रे ॥ सिद्धा तीर्थकर
 वीश ॥ ती० ॥ नयरी चंपा निरखीयें, हैये हर-
 खीयें रे ॥ सिद्धा श्रीवासुपूज्य ॥ ती० ॥ ३ ॥ पूर्व
 दिशें पावापुरी, ऋद्धें भरी रे ॥ मुक्ति गया महा-
 वीर ॥ ती० ॥ जेसलमेर जुहारीयें, दुःख वारीयें
 रे ॥ अरिहंत विंव अनेक ॥ ती० ॥ ४ ॥ विकाने
 रज बंदीयें, चिर नंदीयें रे ॥ अरिहंत देहरां
 आठ ॥ ती० ॥ सोरिसरो संखेसरो, पंचासरो रे
 फलोधी थंभण पास ॥ ती० ॥ ५ ॥ अंतरिक अं-

जावरो, अमीभरो रे ॥ जीरावलो जगनाथ ॥
 ती० ॥ त्रैलोक्य दीपक देहरो, जात्रा करो रे ॥
 राणपुरें रिसहेस ॥ ती० ॥ ६ ॥ श्रीनिडुलाई जा-
 दवो, गोडी स्तवो रे ॥ श्रीवरकाणो पास ॥ ती०
 नंदीश्वरनां देहरां, बावन भलां रे ॥ रुचक कुंडल
 चारू चार ॥ ती० ॥ ७ ॥ शाश्वती अशाश्वती,
 प्रतिमा छती रे ॥ स्वर्ग मृत्यु पाताल ॥ ती० ॥
 तीरथ जात्रा फल तिहां, होजो मुक्त इहां रे ॥
 समयसुन्दर कहे एम ॥ ती० ॥ ८ ॥

॥ महावीर स्वामीके पारणाको स्तवन ॥

॥ दूहा ॥ श्रीअरिहंत अनंत गुण, अतिशय
 पूरण गात्र ॥ मुनि जे ज्ञानी संजमी, कहिये उ-
 त्तम पात्र ॥ १ ॥ पात्रतणी अनुमोदना, करतो
 जीरणसेठ ॥ श्रावक अच्युत गति लहे, नवग्रै-
 वेका हेठ ॥ २ ॥ दस चउमासा वीरजी, विचरत
 संजम वास ॥ विशालापुर आविया, इग्यारमी च
 उमास ॥ ३ ॥ ढाल ॥ चोमासी इग्यारमी जी,

विचरत साहसधीर ॥ विशालापुर बाहरे जी,
 आव्या श्रीमहावीर ॥ १ ॥ जगतगुरु त्रिशलानं-
 दन जी, भले में भेट्या श्रीजिनराय ॥ सखीरी
 चोक पूरावो आय, मेरे भाग्य अनोपम माय ॥
 ज० ॥ २ ॥ बलदेवनो छे देहरो जी, तिहां प्रभु
 काउसग लीध ॥ पञ्चख्राण चोमासनो जी,
 स्वामीए तप कोध ॥ ज० ॥ ३ ॥ जीरणसेठ तिहां
 वसे जी, पाले श्रावकधम ॥ आकारे तिण ओल-
 ख्या जी ॥ जाणे श्रीजिन मर्म ॥ ज० ॥ ४ ॥
 आज अछे उपवासीया जी, स्वामी श्रीवर्द्धमान
 काले सही प्रभु जीमस्ये जी, से हाथे देख्युं दान ॥
 ज० ॥ ५ ॥ सदा सेठ इम चिंतवे जी, होसी
 सफल मुक्त आस ॥ पञ्च मास गिणतां थकां जी-
 पूरी थइ चोमास ॥ ज० ॥ ६ ॥ सामयो आहा-
 रनी जी, जोरण कांधो तइयार ॥ 'प्रभुनो' मारग
 देखता जी, वेठो घरने वार ॥ ज० ॥ ७ ॥ घर
 आवे छे पाहुणो जी, निहुत्यों एकरा वार ॥ प्रभुजी

कां न पधारसी जी,में निहुत्या वारंवार ॥ ज० ॥
 ८॥ पीछे करस्युं पारणो जी, हूं प्रभूने पडिलाभं॥
 होय मनोरथ एहवो जी, तोय विन वरसे आंभ
 ज० ॥६॥ अवरसर उठ्या गोचरी जी, श्रीसिद्धा-
 रथपुत्त ॥ विशालापुर् आवतां जी, पूरणघरे पहुत्त
 ॥ ज० ॥ १० ॥ मिथ्यात्वी जाणो नही जी, जंगम
 तीरथ एह ॥ चेड़ी प्रते इम कहे जी, कांइक मि-
 च्चा देह ॥ ज० ॥ ११ ॥ चाटू भरने बाकला जी,
 प्रभूने आंणी दीध ॥ नीरागी तेही लिया जी,
 तिहां प्रभू पारणो कीध ॥ ज० ॥१२॥ देव वजा-
 वे दुंदुभि जी, जय बोले कर जोडि ॥ हेम वृष्टि
 हुइ तिहां जी, साढीवारे कोडि ॥ ज० ॥ १३ ॥
 कहो सेठ तुमे स्युं दियो जी, कियो पारणो वीर-
 लोकां प्रते इम कहे जी, में वहिराई चीर ॥ ज०
 ॥ १४ ॥ राजादिक सहू ए कहे जी, धन २ पूरण
 सेठ ॥ ऊंची करणी तें करी जी, अवर सहू तुम्ह
 हेठ ॥ ज० ॥ १५ ॥ जीरणसेठ सुणो नवे जी,

वाजित दुंदुभि-नाद ॥ अन्यत्र कियो प्रभु पारणो
 जी, मनमें थयो विषवाद ॥ ज० ॥ १६ ॥ हूं ज-
 गमें अभागियो जी, मेरे न आया सांम ॥ कल्प-
 वृक्ष किम पांमीये जी, मारुसंडल ठाम ॥ ज० ॥
 १७ ॥ जेता मनोरथ में किया जी, तेता रघ्या म-
 नमांहि ॥ ॥ निरधन जिम २ चिंतवे जी, तिम ३
 निरफल थाय ॥ ज० ॥ १८ ॥ स्वामी तिहां कियो
 पारणो जी, कियो अन्यत्र विहार ॥ आया पास
 संतानिया जी, तिहां मुनि केवलधार ॥ ज० ॥ १९
 विशालापुर् राजियो जी, लोकास्युं आणंद ॥ गय
 प्रश्न पूछे इस्यो जी, सुगुरु चरण अरविंद ॥ ज०
 ॥ २० ॥ मेरे नगरमें कां अछे जी, जीव पुण्य
 जसवंत ॥ कहे केवली आज तो जी, जीरणसेठ
 महंत ॥ ज० ॥ २१ ॥ राय कहे किरण कारणो जी,
 जीरणसेठ महंत ॥ दान दियो जिन वीरने जी,
 पूरणसेठ महंत ॥ ज० ॥ २२ ॥ राय प्रने कहे
 केवली जी, पूरण दीनो दान ॥ हेमवृष्टि फल

तेहने जी, अवर न कोई प्रमाण ॥ ज० ॥ २३ ॥
 देवलोक त्रिण वारमें जी, जीरण घाल्यो बंध ॥
 विना दान दियां लह्यो जी, उत्तम फल संबंध ॥
 ज० ॥ २४ ॥ घडी एक सुर दुन्दुभि जी, जो न
 सुणंतो कान ॥ लहितो जीरण तो सही जी, के-
 वल अविचल ठाम ॥ ज० ॥ २५ ॥ राजा जीर-
 णने दियो जी, अधिक मान सनमान ॥ मुत्तन-
 गरमें थापियो जी, जोवो पुण्य प्रमाण ॥ ज० ॥
 २६ ॥ दान दियो सुपात्रने जी, ते निष्फल नवि
 जाय ॥ पात्रदान अनुमोदना जी, जीरण जिम
 फल थाय ॥ ज० ॥ २७ ॥ इम जांणी अनुमो-
 दना जी, दान सुपात्र रसाल ॥ दान देवे सुपा-
 त्रने जी, तेहने नमे मुनि माल ॥ ज० ॥ २८ ॥

॥ श्रीगौड़ी पार्श्व जिन-वृद्ध स्तवन ॥

॥ दूहा ॥ वाणी ब्रह्मा वादिनी, जागे जग वि-
 ख्यात ॥ पास तरणां गुण गावतां, मुक्त मुख वस-
 ज्यो मात ॥ १ ॥ नारंगे अणहिलपुरे अहमदावादे

पास ॥ गोडीनो धणी जागतो, सहूनी पूरे आस ॥२॥
 शुभ वेला शुभ दिन घड़ी, महुरत एक मंडाण ॥
 प्रतिमा ते इह पासनी, थई प्रतिष्ठा जांण ॥ ३ ॥

॥ ढाल १ ॥ गुणहि विशाला मंगलीक माला
 वामानो सुत साचो जी ॥ धण कण कंचण मणि
 माणक दे, गोडीनो धणी जाचो जी ॥ गु० ॥ ४ ॥
 अणहिलपुर पाटण मांहे प्रतिमा, तुरकतणे घर हूंती
 जी ॥ अश्वनी भूमि अश्वनी पीडा, अश्वनी वालि
 विगूती जी ॥ गु० ॥ ५ ॥ जागंतो जन् जेहने
 कहिये, सुहणो तुरकने आपे जी ॥ पास जिनेसर
 केंरी प्रतिमा, सेवग तुभ संतापे जी ॥ ६ ॥ गु०
 प्रह ऊठीने परगट करजे, मेघा गोठीने देजे जी ॥
 अधिकम लेजे उद्यो मले जे, टक्का पांचसे लेजे
 जी ॥ ७ ॥ गु० ॥ नहि आपिस तो मारीस मुर-
 डिस, मोर बंध वंधास्ये जी ॥ पुत्र कलत्र धन हय
 गय हाथी तुज, लच्छीघणी घर जास्थे जी ॥ ८ ॥
 गु० मारग पहिलो तुभने मिलस्ये, सारथवाह जे

गोठी जी ॥ निलवट टीलो चोखा चोव्या, वस्तु वहे
तसु पोठी जी ॥ ६ ॥

॥ दूहा ॥ मनसुं बिहतो तुरकडो, माने वचन
प्रमाण ॥ बीवीने सुहणा तणो, संभलावे सहिनाण
१० बीवी बोले तुरकने, वडा देव हे कोय ॥ अव-
स ताव परगट करो, नहितर मारे सोय ११ पाछ-
ली रात परोडिये, पहली बांधे पाज ॥ सुहणा मांहे
सेठने, संभलावे यज्ञ-राज ॥ १२ ॥

॥ढाल॥ एम कही यज्ञ आयो राते, सारथवाहने
सुहणे जी ॥ पास तणी प्रतिमा तूं लेजे, लेतो
सिर मत धूणे जी ॥ ए० ॥ १३ ॥ पांचसे टक्का
तेहने आपे, अधिको म आपिस वारू जी ॥ ज-
तन करी पहुंचाडे थांनक, प्रतिमा गुण संभारे
जी ॥ ए० ॥ १४ ॥ तुम्हने होसी बहु फल दायक,
भाइ गोठी सुणजे जी ॥ पूजे प्रणमे तेहना पाया,
प्रह ऊठीने थुणजे जी ॥ ए० ॥ १५ ॥ सुहणो दे-
इने सुर चाल्यो, आपणो थांनक पहुंतो जी ॥

पाटणमांहे सारथवाह, हींडे तुरकने जोतो जी ॥
 ए० ॥ १६ ॥ तुरके जातो दीठो गोठी, चोखा
 तिलक लिलाडे जी ॥ संकेत पहुतो साचो जाणी,
 बोलावे बहु लाडे जी ॥ ए० ॥ १७ ॥ मुक्त घर
 प्रतिमा तुम्हने आपूं, श्रीपास जिनेसर कैरी जी ॥
 पांचसे टक्का जो मुक्त आपे, तो मोल न मांगू
 फेरी जी ॥ ए० ॥ १८ ॥ नाणो देइ प्रतिमा लेइ.
 थानक पहुतो रंगे जी, केशर चंदन मृगमद
 घोली, विधिसुं पूजा रंगे जी ॥ ए० १९ ॥ गादी
 रूडो रूनी कीधी, ते मांहि प्रतिमा राखे जी ॥
 अनुक्रम आव्या परिकर मांहे, श्रीसंघने सुर साखे
 जी ॥ ए० ॥ २० ॥ उच्छ्रव दिन २ अधिका थाये.
 सत्तर भेद सनात्रो जी ॥ ठांम २ ना दरसण
 करवा, आवे लोक प्रभातो जी ॥ ए० ॥ २१ ॥

दूहा ॥ इक दिन देखे अवधिसुं, परिकर पु-
 रनो भंग ॥ जतन करुं प्रतिमा तणो, तीरथ अले,
 अभंग ॥ २२ ॥ सुहणो आपं सेटने, थल अट-

वी ऊजाड़ ॥ महिमा थास्ये अति घणी, प्रतिमा-
तिहां पहुंचाड़ ॥ २३ ॥ कुशल जेम तिहां अछे,
तुभने मुभने जांण, संका छोड़ी काम कर, कर-
तो म करी संकांणि ॥ २४ ॥

॥ ढाल ॥ पास मनोरथ पूरा करे, वाहण
एक वृशभ जोतरे ॥ परिकरथी परियाणो करे,
एक थल चढ़ि बीजो उबारे ॥ २५ ॥ वारे कोस आ
व्यां जेतले, प्रतिमा नवि चाले तेतले ॥ गोठी
मनह विमासण थइ, पास भवन मंडावूं सही ॥
२६ ॥ आ अटवी किम करूं प्रयाण, कटको
कोइ न दीसे पाहाण ॥ देवल पास जिनेसर
तणो, मंडावुं किम घरथे विणो ॥ २७ ॥ जल
विन श्रोसंघ रहस्ये किहां, सिलावटो किम आवे
इहां ॥ चिंतातुर थयो निद्रा लहे, यत्तराज आवी
इम कहे ॥ २८ ॥ गहूंली ऊपर नाणो जिहां,
गरथ घणो जाणीजे तिहां ॥ स्वस्तिक सोपारीने
ठाणी, पाहण तणी उलटस्ये खांणी ॥ २९ ॥

श्रीफलं सजल तिहां किल जुओ, अमृत जल नि-
 सरिस्ये कूओं ॥ खाराकूआ तणो इह सैनांग, भूमि
 पड्यो छे नीलो छाण ॥ ३० ॥ सिंलावटो सीरो-
 ही वसे, कोढ पराभवियो किसमिसे ॥ तिहांथकी
 तं इहां आणजे, सत्य वचन माहरो मानजे ॥३१
 गोठीनो मन थिर थापियो, शिलावटने सुहणो
 दियो ॥ रोग गमीने पूरुँ आस, पास तणो
 मंडे आवास ॥ ३२ ॥ सुपनमांहि मांन्यो ते वेण,
 हेम वरण देखाड्यो नेण ॥ गोठी मनह मनोरथ
 हुआ, सिंलावटने गया तेडवा ॥ ३३ ॥ सिंला-
 वटो आवे सूरमो, जीमे खीर खाँड घृत चूरमो ॥
 घड़े घाट करे कोरणी, लगन भले पाया रोपणी
 ॥ ३४ ॥ थंभ २ कीधी पूतली, नाटक कौतुक
 करती रली ॥ रंग-मंडप रलियामणो रचे, जोतां
 मानवनो मन वसे ॥३५॥ नीपायो पूरो प्रासाद,
 स्वर्ग समो मंडे आवास ॥ दिवस विचारी इंडो
 घड्यो, ततखिण देवल ऊपर चड्यो ॥ ३६ ॥

शुभ लगन शुभ वेला वास, पर्ववासण वेठा श्री
पास ॥ महिमा मोटो मेरु समान, एकलमिल
वगडे रहे वान ॥ ३७ ॥ वात पुराणी में सांभली,
तवनमांहि सूधी सांकली ॥ गोठीतणा गोतरिया
अछे, यात्रा करीने परणे पछे ॥ ३८ ॥

॥ दूहा ॥ विघन विडारण जज्ज जगि, तेहनो
अकल सरूप ॥ प्रीत करे श्रीसंधने, देखाड़े निज
रूप ॥ ३९ ॥ गिरओ गौड़ीपास जिन, आपे
अरथ भंडार ॥ सानिध करे श्रीसंधने, आस्सा
पूरणहार ॥ ४० ॥ नील पलाणे नील हय, नीलो
थइ असवार ॥ मारग चूका मानवी, वाट दिखा-
वणहार ॥ ४१ ॥

॥ ढाल ४ ॥ वरण अडार तणो लहे भोग, वि-
घन निवारे टाले रोग ॥ पवित्र थइ समरे जे
जाप, टाले सघला पाप संताप ॥ ४२ ॥ निरघ-
नने घर धननो सूंत, आपे अपुत्रियाने पूत ॥
कायरने सूरापणो धरे, पार उतारे लच्छी वरे ४३

दोभागीने दे सोभाग, पग विहूणाने आपे
पाय ॥ ठांम नही तेहने द्ये ठांम, मन वंछित
पूरे अभिराम ॥ ४४ ॥ निरधाराने द्ये आधार,
भवसाथर ऊतारे पार ॥ आरतियानी आरत भंग,
धरे ध्यान ते लहे सुरंग ॥ ४५ ॥ समस्यां सहाय
दिये जचराज, तेहना मोटा अछे दिवाज ॥ बु-
द्धिहीनने बुद्धि प्रकाश, गंगाने द्ये वचन वि-
लास ॥ ४६ ॥ दुखियाने सुखनो दातार, भय भं-
जण रंजण अवतार ॥ बंधन तूटे वेडीतणा, श्री
पश्वे नाम अचर स्मरणातां ॥ ४७ ॥

॥ दूहा ॥ श्रीपार्श्व नाम अचर जपे, विश्वा-
नर विकराल ॥ हस्तियुद्ध दूरे टले, दुद्धर सींह
सियाल ॥ ४८ ॥ चौरतणा भय चूकवे, विष अ-
मृत उडकार ॥ विषधरना विष ऊतरे, संग्रामे
जय-जयकार ॥ ४९ ॥ रोग-शोग दालिद्र दुख,
दोहग दूर पूलाय ॥ परमेसर श्रीपासनो, महिमा
मंत्र जपाय ॥ ५० ॥

॥ ढाल ५ ॥ चाल कडवांकी ॥

ॐ जततू २ ॐ ज उपशम धरी, ॐ ह्रीं श्रीं
 श्रीपार्श्व अक्षर जपंते ॥ भूतने प्रेत भोटिंग व्यं-
 तर सुरा, उपशमे बार इकवीस गुणंते ॥ ५१ ॥
 ॐ० ॥ दुद्धरा रोग शोग जरा जंतरा, ताव ए-
 कंतरा दुत्तपंते ॥ गर्भबंधन ब्रह्मं सर्प विह्वू विषं,
 चालिका बाल मेवाभखंते ॥ ५२ ॥ ॐ० ॥ साइ-
 णी डाइणी रोहणी रंकणी, फोटका मोटका दोष-
 हुंते ॥ दाढ उंदरतणी कोल नोलां तणी, श्वान
 सियाल विकराल दंते ॥ ५३ ॥ ॐ० ॥ धरणेंद्र
 पद्मावती समर सोभावती, वाट आघाट अटवी
 अटंते ॥ लखमी लोंदो मिले सुजस वेला वले ॥
 सयल आस्या फले मन हसंते ॥ ५४ ॥ ॐ० ॥
 अष्ट महाभय हरे कानपीड़ा टले ॥ उत्तरे शूल
 सीसग भणंते ॥ वदत वर प्रीतसुं प्रीतवि-
 मल प्रभु, श्रीपास जिण नाम अभिराम
 संते ॥ ५५ ॥

॥ मंगलीक-स्तोत्र ॥

धम्मो मंगल मुक्किठं, अहिंसा संजमो तवो ।

देवा वित्तं नमं संति, जस्स धम्मो सयामणो ॥१॥

जहा दुम्मस्स पुप्फेसु, भमरो आवइ रसं ।

नय पुप्फं किलामेइ, सोइ पीणेइ अप्पयं ॥ २ ॥

एवमेए समणा मुत्ता, जे लोए संति साहुणो ।

विहंगमाइ पुप्फेसु, दाणभत्ते सणेरया ॥३॥ वयं

च वि त्तिं लव्भामो । नहि कोइ उव हम्मइ ।

अहागडे सुरीयंति, पुप्फेसु भमरो जहा ॥४॥ महु-

कार समा बुद्धा, जे भवंति अणिसिया । ना-

णापिंडरयादिंता, तेण वुच्चंति साहुणो तिब्बेमि

॥ ५ ॥ सर्व मंगल मांगल्यं, सर्व्व कल्याण

कारणं । प्रधानं सब्बधर्माणां, जैनं जयति शास-

नम् ॥ १ ॥ मंगलं भगवान्वीरो, मंगलं गौतमः

प्रभु । मंगलं स्थूलिभद्राद्या, जनोधर्मोस्तु मंगलम्

॥ नवकार महात्म्य ॥ (छंद)

॥ सुखकारण भवियण समरो नित नवकार,

जिनशासन आगम चवदे पूरव सार ॥ इण
मंत्रनी महिमा कहितां न लहं पार, सुरतरु जिम
चिंतित वंछितफल दातार ॥ १ ॥ सुर दानव
मानव सेव करे कर जोड़, भूयमंडल विचरे तारे
भवियण कोडि ॥ सुरछंदे विलसे अतिशय जास
अनंत, पहिले पदनमिये अरि गंजन अरिहंत ॥ २ ॥
जे पनरे भेदे सिद्ध थया भगवंत, पंचमि गति
पुहतां अष्ट कर्म करि अंत ॥ कल अकल सरूपी
पंचानंतक जेह ॥ सिद्धना पाय प्रणमं बीजे पद
वलि एह ॥ ३ ॥ गच्छभार धुरंधर सुंदर शशि-
हर शोम, कर शारणावारण गुण छत्तीसे थोम ॥
श्रुत जांण शिरोमण सागर जेम गंभीर, तीजे
पद नमिये आचारज गुण धीर ॥ ४ ॥ श्रुतधर
गुण आगम सूत्र भणावे सार, तप विध संयोगे
भाखे अरथ विचार ॥ मुनिवर गुणयुत्ता ते कहिये
उवभाय, चोथे पद नमिये अहनिश तेहनां पाय
॥ ५ ॥ पंचाश्रव टाले पाले पंचाचार, तपसी गुण

धारी वारी विषय विकार ॥ त्रस थावर प्रीहर लो-
 कमांहि ते साध, त्रिविधे ते प्रणमं परमारथ
 जिण लाध ॥ ६ ॥ अरि हरि करि साइण डाइण
 भूत वेताल, सब पाप पणासे विलसे मंगलमाल ॥
 इण समस्यां संकट दूर टले ततकाल, जंपे जिण
 गुण इम सुरवर सीस रसाल ॥ ७ ॥

॥ श्रीसंखेश्वरा पार्श्वनाथ-स्तवनं ॥ (छंद)
 ॥ सेवो पास संखेसरो मन शुद्धे, नमं नाथ
 निश्चे करी एक बुधे ॥ देवी देवता अन्यने शुं
 नमो छो, अहो भव्य लोको मुला कां भमो छो ॥
 १ ॥ त्रैलोक्यना नाथने सुं तजो छो, पड्या पाश
 मे भूतडांने भजो छो ॥ सुराधेनु छंडी अजाने
 अजोछो, महापंथ मंकी कुपंथे ब्रजोछो ॥ २ ॥
 तजे कोण चिंतामणी काच माटे, ग्रहे कोण
 रशभने हस्ति साटे ॥ सुरद्रुम उपाडने आक वावे,
 महामूढ ते आकुला अंत पावे ॥ ३ ॥ किहां कांक
 रोने ज किहां मेरु शृंग, किहां केशरीने किहांते

कुरंग ॥ किहां विश्वनाथं किहां अन्य देवा, करो
 एक चित्ते प्रभु पार्श्व सेवा ॥ ४ ॥ पूजो देव प्र-
 भावती प्राणनाथं, सह जीवने करे सह सनाथं ॥
 महातत्व जाणी सदा जेह ध्यावे, तेहना दुख
 दालिद्र दूरे गमावे ॥ ५ ॥ पांसी मानुषीने, वृथा
 व्यु गमो छो, कुशीले करी देहने कां दमो छो,
 नहि मुक्ति वासं विना वितरागं ॥ भजो भगवंतं
 तजो दृष्टिरागं ॥ ६ ॥ उदय-रत्न भाखे महा
 हेत आणी, दयाभाव कीजे मोहि दास जाणी ॥
 मोरे आज मोतोअडे मेह छूठा, प्रभु पास
 संखेसरो आप तूटा ॥ ७ ॥

गौतम स्वामीका छोटा रास ॥

॥ वीर जिनेसर केरो शीश, गोतम नाम जपो
 निश दीश ॥ जो कीजे गौतमनो ध्यान, ते घर
 विलशे नवे निधान ॥ १ ॥ गौतम नामे गिरवर
 चढे, मन वंछित लीला संपजे ॥ गौतम नामे
 नावे रोग, गौतम नामे सर्व संजोग ॥ २ ॥ जे वैरी

विरुआ वंकड़ा तस नामे नावे हुंकड़ा ॥ भूत प्रेत
 नवी मंडे प्राण, ते गौतमना करूं वखाण ॥३॥ गौ-
 तम नामे निरमल काय, गौतम नामे वाधे आय ॥
 गौतम जिनशासन सिणगार, गौतम नामे जय२
 कार ॥२॥ शाल दाल सदा घृत घोल, मनवंछित
 कप्पड तंबोल ॥ घरे सुघरणी निरमल चित्त,
 गौतम नामे पूत्र विनीत ॥ ५ ॥ गौतम उदयो
 अविचल भांण, गौतम नाम जपो जगजाण ॥
 मोटा मंदिर मेरु समान, गौतम नामे सफल
 विहाण ॥ ६ ॥ घर मयगल घोड़ानी जोड़, वारु
 विलसे वंछित कोड़ि ॥ महियल माने मोटा राय,
 जो पूजे गौतमना पाय ॥ ७ ॥ गोतम प्रणम्यां
 पातिक टले, उत्तम सरसी संगत मिले ॥ गौतम
 नामे निर्मल ज्ञान, गौतम नामे वाधे वान ॥८॥
 पुण्यवंत अवधारो सह, गुरु गौतमना गुण छे
 वह ॥ कहे लावण्य समय कर जोड़ि, गौतम
 पूजा संपत को कोड़ि ॥ ९ ॥

॥ सोलह सतीश्रौंका छंद ॥
 आदिनाथ आदि देइ जिनवर वांटी, सफल
 मनोरथ कीजिये ए ॥ प्रभात ऊठी मंगलीक
 काजे, सोले सती नाम लीजिये ए ॥ १ ॥ बालकुमारी
 जग हितकारो, ब्राह्मी भरतनी बहिनड़ी ए ॥ घट
 २ व्यापक अन्नरूपे, सोल सती माहिजे वड़ी
 ए ॥ २ ॥ बाहुबल भगनी सतिय शिरोमणि,
 सुंदरी नामे ऋषभ सुता ए ॥ अंग स्वरूपी त्रिभु-
 वनमांहे, जेह अनोपम गुणयुता ए ॥ ३ ॥ चंदन-
 बाला बालपण्ठी, शीलवती शद्ध श्राविका ए ॥
 उड़दना बांकला वीर प्रति लाभ्या, केवल लहि-
 वत भाविका ए ॥ ४ ॥ उग्रसेन धूआ घारणी,
 नंदन राज्यमती नेम, वल्लभा ए ॥ योवन वेशे,
 कामने जीती, संजम लेइ देव दुल्लभा ए ॥ ५ ॥
 पंच भरतारी पांडव तारी, द्रुपदा नाम वखाणिये
 ए ॥ एकसो आठे चीर पुराणा, शोल महिमा तस-
 जाणिये ए ॥ ६ ॥ देशरथ नृपनी नारि निरोपम,

कौशल्या कुलचंद्रिका ए ॥ शीयल सल्लुणी राम
 जनीता, पुण्यतणी प्रणालिका ए ॥ ७ ॥ कौशां
 विक ठामे शतानिक नामे, राज्य करे रंग
 राजियो ए ॥ तस घर घरणी मृगावती नामे
 सुरभुवने जश गाजियो ए ॥ ८ ॥ सुलसा
 साची शील न काची, राची नही विषयारसें
 ए ॥ मुखडो जोतां पाप पुलाये, नाम लेतां मन
 उल्लसे ए ॥ ९ ॥ राम रघुवंशी जेहनी कामण.
 जनक सुता सीता सती ए ॥ जग सहू जांणे धीज
 करंता, अनल शीतल थयो शीलथी ए ॥ १० ॥
 काचे तांतण चालणी बांधी, कूवाथकी जल
 काढियो ए ॥ कलंक उतारवा सतिय सुभद्रां, चंपा
 वार उघाड़ियो ए ॥ ११ ॥ सुरनर वंदित शील
 अकंपित, शिवा शिवपद गांमनी ए ॥ जेहने नामे
 निरमल थइये, वलिहारी तसु नामनी ए ॥ १२ ॥
 हस्तिनागपुर पांडवरायनी, कूता नामे कामनी ए ॥
 पांडव माता दशे दशारनी, वहिन पतिव्रता प्रदे-

मनी ए ॥१३॥ शीलवती नामें शीलव्रत धारिणी,
त्रिविधे तेहने वंदीये ए ॥ नाम जपतां पातिक
जाए, दरसन दुरित निकंदि ए ॥१४॥ निषधान-
गरीं नल नरपतनी, दवदंती तसु गेहनी ए ॥ संकट
पड़ियां शीलज राख्यो, त्रिभुवन कीर्त्ति जेहनी ए
॥१५॥ अनंग अजीता जगजन जीता, पुष्पचूला ने
प्रभावती ए ॥ विश्व विख्याता कामित दाता, सो-
लमी सती पद्मावती ए ॥१६॥ वीरे दाखी शास्त्र
छे साखी, उदयरत्न भाषे मुदा ए ॥ प्रह ऊठीने
जे नर भणसै, ते लहिस्ये सुख-संपदा ए ॥ १७ ॥

॥ श्रावक-करणो की सभाय ॥

॥ चोपाइ ॥ श्रावक तूं ऊठे परभात, चार घड़ी
ले पाछली रात ॥ मनमां समरे श्री नवकार, जेम
पामे भव साथर पार ॥ १ ॥ कवण देव कवण
गुरुधर्म, कवण अमारुं छे कुलकर्म ॥ कवण अमारो
छे व्यवसाय, एवं चिंतवजे मन मांय ॥ २ ॥
सामायिक लेजे मन शुद्ध, धर्मनी हैडे धरजे

बुध ॥ पडिक्रमणं करे रथिणी तणुं, पातक आलोई
 आपणं ॥ ३ ॥ कायाशक्ते करे पंचवखाण, सूधि
 पाले जिननी आण । भणजे गणजे स्तवन् सभायं,
 जिणहं तो निस्तारो थाय ॥ ४ ॥ चितारे नित्य
 चउदे नीम, पाले दया जीवतां सीम ॥ देहरे जोई
 जुहारे देव, द्रव्यभावथी करजे सेव ॥ ५ ॥ पोषा-
 लें गुरु चंदन जाय, सुणो वखाण सदा चित्त
 लाय ॥ निर्दूषण सूजतो आहार, साधुने देजे
 सुविचार ॥ ६ ॥ स्वामीवत्सल करजे घणां, सग-
 पण महोटा साहंमीतणां ॥ दुःखीया हीणा दीना
 देखि, करजे तास दया सुविशेष ॥ ७ ॥ घर अनु-
 सारे देजे दान, महोटाशुं म करे अभिमान ॥
 गुरुने मुखे लेजे आखड़ी, धर्म न मूकीश एके
 घड़ी ॥ ८ ॥ वारु शूद्ध करे व्यापार, ओछा अधि-
 कानो परिहार ॥ म भरिश केनी कूडी साख, कूडा
 जनशुं कथन म भांख ॥ ९ ॥ अनंतकाय कहिये
 वत्रीश, अभक्ष्य वाविशे विश्वा वीस ॥ ते भक्षण

नवि कीजें क्रिमे, काचां कृवला फल मत जिमे । १० ।
 रात्रिभोजनना बहु दोष, जाणीने करजे संतोषः ॥
 साजी साबू लोहिने गुलो, मधु धावडी मत वेचो
 वलो ॥ ११ ॥ वली म करावे रंभण पास, दूषण
 घणां कद्यां छे तास ॥ पाणी गलजे बे बे वार,
 अणगल पीतां दोष अपार ॥ १२ ॥ जीवाणोनां
 करजे यत्न, पातक छंडो करजे पुण्य ॥ छाणां
 इंधण चूले जोय, वावरजे जिम पाप न होय । १३ ।
 घृतनी परें वावरजे नीर, अणगल नीर म धोइश
 चोर ॥ ब्रह्मव्रतं सूधुं पालजे, अतिचार सघला
 टालजे ॥ १४ ॥ कद्यां पन्नरे कर्मादान, पापतणी
 परहरंजे खाण ॥ किशुं म लेजे अनरथ दंड,
 मिथ्या मेल म भरजे पिंड ॥ १५ ॥ समकि-
 त शुद्ध हेडे राखजे, बोल विचारिने भांखजे ॥
 पांच तिथि म करो आरंभ, पालो शीयल तजो
 मन दंभ ॥ १६ ॥ तेल तक्र घृत दूधने दूहि,
 ऊघाडां मत मेलो मही ॥ उत्तम ठामें खरचो

वित्त, पर उपगार करो शुभवित्त ॥ १७ ॥ दिवस
 चरिम करजे चौविहार, चारे आहार तणो परि-
 हार । दिवस तणां आलोए पाप, जिम भांजे सघ-
 ला संताप ॥ १८ ॥ संध्यायें आवश्यक साचवे,
 जिनवर चरण शरण भव भवें ॥ चारे शरण करी
 दृढ होय, सागारी अणसण ले सोय ॥ १९ ॥
 करे मनोरथ मन एहवा, तीरथ शत्रुंजे जायवा ॥
 समेतशिखर आवू गिरनार, भेटीश हुं धन धन
 अवतार ॥ २० ॥ श्रावकनी करणी छे एह, एहथी
 थाये भवनो छेह ॥ आठे कर्म पड़े पातलां, पाप
 तणा छूटे आभला ॥ २१ ॥ वारु लहियें अमर
 विमान, अनुक्रमें पामे शिवपुर धाम ॥ कहे जिन-
 हर्ष घणं ससनेह, करणी दुःखहरणी छे एह ॥ २२ ॥

॥ गौतम स्वामीका चड़ा रास ॥

॥ वीर जिणोसर चरण कमल कमलाकय
 वासो, पणमवि पभणिसुं सामी साल गोयम
 गुरुरासो ॥ मणतण वयणो एकंद करवि निसु-

णहु भा भविया, जिम निवसे तुम देह गेह गुण
 गण गह गहिया ॥१॥ जंबुदीव सिरि भरहखित्त
 खोणी तल मंडण, मगहदेस सेणिय नरेस रिउ-
 दल बलखंडण ॥ धणवर गुठवर गाम नाम जि-
 हां गुणगणसजा, विप्प वसे वसुभूइ तत्थ तसु
 पुहवी भजा ॥ २ ॥ ताणपुत्त सिरइंद भूय भूव-
 लयप्रसिद्धो, चवदह विजा विवहरूव नारी रस
 लुद्धो ॥ विनय विवेक विचार सार गुण गणह
 मनोहर, सात हाथ सुप्रमाण देह रूवहि रंभा
 वर ॥ ३ ॥ नयणवयण कर चरण जणवि पंक-
 ज्जलपाडिय, तेजहिं तारा चंद सूरि आकास
 भमाडिय ॥ रूवहि मयण अनंग करवि
 मेल्यो निरधाडिय, धीरम मेरु गंभीर
 सिंधु चंगम चयचाडिय ॥ ४ ॥ पेखवि निरु-
 वम रूव जास जण जंपे किंचिय, एकाकी किल
 भीत्त इत्थ गुण मेल्या संचिय ॥ अहवा निच्चय-
 पुव्व जम्म जिणवर इण अंचिय रंभा पउमा

भाव्ररि गंग रतिहां विधि वचिय ॥ ५ ॥ नय बुध
 नय सर कविण कोय जसु आगल रहियो, पंच
 सयां गुण पात्र छात्र हींडे परवरियो ॥ करय
 निरंतर यज्ञ करम मिथ्यामति मोहिय, अणचल
 होसे चरमनाण, दंसणह विसोहिय ॥ ६ ॥
 वस्तु ॥ जंबूदीव जंबूदीव भरह वासम्मी खोणी
 तल मंडण, मगह देस सेणिय नरेसर, वरंगुवर
 गाम तिहां, विष्ण वसे वसुभूइ, संदर तसु पुंहवि
 भजा सयल गुण गण रूव निहाण, ताण पुत्त
 विजा निलो, गोयम अतिही सुजाण ॥ ७ ॥
 भास ॥ चरम जिनेसर केवलनाणी, चौविहसंघ
 पइट्टा जाणी ॥ पावापुरसामी संपत्तो, चउविह
 देव निकायहिं जुत्तो ॥ ८ ॥ देवहिं समवसरण
 तिहां किजे, जिण दीठे मिथ्यामत छीजे ॥ त्रिभु-
 वनगुरु सिंहासन वेठा, ततखिण मोह दिगंत
 पइट्टा ॥ ९ ॥ क्रोध मान माया मदपूरा, जाये
 नाठा जिम दिनचोरा ॥ देव दुन्दुभि आगासैं

वांजी, धरम नरेसर आव्यो गाजी ॥ १० ॥ कुसु-
मवृष्टि अरचे तिहां देवा, चउसठ इन्द्रज मांगे
सेवा ॥ चामर छत्र सिरोवरि सोहे, रूवहि जिन-
वर जग म्हु मोहे ॥ ११ ॥ उपसम रसभर वर-
वरसंता, जोजनवाणि वखाण करंता ॥ जाणवि
वर्द्धमान जिण पाया, सुर नर किन्नर आवइ
राया ॥ १२ ॥ कंत समोहियजलहलकंता, गयण
विमाणहि रणरणकंता ॥ पेखवि इन्द्रभूइ मन
चिंते, सुर आवे अमयज्ञ हुवंते ॥ १३ ॥ तीरतरं
डक जिम ते वहिता, समवसरण पुहता गहग-
हिता ॥ तो अभिमाने गोयम जंपे, इण अवसर
कोपे तणु कंपे ॥ १४ ॥ मूढा कोक अजाणयुं
बोले, सुर जाणंता इम कांड डोले ॥ मो आगल
कोइ जाण भणीजे, मेरु अवर किम उपमा दीजे
॥ १५ ॥ वस्तु ॥ वीर जिणवर विर जिणवर ना
ण संपन्न पावापुर सुरमहियं, पत्तनाह संसारता
रण ॥ तिहिं देवइ निम्महियं, समवसरण बहु

सुख कारण ॥ जिणवर जग उज्जोय करे, ते-
 जहि कर दिन कार सिंहासण सामी ठव्यो, हुओ
 तो जयजयकार ॥ १६ ॥ भास ॥ तो चढियो
 घणमाण गजे, इन्द्रभूय भूयदेव तो ॥ हुंकारो
 करसंचरिय, कवणसु जिणवर देव तो ॥ जोजन
 भूमि समोसरण, पेखवि प्रथमारंभ ॥ तो दह-
 दिसि देखे विबुधवधू, आवंती सुररंभ तो ॥ १७ ॥
 मणिमय तोरणदंड ध्वज, कोसीसे नवघाट तो ॥
 वयर विवर्जित जंगुगण, प्रातीहारिज आठ तो ॥
 सुर नर किन्नर असुरवर, इन्द्र इन्द्राणी राय तो ॥
 चित्त चमक्रिय चिन्तव ए, सेवंतां प्रभु पाय तो
 ॥ १८ ॥ सहस किरण सामी वीरजिण, पेखिअ
 रूप विसाल तो ॥ एह असंभव संभव ए, साचो
 ए इन्द्र जाल तो ॥ तो बोला वइ त्रिजग गुरु, इन्द्र-
 भूइ नामेण तो ॥ श्रीमुख संसा सामि सवे, फेड़े
 वेद पएण तो ॥ १९ ॥ मान मेल मद टेल करे,
 भगतहिं नाम्यो सीस तो ॥ पंच सयांसं व्रत

लियो ए, गोयम पहिलो सोस तो ॥ बंधव सं-
जम सुणवि करे, अगनि भूइ आवेय-तो ॥ नाम
लेइ आभास करे, ते पण प्रतिबोधेय तो ॥ २० ॥
इण अनुक्रम गणहररण, थाप्या वोर इग्यार
तो ॥ तो उपदेसे भुवन गुरु, संयमशुं व्रत बार
तो ॥ बिहुं उपवासें पारणो ए, आपणपें विरहंत
तो, गोयम संयम जग सयल, जय जय कार
करंत तो ॥ २१ ॥ वस्तु ॥ इन्द्रभूइ इंद्रभूइ चढि-
यो बहुमान हुंकारो करि कंपतो, समवसरण पहु
तो तुरंतो ॥ जे संसा सामि सवे, चरमनाह फेडे
फुरंततो ॥ बोधबीज सज्जायमनें, गोयम भवहि
विरत्त ॥ दिक्ख लेई सिक्खा सही, गणहरपय-
संपत्त ॥ २२ ॥ भास ॥ आज हुओ सुविहाण,
आज पचेलिमां पुण्य भरो ॥ दोठा गोमय सा-
मि, जो नियनयणें अमिय भरो ॥ समवसरण
मभार, जेजे संसा ऊपजे ए ॥ तेते पर उपगार,
कारण पूछे मुनि पवरो ॥ २३ ॥ जीहां दीजें

दोख, तिहां केवल उपजे ए ॥ आप कनें अण-
 हुंत, गोयम दीजे दान ईम ॥ गुरु ऊपर गुरु
 भक्ति, सामी गोयम उपनिय ॥ अणचल केवल
 नाण, रागज राखे रंग भरे ॥ २४ ॥ जो अष्टा-
 पद सेल, वंदे चढ चउवीस जिण ॥ आतम ल-
 विध वसेण, चरम सरीरी सोज मुनि ॥ इय देस
 णा निसुणेह, गोयम गणहर संचरिय ॥ तापस
 परसएण, जा मुनि दीठो आवतो ए ॥ २५ ॥
 तपसो सियनिय अंग, अह्मां सगति न उपजे
 ए ॥ किम चढसे दृढ काय, गज जिम दीसे गा
 जतो ए ॥ गिरुओ ए अभिमान, तापस जो मन
 चिन्तवे ए ॥ तो मुनि चढियो वेग, आलववि
 दिनकर किरण ॥ २६ ॥ कंचण मणि निप्पन्न.
 दंड कलस ध्वज वड सहिय ॥ पेखवि परमाणंद,
 जिणहर भरतेसर महिय ॥ निय निय काय प्र-
 माण, चिहुं दिसि संठिय जिणह विंव ॥ पणमवि
 मन उल्लास, गोयम गणहर तिहां वसिय ॥ २७ ॥

वयर सामिनो जीव, तीर्थकजृंभक देव तिहां ॥
 प्रति बोध्या पुंडरीक, कंडरीक अध्ययन भणी ॥
 वलतां गोयम सामि, सवि तापस प्रतिबांध
 करे ॥ लेई आपण साथ, चाले जिम जथा
 धिपति ॥ २८ ॥ खीर खांड घृत आण, अमोय
 बूठ अंगूठ ठवे ॥ गोयम एकण पात्र, करावे
 पारणो सवे ॥ पंचसयां शुभ भाव, उज्जल भरि-
 यो खीर मिसे ॥ साचा गुरुसंयोग, कवल ते के-
 वल रूप हुआ ॥ २९ ॥ अंचसयां जिणनाह, सम
 वसरण प्राकारत्रय ॥ पेखवि केवल नाण, उप्प-
 न्नो उज्जोय करे ॥ जाणे जणवि पीयूष, गाजंती
 घन मेघ जिम ॥ जिनवाणी निसुणेवि, नाणी
 हुआ ॥ पंचसया ॥ ३० ॥ वस्तु ॥ इण अनुक्रम
 इण अनुक्रम नाण पन्नरेसें, उपन्न परिवरिय,
 हरिदुरिय जिणनाह वंदइ, जाणेवी जग गुरु वयण,
 तिहिं नाण अप्पाण निंदइ, चरमजिनेसर इम
 भणे, गोयम म करिस खेव, छेह जाय आ-

पण सही, होस्यां तुल्ला वेव ॥ ३१ ॥ भास ॥
 सामियो ए वीर जिणंद, पूनमचंद जिम उल्ल-
 सिय ॥ विहरियो ए भरहवासंमि, वरस बहुत्तर
 संवसिय ॥ ठव तो ए कणय पउमेण, पायक-
 मल संघें सहिय ॥ आवियो ए नयनानन्द,
 नयर पावापुर सुरमहिय ॥ ३२ ॥ पेखियो ए गोय-
 मसामि, देवसमा प्रतिबोध करे ॥ आपणो ए
 त्रिशलादेवि, नंदन पुहतो पर मपए ॥ वलतो ए
 देव आकाश, पेखवि जाणयो जिण समे ए ॥
 तो मुनि ए मनविखवाद, नादभेद जिम उपनो
 ए ॥ ३३ ॥ इण समे ए सामिय देखि, आपक-
 नासूं टालियो ए ॥ जाण तो ए तिहु अण नाह,
 लोक विवहार न पालियो ए ॥ अतिभलो ए
 कीधलो सामि, जाणयो केवल मांगसे ए ॥ चिंत-
 व्यो ए बालक जेम, अहवा केडें लागसे ए
 ॥ ३४ ॥ हूं किम ए वीर जिणंद, भगतहिं भोलें
 भोलव्यो ए ॥ आपणो ए उँचलो नेह, नाह न

संपे साँचव्यो ए ॥ साँचो ए ए वीतराग, नेह न
हेजेँ टालियो ए ॥ तिणसमे ए गोयम चित्त,
राग वैरागेँ वालियो ए ॥ ३५ ॥ आवतो ए जो
उल्लङ्ग, रहितो रागेँ साहियो ए ॥ केवल ए नाण
उप्पन्न, गोयम सहिज उमाहियो ए ॥ तिहुअण
ए जयजयकार, केवल महिमा सुर करे ए ॥
गणधरु ए करय वखाण, भविया भव जिम निस्तरे
ए ॥ ३६ ॥ वस्तु ॥ पढम गणहर पढम गणहर वरस
पच्चास, गिहवासें संवसिय तीसवरससंजम विभू-
सिय; सार केवलनाणपुण, बार वरस तिहुअण
नमंसिय, राजगृही नयरी ठव्यो, वाणवइ वरसाउ,
सामी गोयम गुणनिलो, होसे सिवपुर ठाउ
॥ ३७ ॥ भास ॥ जिम सहकारें कोयल टहुके,
जिम कुसुमावन परिमल महके, जिम चंद्रन सौ-
गंधनिधि ॥ जिम गंगाजल लहियां लहके, जिम
कणयाचल तेजेँ भलके, तिम गोयम सोभाग-
निधि ॥ ३८ ॥ जिम मानसरोवर निवसे हंसा,

जिम सुरतरुवइ कणायवलंसा, जिम महुर
 राजीववने ॥ जिम रयणायर रयणं विलसे, जिम
 अंबर तारागण विकसे, तिम गोयम गुरु केल
 घने ॥ ३६ ॥ पूनमनिसि जिम ससियर सोहे,
 सुरतरु महिमा जिम जगमांहे, पूरव दिसि जिम
 सहसकरो ॥ पंचानन जिम गिरिवर राजे, नर वइ
 घर जिम मेगल गाजे, तिम जिनशासन मुनि
 पवरो ॥ ४० ॥ जिम गुरु तरुवर सोहे साखा,
 जिम उत्तम मुख मधुरी भाषा, जिम वन केतकि
 महमहे ए ॥ जिम भूमीपती भुयवल चमके,
 जिम जिनमंदिर घंटा रणके, गोयमलत्रधे गह-
 गह्यो ए ॥ ४१ ॥ चिंतामणि कर चढोयो आज,
 सुरतरु सारे वंछिय काज, कामकुंभ सहु वशि
 हुआ ए ॥ काम गवी पूरे मन कामी, अष्टमहा-
 सिद्धि आवे धामी, सामी गोयम अणसरी ए ॥
 ॥ ४२ ॥ प्रणव अजर पहिलो पभणी जें, माया
 बीजो श्रवण सुणी जें ॥ श्रीमिति साभा संभवां

ए ॥ देवां धुर अरिहंत नमीजें, विनय पहू
 उवभाय शुणीजें, इण मंत्रें गोयम नमो ए ॥४३॥
 परघर वसतां काय करीजे, देस देसांतर काय
 भमी जें, कवण काज आयास करो ॥ प्रह ऊठी
 गोयम समरीजें, काज समग्गल ततखिण
 सीभे, नवनिधि विलसे तिहां घरे ए ॥ ४४ ॥
 चवदयसय बारोत्तर वरसें, गोयम गणहर केवल
 दिवसें, कीयो कवित उंपगारपरो ॥ आदहिं
 मंगल ए पभणीजें, परव महोच्छव पहिलो दीजें,
 रिद्धि-वृद्धि कल्याण करो ॥ ४५ ॥ धन माता
 जिण उयरे धरियो, धन्य पिता जिण कुल अव-
 तरियो, धन्य सुगुरु जिण दीक्खियो ए ॥ विन-
 यवंत विद्या भंडार, तसु गुण पुहवी न लब्भइ
 पार, बड जिम साखा विस्तरो ए ॥ गोयमस्वा-
 मोनो रास भणीजें, चउविह संघ रलियायत
 कीजें, रिद्धि-वृद्धि कल्याण करो ॥ ४६ ॥ कुंकुम
 चन्दन छडो दिवरावो, माणक मोतीना चोक

तहतीकः॥ विमलाचलने करूं प्रणाम, ए सेत्रुं-
 जैना इकवीस नाम ॥ १ ॥ सुरगिरिने महागिरि
 पुण्यरास, श्रीपदपर्वत इंद्रप्रकाश ॥ महातीरथ
 पूरवे सुखकाम ॥ ए० ॥ २ ॥ सासतो पर्वतने
 दृढशक्ति, मुक्तिनिलो तिण कीजे भक्ति ॥
 पुष्पदन्त महापद्म सुठांम ॥ ए० ॥ ३ ॥ पृथ्वी
 पीठ सुभद्र कैलाश, पातालमूल अकर्मक तास ॥
 सर्व काम कीजे गुणग्राम ॥ ए० ॥ ४ ॥ श्रीशत्रुंजयना
 इकवीस नाम, जपेज वेठा अपने ठांम ॥ शत्रुंजय
 जात्रानो फल ते लहे, महावीर भगवन्त इम
 कहे ॥ ए० ॥ ५

॥ दूहा ॥ सेत्रुंजो पहिले अरे, असी जोयण
 परिमाण ॥ पिहुलो मूल उंचपण, छवीस
 जोयण जांण ॥ १ ॥ सत्तर जोयण जांणवो,
 बीजे अरे विसाल ॥ वीस जोयण उंचो कह्यो,
 मुक्त वन्दना त्रिकाल ॥ २ ॥ साठ जोयण तीजे
 अरे, पिहुलो तीरथराय ॥ सोल जोयण उंचो

सही, ध्यान धरुं चित लाय ॥ ३ ॥ पचास
जोयण पिहुलपण, चोथे अरे मभार, उंचो दस
जोयण अचल, नित प्रणमें नर नार ॥ ४ ॥ बार
जोयण पंचम आरे, मूलतणै विसतार ॥ दो
जोयण उंचो अछे, सेत्रुओ तीरथ सार ॥ ५ ॥
सात हाथ छठे आरे, पिहुलो परवत एह ॥ उंचो
होस्ये सो धनुष, सासतो तीरथ एह ॥ ६ ॥

दूसरी ढाल ।

केवलनांणो प्रमुख तीर्थकर, अनन्त सीधा
इण ठाम रे ॥ अनन्त वली सिभस्ये इण ठामे,
तिण करुं नित परणाम रे ॥ १ ॥ शत्रुअय साधू
अनन्ता सीधा, सीभसी वलिय अनन्त रे ॥
जिण शत्रुअय तीरथ नही भेद्यो, ते गरभावास
कहन्तरे ॥ से० ॥ २ ॥ फागुण सुदि आठमने
दिवसे, ऋषभदेव सुखकार रे ॥ रायणरुंख
समोसख्या स्वांमी, पूर्व निनाणू वार रे ॥ से० ॥
३ ॥ भरतपुत्र चैत्री पुनम दिन, इण सेत्रंज-

गिरि आय रे ॥ पांच कोडीसुं पुंडरीक सीधा,
 तिण पुंडरीक कहाय रे ॥ से० ॥ ४ ॥ नमि
 विनमी राजा विद्याधर, वे वे कोडो संघात रे ॥
 फागुण सुद दशमी दिन सीधा, तिण प्रणमुं
 परभात रे ॥ से० ॥ ५ ॥ चैत्रमास वदि चौदसने
 दिन, नमीपुत्री चउसट्टि रे ॥ अणसण कर शत्रुं-
 जयगिर ऊपर, ए सहु सीधा एकट्टि रे ॥ से० ॥ ६ ॥
 पोतरा प्रथम तीर्थकर केरा, द्रावड ने वारिखिल्ल
 रे ॥ कातो सुदि पूनम दिन सोधा, दश कोडी
 मुनिसुं निसल्ल रे ॥ से० ॥ ७ ॥ पांचे पांडव इण
 गिर सीधा, नव नारद ऋषिराय रे ॥ संव प्रज्जन्न
 गया इहां मुगते, आठू कर्म खपाय रे ॥ से०
 ॥ ८ ॥ नेम विना तेविस तीर्थकर, समवसस्या
 गिरिशृङ्गरे ॥ अजित शान्ति तीर्थकर वेहूं, रह्या
 चोमासे सुरङ्ग रे ॥ से० ॥ ९ ॥ सहस साधु
 परिवार संघाते, थावच्चासुत साथ रे ॥ पांचसें
 साधुसुं सेल्लग मुनिवर, शत्रुंजय शिवसुख लाध

रे ॥ से० ॥ १० ॥ असंख्याता मुनि शत्रुंजय
सीधा, भरतेसरने पाट रे ॥ राम अने भरतादिक
सीधा, मुक्तितणी ए वाट रे ॥ से० ॥ ११ ॥
जालि मयालीने उवयाली, प्रमुख साधुनी कोडि
रे ॥ साधु अनंता शत्रुंजय सीधा, प्रणमुं बे कर
जोडि रे ॥ से० ॥ १२ ॥

तीसरी ढाल—चौपाइकी ।

॥ शत्रुंजयना कहं सोल उच्चार, ते सुणज्यो
सहुको सुविचार ॥ सुणतां आणंद अङ्ग न माय,
जनमरना पातिक जाय ॥ १ ॥ ऋषभदेव अयो-
ध्यापुरी, समवसखा स्वामी हित करी ॥ भरत
गयो वन्दणने काज, ये उपदेश दियो जिनराज
॥ २ ॥ जगमांहे मोटा अरिहन्त देव, चोसठ
डंढ करे जसु सेव ॥ तेहथी मोटो संघ कहाय,
जेहने प्रणमें जिनवरराय ॥ ३ ॥ तेहथी मोटो
संघवी कह्यो, भरत सुणीने मन गहगह्यो ॥ भरत
कहे ते किम पांमिये, प्रभु कहे शत्रुंजय जात्रा

किये ॥ ४ ॥ भरत कहे संघवीपद मुझ, थे आपो
 हूं अंगज तुझ ॥ इन्द्रे आर्या अक्षतवास, प्रभु
 आपे संघवीपद तास ॥ ५ ॥ इन्द्रे तिण वेला
 ततकाल, भरत सुभद्रा विहुंने माल ॥ पहिरावी
 घर संप्रेडोया, सकल सोनाना रथ आपिया ॥६॥
 रिषभदेवनी प्रतिमा वली, रत्नतणी दीधी मन
 रली ॥ भरते गणधर घर तेडिया, शांतिक पौष्टिक
 सहु तिहां किया ॥ ७ ॥ कंकोत्री मूकी सहु देस,
 भरत तेडायो संघ असेस ॥ आयो संघ अयो-
 ध्यापुरी, प्रथमथकी रथजात्रा करी ॥ ८ ॥ संघ
 भक्ति कीधी अतिघणी, संघ चलायो शत्रुंजय
 भणी ॥ गणधर वाहूवल केवली, मुनिवर कोड
 साथे लिया वली ॥ ९ ॥ चक्रवर्त्तिनी सघली
 च्छि, भरते साथे लीधी सिद्ध ॥ हय गय रथ
 पायक परिवार, ते तो कहतां नावे पार ॥ १० ॥
 भरतेसर संघवी कहवाय, मारग चैत्य ऊधरतो
 जाय ॥ संघ आयो सेत्रुंजा पास, सहुनी पूर्णी

मननी आस ॥ ११ ॥ नयणे निरख्यो सेत्रुंजाराय,
मणि माणिक मोत्यांसुं वधाय ॥ तिण ठांमे रही
महोछव कियो, भरते आणंदपुर वासियो ॥ १२ ॥
संघ शत्रुंजय ऊपर चढ्यो, फरसंता पातिक झड़
पढ्यो ॥ केवलग्यानी पगला तिहाँ, प्रणाम्यां राय-
णरूख छे जिहां ॥ १३ ॥ केवलज्ञानी स्नात्र नि-
मित्त, ईशानेंद्र आणी सुपवित्त ॥ नदी सेत्रुंजे
सोहामणी, भरते दीठी कौतुक भणी ॥ १४ ॥
गणधरदेव तणे उपदेश, इंद्रे वलि दीधो आदेश ॥
श्रीआदिनाथतणो देहरो, भरत करार्या गुरिसे-
हरो ॥ १५ ॥ सोनानो प्रसाद उत्तंग, रतनतणी
प्रतिमा मनरंग ॥ भरते श्री आदिसरतणी,
प्रतिमा थापी सोहामणी ॥ १६ ॥ मरुदेवानी
प्रतिमा वली, माही पूनम थापी रली ॥ ब्राम्ही
सुन्दरि प्रमुख प्रसाद, भरते थाप्या नवला नाद
॥ १७ ॥ इम अनेक प्रतिमा प्रसाद, भरते क-
राया गुरु सुप्रसाद ॥ भरततणो पहिलो उद्धार,
सगलोही जाणे संसार ॥ १८ ॥

चौथी ढाल—राग सिंधूडो आशावरी ।

भरततणे पाट आठमें, दंडवीरज थयो रायो
 जी ॥ भरततणी पर संघ कियो, सेत्रुंजा संघवी
 कहायो जी ॥१॥ शत्रुंजय उद्धार सांभलो, सोल
 मोटा श्रीकारो जी ॥ असंख्यात वीजा वली, तेन
 कहुं अधिकारो जी ॥ से० ॥ २ ॥ चैत्य करायो
 रूपातणो, सोनानो विंव सारो जी ॥ मूलगो
 विव भंडारीयो, पछिमदिसि तिण वारो जी ॥
 से० ॥३॥ शत्रुंजयनी जात्रा करी, सफल कियो
 अवतारो जी ॥ दंडवीरज राजातणो, ए वीजो
 उद्धारो जी ॥ से० ॥ ४ ॥ सो सागरोपस व्यति-
 क्रम्या, दंडवीरज थी जीवाडो जो । इशानेन्द्र करा-
 वियो, ए तीजो उद्धारो जी ॥ से० ॥ ५ ॥ चौथा
 देवलोकनो धणी, माहेंद्र नास उदारो जी ॥
 तिण सेत्रुंजानो करावियो, ए चोथो उद्धारो जी
 ॥ से० ॥ ६ ॥ पांचमा देवलोकनो धणी, ब्रह्मेंद्र
 समकितधारो जी ॥ तिण सेत्रुंजानो करावियो,

ए पांचमो उद्धारो जी ॥ से० ॥ ७ ॥ भुवनपती
इंद्रनो कियो, ए छठो उद्धारो जी ॥ चक्रवर्त्ति
सगरतणो कियो, ए सातमो उद्धारो जी ॥ से० ॥
८ ॥ अभिनंदन पासो सुणयो, शत्रुंजयनो अधि-
कारो जी ॥ व्यंतरइंद्र करावियो, ए आठमो उ-
द्धारोजी ॥ से० ॥ ९ ॥ चंद्रप्रभु स्वामीनो पोतरो,
चंद्रशेखर नाम मल्हारो जी ॥ चंद्रयशरोय करा-
वियो, ए नवमो उद्धारोजी ॥ से० ॥ १० ॥ शांति-
नाथनी सुणो देशना, शांतिनाथसुत सुविचागो
जी ॥ चक्रधरराय करावियो, ए दशमो उद्धारो
जी ॥ से० ॥ ११ ॥ दशरथसुत जगदीपतो, मुनि-
सुव्रतस्वामी वारो जी ॥ श्रीरामचंद्र करावियो,
ए इग्यारमो उद्धारो जी ॥ से० ॥ १२ ॥ पांडव
कहे अमे पापिया, किम छूटा मोरी मायो जी ॥
कहे कुंती शत्रुंजयतणी, जात्रा कियां पाप जायो
जी ॥ से० ॥ १३ ॥ पांचे पाण्डव संघ करी, शत्रुंजय
भेक्ष्यो अपारो जी, काष्ठ चैत्य विंब लेपना, ए

वारमो उद्धारोजो ॥ से० ॥ १४ ॥ मम्माणो पा-
 खाणनो, प्रतिमा सुन्दर सरूपो जी ॥ श्रीशत्रुं-
 जयनो संघ करी, थापी सकल सरूपो जी ॥ से०
 ॥ १५ ॥ अट्टोतर सो वरसां गया, विक्रम नृपथी
 जिवारो जी ॥ पोरवाड जावड करावियो, ए तेर-
 तेरमो उद्धारो जी ॥ १६ ॥ से० ॥ संवत वार
 तिडोतरे, श्रीमाली सुविचारो जी, वाहडदे मुं-
 हते करावियो, ए चवदमो उद्धारोजी ॥ १७ ॥
 से० ॥ संवत तेरे इकोतरे, देसलहर अधिकारो
 जी ॥ समरेसाह करावियो, ए पनरमो उद्धारो
 जी ॥ १८ ॥ से० ॥ संवत पनर सत्यासिये,
 वैसाख वदि शुभ वारो जी ॥ करमे दोसी करा-
 वियो, ए सोलमो उद्धारो जी ॥ १९ ॥ से० ॥
 संप्रति काले सोलमो, ए वरते छे उद्धारो जी ॥
 नित नित कीजे वन्दना, पांमीजे भवपारो जी ॥
 २० ॥ से० ॥

॥दूहा॥ वलि शत्रुंजय महातम कहूं, सांभलो

जिम छे तेम ॥ सूरि धनेसर इम कहे, महावीर
 कह्यो एम ॥ १ ॥ जेहवो तेहवो दर्शनी, सेत्रुंजे
 पूजनीक ॥ भगवन्तनो भेष मानता, लाभ हुवे
 तहतीक ॥ २ ॥ श्रीसेत्रुंजा ऊपरे, चैत्य करावे
 जेह ॥ दल परमाण समो लहे, पल्योपम सुख
 तेह ॥ ३ ॥ सेत्रुंजा ऊपर देहरो, नवो नीपावे
 कोय ॥ जोर्णोद्धार करावतां, आठ गुणो फल
 होय ॥ ४ ॥ सिर ऊपर गागर धरी, स्नात्र करावे
 नार ॥ चक्रवर्तिनी स्त्री थई, शिवसुख पामे सार
 ॥ ५ ॥ काती पूनम सेत्रुंजे, चढिने करे उपवास ॥
 नारकी सो सागर समो, करे करमनो नास
 ॥ ६ ॥ काती परब मोटो कह्यो, जिहां सीधा
 दश कोड़ि ॥ ब्रह्म स्त्री वालक हत्या, पापथी
 नाखे छोड़ ॥ ७ ॥ सहस लाख श्रावक भणी, भो
 जन पूण्य विशेष ॥ शत्रुंजय साधु पड़िलाभतां,
 अधिको तेहथी देख ॥ ८ ॥

अवतार ॥१॥ से० छह री पालतां चालिये ए
 सेत्रुंजा केरी वाट ॥ से० ॥ पालीताणे पोहचिये
 ए, सङ्ग मिल्या बहु थाट ॥ से० ॥ २ ॥ ललित
 सरोवर पेखिये ए, वलि सत्तानी वावि ॥ तिहां
 विसरांमो लोजिये ए, वडने चोंतरे आवि ॥ ३ ॥
 से० ॥ पालीताणे पाजडी ए, चढिये ऊठ परभात ॥
 सेत्रुंजानदिय सोहामणी ए, दूरथकी देखन्त
 ॥ से० ॥ ४ ॥ चढिये दिङ्गलाजने हडे ए, कलि-
 कुंड नमिये पास ॥ वारीमांहे पैसीये ए, आणी
 अङ्ग उल्लास ॥ से० ॥ ५ ॥ मरुदेवीदूंक मनोहरू
 ए, गज चढी मरुदेवी माय ॥ शान्तिनाथ जिण
 सोलमो ए, प्रणामीजे तसु पाय ॥ से० ॥ ६ ॥
 वंस पोरवाडे परगडो ए, सोमजी साह मलार ॥
 रूपजी संघवी करावियो ए, चौमुख मूल उद्धार
 ॥ से० ॥ ७ ॥ चौमुख प्रतिमा चरचिये ए, भम-
 तीमांहे भला दिंब ॥ पांचे पांडव पूजिये ए, अद-
 भुत आदि प्रलंब ॥ ८ ॥ से० ॥ खरतरवसही

खंतसूं ए, बिंब जुहारुं अनेक ॥ नेमनाथ चवरी
नमूं ए, टालं अलग उदेग ॥ से० ॥ ६ ॥ धरम
दुवारमांहिं नीसरुं ए, कुगति करुं अतिदूर ॥
आउं आदिनाथ देहरे ए, करम करुं चकचूर ॥
से० ॥ १० ॥ मूलनायक प्रणमूं मुदा ए, आदि-
नाथ भगवंत ॥ देव जुहारुं देहरे ए, भमतीमांहे
भमंत ॥ से० ॥ ११ ॥ शत्रुंजय ऊपर कीजिये ए,
पांचे ठाम स्नात्र ॥ कलश अठोतर सो करिये,
निरमल नीरसु गात्र ॥ से० ॥ १२ ॥ प्रथम आ-
दीसर आगले ए, पुंडरीक गणधार ॥ रायण
तल पगला नमूं ए, चोमुख प्रतिमा च्यार ॥ १३
से० ॥ रायण तल पगला नमूं ए, चोमुख प्र-
तिमा च्यार ॥ बीजी भूमि बिंबावली ए, पुंड-
रीक गणधार ॥ १४ ॥ से० ॥ सूरजकुंड निहा-
लिये ए, अति भली उलकाभोल ॥ चेलणतलाइ
सिद्ध शिला ए, अंग फरसुं उल्लोल ॥ १५ ॥
से० ॥ आदिपुर पाजे उतरुं ए, सिद्धवडलूं वि-

सराम ॥ चैत्यप्रवाड़ी इण पर करी ए, सीधा
 वंछित काम ॥ से० ॥ १६ ॥ जात्रा करो, सेत्रुं-
 जातणी ए, सफल कियो अवतार ॥ कुसल
 चेमसुं आवियो ए, संघ सहू परवार ॥ से० ॥
 १७ ॥ शत्रुंजय रास सोहामणो ए, सांभलज्यो
 सहू कोय ॥ घर वेठां भणो भावसुं ए, तसु या-
 त्रा फल होय ॥ से० ॥ १८ ॥ संवत सोल बया-
 सिये ए, श्रावण वदि सुखकार ॥ रास रच्यो
 सेत्रुंजातणो ए, नगर नागोर मभार ॥ से० ॥
 १९ ॥ गिरुवो गच्छ खरतर तणो ए, श्रीजिन-
 चंद सूरीस, प्रथम शिष्य श्रीपूजना ए, सकल-
 चंद सुजगीस ॥ से० ॥ २० ॥ ताससीस जग
 जांणिये ए, समयसुंदर उवभाय ॥ रास रच्यो
 तिण रुवडो ए, सुणातां आणंद थाय ॥ से० ॥
 २१ ॥ इति श्रीशत्रुंजयरास संपूर्णम् ॥

सम्मेत शिखरजीका रास ।

दुहा ॥ वादी वीस जिनेसरू, रचस्युं रास
 रसाल । तीरथ शिखरसमेतनी, महिमा बड़ी
 विशाल ॥ १ ॥ मोटो तीरथ महियले, प्रगट्यो
 शिखरसमेत । कोड़ाकोड़ी मुनिवरू, सिद्ध गए
 इह खेत ॥ २ ॥ तीरथ शिखरसमेत ए, फरस्या
 पाप पुलाय । भविजन भेटो भावसुं, ज्युं सुख
 संपद थाय ॥ ३ ॥ महिमा शिखरसमेतनी, कहि
 न सके कवि कोय । गुण अनंत भगवंतना,
 तिम ए तीरथ होय ॥ ४ ॥

पहली ढाल चोपाई की ।

गिरवर शिखर समो नहि कोय, एहनी म-
 हिमा सब जग होय । वीस जिनेसर मुगते
 गया, मुनिजन ध्यान धरीने रह्या ॥ १ ॥ प्रथम
 अयोध्यानगरी भली, तिहां जितशत्रु नरेसर
 वली । विजयाराणीने सुत जांण, अजितकुमर

सहु गुणनी खाण ॥ २ ॥ जसु इन्द्रादिक सेवा
करे, इन्द्राणी अति उच्छव धरे । तीर्थकरनी प-
दवी लही, अंतर अरि जिण साध्या सही ॥३॥
अनुक्रम इम भोगवतां भोग, पुन्य प्रसाद मिल्यो
सहु जोग । अवसर दे संवत्सरी दान, संजम
लीनो आप सुजाण ॥ ४ ॥ कर्म खपावी पांम्यो,
ज्ञान, केवलदर्शन लह्यो प्रधान । विचरे पुहर्वा-
मंडलमांहि, भव्यजीव प्रतिबोधन ताहि ॥ ५ ॥
सिंहसेनादिक गणधर भया, पंचाणवे संख्या
सहु थया । एक लाख मुनिवर परिवर्या, श्रावक
श्रावकणी सहु कस्या ॥ ६ ॥ तीन लाख वलि
तास हजार, साधवियां जाणो सुविचार ॥ श्रा-
वक सहस अट्टाण सही, दोय लाख संख्या गह-
गही ॥ ७ ॥ पांच लाख पेंतालीस हजार, श्राव-
कणी संख्या सुविचार । बहुत्तर लाख पूरवनों
आय, कंचनवरण सरीर सुहाय ॥८॥ साढीच्या-
रसे धनुष सरीर, मान लह्यो प्रभु गुण गंभार ।

गज लांछन प्रभुजीने जांण, अमृत सम जसु
मीठी वांण ॥६॥ अनुक्रम प्रभुजी शिखरसमेत,
गिरवर पर आव्या निज हेत । सहस मुनिवरने
परिवार, मासखमण अणस ग कर सार ॥ १० ॥
चैत्री सुदि पूनमने दिने, मुक्ति गये प्रभु तीरथ
इणे । भूचर खेचर किन्नर सुरी, इन्द्रादिक स-
हु उच्छव करी ॥ ११ ॥ थाप्यो तीरथ मोटोमही,
अठाइ महोच्छव कियो सही । ए तीरथनी जा-
त्रा करे, ते भवियण अक्षयसुख वरे ॥ १२ ॥

दूहा ॥ श्रीसंभव जिनराज जी, गए इहां
निर्वाण । शिखरसमेत सुहामणो, प्रगढ्यो तीरथ
जांण ॥ १ ॥

दूसरी ढाल—सुगण संनेही साजन श्रीसीमंधरे स्वाम—ए देशी ।

सावत्थीनगरी भरी धन संपद बहु थोक,
जैतारि नृप राज करै सुखियां सब लोक । सेना-
राणी मीठी वाणी गुणानी खाण, जेहने सुत श्री
संभव जनम्या सकल सुजाण ॥ १ ॥ कंचनवरण

सरीर मनोहर प्रभुनो जाण, लंछन अंश्वतणो
सोहे प्रभुनो परधान । साठ लाख पूरवनो प्र-
भुनो आयु प्रमाण, धनुष च्यारसै उच्च पणै प्रभु
देह वखाण ॥ २ ॥ एकसो दोय संख्याये प्रभुने
गणधर होय, दोय लाख मुनि जेहनै गुणवरता
जग जोय । तीन लाख श्रमणी वली ऊपर स-
हस छत्तीस, भूमंडल विचरे प्रभु श्रीसंभव जग-
दीस ॥३॥ तीन लाख वलि सहस त्रयाण् श्रा-
वकलोक, षट लाख सहस छत्तीस श्रावकणी सं-
ख्या थोक । त्रिमुखयत्त अरु दुरितादेवी सानि-
धकार, विचरंता प्रभु सकल संघमें जय २ कार
॥ ४ ॥ सहस श्रमण परिवारे प्रभुजी सिखरस-
मेत, एक मास संलेखण कीनी निजपद हेत ।
इण गिरि ऊपर पायो प्रभुजी पद निरवांण, ती-
रथ महिमा महियल मोटो थइय सुजाण ॥५॥

दुहा ॥ अभिनंदन जिन वंदिये, पायो पद
निरवांण । शिखरसमेत सोहामणो, भेटो तथ
सुजाण ॥ १ ॥

तीसरी ढाल—सहस्र श्रमणसुं सुक संजमधरो—ए देशी ।

नगरी अयोध्या सुरपुरि सम भली, संवर
 राजा सोहे मन रली । सिद्धार्था राणी प्रभु तसु
 नंद ए, अभिनंदन जिन प्रगट्या चंद ए ॥ उ-
 ल्हालो ॥ चंद ए सोवन वरण सोहे, धनुष साढी
 तीनसे ॥ सुंदर शरीर प्रमाण द्युतिकरी, कपि
 लंछन ते नित वसे । पूर्व लाख पचास आयु, ग-
 णधर एकसो सोल ए ॥ तीन लाख मुनि छ लाख
 आर्या सहस्र त्रिंसत् सोल ए ॥ १ ॥ चाल ॥
 सहस्र अठ्यासी दो लाख श्राद्धनी, संख्या चौ-
 लख सत्तावीसनी ॥ श्रावकण्यांरी संख्या जाण
 ए, नायकयत्त कलिका ठाण ए ॥ उल्लालो ॥
 ठाण ए शिखरसमेत ऊपर मास एक संलेषणा,
 डक सहस्र साधू परवख्या प्रभु मुक्ति पहुंचे पेष-
 णा ॥ इमही अयोध्या मेघ नरवर देवों मात
 सुमंगला, श्रीसुमति जिनवर भए नंदन सदा
 होत समंगला ॥ २ ॥ चाल ॥ सोवन नर्गः भवतः

णवे गणधर कद्या, साधू त्रिण लाख होय लालरे ॥
 च्यार लाख तीस ऊपरे, सहस साधवियां जोय
 लालरे ॥ ३ ॥ श्री० ॥ सहस सतावन लक्ष्मी,
 श्रावक संख्या थाय लालरे ॥ च्यार लाख वली
 त्रेणवै, सहस श्रावकणी भाय लालरे ॥४ ॥ श्री०
 मातंगयज्ञ शांतासुरी. पांचसे मुनि परवर लालरे ॥
 करि अणसण मुगते गया, नाम लियां निस्तार
 लालरे ॥ ५ ॥ नगर चंद्रपुर इण परे, राजा तात
 महेस लालरे ॥ देवी माता लक्ष्मणा, सुत चंद्रा-
 प्रभु वेस लालरे ॥६॥ श्रीचंद्राप्रभु वंदिये, चंद्रव-
 रण तनु जेह लालरे ॥ लंछन चंद्रतणो भलो.
 धनुष दोढसे देह लालरे ॥ ७ ॥ श्रीचं० ॥ भवि-
 ककमल प्रतिबोधतां. सेवे सुर नर यज्ञ लालरे ॥
 दस लाख पूरव आउखो. तेणवे गणधर दक्ष
 लालरे ॥ श्रीचं० ॥८॥ दोय लाख सहस पचा-
 णवे, मुनि श्रमणी तीन लक्ष लालरे ॥ असी स-
 हस संख्या कही, श्रावक वलि दोय लक्ष लालरे

॥ ६॥ श्री० ॥ लाख पचास ऊपर वली, श्राविका
चउ लक्ष धार लालरे ॥ सहस इकाणवै ऊपरै,
प्रभुजीना परिवार लालरे ॥१०॥ श्रीचं० ॥ वि-
जयदेव भृकुटीसुरी, सहस साधु परिवार लालरे ॥
संलेखन इक मासनी, पुहता मुक्ति मभार
लालरे ॥ ११ ॥ श्री० ॥

॥ दुहा ॥ जय श्रीसुविधि जिनेसरु, जगपति
दीनदयाल ॥ समेतशिखर मुगते गया, भविज-
नके प्रतिपाल ॥ १ ॥

पांचमी ढाल—श्रीविमलाचल मिरतिलो—ए देशी ।

नयर काकंदी नरपति, एम पिता सुग्रीव ॥
देवो रामा माता सुत, भए सुविध सुभ जीव ॥
१ ॥ रजतवरण सम तनु सत, धनुष एक परि-
माण ॥ दौय लाख पूरब कद्यो, प्रभुनो आयु सु-
जांण ॥ २ ॥ अठ्यासी संख्या भए, गणाधर पर-
म प्रधान ॥ लाख दोमुनि विंशति सहस, इक ल-

४८४ सम्मेत शिखरजीका रास ।

अरु गुणतीस हजार ॥ एकत्तर चौ लख सहस,
 श्रावकणी सुविचार ॥ ४ ॥ सुरी सुतारा सुर अ-
 जित, श्रीसंघ सानिधकार ॥ सहस साधु परिवारसुं,
 आए सिखर सुचार ॥ ५ ॥ मास संलेखण कर
 प्रभु, मुक्ति गए इह ठोर ॥ तीरथ महिमा महि-
 यलै, प्रगटी च्यारुं ओर ॥ ६ ॥ इमहिज शित-
 लनाथनो, हिव सुणज्यो अधिकार ॥ भदिलपुर
 दृढग्रथ पिता, मात नंदा सुखकार ॥ ७ ॥ लंछन सु-
 भ श्रीवच्छनो, श्रीशीतल जिनचंद ॥ कंचनवर-
 ण नेउ धनुप, मान सरीर अमंद ॥ ८ ॥ एक ला-
 ख पूरव कह्यो, प्रभुनो आयुप्रमाण ॥ इक्यासी ग-
 णधर कह्या, मुनि इक लाख सुजांण ॥ ९ ॥
 एक लाख चालीस सहस, श्रमणी संख्या ओर ॥
 सहस तयांसी दोय लख, श्रावक संख्या जोर ॥
 १० ॥ सहस अठावन लख चौ, श्रावकणी सुवि-
 चार ॥ देवी अशोका ब्रह्म यज्ञ, सहु संघ सानि-
 धकार ॥ ११ ॥ सिखरसमेत सहस्र एक, साधूने

परिवार ॥ मुक्तिगण प्रभु मासकी, संलेखन कर
सार ॥ १२ ॥

छट्टी ढाल—धन-धन संप्रति साचो राजा—ए देशी ।

सिंहपुरी नगरी तिहां राजा, विष्णु नरेसर
तात जी, कचनवरण श्रेयांस प्रभूजी, उपज्या वि-
ष्णु सुमातजी ॥ १ ॥ नमारे नमो श्रीत्रिभुवन
राजा, खडग लंछन प्रभु पाय जी ॥ धनुष असी
देहमांन चौरासी, लाख वरसनौ आयु जा ॥ २ ॥
न० ॥ गणधर बहुत्तर सहस चौरासी, मुनि श्र-
मणी तीन लक्ष जी ॥ तीन सहस वलि सहस
गुण्यासी, श्रावक पुण दो लख जी ॥ ३ ॥ न० ॥
अड़तालीस सहस वलि चौ लख, श्राविका जा-
णो सारजी ॥ जक्ष अमर सूरुी मांनवी जांणो,
श्रीसंघ सानिधकार जी ॥ ४ ॥ न० ॥ सहस
मुनीसरनै परिवारै, प्रभुजी सिखरसमेतजी ॥
मास संलेखण कर प्रभु पोहता, मुक्तिमहल सुख
हेत जी ॥ न० ॥ ५ ॥ हिव कंपिलपुर तात भूप-

ति, श्रीकृतवर्म सुमात जी ॥ स्यामादेवी अंगज
 उपना, विमलनाथ जगतात जी ॥ न० ॥ ६ ॥
 सूकर लंछन सोवनकाया, साठ धनुष देहीमांन-
 जी ॥ साठ लाख वच्छरनो आयु, शिष्य सताव-
 न जान जी ॥ न० ॥ ७ ॥ साठ सहस मुनि अड-
 सय इक लख, श्रमणी श्रावकजांण जी ॥ आठ
 सहस दोय लक्ष श्राविका, चौ लक्ष संख्या आ-
 णजी न० ॥ ८ ॥ षण्मुख सुरवर विदिता देवी,
 प्रभुजी शिखरसमेत जी ॥ षट हजार साध् परि-
 वारे, मुक्ति गए सुख हेत जी ॥ न० ॥ ९ ॥ नग-
 री नाम अयोध्या नरवर, सिंहसेन जग सार जी ॥
 सुजसा मात तिणे सुत जायो, प्रभुजी अनंत-
 कुमार जी ॥ न० ॥ १० ॥ लंछन श्येन सोवन सम
 काया, धनुष पच्चास प्रमांण जी ॥ तीस लाख
 वच्छरनो आयु, गणधर पचवीस आंण जी ॥
 न० ॥ ११ ॥ छोसठ सहस मुनीवर सोहे, वासठ
 श्रमणी हजार जी ॥ छ हजार लाख दोय श्रावक.

श्रावकणी इम धार जी ॥ न० ॥ १२ ॥ च्यार
लाख बलि चवद हजार ए, अंकुसा देवी होय
जी ॥ पाताल यक्ष श्रीसंघके सानिध करी, नित
प्रति जाय जी ॥ न० ॥ १३ ॥ आठसै मुनिवरनै
परिवारै, शिखरसमेत प्रधान जी ॥ मास संले-
खन कर गिरि ऊपर, पुहता पद निरवांण जी
न० ॥ १४ ॥

॥ दूहा ॥ ऐसे धर्म जिणोसरू, पुहता पद
निर्वाण ॥ सिखरसमेत गिरिंद पर, नमो २
जगभांण ॥ १ ॥

सातमी ढाल—जगतगुरु त्रिशलानदन जी—ए देशी ॥

रत्नपुरी नगरी धणी जी, भानुराय सुजाण ॥
राणी सुव्रत मातने जी, धमेनाथ गुणखाण ॥१॥
जगतपति धर्म जिनेसर सार, धनुष पैतालीस
तनु कह्यो जी ॥ वज्र लंछन सुखकार ॥२॥ ज०
चोतीस गणधर मुनि कह्या जो, चौसठ सहस
प्रमांण ॥ श्रमणी बासठ सहसस्यूं जी, श्रावकदोय

लाला ॥ श्रीमु० ॥ ११ ॥ वरुणयज्ञ देवी भली,
 नरदत्ता सानिधकार रे लाला ॥ सहस मुनि पर-
 वारसे, गए मुक्ति महल सुख सार रे लाला ॥
 श्रीमु० ॥ १२ ॥ विजय पिता विप्रा मातजी,
 सोवन सम श्रीनमिनाथ रे लाला ॥ नीलकमल
 लंछन कह्यो, वपु धनुष पनर आयु साथ रे
 लाला ॥ श्रीनमिनाथ जिनेसरू ॥ १३ ॥ दस
 हजार वरसतणो, गणधर सित्तर परिमाण रे
 लाला ॥ वीस इकतालीस सहस क्रम, साधु
 साधवी संख्या जाण रे लाला ॥ श्रीन० ॥ १४ ॥
 इक लख सित्तर सहसनी, तीन लक्ष सहस
 वलि होय रे लाला ॥ श्रावक संख्या श्राविका,
 अनुक्रम करि संख्या जोय रे लाला ॥ श्रीन० ॥
 १५ ॥ विचरंता भूमंडले, आया सिखर समेत
 सभार रे लाला ॥ भृकुटी यज्ञ गंधारी सुरी, इक
 सहस मुनि परवार रे लाला ॥ श्रीन० ॥ १६ ॥
 ॥ दूहा ॥ परमेसर श्रोपासनी, महिमा जगत

विख्यात ॥ शिखर शिरोमणि सहस्र फण, जग
जीवन जगतात ॥ १ ॥

नवमी ढाल—आदर जीव क्षमागुण आदर—ए देशी ॥

जय २ परम पुरुष पुरुषोत्तम, पारस पारस-
नाथ जी ॥ सांवरिया साहिब जगनायक, नाम
अनेक विख्यात जी ॥ १ ॥ जय २ सिखर समेत
शिरोमणि, श्रीसांवरिया पास जी ॥ ध्यावे सेवे
जे नर तेहनी, पूरे वंछित आस जी ॥ २ ॥ ज० ॥
काशी देस वणारसी नगरी, श्रीअश्वसेन नरिंद
जी, वामा माता जग विख्याता, तेहना सुत
सुखकंद जी ॥ ३ ॥ जय० ॥ पन्नग लंछन नील
वरण छवि, देहि शुभ नव हाथ जो ॥ आयू
इकसो वरस प्रमाणे, गणधर दस प्रभु साथ
जी ॥ ४ ॥ जय० ॥ सोल सहस्र मुनिवर अरु
श्रमणी, कही अडतीस हजार जी ॥ भूमंडल
विचरे भवि जनकूं, बोध बीज दातार जी ॥ ५ ॥
जय० ॥ चौसठ सहस्र लाख इक श्रावक, गुण-

चालीस हजार जी ॥ तीन लाख श्रावकणी
 संख्या, पाश्वंयन्न सुर सार जी ॥ ६ ॥ जय० ॥
 वीस जिनेसर मुगते पुहता, महिमा थइय अपार
 जी ॥ तिण ए तीरथ प्रगढ्यो जगमें, मुक्तितणो
 दातार जी ॥ ७ ॥ जय० ॥ छह री पाले जे नर
 भावै, भेटे सिखर गिरिंद जी ॥ ते नर मनवं-
 छित फल पावे, ए सुर तरुनो कंद जी ॥ ८ ॥
 जय० ॥ बहु विध संघतणी करै भक्ति, संघपति
 नांम धराय जी ॥ सफल करे संपद निज पांमी,
 जेहनो सुजस सवाय जी ॥ ९ ॥ जय० ॥ परभव
 सुरनर संपद पामे, जात्रा करे गहगाट जी ॥
 साधमीं वच्छल मुनिर्भाक्त, पूजा उच्छ्रव थाट जी ॥
 १० ॥ जय० ॥ दूंक २ पर चरण प्रभूना, पूजो
 भविजन भाव जी ॥ ध्यांन धरो जिनवरनो
 मनमें, आनंद अधिक उच्छ्राव जी ॥ ११ ॥ जय० ॥
 रास रच्यो श्रीसिखर गिरीनो, सुणतां नवनिध
 थाय जी ॥ तिण ए भविजन भाव धरीने, सुण-

ज्यो मन थिर लाय जी ॥ १२ ॥ जय० ॥ खर-
 तर गच्छपति महिमाधारी, कीरत जग विख्यात
 जी ॥ जय श्रीजिनसौभाग्य सूरीश्वर, अमृत
 वचन सुगात जी ॥ १३ ॥ जय० ॥ तासु पसायें
 रास रच्यो ए, अमृत समुद्रने सीस जी ॥ बालचंद्र
 निज मति अनुसारे, सोधो विबुध जगोस जी ॥
 १४ ॥ जय० ॥ संवत उगणीसै सितडोत्तर, सुदि
 वैशाख सुढाल जी ॥ रास अजीमगंजमांहे
 कीनो, भणतां मंगल माल जी ॥ १५ ॥ जय० ॥

इति श्रीसिखर गिरी-रास संपूर्णम् ॥

मुनि-मालिका

पहली ढाल ॥

ऋषभ प्रमुख जिन पाययुग प्रणमं, सिव-
 सुख दायक मनह उल्लास ॥ पुं डरीक श्रीगौतम
 आदिक, गणधर गुरु मन कमल विकास ॥ १ ॥
 प्रह सम सूधा साधु नमुं नित, भावै श्रमण सु-
 गुरु भगवंत ॥ नाम ग्रहण करी पाप पखालं, पर-

मानंद सुमति विकसंत ॥ २ ॥ प्र० भरत महा-
 मुनि प्रथम चक्रीसर, बाहूवल उपशम भंडार ॥
 सूरयसादिक आठ मुनिसर, पांम्यो विमलाचल
 भवपार ॥ ३ ॥ प्र० ॥ ऋषभवंस जे अनुक्रम
 हुवा, मुनिवर कोडी लाख असंख ॥ श्रीशत्रुंजय
 शिवपुर सीधा, कलमल कालक मूंकी कंख ॥
 ४ ॥ प्र० ॥ सगर प्रमुख निरुपम नव चक्रवर्त्ति,
 साधु महावल संजम सींह ॥ अचलादिक वल-
 देव अष्टमुनि, राम ऋषीसर नवम अवीह ॥५॥
 प्र० श्रीप्रतिवुद्ध प्रमुख छ वसुन्दर, श्रीमल्लिनाथ
 पूरवभव मित्र ॥ पहुंता परम ऋषीसर शिवपुर,
 पाली श्रीजिन आंण पवित्र ॥६॥ प्र० ॥ वंदु वि-
 ष्णुकुमार लवधि निधि, खंदक सूरीना सीस
 सव पंच ॥ कार्तिकसेठ सुसाधु कोर्त्तिधर, श्रम-
 ण सुकोसल व्रत निरवंच ॥ ७ ॥ प्र० श्रीयदुवंस
 अन्नोभ सुसागर, प्रमुख आठ अणगार प्रधान ॥
 श्रीरहनेमि नेमजिन वंधव, निरमल गुणगण र-

यण निधान ॥ ८ ॥ श्री० ॥ जालि मयालिने
 उवयाली, पुरससेण वारिसेन प्रजुन्न ॥ संब अने
 अनिरुद्ध ऋषीसर, सत्यनेमि दृढनेमि सुधन्य ॥
 ९ ॥ प्र० ॥ कुमर अनीकजसादिक षट् मुनि, गु-
 णगिरुवो श्रीगजसुकमाल ॥ ढंढण ऋषि श्रीथा-
 वच्चासुत, सहस साधु संज तसु कृपाल ॥ १० ॥

दूसरी ढाल—राग धन्याश्री ॥

सहस श्रमणसुं सुक संजमधरो, पंचसयांसु
 सेलग मुनिवरो ॥ सिद्ध थया श्रीपुंडरगिरिवरो,
 करुणाकर प्रणम्यां संपदकरो ॥ उल्लालो ॥ सं-
 पद करो समदम रिषीसर साधु सारण सोह ए,
 अंतर प्रकासे तिमिर नासे, भविकजन मन मोह
 ए ॥ प्रत्येकबुद्ध प्रबुद्ध नारद मुनि प्रमुख पैताल
 ए, दमदंत महाऋषि कुंजवारे साधु नमुं त्रिहुं
 काल ए ॥ ११ ॥ चाला ॥ रंग रिषभदत्त रतनत्रय मुणी,
 समरुं देवानंदा साहुणी ॥ पांचे पांडव प्रणमुं
 मुनिपति, केसपएसी बोधक जिनमती ॥ उल्लालो ॥

सुदंशण सील सुहामणो ॥ श्रीअन्नयसुत आर्द्र-
 कुमार ए, चित्त चतुर नर चित्त चमकार ए ॥
 उल्लालो ॥ चमकार सार सुजात ऋषिवर देव-
 सांनिध जस घणी, गंगेय गिरुवो गुणे गाजै
 सुजिन पालत हित धणी ॥ श्रीधर्मघोष सुसीस
 धर्मरुचि, साधु श्रीजिनदेव ए ॥ श्रीकपिल ऋषि,
 हरिकेशव वल मुनि, नित नमुं निरलेव ए ॥१७
 चाल ॥ जति जयघोष विजयघोषै जुओ,सेवुं श्रु-
 तधर श्रीदेवलसुओ ॥ श्रीइखुकार नृपति कमला-
 वती, रांणी भृगुसुं प्रोहित सुभमती ॥उल्लालो॥
 सुभमती जेहनी जसाभार्या पुत्र दोय वखाणिये,
 ए छहूं लेइ चारु चारित्र मुगति पहुता जाणिये ॥
 क्षत्रिय मुनिसर साधु संजम धर्मरुचि महावती,
 निर्ग्रन्थनाथ अनाथ वंदू समुद्रपाल सुसंयती ॥
 १८ ॥ चाल ॥ कुम्मापुत्र नमुं केवल कल्पो,
 विधसुं शीतल सिवकमला मिल्यौ ॥ धन धन
 धन्यो सूरगिरी धोर ए, वीरप्रशंस्यो तप गुण

वीर ए ॥ ३० ॥ श्रोवीर दीक्षित श्रीसुबाहुभद्र
 नंदकुमार ए, आदिक दसे रिष चरिय जेहना
 सुख विपाक उदार ए ॥ श्रीचंडरुद्र सुसीस खं-
 दग क्षमानिधि कहिये इण कालै, कुरुदत्त सुत
 तीसग सरोरुह रिष नम्यां आस्या फले ॥ १६ ॥
 चाल ॥ अंग प्रमुख रिष च्यारे आदरी, विधिसुं
 संजम सिद्धिवधू वरी ॥ अभयकुमार मुनि अभ-
 यंकरो, हल्ल विहल्लसु आतम हितकरो ॥ उल्लालो ॥
 हितकरो दयाधर मेघ मुनिवर नंदिषेण आरा-
 धियै, सुनक्षत्र नै सर्वानुभूति समर सिवसुख
 साधिये ॥ श्रीसिंह साधू अने उदायन चरम रा-
 जरुषीसरो, श्रीसालभद्र सुधन्न मुनिवर समरंता
 मंगलकरो ॥ २० ॥

तीसरी ढाल—राग धन्यासरी ॥

वडवेरागी वर नमुं, युगवर जंबूसांमि ॥
 प्रभव सिंध्यंभव परगडो, सुजस जसोभद्र स्वां-
 मि ॥ महामुनिसर नित नमुं जी, नामे घर नव

छिन्नं जिन-स्तवन ।

॥ दोहा ॥ वरतमांन चौवीसी वंदू, मन सूधै
 नित मेव री माई ॥ रुषभ अजित संभव अभि-
 नंदन, सुमति पदम प्रभु सेव री माई ॥ व० ॥ १ ॥
 श्रीसुपार्श्व चंद्र प्रभु प्रणमं, सुविध शीतल श्रे-
 यांस री माई ॥ वासुप्रज्य विमल अनंत धरम
 जिन, शांति कुंथु परसंस री माई ॥ व० ॥ २ ॥
 अरिजिन मल्लि अने मुनिसुव्रत, नमि नेमी पास
 जिनन्द री माई ॥ चोवीसमा श्रीवीर जिनेसर,
 प्रणमं परमानंद री माई ॥ व० ॥ ३ ॥

दूसरी ढाल-प्रह सम सूधा साधु नमुं नित-ए देशी ।

नित २ अतीत चोवीसी नमियै, जेहना
 नांम प्रगट ए जांण ॥ केवलज्ञानी ते निरवांणी,
 सागर महाजस विमल वखाण ॥ ४ ॥ नि० ॥
 सर्वानुभूति श्रीधरदत्त जिनवर, दामोदर सुत-
 जाश्रीस्वामि ॥ मुनिसुव्रत सुमति शिवगति जिन,
 श्रांअस्ताग नेमीसर नांम ॥ ५ ॥ नि० ॥ अनिल

यशोधर तेम कृतारथ, श्री जिनेसर सुद्धमति,
सुजगीस, सिवकर स्यंदन संप्रति नामे, वंदीजे
जिनवर चोवीस ॥ ६ ॥ नि० ॥

तीसरी^१ ढाल-सफल संसारनी-ए देशी ॥

जे भविस्संतिअणागए काल ए, तेह चौविस
प्रणमीस त्रिहुं काल ए । प्रथम माहाराज श्रेणि-
कतणो जीव ए, श्रीपद्मनाभ प्रणमीस सदीव ए
॥ १ ॥ वीरनो पितरियो नाम सुपास ए, हुसी-
जिन बीय सुरदेव सुप्रकाश ए । श्रेणिक सुत उ-
दाइ नरिंद ए, तीसरो तेह सुपास जिणंद ए ॥
२ ॥ शिष्य श्रीवीरनो पोदलो साध ए, चोथो स्व-
यंप्रभू नाम आराधि ए । दृढायुष जीव सिद्धांतमें
जाणियै, पंचम सर्वानुभूति प्रमांणिये ॥३॥ कीर्त्त
इण नाम इक जीव कहोजिये, देवश्रुते छठो
स्वामि सलहीजियै । संख श्रावक हुस्यै उदय
जिन सातमो, आनंदनो जीव पेढाल जिनआठमा

॥४॥ सुनंदनो जीव ते नवम पोहल जिणं, सतक
 श्रावक शतकीर्त्ति दसमो भणुं । देवकी जाव
 मुनिसुव्रत इग्यारमो, सत्यकी जीव ते अमम
 जिन वारमो ॥५॥ वासुदेव जीव निकषाय जिन
 तेरमो, बलदेवजीव निपुलाक चवदस नमो ।
 पनरमो निरमम देव सुलसा कहो, रोहणीजीव
 चित्रगुप्त सोलम सही ॥ ६ ॥ समाध जिन
 सतरमो श्राविका रेवती, अढारमो शदालजीव
 संवर जिनपती । दीपायनजीव यशोधर उग-
 णीसमो, कृष्णकोइजीवते विजय जिन वीसमो
 ॥ ७ ॥ मल्लि इकवीसमो जीव नारदतणो, देव
 वावीसमो अंवउ श्रावक भणुं । तेवीसमो अम-
 रजीव अनंत वीरज नमो, स्वातवुधजीव ते भद्र
 चोवीसमो ॥ ८ ॥ एह आगामि चावीस जिन
 जांणिया, प्रवचनसारोद्धारथी आंणिया । केइ
 परसिद्ध ने केइअप्रसिद्धकह्या, शास्त्र अनुसारथी
 साच कर सरदह्या ॥ ९ ॥

चौथी ढाल—आज निहेजो रे दीसे नाहलो—ए देशी ॥

विरहमांन जिन वीसे वंदियै, महाविदेह वि-
ख्यात ॥ सीमंधर युगमंदिर श्रीसुबाहु सुजात ॥
वि० ६ ॥ स्वयंप्रभु ऋषभानन अनंतवीरजी, सूरप्रभु
तेम विशाल ॥ वज्रधर चंद्राननचंद्रबाहुजी, भुजंग
ईश्वर नेमिभोल ॥ वि० ॥ ७ ॥ वैरसेन महाभद्र
नमुं वली, देवयशा यशोरिद्ध अढोद्वीपमे विचरे
आज ए, नाम लियां नवनिद्ध ॥ वि० ॥ ८

पांचमी ढाल—रे जीव जिन धर्म कीजिये—ए देशी ॥

द्वार तीर्थकर सासता, इणहिज अभिधान ॥
ऋषभानन चंद्रानन, वारिषेण वर्द्धमांन ॥ च्यां०
॥ ९ ॥ अठ कोडो छप्पन्न लाख ए, सत्ताण हजा-
र ॥ चउसे छयासी देहरां, त्रिहं लोक मभार ॥
च्यार० ॥ १० ॥ नवसे पणवीस कोडिथा, बिंब
त्रेपन लाख ॥ सहस अठावीस च्यारसै, अठ्या-
सी भाख ॥ च्यार० ॥ ११ ॥ विभूजिणवर नाम
ए, समखासुखदाय ॥ प्रणम्यां पाप मिटेपरा, स-
मकित शुद्ध थाय ॥ च्यार० ॥ १२ ॥

॥कलश॥ इम त्रिण चोवीसी वीस विरहमांण
चऊ जिणवर सासता, संथुणया सतरैसै वयालै
अधिक आणी आसता ॥ जिन रतनचिंतामणी-
तणी पर प्रवल वंछित पूर ए, प्रहसमै त्रिकरण
शुद्ध प्रणामें सदा जिनचंद्र सूर ए ॥ १३ ॥


इति श्री छिन्नं जिन-स्तवनं संपूर्णम् ॥

॥ मांगलिक सरणां ॥

प्रह ऊठीने समरिजें हो ॥ भवियण मंगलिक
सरणा चार ॥ आपदा टाले संपदा हो ॥ भ०
दोलतनो दातोर ॥ हियडें राखिजें हो ॥ भ० ॥
१ ॥ अरिहंत सिद्ध साधातणी हो ॥ भ० ॥ केव-
लि भांख्यो धर्म ॥ ए चारू जपतां थकां हो ॥
भ० ॥ टूटे आठुं कर्म ॥ हि० ॥ २ ॥ एचारूं सु-
खकारि हो ॥ भ० ॥ एचारू मङ्गलिक ॥ एचारूं
उत्तम कक्षां हो ॥ भ० ॥ ए चारूं तहतीकहो ॥ हि०
गेले घाटें चालतां हो ॥ भ० ॥ समरुं वारं वार ॥
गामें नगरें चालता हो ॥ भ० ॥ विघननिवारण

हारु ॥ हि० ॥ ४ ॥ डाकण साकण भूतड़ो हो ॥
 भ० ॥ सिंह चिताने सूर ॥ वैरी दुसमन चोरटाहो
 भ० ॥ रहे सुदाइ दूर ॥ हि० ॥ ५ ॥ सुख शाता
 वरते घणी हो ॥ भ० ॥ जे ध्यावे नरनार ॥ परभव
 जातौ जीवने हो ॥ भ० ॥ सरणांको आधार ॥ हि०
 ॥ ६ ॥ राखो सरणाकी आसता हो ॥ भ० ॥ नेड़ो
 नहिं आवे रोग ॥ वरते आनंद सुख सही हो ॥
 भ० ॥ वालो तणो संयोग ॥ हि० ॥ ७ ॥ निशि-
 दिन याकुं ध्यावतां हो ॥ भ० ॥ जीव तणो उद्धार ।
 कमी नहिं काइ वस्तुनी हो ॥ भ० ॥ याहि जगमें
 सार ॥ हि० ॥ ८ ॥ मनचिंता मनोरथ फले हो
 ॥ भ० ॥ वरते कोड कल्याण ॥ शुद्धमनें करी
 समरता हो ॥ भ० ॥ निश्चय पद निर्वाण ॥ हि० ॥
 ९ ॥ ए सरणाने ध्यावतां हो ॥ भ० ॥ नाम तणो
 आधार ॥ ए सरणाकी कीरति कही हो ॥ भ० ॥
 ध्यावो मनह मभार ॥ हि० ॥ ॥ १० ॥ संवत्
 अढारे वावने हो ॥ भ० ॥ पालि सहेर सुखकार ॥

चोथमह्ण इम वीनवे हो ॥ भ० ॥ सुणजो बाल
गोपाल ॥ हि० ॥११॥इति श्रीमांगलिक सरणां ॥



सज्जाय-संग्रह ।

॥ उपदेशमाला पोसह सिज्जाय ॥

जग चूडामणिभूओ, उसभो वीरो तिलोय
सिरि तिलओ ॥ एगो लोगाइच्चो, एगो चक्खु
तिहुअणस्स ॥१॥ संवच्छरमुसभ जिणो, छम्मासे
वद्ध माण जिणचंदो ॥ इइ विहरिया निरसणा,
जए जए ओवमाणेणं ॥२॥ जइता तिलोयनाहो,
विसहइं वहुचाईं असरिसजणस्स ॥ इय जोयं-
तकराईं, एस खमा सब्बसाहूणं ॥ ३ ॥ न चइ-
जइ चालेउ, महइ महावद्धमाण जिणचंदो ॥
उवसग्ग सहस्सेहिं वि, मेरु जहा वायगुं जाहिं
॥ ४ ॥ भदो विणीय विणओ, पढम गणहरो
समत्त सुयनाणी ॥ जाणांतो वि तमत्थं, विम्हिय

हियत्रो सुणइ सव्वं ॥ ५ ॥ जं आणवेइ राया,
 पयइउ तं सिरेण इच्छंति ॥ इय गुरुजण मुह
 भणियं, कयंजलिउडेहिं सोयव्वं ॥ ६ ॥ जह
 सुर गणाण इंदो, गहगण तारागणाण जह चंदो ।
 जहय पयाण नरिंदो, गणस्स वि गुरु तहाणंदो ॥
 ॥ ७ ॥ बालुत्ति महीपालो, न पया परिहवइ एस
 गुरु उवमा ॥ जंवा पुरत्रो काउं, विहरंति मुणी
 तहा सोवि ॥ ८ ॥ पडिरूवो तेहस्सि, जुगप्प-
 हाणागमो महुरवक्को ॥ गंभीरो धिइमंतो, उवए-
 सपरो य आयरित्रो ॥ ९ ॥ अपरिस्सावी सोमो,
 संगहसीलो अभिग्गहमई य ॥ अविकच्छणो
 अचवलो, पसं तहियत्रो गुरू होई ॥ १० ॥ कइ-
 यावि जिणवरिंदा, पत्ता अयरामरं पहं दाउं ॥
 अयरिएहिं पवयणां, धारिज्जइ, संपयं सयलं ॥ ११ ॥
 अणुगम्मए भगवई, रायसुयज्जा सहस्स वंदेहिं ॥
 तहवि न करेइ माणां, परियच्छइ तं तहा नूणां
 १२ ॥ दिण दिक्खियस्स दमग, स्स अभिमुहा

अज्जचंदणा अजा ॥ नेच्छइ आसणगहणं, सो
 विणओ सव्व अजाणं ॥ १३ ॥ वरसमय दिक्खि-
 याए, अजाए अज्जदिक्खिकओ साहू ॥ अभिगमण
 वंदण नमं, सणेण विणएणसो पुज्जो ॥ १४ ॥ धम्मो
 पुरिसप्पभवो, पुरिस वर देसिओ परिसजिट्ठो ॥
 लोएवि पट्ट पुरिसो, किंपुण लोयुत्तमे धम्मे ॥ १५ ॥
 संवाहणस्सरणो, तइया वाणारसीइ नयरीए ॥
 कच्चा सहस्समहियं, आसी किररूववंतीणं ॥ १६ ॥
 तह विय सारायसिरो, उल्लटंती न ताइया ताहिं ॥
 उयरट्ठिएण इक्के, ए ताइया अंगवीरेण ॥ १७ ॥
 महिलाणसु बहुयाण वि, मज्जाओ इह समत्त घर-
 सारो ॥ सायपुरिसेहिं विज्जइ, जणेवि पुरिसो
 जहिं नत्थी ॥ १८ ॥ किं परजण बहुजाणा, वणाहिं
 वरमप्य सक्खियं सुकयं ॥ इह भरहचक्रवटी,
 पसन्नचंदोय दिघंता ॥ १९ ॥ वेसो विट्ठं अप्पमाणो,
 असंजम पएसु वट्टमाणस्स ॥ किं परियत्तियवेसं,
 विसं न मारेइ खजंतं ॥ २० ॥ धम्मं रक्खइ वेसो,

संकड वेसेण दिक्खिओमि अहं ॥ उम्मग्गेण पडंतं,
 रक्खइ राया जणवउ य ॥ २१ ॥ अप्पा जाणइ
 अप्पा, जहद्धिओ अप्पसक्खिओ धम्मो ॥ अप्पा
 करेइ तं तह, जह अप्पसुहावहं होई ॥ २२ ॥ जं-
 जं समयं जीवा, आविस्सइ जेण जेण भावेण ॥
 सो तंमि तंमि समए, सुहासुहं बंधए कम्मं ॥
 ॥२३॥ धम्मो मएण हुंतो, तो नवि सोउन्ह वाय-
 विज्झदिओ ॥ संवच्छरमणसीओ, बाहुबली तह
 किलिस्संतो ॥ २४ ॥ नियगमइ विगप्पिय चिं,
 तिएण सच्छंदबुद्धिचरिएण ॥ कत्तोपारत्तियं, कीरइ
 गुरु अणुवएसेणं ॥ २५ ॥ अद्धो निगेवयारी, अवि-
 णीओ गब्बिओ निरवणामो ॥ साहुजणस्स गर-
 हिओ, जणेवि वयणिज्जयं लहइ ॥ २६ ॥ थोवण
 वि सप्पुरिसा, सणंकुमारुवक्केइ बुज्झंति ॥ देहे
 खणपरिहाणी, जंकिर देवेहिंसे कहियं ॥ २७ ॥
 जइता लवसत्तम सुर, विमाण वासीवि परिवडंति
 सुरा ॥ चिंतिज्जंतं सेसं, संसारे सोसयं कयरं ॥

॥ २८ ॥ कहतं भन्नइ सुखं, सुचिरेण वि जस्स
दुक्खमल्लिहियए ॥ जं च मरणा वसाणे, भव
संसारणाबंधिं च ॥ २९ ॥ उवएस सहस्सेहिं,
बोहिज्जंतो नबुज्झई कोई ॥ जह वंभदत्तराया,
उदाइनिव मारओ चेव ॥३०॥ गयकन्न चंचलाए,
अपरिच्चत्ताइ रायलच्छीए ॥ जीवासक्कम्म कलि-
मल भरिय मरातो पडंति अहे ॥३१॥ वोत्तूणवि
जीवाणं, सदुक्करा इंति पावचरियाइं ॥ भयवंजा
सा सासा, पच्चाएसो हु इण मोते ॥३२॥ पडि-
वज्जिऊण दोसे, नियए सम्भं च पायवडियाए ॥
तो किर मिगाचईए, उप्पन्नं केवलं नाणं ॥३३॥

॥ राईसंथारा-पोसह-सज्भाय ॥

निस्सिही निस्सिही नमो खमासमणाणं,
गोयमाईणं, महामुणीणं ॥ नवकार ३, करेमि-
मंते ३, कहना, अणुजाणह जिट्ठिजा, अणुजा-
णह परमगुरु, गुणगणरयणेहिं मंडिअसरीग ॥
बहु पडिपुन्ना पोरिसि, गईसंथारए ठामि ॥ १ ॥

अणुजाणह संथारं, बाहुवहाणेण वामपासेणं ॥
 कुक्कुड पाय पसारण, अन्तरं तु पमज्जए भूमिं ॥
 ॥ २ ॥ संकोइय संमासं, उवट्तेय काय पडि-
 लेहा ॥ दव्वाई उवओगं, ऊसासनिरुम्भणांलोयं
 ॥ ३ ॥ जइ मे हुज्ज पमाओ, इमस्स देहस्सिमाइ
 रयणीए ॥ आहार मुवहि देहं, सव्वं तिविहेण
 वोरिरियं ॥ ४ ॥ आसव कसाय बन्धण, कलहा
 भक्खाण परपरीवाओ, इरइ रई पेसुन्नं, माया
 मोसं च मिच्छत्तं ॥५॥ वोसिरिसु इमाइंमु, क्वम-
 ग्ग संसग्ग विग्घ भूआइं ॥ डुग्गइनिवधणाइं,
 अट्ठारस पावट्ठणाइं ॥६॥ एगो हं नत्थिमे कोइ,
 नाहमन्नस्स कस्सवि ॥ एवं अदीण मणासो,
 अप्पाण मणासासए ॥७॥ एगो मे सासओ अप्पा,
 नाणदंसणसंजुओ ॥ सेसा मे बाहिरा भावा,
 सव्वे संजोगलक्खणा ॥ ८ ॥ संजोग मूला जी-
 वेण, पत्ता डुक्खपरंपरा ॥ तम्हा संजोग संबन्धं,
 सव्वं तिविहेण वोसिरे ॥ ९ ॥ अरिहंतो मह

देवो, जावज्जीवं सुसाहुणो गुरुणो ॥ जिणपन्नत्तं
 तत्तं, इयसम्मत्तं मए गहियं ॥ १० ॥ चत्तारि
 मंगलं, अरिहंता मङ्गलं सिद्धा मङ्गलं, साहू
 मङ्गलं, केवलि पन्नतो धम्मो मङ्गलं, चत्तारि
 लोयुत्तमा, अरिहंता लोयुत्तमा, सिद्धा लोयुत्तमा,
 साहू लोयुत्तमा, केवलि पन्नतो धम्मो लोयुत्तमा,
 चत्तारि सरणं पवज्जामि, अरिहंते सरणं पव-
 ज्जामि, सिद्धे सरणं पवज्जामि, साहूसरणं पव-
 ज्जामि, केवलि पन्नत्तं धम्मं सरणं पवज्जामि ॥
 अरिहंता मङ्गलं मभ्भ, अरिहंता मज्ज्भ देवया ॥
 अरिहंता कत्तिअत्ताणं, वोसिरामित्ति पावगं
 ॥ १ ॥ सिद्धाय मङ्गलं मभ्भ सिद्धाय मभ्भ देवया ॥
 सिद्धाय कत्तिअत्ताणं, वोसिरामित्ति पावगं ॥
 ॥ २ ॥ आयरिया मङ्गलं मज्ज्भ, आयरिया मज्ज्भ
 देवया ॥ आयरिया कित्तिअत्ताणं, वोसिरामित्ति
 पावगं ॥ ३ ॥ उवज्जाया मङ्गलं मज्ज्भ, उवज्जाया
 मज्ज्भ देवया ॥ उवज्जायां कित्तिअत्ताणं, वोसि-

रामित्ति पावगं ॥४॥ साहूणो मङ्गलं मज्झ, साहू-
णो मज्झ देवया ॥ साहूणो कित्तिअत्ताणं, वोसि-
रामित्ति पावगं ॥ ५ ॥ पुढवि दग अगणि मा-
रुय, इक्किक्के सत्त जोणि लक्खाओ ॥ वणपत्तेय
अणंते, दस चउदस जोणि लक्खाउ ॥ १ ॥
विगलिंदिएसु दो दो, चउरो चउरो य नारय
सुरेसु ॥ तिरिएसु हुंति चउरो, चउदस लक्खा
यमणुएसु ॥ २ ॥ खामेमि सव्व जीवे, सव्वे जी-
वाखमंतु मे ॥ मित्ती मे सव्वभूएसु, वेरं मज्झं
न केणइ ॥ ३ ॥ एवमहं आलोइअ, निंदिअ
गरहिअ दुगंछिअं सम्मं ॥ तिविहेण पडिक्कंतो,
वन्दामि जिणे चउव्वीसं ॥ ४ ॥ खमिअ खमा-
विअ मइ खमिअ, सव्वह जीव निकाय ॥ सिद्ध-
हसाख आलोयणह, मज्झह वेर न भाय ॥ ५ ॥
सव्वे जीवा कम्मवसु, चउदह राज भमंतु ॥ ते
मइ सव्व खमाविया, मज्झवि तेह खमंतु ॥ ६ ॥

निन्दावारक-सज्जाय ।

निंदा म करजो कोइनो पारकी रे, निंदानां
 बोल्यां महा पाप रे ॥ वयर विरोध बाधे घणोरे,
 निंदा करतां न गणो माय बाप रे ॥ निं० ॥ १ ॥
 दूर बलंती कां देखो तुह्रों रे, पगमां बलती दे-
 खो सहु कोय रे ॥ परना मेलमा धोयां लूगडारे-
 कहो केम ऊजला होयरे ॥ निं० ॥ २ ॥ आप सं-
 भालो सहुको आपणो रे, निंदानी मूको परी टे-
 व रे ॥ थोडे घणो अवगुणें सहु भस्यां रे, केहनां
 नलीयां चूए केहनां नेव रे ॥ निं० ॥ ३ ॥ निं-
 दा करे ते थाये नारकी रे, तप जप कीधूं सहु जा-
 य रे ॥ निंदा करो तो करजो आपणी रे, जेमछु-
 टकचारो थाय रे ॥ निं० ॥ ४ ॥ गुण ग्रहजो स-
 हुको तणो रे, जेहमां देखो एक विचार रे ॥ कृ-
 णापरें सुख पामशो रे समयसूंदर कहे सुखकार
 रे ॥ निं० ॥ ५ ॥

अभय-रत्नसार ।

सती सीताकी सज्जाय ।

जल जलती मिलती घणी रे, भाली म
अपार रे ॥ सुजाण सोता ॥ जाणो केसू फू
रे लाल, राता खैर अद्धार रे ॥ सु० ॥ १ ॥
करे सीतासती रे लाल, ॥ शील तणे परि
रे ॥ सु० ॥ लक्ष्मण राम खुशी थया रे लाल
रखे राणो राण रे ॥ सु० ॥ २ ॥ स्नान
निरमल जलें रे लाल, पावक पासें आय रे ।
ऊभी जाणो सुरांगना रे लाल, अनुपम रूप
खाय र ॥ सु० ॥ ३ ॥ नर नारी मिलियां
रे लाल, ऊभाकरे हाय हाय रे ॥ सु० ॥ ४ ॥
हुशी इण आगमें रे लाल, राम करे अन्याय
सु० ॥ ४ ॥ राघव विन वांछयो हुवे रे लाल,
नेहो नहिं काय रे ॥ सु० ॥ तो मुक्त अगन प्र
लजो रे लाल, नहिं तो पाणी होय रे ॥ सु
५ ॥ इम कहि पेठी आगमें रे लाल, तुरत
न थयो नीर रे ॥ सु० ॥ जाणें द्रह जलशं भ

रे लाल, भोले धरम सुधीर रे ॥ सु० ॥ ६ ॥ दे-
 व कुसुम वरषा करे र लाल, एह सती सिरदार
 रे ॥ सु० ॥ सीता धीजें ऊतोरि रे लाल, साखभ-
 रे संसार रे ॥ सु० ॥ ७ ॥ रलियायत सहुको थ-
 यां रे लाल, सघले थया उछरंग रे ॥ सु० ॥ लक्ष्म-
 ण राम खुशी थया रे लाल, सीता शीला सुरंग
 रे ॥ सु० ॥ ८ ॥ जगमांहे जस जेहनो रे लाल,
 अविचल शील कहाय रे ॥ सु० ॥ कहे जिन हर्ष सती,
 तणा रे लाल, नित प्रणमीजें पाय रे सु० ॥ ९ ॥

अनाथी मुनिकी सज्जाय ।

श्रेणीकरयवाडो चढयो, पेखियो मुनि ए कंत ॥
 वर रूपकाते मोहियो. राय पूछे रे कहो विरतंत
 ॥ १ ॥ श्रेणिकराय हुं रे अनाथी निर्ग्रथ ॥ ति-
 णमें लोधारे साधुजीनां पंथ ॥ श्रे० ॥ ए आंकणी ॥
 इण कोसंवी नगरी वसे, मुझपिता परि गल धन्न ॥
 परवार परें परवस्योहुहुं तेहनो रे पुत्र रतन्न ॥
 श्रे० २ ॥ इक दिवस मुझ वेदना, उपनी ते न खमा-

य ॥ मात पिता सह जूरी रह्या, तोही पण रे स-
 माधि न थाय ॥ श्रे० ॥ ३ ॥ गोरडी गुण मन
 ओरडी अबला नार ॥ कारडी पीडा में सही,
 नहिं कीधी रे मोर डी सार ॥ श्रे० ॥ ४ ॥ बहरा-
 जवैद्य बुलाइया, कीधला कोड़ीउपाय ॥ बावना-
 चंदन लेईया, पण तोही रे दाह नवि जाय ॥
 श्रे० ॥ ५ ॥ वेदना जो मुक्त उपशमे, तो लेउं सं-
 जमभार ॥ इम चिंतवतां वेदन गई, व्रत लोधो-
 रे हरख अपार ॥ श्रे० ॥ ६ ॥ जगमांहे को केहनो
 नहिं, तेभणी हूं रे अनाथ ॥ वीतरागनो धरम
 म्हाहरो, कोई नहीं रे मुगतिनो साथ ॥ श्रे० ॥ ७ ॥
 कर जोड़ी राजा गुण स्तवे, धन धन तुं अनगार ॥
 श्रेणिक समकित तिहां लहे, वांदी पहुंचे रे सरग
 मभार ॥ श्रे० ॥ ८ ॥ मुनिवर अनाथी गावतां,
 कर्मनी तूटे कोड़ी ॥ गणि समयसुंदर तेहना,
 पाय वांदे रे बे कर जोड़ी ॥ श्रे० ॥ ९ ॥ इति ॥



प्रति क्रमणको सज्जाय ।

कर पडिक्रमणो भावसुं, दोय घड़ो शुभ
जांण लालरे ॥ परभव जातां जीवनें, संवल
साचुं जांण ॥ लालरे ॥ १ ॥ कर पडिक्रमणो
भावसुं ॥ ए आंकणी ॥ श्रीमुख वीर समुच्चरे,
श्रेणिकराय प्रतिवोध ॥ ला० ॥ लाख खंडी सो-
ना तणी, दीये दिन प्रति दान ॥ ला० ॥ २ ॥
कर० ॥ लाख वरस लग ते वली, एम दीये द्रव्य
अपार ॥ ला० ॥ इक सामायिकनी तुला, नावे
तेह लगार ॥ ला० ॥ ३ ॥ कर० ॥ सामायिक
चउविसत्थो, भलुं वंदन दोय दोय वार ॥ लालरे ॥
व्रतसंभारो रे आपणां, ते भव कर्म निवार ॥
लालरे ॥ ४ ॥ कर० ॥ कर काउसग्ग शुभध्यान थी.
पञ्चक्खाण सूधुं विचार ॥ लालरे ॥ दोय सज्जा-
यें ते वली, टालो टालो अतिचार ॥ लालरे ॥
५ ॥ कर० ॥ सामायिक परसाढथी, लहीयें अमर
विमान ॥ लालरे ॥ धरमसिंह मुनिवर कहे, मुगति
तणुं ए निदान ॥ लालरे ॥ ६ ॥

ढंढण ःषीकी सङ्गय ।

॥ ढंढण ःषीजीने वन्दना हुं वारी, उत्कृ-
 ष्ठो अणगार, रे हूवारी लाल, अभिग्रह लीधो
 एहवो, हुं० ॥ लेस्युं शुद्ध आहाररे ॥ हुं० ॥ १ ॥
 ढं० ॥ नितप्रति ऊठे गोचरी हुं० ॥ न मिले
 शुद्ध आहाररे ॥ हुंवा० मूल न लै अणसूक्तो
 हुं० ॥ पञ्जर कीधो गातरे हुं० ॥ २ ॥ ढं० ॥
 हरि पूछै श्रीनेमने हुं०, मुनिवर सहस्र अठार रे ॥
 हुंवा० ॥ उत्कृष्टो कुण एहमें हुं० ॥ मुक्तने कहो
 विचार रे ॥ हुंवा० ॥ ३ ॥ ढं० ॥ ढंढण अधिको
 दाखियो हुं० ॥ श्रीमुख नेमजिगांद रे हुंवा० ॥
 कृष्ण ऊमाह्यो वांदावा हुं० ॥ धन जादव कुल-
 चन्द रे हुंवा० ॥ ४ ॥ ढं० ॥ गलियारे मुनिवर
 मिल्या हुं०, वांध्या कृष्ण नरेस रे हुंवा० ॥ कि-
 णही मिथ्यात्वी देखने हुं०, आणयोभाव वि-
 सेसरे हुं० ॥ ५ ॥ ढं० ॥ मुक्त घर आवो साधजी
 हुं०, ल्यो मोदक छै शुद्धरे हुं० ॥ मुनिवर विह-

रीने पांगुख्या हुं०, आया प्रभुजीने पास रे हं०
 ॥ ६ ॥ ढं० ॥ मुक्त लवधै मोदक मिल्या हुं०,
 कहोने तुम्हे किरपाल रे हुं० ॥ लवध नही वच्छ
 ताहारी हूं०, श्रीपति लवधि निधान रे हूं० ॥७॥
 ॥ ढं० ॥ एलेवा जुगतो नही हुं०, चाल्या परठ-
 न काज रे हूं० ॥ इंट निवा हे जायने हुं० चुरे
 करम समाज रे हुं० ॥ ८ ॥ ढं० ॥ आंणी चढ-
 ती भावना हुं०, ॥ पांम्यो केवल नाण रे हुं० ॥
 ढंढण ऋषि मुगते गया हुं०, ॥ कहे जिनहर्ष
 सुजाण रे हुं० ॥ ९ ॥ इति ॥

॥ धन्नाऋषीको सज्जाय ॥

श्रीजिनवाणी रे धन्ना, अमिय समाणी मोरा
 नन्दन, मनडै तो मांती रे नन्दनताह रे ॥ १ ॥
 तूं अतहि वैरागी रे धन्ना, धरमनो रागी मोरा
 नन्दन, महारो तो मनडो रे किम परचावसुं
 ॥ २ ॥ दस दसी दीसे रे धन्ना, तां विन सूनी
 मोरा नन्दन, अनुमति देतां रे जीभ बहे नही

॥ ३ ॥ बत्तीसै नारी हो धन्ना, अतहि पियारी
मो० ॥ वाणी तो बोले रे मधुर सुहामणी ॥ ४ ॥
बालक तो कामणी रे धन्ना, वय पिण तरुणी
मो० ॥ गजगति चाले रे चाल सुहावणो ॥ ५ ॥
ए घर मन्दिर हो धन्ना, ए सुख सज्या, मो० ॥
कोड बत्तीसे धननो तूं धणी ॥ ६ ॥ ए धन मांणो
रे धन्ना, वय पिण जांणो, मो० ॥ भोगवि लेज्यो
रे भोग सुहामणो ॥ ७ ॥ व्रत अति दोहिलो
रे धन्ना, नहिय सुहेलो, मो० ॥ सुगम नही छे रे
साध कहावणो ॥ ८ ॥ घर २ भिच्चा हो धन्ना,
गुरु तणी शिच्चा, मो० ॥ कहाणी रे रहणी नही
छे सारखी ॥ ९ ॥ इक वारे सुणीये हो धन्ना,
आगम भणीये मो० ॥ जिनवर जांणो हो दुकर
जोगछै ॥ १० ॥ वनवासै रहणा हो धन्ना, परी-
सह सहणा, मो० ॥ कोमल केसा रे लोच करा-
वणो ॥ ११ ॥ साचो तें भाख्यो हे अम्मा, भूठ
न दाख्यो मोरी अम्मा ॥ दुकर मारग जननी

दाखियो ॥१२॥ सुख अभिलाषी हे अम्मा, भूठ
 न आखी मोरी अम्मा ॥ कायर मारग जननी
 दाखियो ॥१३॥ ए जग स्वारथी हे अम्मा, नही
 परमारथि मोरी अम्मा, वीर वखाण्यो परखदा
 सहु सुण्यो ॥१४॥ में इम जाण्यो हेअम्मा, वीर
 वखाण्यो मोरी अम्मा, ए धन जोवन आयु थिर
 नही ॥१५॥ अनुमति दीजे हे अम्मा, ढील न किजे
 मोरी अम्मा, जो खिण जावे सु फिर आवे नही
 ॥ १६ ॥ अनुमति आपी हो अम्मा, जीव सुख
 पायो मोरी अम्मा, संजम लीधो रे मनमां
 गहगही ॥१७॥ छट्टु २ पारणे हे अम्मा, विगय
 निवारण मोरी अम्मा, वीर वखाण्यो सुरनर
 आगलै ॥ १८ ॥ सुख संजम पाले हे अम्मा,
 दूपण टाले मोरी अम्मा, अंग इग्यारे अरथ रु-
 डा भणै ॥१९॥ संजम पाल्यो हे अम्मा, नव पख-
 वाडे मोरी अम्मा, मास संथारे सरवारथसिद्ध
 लह्यो ॥२०॥ इति धन्नाक्वपि-सज्जाय संपूर्णम् ॥

॥ कमकी सज्भाय ॥

देव दानव तीर्थंकर गणधर, हरि हर नरवर
सघला ॥ करम तणे वस सुख दुख पाया, सबल
हुआ महा निबला रे प्राणी, कर्म समो नहि कोई
॥१॥ आदीसरजीने करम अटास्या, वरस दिवस
रह्या भूखा ॥ वीरने बारे वरस दुख दीधा, उपना
ब्राह्मणी कूखैरे प्राणी ॥ क० ॥ २ ॥ साठ सहस सुत
मास्या एकण दिन, जोध जुवान नर जैसा ॥
सगर हुआ महा पूत्रनो दुखियो, कर्मतणा फल
एसा रे ॥ प्रा० ॥ क० ॥ ३ ॥ बत्रीस सहस देसां-
रो साहिव, चक्री सनतकुमार ॥ सोले रोग सरी-
रमे उपना, कर्म कीयो तनु छार रे ॥ प्रा० ॥ ४ ॥
कर्म हवाल किया हरचंदने, वेची सुतारा रांणी ॥
बारे वरस लग माथे आणयो, नीचतणे घर पाणी,
रे ॥ प्रा० ॥ क० ॥ ५ ॥ दधिवाहन राजारी वेटी,
चावी चंदनवाला ॥ चौपद ज्यूं चहुटामें वेची,
करमतणा ए चाला रे ॥ प्रा० ॥ क० ॥ ६ ॥

संभूम नामे आठमो चक्री, कर्मै सायर नाख्यो ॥
 सोले सहस जच्च उभा देखै, पिण किणही नहि
 राख्यो रे ॥ प्रा० ॥ क० ॥ ७ ॥ ब्रह्मदत्त नामे
 वारमो चक्री, कर्मै कीधो आधो ॥ इम जाणीने
 अहो भविप्रोणी, कर्म कोइ मत बांधो रे ॥ प्रा०
 क० ॥ ८ ॥ छपन्न कोड जादवरो साहिव, कृ-
 ष्ण महावल जांणी ॥ अटवो मांहि मंत्रो एक-
 लडो, विल २ करतो पाणी रे ॥ प्रा० ॥ क० ॥
 ९ ॥ पांडव पांच महा भूभारा, हारी द्रोपदा नारी ॥
 वारे वरस लग वन रडवडिया, भमिया जेम भि-
 ख्यारी रे ॥ प्रा० ॥ क० ॥ १० ॥ बीस भुजा दस
 मस्तक हंता, लखमण रात्रणमारथो ॥ एकलडै
 जग सहु नर जीत्या, ते पिण कर्मसुं हास्थो रे
 ॥ प्रा० ॥ क० ॥ ११ ॥ लखमण राम महा वल-
 वंता, अरु सतवंती सीता ॥ कर्मै प्रमाणे सुख
 दुख पांम्या, वीतक बहु तस वीता रे ॥ प्रा० ॥
 क० ॥ १२ ॥ समकितधारो श्रेणिक राजा, वेटे

बांध्यो मुसकै ॥ धरमी नरने कम धकाया ॥
 करमसुं जोर न किसका रे ॥ प्रा० ॥ क० ॥ १३ ॥
 सतिय शिरोमणी द्रौपदि कहियै, जिन सम अ-
 वर न कोई ॥ पांच पुरुषनी हुड ते नारी, पूरब क-
 र्म्म कमाई रे ॥ प्रा० ॥ क० ॥ १४ ॥ आभानगरी-
 नो जे स्वामी, साचो राजा चंद्र ॥ मांड कीधो
 पंखी कूकडो, कर्म्म नाख्यो ते फंद्र रे ॥ प्रा० ॥ क०
 ॥ १५ ॥ ईसर देव ने पारवती नारी, करता पुं-
 रुष कहावै ॥ अहनिस महिल मसांणमे वासो,
 भिन्ना भोजन खावे रे ॥ प्रा० ॥ क० ॥ १६ ॥
 सहस किरण सूरज परतापी, रात दिवस रहे
 अटतो, सोल कला ससीधर जग चावो, दिन २
 जाये घटतो रे प्रा० ॥ क० ॥ १७ ॥ इम अनेक
 खंड्या नर करमें, भांज्या ते पिण साजा ॥ ऋद्धि
 हरष कर जोडीने विनवै, नमो २ कर्म्म महाराजा
 रे ॥ प्रा० ॥ क० ॥ १८ ॥

॥ इति कर्म्म सञ्ज्ञाय समाप्तम् ॥

॥ सात व्यसनोंकी सज्जाय ॥

सात विसनना रे संग मतां करो, सुण ते-
हनो सुविचार विवेकी ॥ सात नरकना रे भाई
सातेई, आपै दुख अपार विवेकी ॥ सा० ॥१॥
प्रथम जूवाने रे विसन पडयांथकां, पाडव पांच
प्रसिद्ध विवेकी ॥ नलराजा पिण इण विसने प-
ड्यो, खोइ सहू राजरिद्ध वि० ॥सा०॥२॥ दूसरे
मांस भक्षण अवगुण घणा, करे पर जीव संहार
विवेकी महासतकनी नारी रेवती, नरक गड़ निर-
धार विवेकी वि० ॥ सा० ॥ ३ ॥ तीजे मदिरा
पांन विसन तजी, चित धरी वलि चाह वि० ॥
द्वीपायण रिपि दहव्यो जादवे, द्वारकानो थयो
दाह वि० ॥ सा० ॥ ४ ॥ चोथे विसने वेस्याघर
वसै, लोकमें न रहे लाज वि० ॥ कयवन्नादि-
कनोगयो कायदो, कुविसने रे काज वि० ॥सा०॥५॥
पाप आहेडे कुविसन साचवै, प्राणो हणियें प्रहार
वि० ॥ मारी मृगली श्रेणिक नृप, गयो पहली

नरक मभार वि० ॥ सा० ॥ ६ ॥ छठे चोरीने
 विसने करी, जीव लहे दुख जोर वि० ॥ मुंज-
 देव राजायें मारियो, चावो हुंडक चोर वि० ॥
 सा० ॥ ७ ॥ परस्त्रीय संगत कुविसन सातमें,
 हाणि कुजस बहु होय वि० ॥ राणो रावण सी-
 ता अपहरी, नास लंकानो रे जोय वि० ॥ सा०
 ॥ ८ ॥ इम जांणीने भव्य तुमे आदरो, सीख
 सुगुरुनी रे सार वि० ॥ इण भव परभव आणंद
 अतिघणा, कहे धरमसी सुखकार ॥ वि० ॥ सा० ॥ ९ ॥

॥ वैराग्यकी सज्जाय ॥

भूलो मनभमरा कांड भमै, भमियो दिवस
 ने रात ॥ मायारो लोभी प्रांणियो, भमियो पर-
 मल जात ॥ १ ॥ भू० ॥ कुंभ काचो काया का-
 रमी, जेहना करो रे जतन्न ॥ विणसतां वार
 लागे नही, निरमल राखो रे मन्न ॥ २ ॥ भू० ॥
 केहना छोरू केहना वाछरू, केहना माय नै वाप ॥
 ओ जीव जासी एकलो, साथे पुण्यनें पाप ॥ ३ ॥
 भू० ॥ आस्या तो डूंगर जेवड़ी, मरवो पगला रे

॥ सात व्यसनोंकी सज्जाय ॥

सात विसनना रे संग मतां करो, सुण ते-
हनो सुविचार विवेकी ॥ सात नरकना रे भाई
सातेई, आपै दुख अपार विवेकी ॥ सा० ॥१॥
प्रथम जूवाने रे विसन पडयांथकां, पाडव पांच
प्रसिद्ध विवेकी ॥ नलराजा पिण इण विसने प-
ड्यो, खोड सहू राजरिद्ध वि० ॥सा०॥२॥ दूसरे
मांस भक्षण अवगुण घणा,करे पर जीव संहार
विवेकी महासतकनी नारी रेवती,नरक गड् निर-
धार विवेकी वि० ॥ सा० ॥ ३ ॥ तीजे मदिरा
पांन विसन तजी, चित धरी बलि चाह वि० ॥
द्वीपायण रिपि दहव्या जादवे, द्वारकानो थयो
दाह वि० ॥ सा० ॥ ४ ॥ चांथे विसने वेस्याघर
वसे, लांकमें न रहे लाज वि० ॥ कयवन्नादि-
कनांगयो कायदो, कुविसने रे काज वि०॥सा०॥५॥
पाप आहेडे कुविसन माचवे, प्राणी हरिण्ये प्रहार
वि० ॥ मारी मृगली श्रेणिक नृप, गयो पहली

नरक मभार वि० ॥ सा० ॥ ६ ॥ छठे चोरीने
 विसने करी, जीव लहे दुक्ख जोर वि० ॥ मुंज-
 देव राजायें मारियो, चावो हुंडक चोर वि० ॥
 सा० ॥ ७ ॥ परस्त्रीय संगत कुविसन सातमें,
 हाणि कुजस बहु होय वि० ॥ राणो रावण सी-
 ता अपहरी, नास लंकानो रे जोय वि० ॥ सा०
 ॥ ८ ॥ इम जांणीने भव्य तुमे आदरो, सीख
 सुगुरुनी रे सार वि० ॥ इण भव परभव आणंद
 अतिघणा, कहे धरमसी सुखकार ॥ वि० ॥ सा० ॥ ६ ॥

॥ वैराग्यकी सज्जाय ॥

भूलो मनभमरा कांड भमै, भमियो दिवस
 ने रात ॥ मायारो लोभी प्राणियो, भमियो पर-
 मल जात ॥ १ ॥ भू० ॥ कुंभ काचो काया का-
 रमी, जेहना करो रे जतन्न ॥ विणसतां वार
 लागे नही, निरमल राखो रे मन्न ॥ २ ॥ भू० ॥
 केहना छोरू केहना वाछरू, केहना माय नै वाप ॥
 ओ जीव जासी एकलो, साथे पुण्यनें पाप ॥ ३ ॥
 भू० ॥ आस्या तो डंगर जेवडी, मरवो पगला रे

हेठ ॥ धन संची संच कांडू करो, करवो देवनी
वेठ ॥ ४ ॥ भू० ॥ लखपति छत्रपती सब गए,
गए लाखो के लाख ॥ गरव करी गोखै वैठता,
भए जल बल राख ॥ ५ ॥ भू० ॥ भवसायरजल
दुख भरयो, तिरवो छे रे जेह ॥ बीचमें बीह स-
बलो अछै, करमें वाय ने मेह ॥ ६ ॥ भू० ॥
उलट नही मारग चालवो, जायवो पहिले रे पार ॥
आगल नही हटवांगियो, संबल लेज्यो रे
लार ॥ ७ ॥ भू० मूरख कहे धन माहरो, धन
केहनो हतो न थाय ॥ वस्त्र विना जाय पोढवो,
लखपति लाकड़ माय ॥ ८ ॥ भू० ॥ मह मंद कहै
वस्त वीरीय, जे कुछ आवे रे साथ ॥ आपणो
लाभ उवारिये, लेखो साहिव हाथ ॥ भू० ॥ ९ ॥

॥ बाहूवलजीकी सज्जाय ॥

राजतणा अति लोभिया, भरत बाहूवल
भूके रे ॥ मूठ उपाड़ी मारिवा, बाहूवल प्रतिभूके
रे ॥ १ ॥ वीरा म्हारा गजथको उत्तरो, बाहूवी

सुन्दरी, भासै रे ॥ ऋषभ जिनेसर मोकली,
 बाहूबलनें पासै रे ॥ वी० ॥ गज चढयां केवल न
 होइ रे ॥ वी० २ ॥ लोच करी चारित्र लियो;
 वलि आयो अभिमानो रे ॥ लघु बांधव वाढू
 नही, काउसग्ग रह्यो शुभ ध्यानो रे ॥३॥ वी० ॥
 वरस दिवस काउसग्ग रह्यो, वेलडियां वींटाणो
 रे ॥ पंखी माला मांड़िया, सीत ताप सूकाणो
 रे ॥ वी० ॥ ४ ॥ साधवी वचन सुणया इसा, च-
 मक्यो चित्त मभारो रे ॥ हय गय रथमें परिह-
 रथा, पिण नवि मंक्यो अहंकारो रे ॥ वी० ॥ ५ ॥
 वैरागे मन वालियो, मुंक्यो निज अभिमानो रे ॥
 पांव उपाड़ी वांदिवा, उपनो केवलज्ञानो रे ॥
 वी० ॥ ६ ॥ पहंतो केवली परखदा, वाढ बल
 ऋषिराया रे ॥ अजर अमर पदवी लही, समय-
 सुंदर वंदे पाया रे ॥ ७ ॥ वी० ॥ इति ॥

॥ अरणिक मुनिकी सज्जाय ॥

अरणिक मुनिवर चाल्या गोचरी; तड़के दाभे

सीसो जी ॥ पायं उवराणा रे वेलू परजलै, तन
 सुकमाल मुनीसो जी ॥ अर० ॥ १ ॥ मुख कम-
 लाणो रे मालती फूल ज्यं, ऊभो गोखने हेठो
 जी ॥ खरै दुपहरै रे दीठो एकलो, मोही माननी
 मोठो जी ॥ २ ॥ अ० ॥ वयण रंगीले रे नयणे
 वेधियो, ऋषि थंभ्यो तिण वारो जी ॥ दासीने
 कहे जाय उतावली, ओ रिषि तेडी आंगणो जी ॥
 ३ ॥ अ० पावन कीजे ऋषि घर आंगणो, वहिरो
 मोदक सारो जी ॥ नवजोवन रस काया कांड
 दहो, सफल करो अवतारो जी ॥ ४ ॥ अ० ॥
 चंद्रावदनी रे चारित चूकव्यो, सुख विलसै दिन
 रातो जी ॥ इक दिन गोखै रमतो सोगठै, तव
 दीठो निज मातो जी ॥ ५ ॥ अ० ॥ अरणिक् २
 करती माय फिरे, गलियै २ मभारो जी ॥ कहि
 किण दीठो रे माहरो अरणलो, पूछै लोक हजा-
 रों जी ॥ ६ ॥ अ० ॥ उतर तिहांथी रे जननीरे
 पाय नमे, मनमें लाज्यो तिवारो जी ॥ धिग् २

पापी रे माहरा जीवने, एहमें अकारज धारथो
जी ॥७॥अ०॥ अगन धुखंती रे सिद्धा उपरै,अर-
णिक अणसण कीधो जो ॥ समयसुंदर कहे धन
ते मुनिवरू,मन वंछित फल सीधो जी ॥८॥अ०॥

॥ इलापुत्रकी सज्भाय ॥

नांम इलापुत्र जांणियै, धनदत्तसेठनो पूत ॥
नटवी देखी र मोहियो, जे राखे घरसूत ॥ १ ॥
करम न छूटे रे प्राणिया,पूरब नेह विकार ॥ निज
कुल छंडी रे नट थयो, नाणी सरम लिगोर ॥
क० ॥ २ ॥ इक पुर आओ रे नाचवा, उंचो वंस
विवेक ॥ तिहां राय जोवा रे आवियो, मिलिया
लोक अनेक ॥ क० ॥ ३ ॥ दोय पग पहरी रे
पावड़ी, वंस चढयो गजगेल ॥ निरधारा ऊपर
नाचतौ, खेले नवनवा खेल ॥ क० ॥ ४ ॥ ढोल
वजावे रे नाटकी, गावे किन्नर साद ॥ पायतल
घूघर घनघन,गाजै अंवर नाद ॥ क० ॥५॥ तिहां
राय चिंतेरे राजियौ, लुवधो नटवी रे साथ ॥

सगो जी, अरथ पखे सहु कोय ॥ विषय विषम
 महुरा कह्या जी, किम भोगविये सोय हे मायडी
 ॥ अ० ॥ १० ॥ खमि २ माउ पसाय करी जी,
 में दीधुं तुभ दुख ॥ दिओ आदेस जिम हुं
 सुखी जी, वीर चरणें ल्युं दीख हे ॥ मा० ॥
 अ० ॥ ११ ॥ तन फाटे लोयण भरे जी, दुख न
 सहणा जाइ ॥ वच्छ सुखी हुवो तिम करो जी,
 में दोधो आदेश रे जाया ॥ संयम वि० ॥ १२ ॥
 मणि मांणक मोती तज्या जी, तोड्यो नवसर
 हार ॥ मृगनयणी आठै रडे जी, हिव अह्य कवण
 आधार नरेसर ॥ संयम० ॥ १३ ॥ कुमर भणै
 सुकुली थिया जी, बहु दुख ए संसार ॥ नेहं तु-
 मारोजांणियो जी, जो ल्यो संयम भार रे नारी ॥
 संय० ॥ १४ ॥ रथ सिविका तव सक्ती करी जी, कुंवर
 धारणी माइ ॥ श्रेणिकराय उच्छव करै जी, चारित्र
 ल्यो रिपिराय रे जाया ॥ सं० ॥ १५ ॥ इम जांणी वैरा-
 गियो जी, वरजै जे नर नारि ॥ कर जोड़ी पूनो
 भणै जी, ते तरस्यै संसार हे माय ॥ अ० ॥ १६ ॥

॥ गजसुकमालिकौ सज्भाय ॥

संवेगरसमे भीलता, मनसुं करे आलोच ॥

देखीने दोहग टलै, तासु साध्यो रे में करि लोच

॥ १ ॥ यादवराय धन २ गजसुकमाल, तेहने

करूं रे प्रणाम त्रिकाल ॥ या० ॥ ए आंकणी ॥

प्रभूपास संयम आदख्यौ, तेहनो ए परिणाम ॥

मन वचन काया वसि करी, जो हूं पामूं रे केव-

लज्ञान ॥ २ ॥ या० ॥ मुनि मुगति जायवा अल-

जयो, पड़खै न दिन दस वीस ॥ साहसीक इम

उच्चरतो, पिण दिन जावे रे तो छेह दीस ॥

या० ॥३॥ समसांण जाय काउसग्ग रह्यौ, तिण

सांभि प्रभुने पूछ ॥ मुनिवर अवर इम चिंतवै,

एहनै साची रै छै मुंह मूछ ॥ या० ॥ ४ ॥ मुभ

सुता विन अवगुण तजी, सौमिल अगनि प्रजा-

ल ॥ सिगड़ी रचि सिर ऊपरै, चिहुं दिसि बांधी

रे माटीनी पाल ॥ या० ॥ ५ ॥ वेदनो जिम अ-

धिक वधै, तिम वधै मन परिणांम ॥ चवदमें गु-

णठाणें चढ्यो, मुनिवर पांमी रे केवलज्ञान ॥

या० ॥ ६ ॥ देवकी जांमणने थई, ते रयण वरस
 हजार ॥ वांदवा आवी प्रह समें, पिण नवि देखे
 रे प्रांणआधार ॥ या० ॥ ७ ॥ पूछतां प्रभु मांडी
 करी, रातिनी वीतग वात ॥ हरि देखी हियडो
 फूटसी, तेणें कीधो रे ऋषिजीनो घात ॥ या० ॥
 ८ ॥ उपसम सुधारस सेवतां, पांमियो अविचल-
 राज ॥ मनरंग साधु महंतना, गुण गावे रे श्री-
 जिनराज ॥ या० ॥ ९ ॥

॥ प्रसन्नचंद राजाकी सज्जाय ॥

राज छंडी रलियामणो रे, जांणी अथिर सं-
 सार ॥ वैरागै मन वालियो, कांड लीधो संजम
 भार ॥ प्रसन्नचंद प्रणमूं तुमारा पाय, तुमे मोटा
 मुनिराय ॥ प्र० ॥ १ ॥ वनमांहे काउसग्ग रह्यो
 रे, पग ऊपर पग ठाय ॥ बांह बेउं ऊंची करी,
 सूरज सांमी द्रष्टी लगाय ॥ २ ॥ प्र० ॥ श्रेणिक
 वंदन नीसल्यो रे, वीरजीने वंदन जाय ॥ देइ
 तीन प्रदक्षिणा, त्रिविध २ खमाय ॥ प्र० ॥ ३ ॥
 दुरमुख दूत वचन सुणी रे, कोप चढ्यो ततकाल ।

मनसुं संग्राम मांडियो, जीव पड्यो जंजाल ॥
 प्र० ॥ ४ ॥ श्रेणिके प्रश्न पूछियो रे, एहनी सी
 गति थाय ॥ भगवंत कहे हिवणां मरे तो, सा-
 तमी नरके जाय ॥ प्र० ॥ ५ ॥ खिण इक अंते
 पूछियो रे, सरवारथसिद्धि विमान ॥ वाजी देव-
 नी दुंदुभी, मुनि पांम्या केवलज्ञान ॥ प्र० ॥ ६ ॥
 प्रसन्नचंद्र मुनि मुगते गया रे, श्रीमहावीरना
 शिष्य ॥ रिद्धहरष कहे धन्य ते, जिण दीठा रे
 परतत्त् ॥ प्र० ॥ ७ ॥

॥ जीवोत्पत्तिकी सज्झाय ॥

उतपत जोय जीव आपणी, मनमांहि विमा-
 स ॥ गरभा वासे जीवडो, वसियो नव मास ॥
 उ० ॥ १ ॥ नारीतणे नाभी तले, जिन वचने जो-
 य ॥ फूल तणी जिम नालिका, तिम नाडी छै
 दोय ॥ उ० ॥ २ ॥ तसु तल योनि कहीजिये,
 वर फूल समान ॥ आंवतणी मांजर जिसो, तिहां
 मांस प्रधान ॥ उ० ॥ ३ ॥ रुधिर श्रवे तिण मांस-
 थी, ऋतुकाल सदीव ॥ रुधिर शुक्र योगे करी,

तिहां ऊपजे जोव ॥ ४ ॥ उ० ॥ जे अपान पवने
 करो, वासित दुरगंध ॥ तिण थानक तूं ऊपनो,
 हिव हूओ अंधमंध ॥ उ० ॥ ५ ॥ नाड़ी वांसतणी
 भरियै, घणी रूघाल ॥ ताती लोह सलाकतै,
 जाले ततकाल ॥ उ० ॥ ६ ॥ तिम महिलानी जो
 निमें, छै नव लख जीव ॥ पुरुष प्रसंगे ते सहू,
 मरि जाय सदीव ॥ ७ ॥ ऊपजै नर नारी मिल्यां,
 पांचेंद्री जेह ॥ तेहतणी संख्या नही, तजो का-
 रज एह ॥ उ० ॥ ८ ॥ नव लख जीव टिके तिहां,
 उत्कृष्टी वार ॥ जीव जघन्यपणे टिके, एक दोय
 त्रिण च्यार ॥ उ० ॥ ९ ॥ जीव जघन्य तिहां रहे,
 महुमत परिमाण ॥ बार वरसनी थिति तिहां,
 उत्कृष्टी जांण ॥ १० ॥ उ० ॥ तिहां गरभे कोइ
 जीवडो, जंपै जग दीस ॥ फिर नर आवंतो रहै,
 संवत्सर चोवीस ॥ ११ ॥ उ० ॥ महिला वरस
 पिचावनें, कहिये नीरवीज ॥ पिचहत्तर वरसां
 पछै, थायै पुरुष अवीज ॥ १२ ॥ उ० ॥ जीमणी
 कूखै नर वसै, तिम वामे नारि ॥ वोच नपुंसक

जांणिये, जिनवचन विचार ॥ १३ ॥ उ० ॥
हिव सामान्यपणै इहां, आयो गरभावास ॥ सात
दिना उपरि रहे, नर गत नव मास ॥ उ०
॥ १४ ॥ आठ वरस तिर्यंच रहे, उत्कृष्ट काल ॥
गरभावासै भोगव्या, इम बहु जंजाल ॥ उ० ॥
१५ ॥ कामण कोये कर लियो, पहिलो आहार ॥
शुक्र अने शोणिततणो, नही भूठ लिगार ॥ उ०
॥ १६ ॥ परजापत पूरी नही, तिहां विसवावीस ॥
तिण आहारै तं थयो, उदारिक मीस ॥ उ० ॥
१७ ॥ पवन अछै उदरै तिको, उपजायै अंग ॥
अग्नि करै थिर तेहने, जल सरस सुरङ्ग ॥ १८
॥ उ० ॥ कठन पणै पृथवी रचै, अवगाह अकास ॥
पांचभूत सरीरमें, इम करै प्रकास ॥ १९ ॥ उ० ॥
वारै महरत तां पछै, विलसै नर नारि ॥ गरभ-
तणी उतपति तिहां, नहीं अवर प्रकार ॥ २० ॥
उ० ॥ कलल हुवै दिन सातमें, अरबुद दिन सात ॥
अरबुदथी पेसी वधै, घन मांस कहात ॥ २१ ॥
उ० ॥ मांसतणी बोटी हुवै, अडतालिस टांक ॥

प्रथम मास जिनवर कहे, मन धरो निसंक ॥२२॥
 उ० ॥ सुथिर मास बीजे हुवै, हिव तिज मास ॥
 करमतणै वसि ऊपजै, माता मन आस ॥ २३ ॥
 उ० ॥ चौथै मासै मातना, प्रणमै सहु अंग ॥
 हाथ अने पग पांचमें, तिम सुतको संग ॥ २४॥
 उ० ॥ पित्त रुधिर छठे पडै, सातमें इण संच ॥
 नव धमणी नस सातसै, पेसी सय पंच ॥ २५ ॥
 उ० ॥ रोम राय पिण सातमें, साढीतीन कोडि ॥
 ऊपजे उणै केतलै, इम आगम जोडि ॥ २६ ॥
 उ० ॥ आठमें मासैं नीपनो, इम सकल सरीर ॥
 उंधै सिर वेदन सहे, जंपै जिन वीर ॥२७॥ उ० ॥
 शोणित शुक्र सल्लेषमा, लघु ने वडनीत ॥ वात
 पित्त कफ गरभथो, थायै नर नीत ॥ २८ ॥ उ०॥
 मात तणी स्रुटि लगै, बालकनो नाल ॥ रस
 आहार करे तिहां, आवे ततकाल ॥ उ० ॥ २९ ॥
 जननी ल्ये आहार ते, जाय नाडोनाड ॥ रोम
 इंद्रो नख चख वधे, तिम मीजी ने हाथ ॥ उ०॥
 ३० ॥ सवहू अंगे ऊलस, सरवंग आहार ॥ कव-

ल आहार करे नही, गरभै सुविचार ॥ ३० ॥
 ३१ ॥ मास बीजे किण जीवने, थाये ज्ञान विभं-
 ग ॥ अथवा अवधि कहीजिये, तिण ज्ञान प्रसंग
 ॥ ३० ॥ ३२ ॥ कटक करे वैक्रियपणें, भुक्ती नर
 के जाय ॥ को जिनवचन सुणी करी, मरी सुर
 पिण थाय ॥ ३० ॥ ३३ ॥ ऊंधै मुखगोडा हिये;
 सहितो बहु पीड ॥ दृष्टि आगलि बेहुं हाथसुं,
 रहे मुट्ठीभींच ॥ ३० ॥ ३४ ॥ नर विण वस्त्र
 जलादिकं, ऊपजै आधांन ॥ अथवा विहुं नारी
 मिल्यां, कह्यो गरभविधान ॥ ३० ॥ ३५ ॥ कोइ
 उत्तम चिंतवै, देखी दुखावास ॥ पुन्य करी तिम
 नोकलं, नाऊं गरभ वास ॥ ३० ॥ ३६ ॥ ऊंठ
 कोडि चांपे सुई, कोई समकाल ॥ तिणथी गरभै
 अठ गुणौ, सहे वेदन बाल ॥ ३० ॥ ३७ ॥ माता
 दूखी दूखीयो, सुखणी सुख थाय ॥ माता सूती
 ते सुवै, परवस दिन जाय ॥ ३० ॥ ३८ ॥ गरभ
 थकी दुख लख गुणो, जांमें जिण वार ॥ जन्म
 थयां दुख वीसरै, धिगूर मोह विकार ॥ ३० ॥

३६ ॥ ऊपज्यो अशुचिपणे जिहां, मल मूत्र कले
 स ॥ पिंड अशुचि कर पूरियो, किहां शुचि लव
 लेस ॥ उ० ४० ॥ तुरत रुदन करतो थको, जांमैं
 जिण वार ॥ मात पयोधर मुख ठवै, पीयै दूध
 तिवार । उ० ॥ ४१ ॥ दिन२ दीसे दीपतो, करै
 रंग अपार ॥ लाड कोड माता पिता, पूरै सुविचार
 ॥ उ० ॥ ४२ ॥ श्रोत्र इग्यारे नारिनैं, नव नरने
 जांण ॥ रात दिवस वहिता रहै, चैतो चतुर सुजाण
 ४३ ॥ उ० ॥ सात धातु साते त्वचा, छै सातसै
 नाडि ॥ नवसे नाडी पिंडमें, तिम तीनसे हाड ॥
 ४४ ॥ उ० ॥ संधि एकसो साठ छै, सतोत्तर सो
 सम ॥ तीन दोष पेसी पांचसै, ढांकी छै चरम
 ॥ उ० ॥ ४५ ॥ रुधिर सेर दस देहमें, पेसाव सरीष ॥
 ॥ सेर पांच चरबां तिहां, दोय सेर पुरीष ॥ उ०
 ४६ ॥ पित्त टांक चोसठ अछै, वीरज बत्तीस ॥
 टांक बत्तीस सलेखमां, जाणै जगदीस ॥ ४७
 उ० ॥ इण परिमाणथको यदा, उछो अधिको था
 य ॥ व्यापै रोग सरीरमें, नवि वाजे काय ॥ ४८ ॥

उ० ॥ पोख्यो पहिले दाहके, इम वधियो अंग ॥
 खान पान भूषण भलां, करे नवनवा अंग ॥ ४६
 उ० ॥ हिव बीजै दसके भएयो, विद्या विविध प्र-
 कार ॥ तीजे दसके तेहने, जाग्यो कांम विकार
 ॥ ५० ॥ उ० ॥ जिण थांनक तूं उपनो, तिणामें
 मन जाय ॥ चोथे दसके धनतणो, करे कोड
 उपाय ॥ ५१ ॥ उ० ॥ पहुंतो दसके पांचमें, मनमें
 ससनेह ॥ बेटा बेटा पोतरा, परणावे तेह ॥ ५२
 उ० ॥ छट्टे दसके प्राणियो, बले परवस थाय ॥
 जरा आइ जोवन गयो, तृष्णा तोही न जाय ॥
 ५३ ॥ उ० ॥ आवै दसकै सातमें, हिव प्राणी तेह ॥
 बल भागो बूढो थयो, नारी न धरे सनेह ॥
 ५४ ॥ उ० ॥ आठमें दसके डोसलो, खुलिया सहु
 दांत ॥ कर कंपावै सिरधुणै, करे फोगट वात ॥
 ५५ ॥ उ० ॥ नवमें दसके प्राणियो, तन सूकत
 जाय ॥ सांभले वचन बहुआं तणो, दिन भुरता
 जाय ॥ ५६ ॥ उ० ॥ खाटपड्यो खूंखूं करे, सहू
 गाली देह ॥ हाल हूकुम हाले नही, दीयो परि-

जन छेह ॥ ५७ ॥ उ०॥ आंख गले वे पुड मिले,
 पडै मुंहडे लाल ॥ बेटा बेट्ठी ने वह, न करे सार
 संभाल ॥ ५८ ॥ उ० ॥ दस दृष्टाते दोहिलो
 लह्यो नरभव सार ॥ श्रीजिन धरम समाचरो,
 पांमो जिम भव पार ॥ ५९ ॥ उ० ॥ चरणपणे
 जे तप तपे, पाले निरमल शील ॥ ते संसार तरी
 करी, लहे अविचल लील ॥ ६० ॥ उ० ॥ कोडि
 रतन कवडी सटै, कांड गमे रे गिवार ॥ धरम
 पखै पिण जीवनें, नहि कोइ आधार ॥ ६१ ॥
 उ० ॥ काया माया कारमी, कारमो परिवार ॥
 तन धन जोवन कारमो, साचो धरम संभार ॥
 ६२ ॥ उ० ॥ चवदै राज प्रमाण ए, छै लोक
 महंत ॥ जनम मरण कर फरसियो, ते बार
 अणंत ॥ ६३ ॥ उ०॥ आप सवारथिया सहु, नही
 केहनो कोय ॥ विण स्वारथ अण पहुंचतै, सुत
 पिण वैरी होय ॥ ६४ ॥ उ० ॥ जरां न आवे जां
 लगे, जां लग सबल सरीर, धरम करो जीव तां
 लगै, होय साहसधीर ॥ ६५ ॥ उ० ॥ आरज

देस लह्यो हिवै, लाधो गुरु संयोग ॥ अंगथकी
 आलस तजो, करो सुकृत संयोग ॥६६॥ ऊ० ॥
 श्रीनमि रायतणी परै, चेतो चितमांहि ॥ स्वारथ-
 ना सहको सगा, कोइ किणारो नांहि ॥६७॥उ०॥
 भोग संयोग तजी सहू, थया जे अणगार ॥
 धन२ तसु माता पिता, धन२ अवतार ॥ ६८ ॥
 उ०॥ सुरतरु सुरमणि सारखो,सेवो जिनधरम ॥
 जिणथी सुख संपति वधे, कीजै तेहिज कर्म ॥
 ६९ ॥ उ० ॥ तंदुलबेयाली अछै, एहनो अधि-
 कार ॥ तिणथी ऊद्धरनै कह्यो, नही भूठ लिगार
 ॥ ७० ॥ उ० ॥ कलस ॥ इह जैनधर्म विचार
 सांभलि लिये संजमभार ए, परिशिह केरा सदा
 पालै नेम निरतिचार ए ॥ संसारना सुख सकल
 भोगवि ते लहे भव पार ए, श्रीजिनहर्ष सुसीस
 रंगै इम कहै श्रीसार ए ॥ ७० ॥ उ ॥ इति ॥



॥ स्नात्र पूजा ॥

॥ पांखडी गाथा ॥

चौतीसैं अतिशय जुओ । वचनातिशय सं-
जुत्त । सो परमेसर देखि भवि, सिंघासण
संपत्त ॥ १ ॥

ढाल ॥ सिंहासन बैठा जगभाण, देखी भ-
वियण गुणमणि खाण । जे दीठें तुभ निम्मल
भाण, लहिये परम महोदय ठाण ॥ १ ॥ कुसु-
मांजलिमेलो आदि जिणन्दा ॥ तोराचरण
कमल चोवीस, पूजोरे चोवीस, सोभागी चोवीस,
वैरागी चोवीस जिणन्दा ॥ कुसुमांजलि मेलो
आदि जिणन्दा । (कुसुमांजलि हाथमें लेकर
यह पढ़ते हुए चरणोंमें टीकी लगाना चाहिये)

गाथा ॥ जो निजगुण पड्जव रम्यो, तसु
अनुभव ए गत्त । सुह पुगल आरोपतां । ज्यो-
ति सुरंग निरत्त ॥ २ ॥

ढाल ॥ जो निज आतम गुण आनंदी,

पुग्गल संगै जेह अफंदी । जे परमेश्वर निज पद
लीन, पूजो प्रणमो भव्य अदीन ॥१॥ कुसुमांज-
लि मेलो शांति जिणंदा ॥ तोरा चरण कमल
चोवीस, पूजोरे चोवीस, सोभागी चोवीस, वै-
रागी चोवीस, जिणंदा ॥ कुसुमांजलि मेलो
श्रीशांति जिणंदा ॥ (यह पढ़कर धुटनों पर
टीकी लगाना चाहिये) ॥ २ ॥

गाथा ॥ निम्मल नाण पयासकर, निम्मल
गुण संपन्न । निम्मल धम्म उवएस कर, सो
परमप्पा धन्न ॥ ३ ॥

ढाल ॥ लोकालोक प्रकाशक नाणी, भवि
जन तारण जेहनी वाणी । परमानंद तणी नी-
साणो, तसु भगते मुक्क मति ठहराणी ॥१॥ कुसु-
मांजलि मेलो नेमि जिणंदा ॥ तोरा चरण कमल
चोवीस, पूजोरे चोवीस, सोभागी चोवीस, वै-
रागी चोवीस जिणंदा ॥ कुसुमांजलि मेलो श्री
नेमि जिणंदा ॥ (यह पढ़कर दोनों हाथोंको
टीकी लगाना चाहिये) ॥ ३ ॥

गाथा ॥ जे सिद्धा सिजन्ति जे, सिज्जि-
स्सन्ति अणंत । जसु ओलंबन ठविय मन, सो
सेवो अरिहंत ॥ ४ ॥

ढाल ॥ शिव सुख कारण जेह त्रिकालें,
सम परिणामें जगत निहालें । उत्तम साधन
मार्ग दिखालें, इन्द्रादिक सु चरण पखालें ॥१॥
कुसुमांजलि मेलो पार्श्व जिणंदा, तोरा चरण क-
मल चोवीस, पूजोरे चोवीस, सोभागी चोवीस,
वैरागी चोवीस जिणंदा ॥ कुसुमांजलि मेलो
श्रीपार्श्व जिणंदा ॥ (यह पढ़कर दोनों कंधों
पर टीकी लगाना चाहिये) ॥ ४ ॥

गाथा ॥ सम्मदिट्ठो देसजय, साहु साहुणी
सार । अचारिज उवभाय मुणि, जो निम्मल
आधार ॥ ५ ॥

ढाल ॥ चौविह संघै जे मन धाख्यो, मोक्ष-
तणो कारण निरधाख्यो । विविह कुसुम वरजात
गहेवो, तसु चरणै प्रणमन्त ठवेवी ॥१॥ कुसुमां-
जलि मेलो श्रीवीर जिणंदा, तोरा चरण कमल

चोवीस, पूजोरे चोवीस, सोभागी चोवीस, वैरा-
गी चोवीस जिणांदा ॥ कुसुमांजलि मेलो श्री
वीर जिणांदा ॥ (यह पढ़कर मस्तक पर तिलक
करना चाहिये) ॥ ५ ॥

॥ इति पांखडी गाथा ॥

वस्तु ॥ सयल जिनवर सयल जिनवर नमिय
मन रंग । कल्लाणक विह संथविय । करिय सुजम्म
सुपवित्त सुन्दर । सय इक सत्तरि तित्थंकर ।
इक्क समै विहरंत महियल । चवण समै इक-
वोस जिण । जन्म समै एकवीस । भत्तिय भावें
पूजिया । करो संघ सुजगीस ॥ १ ॥

इक दिन अचिरा हुलरावती-ए देशी ॥

भव तीजे समकित गुण रम्या । जिन
भक्तिप्रमुख गुण परिणम्या ॥ तजि इन्द्रिय सुख
आसंसना । करि थानक वीसनी सेवना ॥
अतिराग प्रशस्त प्रभावता । मन भावना एहवी
भावता ॥ सवि जीव करूं शासन रसी । इसी
भाव दया मन उल्लसी ॥ लहि परिणाम एहवुं

भलुं । निपजावी जिनपद निरमलुं ॥ आऊ वं
 विचै इक भव करी । श्रद्धा संत्रेगथी थिर धरी
 तिहांथी चविय लहैं नर भव उदार । भरतें जिम
 ऐरवतेज सार । महा विदेह विजय प्रधान । मभ
 खंडै अवतरे जिन निधान ।

ढाल ॥ पुण्यें सुपना ए देखें । मनमें ह
 विशेषे ॥ गजवर उज्जल सुन्दर । निर्मल वृषभ
 मनोहर । निर्भय कंसरी सिंह । लखमी अति
 अवीह ॥ अनुपम फूलनी माला । निर्मल शशि
 सुकमाल ॥ तेज तरण अति दीपै । इन्द्र ध्वज
 जग जीपै ॥ पूरण कलस पंडूर । पदम सरोवर
 पूर ॥ इग्यारमे रयणायर । देखे माताजी गुण
 सायर ॥ वारमें भुवन विमान । तेरमें रत्न नि-
 धान ॥ अग्नि शिखा निरधूम । देखें माताजी
 अनुपम ॥ हरखी रायने भासैं । राजा अर्थ प्र-
 काशैं ॥ जगपति जिनवर सुखकर । होस्यें पुत्र
 मनोहर ॥ इन्द्रादिक जसु नमस्यें । सकल मनो-
 रथ फलस्यें ॥

वस्तु ॥ पुण्य उदय पुण्य उदय-ऊपना जिण
नाह । माता तव रयणी समै देखि सुपन हरषंत
जागिय । सुपन कही निज कंतने सुपन अरथ
सांभलो सोभागिय । त्रिभुवन तिलक महा गुणी ।
होस्यें पुत्र निधान ॥ इन्द्रादिक जसु-पय नमो ।
करस्यें सिद्ध विधान ॥

॥ ढाल-चंद्रा उल्लालानी ॥

सोहम पति आसन कंपियो । देई अवधे
मन आणंदियो ॥ मुक्त आतम निर्मल करण
काज । भव जल तारण प्रगट्यो जिहाज ॥ भव
अटवि पारग सत्थवाह । केवल नाणाइय गुण
अगाह ॥ शिव साधन गुण अंकुर जेह । कारण
उलटयो आषाढ मेह ॥ हरखै विकसै तब रोम-
राय । बलयादिकमां निजतनु न माय ॥ सिंहा-
सनंथी ऊठो सुरिंद । प्रणमन्तो जिण आनंद
कन्द ॥ सग अड़पय पमुहा आवि तत्थ । करि
अञ्जलि प्रणामिय मत्थ सत्थ । मुख भाखें ऐ
खिण आज सार । तियलोय पहु दीठो उदार ॥

रे रे निसुणों सुर लोय देव । विषयानल ता-
 पित तनु समेव ॥ तसु शांति करण जलधर स-
 मान । मिथ्या विष चूरण गरुड़वान ॥ ते देव
 सकल तारण समत्थ । प्रगट्यो तसु प्रणामी हुई
 सनत्थ ॥ इम जम्पी शक्रस्तव करेवि । तव देव
 देवि हरखै सुणेवि ॥ गावें तव रम्भा गीत गान ।
 सुर लोक हुवो, मंगल निधान ॥ नर खेत्रें आरज
 वंश ठाम । जिनराज वधें सुर हर्ष धाम ॥ पिता
 माता घरे उच्छव अलेख । जिन शासन मंगल
 अति विशेष ॥ सुरपति देवादिक हर्ष संग ।
 संयम अरथी जनने उमंग । शुभ वेला लगने
 तीर्थ नाथ । जनम्यां इन्द्रादिक हर्ष साथ ॥ सुख
 पाम्यां त्रिभुवन सर्व जीव । वधाई वधाई थई
 अंतीव ॥ (यह कहकर फूल और चांवलोंसे
 वधाना और वादमें:—चैत्यवंदन करके और
 धूप देना चाहिये)

॥ श्रीशांति जिननो कलश कहिसुं-ए देशी ॥

त्रोटक ॥ श्रीतीर्थ पतिनो कलश मज्जन गाइये

सुखकार । नर खेत्त मंडन दुह विहण्डन भविक मन
 आधार ॥ तिहां राव राणां हर्ष उच्छव थयो जग
 जय कार । दिसि कुमरि अवधि विशेष जाणी
 लह्यो हर्ष अपार ॥ निय अमर अमरी संग कु-
 मरी गावती गुण छंद । जिन जननि पासें आवि
 पोहती गहगहती आंणंद ॥ हे माय तैं जिनराज
 जायो शचि वधायो रम्म । अम जम्म निम्मल
 करण कारण करिस सुइय कम्म ॥ तिहां भूमि
 शोधन दीप दर्पण वाय विंजण धार । तिहां
 करिय कदली गेह जिनवर जननी मज्जन कार ॥
 वर राखडी जिन पाणि बांधी दियें इम आसीस ।
 जुग कोड़ कोड़ी चिरंजीवो धर्म दायक ईश ॥

ढाल इकविसानी ॥ जग नायकजी, त्रिभुवन
 जन हित कार ए । परमात्मजी, चिदानन्द धन
 सार ए ॥ जिन रयणीजी, दश दिस उज्जलता
 धरै । शुभ लगनेजी, ज्योतिष चक्रते संचरै ॥
 जिन जनम्याजी, जिन अवसर माता धरै । तिण
 अवसरजी, इंद्रासन पिण थरहरै ॥

त्रोटक ॥ थरहरे आसन इन्द्र चिंतें कवण
 अवसर ए बणयो । जिन जन्म उच्छव काल जाणी
 अतिही आनन्द उपन्यो ॥ निज सिद्ध सम्पति
 हेतु जिनवर जाणि भगते ऊमह्यो । विकसंत
 वदन प्रमोद वधतै देव नायक गहगह्यो ॥

ढाल ॥ तब सुरपतिजी, घंटा नाद करावए ।
 सुर लोकैजी, घोषणा एह दिरावए ॥ नर चैत्रैजी,
 जिनवर जन्म हुवो अछै । तसु भगतैजी, सुरपति
 मंदर गिर गछै ॥

त्रोटक ॥ गछै मंदर शिखर ऊपर भवन
 जीवन जिन तणों । जिन जन्म उच्छव करण
 कारण आवज्यो सवि सुर गणों ॥ तुम शुद्ध सम-
 कित थास्यें निर्मल देवाधिदेव निहालतां । आपणा
 पातिक सर्व जास्यें नाथ चरण पखालतां ॥

ढाल ॥ इम सांभलिजी, सुरवर कोड़ी बहु
 मिली । जिन वंदनजी, मंदर गिर साहमी चली ।
 सोहम पतिजी, जिन जननी घर आविया । जिन
 माताजी, वंदी स्वामि वधाविया ।

त्रोटक ॥ वधाविया जिनवर हषे बहुलै धन्य
हं कृत पुण्य ए । त्रैलोक्य नायक देव दौठो मुझ
समो कुण अन्य ए ॥ हे जगत जननी पुत्र तुमचो
मेरु मज्जन वर करी । उच्छंग तुमचै बलिय
थापिस आतमां पुन्ये भरी ॥

ढाल ॥ सुर नायकजी, जिन निज कर कमलै
ठव्या । पांचरूपेजी, अतिशय महिमायें स्तव्या ॥
नाटक विध जी, तव बत्तीस आगल बहै । सुर
कोड़ी जी, जिन दरशनणें ऊमहै ॥

त्रोटक ॥ सुर कोड़ कोड़ी नाचती वलि नाथ
शुचि गुण गावती । अपछरा कोड़ी हाथ जोड़ी
हाव भाव दिखावती ॥ जय जयो तूं जिनराज
जग गुरु एम दे आसीस ए । अम त्राण शरण
आधार जीवन एक तूं जगदीश ए ॥

ढाल ॥ सुर गिरवरजी, पांडुक वनमें चिहं
दिसैं । गिरि शिल पर जी, सिंहोसन सासय वसे ॥
तिहां आणीजी, शक्रे जिन खोले ग्रह्या । चउसटें
जी, तिहां सुरपति आवी रह्या ॥

त्रोटक ॥ आविया सुरपति सर्व भगते कलश
 श्रेणि वणावण । सिद्धार्थ पमुहा तीर्थ औषधि सव
 वस्तु अणावण । अच्युयपति तिहां हुकुम कीनो
 देव कोड़ा कोड़िनें । जिन मज्जनारथे नीर लाओ
 सबै सुर कर जोड़िनें ॥ (जलका कलश लेकर
 खड़े रहैं और पढ़ें)

॥ शांतिनें कारणे इन्द्र कलशा भै ए देशी ॥

ढाल ॥ आत्म साधन रसी देवकोड़ी हसी ।
 उल्लसीनें धसी खीर सागर दिशी ॥ पउमदह आदि
 दह गंग पमुहा नई । तीर्थ जल अमल लेवा
 भणी ते गई ॥ जाति अड़ कलश करि सहस
 अठोत्तरा । छत्र चामर सिंहासणे शुभतरा ॥
 उपगरण पुष्प चंगेरि पमुहा सवे । आगमें भा-
 सिया तेम आणि ठवे ॥ तीर्थ जल भरिय करि
 कलश करि देवता । गावता भावता धर्म उन्नति
 रता ॥ तिरिय नर अमरनें हर्ष उपजावता । धन्य
 श्रम शक्ति शुचि भक्ति इम भावता ॥ समकितें
 बीज नज आत्म आरोपता । कलश पाणी मिसै

भक्ति जल सींचता ॥ मेरु सिहरोवरे सर्व आब्या
वही । शक्र उच्छङ्ग जिन देखि मन गहगही ॥

गाथा ॥ हंहो देवा अणाइ कालो । अदिट्ठ-
पुव्वो तिलोय तारण । तिलोय बन्धु मिच्छत मोह
विद्धंसणो । अणाइतिह्हाविणासणो । देवाहिदेवो
दिट्ठव्वो हियकामेहिं ॥

ढाल ॥ एम पभणंत वण भुवन जोईसरा ।
देव वेमाण्या भत्ति धम्मायरा ॥ केवि कप्प-
ट्टिया केवि मित्ताण्णागा । केवि वर रमण वयणेण
अइ उच्छगा ॥

वस्तु ॥ तत्थ अच्युय तत्थ अच्युय इन्द्र आदेश ।
कर जोड़ी सब देवगण लेइ कलश आदेश पा-
मिय । अद्भुत रूप सरूप जुय कवण एह पुच्छंत
सामिय । इंद्र कहे जग तारणो पारग अम्ह
परमेस । दायक नायक धर्मनिधि करिये तसु
भिषेक ॥ (इस समय जलकी थोड़ीसी धारा देना)

तीर्थ कमलवरे उदक भरीनें पुष्कर सागर आवै-ए देशी ॥

ढाल ॥ पूर्ण कुलश शुचि उदकनी धारा,

जिनवर अंग नामें । आतम निर्मल भाव करंतां,
वधतें शुभ परिणामें ॥ अच्युतादिक सूरपति
मज्जन, लोकपाल लोकांत । सामानिक इन्द्राणी
पमुहा, इम अभिषेक करंत ॥ पू० ॥

गाथा ॥ तव इशाण सुरिंदो, सक्कं पभणोइ
करिस सुपसाउ । तुम अंके महनाहो, खिणमित्तं
अम्ह अप्पेह ॥ ता सक्किन्दो पभणोइ, साहम्मि
वच्छलम्मि बहुलाहो । आणा एवं तेणां, गिरहइ
होउ कयत्था भो ॥ (यह कहकर सभी कलशोंके
जलसे भगवानको स्नान कराना चाहिये)

ढाल ॥ सोहम सुरपति वृषभ रूप करि
न्हवण करे प्रभु अंगै । करिय विलेपन पुष्पमाल
ठवि वर आभरण अभंगै ॥ सो० १ ॥ तव सुर
वर बहु जय जय रव कर निश्चै धरि आणन्द ।
मोच्च मारग सारथ पति पाम्योँ भांजस्युं हि भव
वन्द ॥ सो० ॥ २ ॥ कोइ वत्तीस सोवन्न उवारी
वाजंतै वरनाद । सुरपति संघ अमर श्री प्रभुन
जननीनें सुप्रसाद । आणी थापी एम पयंपे अम्ह


निस्तरिया आज । पुत्र तुमारो धणिय हमारो
 तारण तरण जिहाज ॥ सो० ३ ॥ मात जतन
 करि राखज्यो एहनें तुम सुत हम आधार । सुर-
 पति भक्ति सहित नन्दीश्वर करे जिन भक्ति
 उदार ॥ सो० ॥ ४ ॥ निय निय कप्प गया सहु
 निज्जर कहता प्रभु गुण सार । दीक्षा केवल
 ज्ञान कल्याणक इच्छा चित्त मभार ॥ सो० ५ ॥
 खरतर गळ जिण आणा रंगी राज सागर उव-
 भाय । ज्ञान धर्म दीपचंद सुपाठक सुगुर तणें
 सुपसाय ॥ देवचंद निज भक्तें गायो जन्म महो
 च्छव छंद । बोध बीज अंकुरो उलस्यो संघ
 सकल आणंद ॥ सो० ॥ ६ ॥ इति ॥

राग वेलावल ॥ इम पूजा भगतें करो, आतम
 हित काज । तजिय विभव निज भावना, रमतां
 शिव राज ॥ इम० ॥ १ ॥ काल अनंतें जे हुआ,
 होस्यें जेह । जिणंद संपई श्रीमंधर प्रभु, केवल
 नाण दिणंद ॥ इम० ॥ २ ॥ जन्म महोच्छव इण
 परै, श्रावक रुचिवंत । विरचै जिन प्रतिमा तणों,

अनुमोदन खंत ॥ इम० ३॥ देवचंद्र जिन पूजना,
करतां भव पार । जिन पड़िमा जिन सारखी,
कही सूत्र मभार ॥ इम० ॥ इति पदम् ।

॥ इति स्नात पूजा ॥

अष्टकरी पूजा ।



जल पूजा ।

दुहा ॥ गंगा मागध चीरनिधि, औषध
मिश्रित सार । कुसुमे वासित शुचि जलें, करो
जिन स्नात्र उदार ॥ १ ॥ ढाल ॥ मणि कन-
कादिक अड़विध करि भरि कलस सफार ।
शुभ रुचि जे जिनवर नमें तसु नहीं दुरित
प्रचार ॥ मेरु शिखर जिम सुरवर जिनवर न्हवण
अमान । करता वरता निज गुण समकित वृद्धि
नधान ॥ २ ॥ (छन्द) हर्ष भरि अपसरावृन्द
आवै । स्नात्र करि एम आसीस भावै । जिहां
लगै सुरागरी जंबुदीवो । अमंतणा नाथ जीवो

तुम् जीवो ॥ ३ ॥ श्लोक ॥ विमलकेवलभासन-
भास्करं, जगति जंतुमहोदयकारणं । जिनवरं
बहुमानजलौघतः, शुचिमनः स्नपयामि विशुद्धये
॥ १ ॥ ओं ह्रीं परमपरमात्मने अनंतानंतज्ञान-
शक्तये जन्मजरामृत्युनिवारणाय श्रीमज्जिने-
न्द्राय जलं यजामहे स्वाहा ॥ १ ॥ इति जल
पूजा ॥ यह कहकर जलसे न्हवण कराना ॥

चंदन पूजा ।

दुहा ॥ बावना चन्दन कुम कुमा । मृगमद
नें घनसार ॥ जिन तनु लेपै तसु टले । माह
सन्ताप विकार ॥ १ ॥ ढाल ॥ सकल संताप
निवारण तारण सहु भविचित्त । परम अनोहा
अरिहा तनु चरचो भविनित्त ॥ निज रूपै उप-
योगी धारो जिन गुणगेह । भाव चंदन सुह
भावथी टालै दुरित अछेह ॥ २ ॥ चाल ॥ जिन
तनु चरचतां सकल नाकी । कहै कुग्रह ऊण्णता
आज थाकी ॥ सफल अनिमेषता आजम्हाँकी ।
भव्यता अम्ह तणी आज पाको ॥३ ॥ श्लोक ॥

सकलमोहतमिश्रविनाशनं. परमशीलभावयुतं
 जिनं । विनयकुंकुमचंदनदर्शनैः, सहजतत्त्ववि-
 काशकृतेर्चये ॥ १ ॥ ओं ह्रीं परमपरमात्मने
 अनन्तानन्तज्ञानशक्तये जन्मजरामृत्युनिवार-
 णाय श्रीमज्जिनेद्राय चंदनं यजामहे स्वाहा ॥
 इति चंदन पूजा यह कहैकर केशर और चंदन
 चढ़ाना चाहिये ।

नवत्रंगि भाव पूजा ।

दुहा ॥ पर उपगारी चरणयुग, अनंत
 शक्ति स्वयमेव । यातें प्रथम पूजिये, आतम
 अनुभव सेव (चरणोंमें टीकी) ॥ १ ॥ जानु
 पूजा दूसरी, समाधि भूमिका जान । आतम
 साधन ज्ञान ले, शुद्ध दशा पहिचान ॥ (गो-
 डोंको टीकी) ॥ २ ॥ कर पूजा जिन राजको,
 दिये सम्बच्छरी दान । ते कर मुक्त मस्तक ठवूं,
 पहंचे फद निर्वाण ॥ (हाथोंमें टीकी) ॥ ३ ॥
 भुजवल शक्ति जानके, पूजा करूं चित लाय ।
 रागादिमल हटायके, आतम गुण दरशाय ॥

(कंधोंमें टीकी) ॥ ४ ॥ सिर पूजा जिनरांजकी,
 लोक शिरोमणि भाव । चउगति गमन
 मिटायके, पंचम गति सम भाव ॥ (मस्तकमें
 टीकी) ५ ॥ लिलवट पूजा सार है, तिलक
 विधि विश्राम । वदन कमल वाणीसुनें, पहुँचे
 निज गुण धाम ॥ (ललाटमें टीकी) ॥ ६ ॥
 कंठ पूजा है सातमी, वचनातिशय वृंद । सप्त
 भेद पंचविश श्रुत, अनुभव रस नो कंद ॥
 (कंठमें टीकी) ॥ ७ ॥ हृदय कमलनी पू-
 जना, सदा बसो चितमांह । गुण विवेक जागे
 सदा, ज्ञान कला घट छाय (हृदयमें टीकी)
 ॥ ८ ॥ नाभी मंडल पूजके, षोडश दलको भाव ।
 मन मधुकर मोही रह्यो, आनंद घन हरषाय
 (नाभीमें टीकी) ॥ ९ ॥ इति ॥

पुनः ॥ दुहा ॥ जल भरि संपुटमां, युगलिक
 नर पूजंत । ऋषभ चरण अंगूठवे, दायक भवजल
 अंत ॥ १ ॥ जानु बले काउसग रह्या, विचर्या
 देश विदेश । खड़ा २ केवल लह्या, पूजा जानु

नरेश ॥ २ ॥ लोकांतिक वचनें करी, वरस्या
 वरसी दान । करकंडे प्रभु पूजना, पूजो भवि
 बहुमान ॥ ३ ॥ मान गयूं दो अंशथी, देखी
 वीर अनंत । पूजा बलें भवजल तस्या, पूजो
 खंध महंत ॥ ४ ॥ रत्नत्रय गुण ऊजली, सकल
 सुगुण विश्राम । नाभी कमलनी पूजना, करता
 अविचल धाम ॥ ५ ॥ हृदय कमल उपशम
 बलें, बाल्यो रागनें द्वेष । हेम दहै वनखंडनें,
 हृदय तिलोक संतोष ॥ ६ ॥ सोल पहर देई
 देशना, कंठ विवर वरतल । मधुर धुनी सुर नर
 सुनें, तिम गले तिलक अमूल ॥ ७ ॥ तीर्थकर
 पद पुन्य थी, त्रिभुवन जिन सेवंत । त्रिभुवन
 तिलक समा प्रभु, भाल तिलक जयवंत ॥ ८ ॥
 सिद्ध शिला गुण ऊजली; लोकांतिक भगवंत ।
 वसिया तिण कारण वही, शिर शिखा पूजंत ॥
 ९ ॥ उपदेशक नवतत्वना, तिम नव अंग जिणंद
 पूजो बहु विध भाव थी, कहेसहु वीर मुनिंद ।
 ॥ १० ॥ इति ॥

अथ पुष्प पूजा ॥

दोहा ॥ शतपत्री वर मोगरा, चम्पक जाइ
गुलाब । केतकी दमणो बोलसिरि, पूजो जिन
भरि छाव ॥ १ ॥ ढाल ॥ अमल अखण्डित वि-
कसित सुभ सुमनी घन जाति, लाखीनो टोडर
ठवो आंगी रचो बहुभांति । गुण कुसुमें निज
आतम मण्डित करवा भव्य, गुणरागी जड़त्यागी
पुष्प चढ़ावो नव्य ॥ २ ॥ चाल ॥ जगधणी पू-
जतां विविध फूलै, सुरवरा ते गिणें क्षण अमूले ।
खन्ति धर मानवा जिनपद पूजै, तसुतणा पाप
संताप धूजै ॥ ३ ॥ श्लोकः ॥ विकचनिर्मलशुद्धम-
नोरमैः विशदचेतनभावसमुद्भवैः । सुपरिणाम-
प्रसूनघनैर्नवैः, परमतत्वमयं हि यजाम्यहं ॥ १ ॥
ॐ ह्रीं परमपरमात्मने पुष्पं यजामहे स्वाहा ॥३
इति पुष्पपूजा ॥ पुष्प चढ़ावे ॥

अथ धूप पूजा ॥

॥ ३ ॥ कृष्णागर मृगमद तगर, अम्बर
तुरक लोवान । मेल सुगन्ध घनसार घन. करो

जिननें धूपदान ॥ १ ॥ ढाल ॥ धूपघटी जिम
 महमहै, तिन दहैं पातिक वृन्द । आर्ति अना-
 दिनी जावै, पावै मन आनन्द । जे जन पूजै
 धुपै, भवकूपै फिर तेह । नावै पावै धुवघर आवै
 सुख अछेह ॥ २ ॥ चाल ॥ जिनघरे वासतां
 धूप पूरै, मिच्छत दुर्गन्धता जाई दूरै । धूप जिम
 सहज उच्चगत स्वभावे, कारिका उच्चगति भाव
 पावै ॥ ३ ॥ श्लोकः ॥ सकलकर्ममहे धनदाहनं,
 विमलसंवरभावसुधूपनं । अशुभपुद्गलसंगवि-
 वर्जितं, जिनपतेः पुरतोस्तु सुहर्षितः ॥ १ ॥
 ॐ ह्रीं परमपरमात्मने० । धूपं यजामहे स्वाहा
 ॥ ४ ॥ इति धूप पूजा ॥ धूप अग्रवत्ती खेवै ॥

अथ दीप पूजा ॥

दोहा ॥ मणिमय रजत ताम्रना, पात्र करी
 घृत पूर । वत्ती सूत्र कसुंवनी, करो प्रदीप सनूर
 ॥ १ ॥ ढाल ॥ मंगल दीप वधावो गावो जिन
 गुणगीत, दो पथकी जिम आलिका मालिका
 मंगलनीत । दीपतणी शुभज्योती द्योती जिन

मुखचन्द्र, निरखी हरखो भविजन जिम लहोपू-
 र्णानन्द ॥ २ ॥ चाल ॥ जिन गृहे दीप माला
 प्रकासै, तेहथी तिमर अज्ञान नासै । निजघटै
 ज्ञानज्योती विकासै, तेहथी जगतणा भाव भासै
 ॥ ३ ॥ श्लोक ॥ भविकनिर्मलबोधविकाशकं,
 जिनगृहे शुभदीपकदीपनं । सुगुणारागविशुद्धस-
 मन्वितं. दधतु भावविकाशकृते जनाः ॥ १ ॥ ॐ
 ह्रीं परमपरमात्मने० । दीपं यजामहे स्वाहा ॥ ५
 इति दीप पूजा ॥ मंगलदीप चढ़ावै ।

अथ अक्षत पूजा ॥

दोहा ॥ अक्षत २ पूरसुं. जे जिन आगे
 सार । स्वस्तिक रचतां विस्तरै, निजगुण भर वि-
 स्तार ॥ १ ॥ ढाल ॥ उज्जल अमल अखण्डित
 मण्डित अक्षत चंग, पुञ्जत्रय करो स्वस्तिक आ-
 स्तिक भावै रंग । निज सत्तानें सन्मुख उनमुख
 भावे जेह, ज्ञानादिक गुणठावै भावे स्वस्तिक
 एह ॥ २ ॥ चाल ॥ स्वस्तिक पूरतां जिनप आगे,
 स्वस्ति श्रीभद्र कल्याण जागै । जन्म जरा मर-

णादि अशुभ भागै, नियत शिव सर्व रहै तासु
 आगै ॥ ३ ॥ श्लोकः ॥ सकलमंगलकेलिनिके-
 तनं, परममंगलभावमयंजिनं । श्रयति भव्यजना
 इति दर्शयन, दधतु नाथपुरोक्षतस्वस्तिकं ॥ १ ॥
 ॐ ह्रीं परमपरमात्मने० । अक्षतं यजामहे स्वाहा
 ॥६॥ इति अक्षत पूजा ॥ अखण्ड चावल चढ़ावै ॥

अथ नैवेद्य पूजा ॥

दोहा ॥ सरस सुचि पकवान बहु, शालि
 दालि घृतपूर । धरो नैवेद्य जिन आगलै, चुधा
 दोष तसु दूर ॥ १ ॥ ढाल ॥ लपनश्री वर घवर
 मधुतर मोतीचूर, सींहकेसरिया सेविया दालि-
 या मोदकपूरं । साकर द्राख सीङ्गोड़ा भक्ति
 व्यञ्जन घृतसद्य, करो नैवेद्य जिन आगलै जिम
 मिलै सुख अनवद्य ॥ २ ॥ चाल ॥ ढोवतां भोज्य
 पर भाव त्यागे, भविजना निज गुण भोज्य मांगे ।
 अम्हभणि अम्हतणो सरूप भोज्य, आपज्यो
 तांतजी जगत पूज्य ॥ ३ ॥ श्लोकः ॥ सकलपु-
 ङ्गलसंगविवर्जनं, सहजचेतनभावविलासकं ।

विना विनयवहे पड़णं ॥ १ ॥ सब्बो जिणप्पभावं,
 जेण तं तद्धः सरिसेसु जेण रच्चन्ती । सब्बन्नूण अ-
 रंखि, पुद्धं डस्स भमणं न सङ्कमणं ॥ २ ॥ अच्चन्त
 इत्थं पिहू, हुयवह निवडेन जडेन कयं । आणा
 कायं कहे ॥ ३ ॥ न कया सुकयत्थ मूलमिणं ॥ ३ ॥
 नन्द भमणं इकर माला पहनावे ॥

अथ छूठी फूल पूजा ॥

वणोव मंगलेवो, जिणाण मुह लालि संव-
 तित्थपवत्तम समई, तियसे विमुक्का कुसु-
 ॥ १ ॥ यह कहकर प्रभुके सम्मुख फूल
 ॥

प्रभातकी आरती ॥

जय ओरती शान्ति तुमारी, तोरा च-
 मलकी मैं जाउं बलिहारो ॥ टेरे ॥ वि-
 अचिराजीके नन्दा, शांतिनाथ मुख पू-
 वंदा ॥ जय० ॥ १ ॥ चालिस धनुष सो-
 काया, मृग लांछन सुहाया
 ० ॥ २ ॥ चक्रवर्ति सोहै, सो-

॥ ८ ॥ श्रीफल सुपारी नीला फल प्रमुख चढ़ावे ॥
इति फल पूजा ॥

अथ अर्घ पूजा ॥

दोहा ॥ इम अड़विधि जिन पूजना, वि-
रचै जे थिर वित्त । मानवभव सफलो करै, वाधे
समकित वित्त ॥ १ ॥ ढाल ॥ अगणित गुण-
मणि आगर नागर वन्दित पाय, श्रुतधारी उप-
गारी श्री ज्ञानसागर उवभाय । तासु चरणकज
सेवक मधुकर पय लयलीन, श्रीजिन पूजा गाई
जिनवाणी रसपीन ॥ २ ॥ चाल ॥ सम्बत गुण-
युत अचल इन्दु, हर्ष भरो गाइयो श्रीजिनेंदु ।
तासु फल सुकृत थी सकल प्राणी, लहै ज्ञान
उद्योत धन शिव निसाणी ॥ ३ ॥ श्लोकः ॥
इति जिनवरवृन्दं भक्ति
गानिधानं देवचन्द्रं स्त
न्तं त न्त.
त,
ति
पं

अथ वस्त्र पूजा ॥

शक्रो यथा जिनपतेः सुरशैलचूलाः, सिंहास-
नोपरि मितस्नपनावसाने । दध्यक्षतैः कुसुमच-
न्दनगन्धधूपैः, कृत्वाच्च नन्तु विदधाति सुवस्त्र-
पूजां ॥ १ ॥ तद्वत् श्रावकवर्ग एष विधिनालङ्का-
रवस्त्रादिकं, पूजां तीर्थकृतां करोति सततं शक्-
त्यातिभक्त्यादृतः । नीरागस्य निरञ्जनस्य वि-
जितारातेस्त्रिलाकीपतेः, स्वस्यान्यस्य जनस्य
निवृत्तिकृते क्लेशक्षयाकांक्षया ॥ ॐ ह्रीं परम-
परमात्मने० । वस्त्रं यजामहे स्वाहा ॥ वस्त्र च-
ढावै ॥ इति वस्त्रपूजा ॥

अथ नमक उतारण पूजा ।

अह पडिभग्गापसरं, पयाहिणं मुणिवयं क-
रिऊणं । पडइ सलूणत्तण लज्जियंच, लूणांहू अ-
वहरन्त ॥ १ ॥ पिक्खेविणं मुह जिण वरह दी-
हर नयण सलूण । न्हावइ गुरु मच्छह भरिय,
जलण पइस्सइ लूण ॥ २ ॥ लूण उतारिह जि-
णवरह, तिन्नि पयाहिणि देव । तइ तइ शब्द

करन्तिये, विजा विज्जलेण ॥ ३ ॥ जं जेण वि-
ज्जव थुई, जलेण तं तहइ अत्थसदस्स । जिन-
रूवा मच्छरेणवि, फुट्टइ लूणां तइ तइस्स ॥ ४ ॥
यह कहकर लूणा अग्निशरण करे पीछे लूणा पाणी
लेई, मुखें गाथा कहे ॥ गाथा ॥ सब्बवि मुणावइ
जलविजल, तन्तह भमणइ पास । अहवि कय-
न्तस्स निम्मलउ, निग्गुण बुद्धि पसाय ॥ ५ ॥
जलण अणें विणण जलणहि पास, भरवि कय-
ज्जल भावहि पास । तिन्नि पयाहिणि दिन्निय
पास, जिम जिय छूटै भव दुहपास ॥ ६ ॥ जल
निम्मल कर कमलेहि लेविणां, सुरवर भावहि मु-
णिवई सेवणां । पभणई जिणवर तुहपइ सरणां.
भय तुट्टइ लब्भइ सिद्धि गमणां ॥ ७ ॥ यह कह
कर लूणा उतारी जल शरण करे ॥ इति नमक
उतारण पूजा ॥

अथ पुष्पमाला पहरावण पूजा ॥

उन्नय पयय भत्तस्स, नियठाणे सण्ठिय
कुणांतस्स । जिण पासै भमिय जणास्स, पिच्छ-

तुह हुयवहे पड़णं ॥ १ ॥ सव्वो जिणप्पभावो,
सरिसा सरिसेसु जेण रच्चन्ती । सव्वन्नूण अपासे,
जड़स्स भमणं न सङ्कमणं ॥ २ ॥ अच्चन्त
दुःकरं पिहू, हुयवह निवड़ेन जड़ेन कयं । आणा
सव्वन्नूणं, न कया सुकयत्थ मूलमिणं ॥ ३ ॥
यह कहकर माला पहनावे ॥

अथ छूठी फूल पूजा ॥

उवणेव मंगलेवो, जिणाण मुह लालि संव-
लिया । तिथपवत्तम समई, तियसे विमुक्का कुसु-
मबुट्ठी ॥ १ ॥ यह कहकर प्रभुके सम्मुख फूल
उछाले ॥

प्रमातकी आरती ॥

जय जय आरती शान्ति तुमारी, तोरा च-
रण कमलकी मैं जाउं बलिहारो ॥ टेर ॥ वि-
श्वसेन अचिराजीके नन्दा, शांतिनाथ मुख पू-
निम चंदा ॥ जय० ॥ १ ॥ चालिस धनुष सो-
वनमय काया, भृग लांछन प्रभु चरण सुहाया
॥ जय० ॥ २ ॥ चक्रवर्ति प्रभु पंचम सोहै, सो-

लम जिनवर जग सहु मोहै ॥ जय० ॥ ३ ॥
 मंगल आरती भोरे कीजे, जनम २ को लाहो
 लीजे ॥ जय० ॥ ४ ॥ कर जोड़ी सेवक गुण
 गावै, सा नर नारी अमर पद पावै ॥ जय० ॥
 ॥ ५ ॥ इति ॥

अथ नवपद-पूजा ।

अथ प्रथम अरिहंतपद-पूजा ॥

॥ दूहा ॥ परम मंत्र प्रणामी करी, तास धरी
 उर ध्यांन ॥ अरिहंतपद पूजा करो, निज २
 शक्ति प्रमांण ॥ १ ॥ काव्य ॥ उप्पन्न सन्नाण
 महोमयाणं, सप्पाडि हेरा सणसंठियाणं ॥ सद्दे-
 सणाणंदिय सज्जणाणं, नमो२ होउ सयाजि-
 णाणं ॥ १ ॥ नमोनंत संत प्रमोद प्रदानं, प्रधा-
 नाय भव्यात्मने भास्वताय ॥ थया जेहना ध्यां-
 नथी सौख्यभाजा, सदा सिद्धचक्राय श्रीपाल-
 राजा ॥ २ ॥ कख्या कर्म दुर्ममर्म चकचूर जेणें,
 भला भव्य नवपद ध्यानेन तेणें ॥ करी पूजना

भव्य भावे त्रिकाले, सदा वासियो आत्मा तेण
कालें ॥ ३ ॥ जिके तीर्थकर कर्म उदये करीने,
दिये देशना भव्यने हित धरीनें ॥ सदा आठ म-
हापाडिहारे समेता, सुरेशें नरेशें स्तव्या ब्रह्मपूता
॥४॥ कर्या घातिया कम च्यारे अलग्गा, भवोप
ग्रही च्यार छे जे विलग्गा ॥ जगत्पंचकल्याणके
सुख पांमें, नमो तेह तीर्थकरा मोक्षकामें ॥ ५ ॥

ढाल ॥ तीरथपति अरिहा नमुं, धरम धुरंधर
धीरो जी ॥ देसना अमृत वरसता, निज वीरज
वड वीरो जी ॥ ती० ॥ उल्लालो ॥ वर अखय
निर्मल ज्ञान भासन सर्व भाव प्रकासता, निज
शुद्ध श्रद्धा आत्म भावे चरण थिरता वासता ॥
जिन नांमकर्म प्रभाव अतिशय प्रातिहारज शो-
भता, जगजंतु करुणावंत भगवंत भविकजने
थोभता ॥ ६ ॥

ढाल ॥ श्रीसीमंधर साहिव आगे ॥ ए-देशी ॥

तीजे भव वर थानक तप करी, जिन वांध्युं
जिन नाम ॥ चउसठइंद्रै पूजित जे जिन,

कीजे तास प्रणाम रे भविका सिद्धचक्र पद
 वंदो रे ॥ भ० ॥ जिम चिरकालै नंदो रे ॥
 भ० ॥ उपशमरसनो कंदो रे ॥ भ० ॥ रत्नत्र-
 यीनो वृंदो रे ॥ भ० ॥ सेवै सुननर इंदो रे ॥
 भ० सि० ॥ ७ ॥ ए आंकणी ॥ जेहने होय
 कल्याणक दिवसे, नरके पिण उजवालूं ॥ सकल
 अधिक गुण अतिशयधारी, ते जिन नमि अध
 टालूं रे ॥ भ० सि० ॥ ८ ॥ जे तिहुं नाण सम्म-
 ग्ग उपन्ना, भोग करम खिण जांणी ॥ लेइदीक्षा
 शिखा दिये जगने, ते नमिये जिन नाणी रे ॥ भ०
 सि० ६ ॥ महागोप महामाहण कहिये, निर्यामि-
 क सत्थवाह ॥ उपमा एहवी जेहने छाजै, ते जि-
 न नमिये उच्छाह रे ॥ भ० सि० ॥ १० ॥ आठ
 प्रातीहारज जसु छाजै, पेंत्रीस गुणयुत वाणी ॥
 जे प्रतिबोध करे जगजनने, ते जिन नमियें
 उच्छाह रे ॥ भ० सि० ११ ॥

ढाल ॥ अरिहंतपद ध्यातो थको, दव्वह
 गुण पर्यायै रे ॥ भेद छेद करी आत्मा. हरिहंत

रूपी थायैरे ॥ १२ ॥ वीर जिणोसर उपदिसै,
सांभलज्यो चित लाई रे ॥ आतम ध्यांने आतमा,
चद्धि मिले सब आई रे ॥ वी० १३ ॥ ॐ ह्रीं
श्रीं परमात्मने, अनंतानंत ज्ञान शक्तये ॥ जन्म
जरा मृत्यु निवारणाय, श्रीमत्सिद्धचक्राय अष्ट-
द्रव्यं यजामहे स्वाहा ॥ इति प्रथम अरिहंत-
पद पूजा ॥

॥ अथ द्वितीय श्रीसिद्धपद-पूजा ॥

॥ दूहा ॥ दूजी पूजा सिद्धकी, कीजे दिल
खुसियाल ॥ अशुभ करम टरै टलै, फलै मनोरथ
माल ॥ १ ॥ काव्य ॥ सिद्धाण मोणंद रमाल
याणं, नमो२ णंत चउक्कयाणं ॥ सम्मग्ग कम्म
स्कयकारगाणं, जन्मजरा दुरुक्क निवारगाणं ॥
१४ ॥ करी आठ कर्म खय पार पांम्या, जरा
जन्म मरणादि भय जेण वाम्या ॥ निवारणाय
जे आत्मरूपे प्रसिद्धा, थया पार पांमी सदा सि-
द्धवुद्धा ॥ १५ ॥ त्रिभागोनदेहावगाहात्मदेसा,
रह्याज्ञानमयजातिवर्णादिलेसा ॥ सदानंतसौ-

ख्याश्रिताज्योतिरूपा, अनावाधअपुनर्भवादस्वरूपा ॥ १६ ॥ चाल ॥ सकल कर्ममल क्षय करी, पूरण शुद्ध स्वरूपो जी ॥ अव्यावाध प्रभुतामई, आतम संपत भूपो जी ॥ उल्लालो ॥ जे भूप आतम सहज संपति, शक्ति व्यक्तिपरणें करी ॥ स्वद्रव्यक्षेत्र स्वकालभावै, गुण अनंता आदरी ॥ स्वस्वभावगुणपर्याय परणति, सिद्धसाधन परभणी, मुनिराज मानसरहंस समवड, नमो सिद्ध महागुणी ॥ १७ ॥

ढाल ॥ समयपएसंतर अणफरसी चरमतिभाग विसेस ॥ अवगाहन लही जे शिवपुहता, सिद्ध नमो ते असेस रे ॥ १८ ॥ भ० ॥ पूरव प्रयोगने गति परणामे, बंधन च्छेद असंग ॥ समय एक ऊरधगति जेहनी, तेसिद्ध प्रणमो रंग रे ॥ भ० १६ सि० ॥ निरमल सिद्धशिलाने ऊपर जोयण एक लोकंत ॥ सोदि अनंत तिहां थिति जेहनि, ते सिद्ध प्रणमो संत रे ॥ २० भ० सि० ॥ जाणै पिण न सकै कही पुर गुण, प्राकृत तिम

गुण जास ॥ ओपमा विण नांणी भवमांहे, ते
सिद्ध दित्रो उह्वास रे ॥ भ० ॥ २० ॥ सि० ॥
ज्योतिसुं ज्योति मिली जसु अनुपम, विरमी
सकल उपाधि ॥ आतमराम रमांपति समरो, ते
सिद्ध सहज समाधि रे ॥ भ० ॥ २१ ॥ सि० ॥

ढाल ॥ रूपातीत स्वभावजे, केवलदंसणनाणी
रे ॥ तेध्याता निज आतमा, होय सिद्ध गुण खाणी
रे ॥ वो० ॥ ॐ ॥ ह्रीं० इति श्रोसिद्धपद-पूजा ॥

अर्थ तृतीय आचार्य पद-पूजा ।

॥ दूहा ॥ हिव आचारज पदतणी, पूजा करो
विशेष ॥ मोहतिमिर दूरै हरै, सूभै भाव असेष ॥
१ ॥ काव्य ॥ सूरीणदूरीकयकुग्गहाणं, नमो२
सीरिसमप्पहाणं ॥ सद्देसणा दाणसमायराणं,
अखंडच्छत्तीसगुणायराणं ॥ नमूं सूरिराजा सदा
तत्वभाजा; जिनेंद्रागमें प्रौढ साम्राज्यभाजा ॥ पट्ट
वर्गवर्गित गुणै शोभमाना, पंचाचारनें पालवे
सावधाना ॥ २ ॥ भविप्राणिनें देशना देशकालै,
सदाअप्रमत्ता यथा सूत्र आलै ॥ जिके शासना

धार दिग्दंतकल्पा, जगत्ते चिरंजीवज्यो शुद्ध
जल्पा ॥ ३ ॥

ढाल ॥ आचारज मुनिपति गणी, गुणछत्ती-
सेधामो जी ॥ चिदानंदरसस्वादता, परभावे
निक्कामो जी ॥ उल्लालो ॥ निक्काम निरमल
शुद्ध चिदघन, साध्य निज निरधारथी ॥ वरज्ञान
दरसन चरण बीरज, साधना व्यापारथी ॥ भवि
जोवबोधक तत्वशोधक, सयलगुण संपत्तिधरा ॥
संवर समाधी गत ऊपाधी, दुविधत पगुण आद
रा ॥ २५ ॥

ढाल ॥ पांच आचार जे सूधा पालै, मारग
भाखै साचौ ॥ ते आचारज नमिये तेहसुं,
प्रेम करीने याचो रे ॥ भ० ॥ २६ ॥ सि० ॥
वर छत्तीसगुणैकरि शोभै, युगप्रधानजगबोहै ॥
जगमोहे न रहे खिण कोहे, सूरि नमूं ते जोहे रे
भ० ॥२७॥ सि०॥ नित अप्रमत्त धरम उव एसे,
नहि विकथा न कपाय ॥ जेहने ते आचारज
नमियै, अकलूस अमल अमाय रे ॥ भ० ॥ २८ ॥

सि० ॥ जे दिथे सारण वारण चोयण, पडिचोयण
 वलि जनने ॥ पटधारी गच्छथुंभ आचारज, ते
 मान्या मुनि जनने रे ॥ भ० ॥ २६ ॥ सि० ॥
 अथमिये जिन सूरज-केवल, वंदी जे जगदीवो ॥
 भुवन पदारथ प्रगटनपट्टे, आचारज चिरंजीवो
 रे ॥ भ० ॥ ३० ॥ सि० ॥ ढाल ॥ ध्याता आचा-
 रज भला, महामंत्र शुभ ध्यानी रे ॥ पंचप्रस्थाने
 आतमा, आचारज हुय प्राणी रे ॥ वी० ॐ ह्रीं
 आचार्यापदे अष्ट द्रव्यं यजामहे स्वाहा ॥ ३ ॥

३ ॥ त्रय त्रैथी उपाध्यायपद-पूजा ।

॥ दूहा ॥ गुण अनेक जग जे हना, सुंदर
 शोभित गात्र ॥ उवभूतयापद अरचियै, अनुभव
 रसनो पोत्र ॥ १ ॥ काव्य ॥ सुतत्थ वित्थारणात-
 प्पराणां, नमो२ वायगकुंजराणां ॥ गणास्ससंधार-
 णासायसांखं, सव्वप्पणावज्जियमच्छराणां ॥ १ ॥
 नही सूरि पिण सूरिगुणाने सुहाया, नम वाचका
 त्यक्त सदमोहमाया ॥ ब्रलि द्वादशांगादि सूत्रार्थ
 दाने, जिक्के सावधाने निरुद्धाभिधाने ॥ ३ ॥ धरे

पंचनेवगंवर्गितगुणौघा, प्रवादिद्विपोच्छेदनेतुल्य
सिंधा ॥ गुणीगच्छसंधारणेस्थंभ पूता, उपाध्या-
यनेवंदियेचित्प्रभूता ॥ ३ ॥

ढाल ॥ खंतिजुआ मुत्तीजुआ, अज्जव. म-
हवजुत्ताजी ॥ सच्चं सोयंअकिंचणा, तवसंयमगुण-
रत्ताजी ॥ उल्लालो ॥ जे रम्या ब्रह्मसुगुप्तगुप्ता,
सुमति सुमता शुभधरा ॥ स्याद्वादवादइं तत्व-
साधक, आत्मपरविभंजनकरा ॥ भवभीरुसाधन
धीरशासन, वहनधोरीमुनिवरा ॥ सिद्धांतवायन-
दांनसमरथ, नमोपाटकपदधरा ॥ ३३ ॥

ढाल ॥ द्वादशअंगसिद्धभाय करे जे, पारग-
धारग तास ॥ सूत्र अर्थ विस्तार रसिक ते.
नमो उवभाय उल्लास रे ॥ भ० ॥ ३४ ॥ सि० ॥
अर्थसूत्रने दांनविभागे, आचारज उवज्जभाय ॥
भवत्रिणहै जे लहै शिवसंप्रद, नमियै ते सुपसाय-
रे ॥ भ० ॥ ३५ ॥ सि० ॥ मुखशिष्यनीपायेजे
प्रभु, पाहणने पल्लव आणै ॥ ते उवभाय सकल-
जन पूजित, सूत्रअर्थ सविजाणै रे ॥ भ० ॥ ३६ ॥

सि० ॥ राजकुमर सरिखा गणचिंतक, आचार-
जपद योग, ते उवम्भाय सदा ते नमतां, नावै
भवभय सोग रे ॥ भ० ॥ ३७ ॥ सि० ॥ बावना-
चंदनरस समवयणै, अहितताप सवि टालै ॥ ते
उवज्भाय नमिजे जे वलि, जिनशासन उजवाले
रे ॥ भ० ॥ ३८ ॥ सि० ॥

ढाल ॥ तप सिज्भायै रत सदा, द्वादश अं-
गनो ध्याता रे ॥ उपाध्याय ते आतमा, जगबंधव
जगत्राता रे ॥ वी० ॥ ३६ ॥ ॐ ह्रीं श्रीपाठ-
कपदे अष्ट द्रव्यं यजामहेस्वाहा ॥ इति चतुर्थ
उपाध्यायपद पूजा ॥

अथ पाँचवीं साधूपद-पूजा ॥

दूहा ॥ मोक्षमारग साधनभणी, सावधान
थयां जेह ॥ ते मुनिवरपद वंदता, निरमल थाये
देह ॥ १ ॥ काव्य ॥ साहूण संसाहियसंजमाणं,
नमोश्शुद्धदयादमाणं ॥ तिगुत्तगुत्ताणसमाहिया-
णं, मुणीणमाणंदपयट्टिआणं ॥ करेसेवनासूरि-
वायगगणीनी, करुं वर्णना तेहनीसीमुणीनी ॥

समेतासदापंचसमेतेत्रिगुप्ता, त्रिगुप्तै नहीकाम भो-
 गेषुलिता ॥ ४१ ॥ बलीबाह्यअभ्यंतरैअंधटाली,
 हुइ मुक्तिनेयोगचारित्रपाली ॥ शुभष्टांगयो-
 गैरमैचित्तवाली, नमुं साधुने तेह निज पाप
 टाली ॥ ४२ ॥

ढाल ॥ सकल विषयविष वारिनें, निहामी
 निस्संगी जी ॥ भवदव ताप समावता, आतम
 साधन रंगीजी ॥स०॥ जे रम्या शुद्ध स्वरूप रम-
 णें देह निमग्न निर्मदा, काउसगमुद्रा धीर
 सन ध्यांन अभ्यासी सदा ॥ तप तेज दीपै कर्म
 जीपै नैव छीपै परभणी ॥ मुनिराज करुणा सिंधु
 त्रिभुवन प्रणामो हितभणी ॥ ४३ ॥

ढाल ॥ जिम तरुफूलै भमरो बेसे, पीड़ा तसु
 न उपाय ॥ लेई रस आतम संतोषै, तिम मुनि
 गोधरी जाय रे ॥ भ० ॥ ४४ ॥ पांचइन्द्रिनें जे
 नित जीपे, षट्काया बन्धु प्रतिपाल ॥ संजम
 सतर प्रकार आराधै, वंदू दीनदयाल रे ॥ भ०
 ४५ ॥ सि० ॥ अठारसहस सीलंगना धोरी, अ-

चल आचार चरित्र ॥ मुनिसंहंत जयणायुत वंदी,
कीजै जनम पवित्र रे ॥ भ० ॥ सि० ॥ ४६ ॥ नव
विध ब्रह्मगुप्त जे पाले, बारे विध तपसूरा ॥ ए-
हवा मुनि नमियै जो प्रगटै, पूरव पुण्य अंकूरा
रे ॥ भ० ॥ ४७ ॥ सि० ॥ सोनातणी पर परीक्षा
दीसै, दिन २ चढतै वानै ॥ संजस खप करता
मुनि नमियै, देशकाल अनुमानै रे ॥ भ० ४८ ॥

ढाल ॥ अप्रसक्त जे नित रहै, नवि हरषै
नवि सोचै रे ॥ साधु सुधा ते आत्मा, स्युं मुंड़ै
स्युं लोचै रे ॥ वी० ॥ ४६ ॥ ॐ ह्रीं साधुपंदे
अष्ट द्रव्यं यजामहे स्वाहा ॥

अथ छद्दी दर्शनपद-पूजा ॥

दूहा ॥ जिनवर भाषित शुद्ध नथ, तत्वतणी
परतीत ॥ ते सम्यग्दर्शन सदा, आदरियै शुभ
रीत ॥ १ ॥ काव्य ॥ जिणु चतसैरुडलख्कणस्स,
नमो २ निम्भलदंसणस्स ॥ सिच्छत्तनासाइस-
मुग्गमस्स, मूलस्ससधम्ममहादुमस्स ॥ विपर्या-
सहोवासनारूपमिथ्या, टले जे अनादीअछैजे-

कुपथ्या ॥ जिनोक्तै हुइं सहजथी शुद्धध्यानं, कहि-
यैदर्शनं तेह परमनिधानं ॥ ५० ॥ विना जेहथी ज्ञान
मज्ञानरूपं, चरित्रं विचित्रं भवारण्यकूपं ॥ प्रकृति-
सातने उपसमै जयतेह होवे, तिहां आपरूपै सदा आ-
पजोवै ॥ ५१ ॥

ढाल ॥ सम्यग् दरसण गुण नमो, तत्व
प्रतीत सरूपीजी ॥ जसु निरधार स्वभाव छै,
चेतन गुण जे अरूपी जी ॥ चाल ॥ जे अनूप
श्रद्धा धर्म प्रगटै सयल पर ईहा टलै, निजशुद्ध
सत्ता भाव प्रगटै अनुभव करुणा उछलै ॥ बहु
मांन परिणितवस्तु तत्वे अहव सुखकारण पणै,
निज साध्य दृष्टै सरब करणी तत्वता संपति
गिणै ॥ ५२ ॥

॥ ढाल ॥ शुद्धदेव गुरु धर्म परीक्षा, सद-
हणा परिणाम ॥ जेह पामीजै तेह नमीजै, सम्य-
ग्दर्शन नांस रे ॥ भ० ५३ सि० ॥ मल उपशम
जय उपशम जेहथी, जे होइ त्रिविध अभंग ॥
सम्यग्दर्शन तेह नमीजै, जिनधरमै दृढ रंग रे

॥ भ० ५४ सि० ॥ पांच वार उपशम लहीजै,
 क्षयउपसमीय असंख ॥ एक वार क्षायक ते स-
 म्यक, दर्शन नमीइ असंख रे ॥ भ० ॥ ५५
 सि० ॥ जे विण नांण प्रमाण न होवे, चारित्र
 तरु नवि फलियो ॥ सुख निरवांण न जेविण
 लहिये, समकित दर्शन बलिओ रे ॥ भ० ५६
 सि० ॥ सडसठ बोले जे अलंकरियो, ज्ञान
 चारित्रन मूल ॥ समकितदर्शन ते नित प्रणमं,
 शिवपंथनु अनुकूल रे ॥ भ० ५७ सि० ॥

॥ ढाल ॥ समसंवेगादिकं गुण, क्षयउशम
 जे आवै रे ॥ दर्शन ते हिज आतमा, स्युं होय
 नाम धरावै रे ॥ वी० ५८ ॥ ॐ ह्रीं प० दर्शन
 पदे अष्ट द्रव्यं यजामहे स्वाहा ॥ ६ ॥

॥ अथ सातवीं ज्ञानपद-पूजा ॥

दूहा ॥ सप्तम पद श्रीज्ञानिनो, सिद्धचक्र
 तपमाह ॥ आराधिजै शुभ मनै, दिन२ अधिक
 उच्छाह ॥१॥ काव्य ॥ अन्नाण सम्मोहतमोह-
 रस्स, नमो२ नांण दिवायरस्स ॥ पंचप्पयारस्सु-

वगारगस्स, सत्ताणसव्वत्थपयासगस्स ॥ हाइंजे-
 ह्थीज्ञानशुद्धप्रबोधै, यथावर्णनासैविचित्राविवोधै ॥
 तिण्णैजाणीयेवस्तुषट्द्रव्यभावा, नहोवैविकत्था-
 निजेच्छास्वभावा ॥ ५६ ॥ होइं पंचमत्यादि
 सुग्यानभेदै, गुरुपासथीयोग्यतातेहवेदइंद ॥ वली
 ज्ञेयहेयाउपादेयरूपै, लहैचित्त मांजेम ध्यानै
 प्रदीपै ॥ ६० ॥

ढाल ॥ भव्य नमो गुण ज्ञानने, स्वपरप्रका-
 शक भावै जी ॥ पर्याय धरम अनंतता, भेदा
 भेद स्वभावै जी ॥ चाल ॥ जे मोक्ष परणति
 सकल ज्ञायक बोधवास विलासता, मति आदि
 पंच प्रकार निरमल सिद्धसाधन लंछना ॥ स्या-
 व्दादसंगी तत्वरंगी प्रथम भेद अभेदता, सवि-
 कल्पने अत्रिकल्प वस्तु सकल संशय छेदता ॥६१॥

॥ढाल॥ भक्ष अभक्ष न जे विण लहिये, पेय
 अपेय विचार ॥ कृत्य अकृत्य न जे विन लहिये,
 ज्ञानते सकल आधार रे ॥ भ० ॥ ६२ सि० ॥
 प्रथम ज्ञान नै पीछे अहिंसा, श्रीसिद्धातै भाख्युं ॥

ज्ञानने वंदो ज्ञान म विंदो, ज्ञानीये शिवसुख
 चाख्युं रे ॥ भ० ६३ ॥ सि० ॥ सकल क्रियानुं मूल
 ते श्रद्धा, तेहनं मूल जे कहिये ॥ तेह ज्ञान नितर
 वंदीजे, ते विन कहो किम रहिये रे ॥ भ० ॥ ६४
 सि० ॥ पांच ज्ञानमांहे जेह सदागम, स्वपरप्रका-
 शक तेह ॥ दीपकपर त्रिभुवन उपगारी, वलि
 जिम रवि शशि मेह रे ॥ भ० ॥ ६५ सि० ॥ लोक
 ऊरध अधतिर्यग् ज्योतिष, वैमानीकने सिद्ध ॥
 लोक अलोक प्रगट सब जेहथी, ते ज्ञाने मुक्त
 शुद्धी रे ॥ भ० ॥ ६६ ॥ सि० ॥

ढाल ॥ ज्ञानावरणी जे कर्म छै, त्वय उप-
 शम तसु थाये रे ॥ तो होइ एहिज आत्मा,
 ज्ञान अबोधता जाय रे ॥ वी० ॥ ६७ ॥ ॐ ह्रीं
 प० ज्ञानपदे अष्ट द्रव्यं यजामहे स्वाहा ॥ इति ॥

॥ अथ आठवीं चारित्रपद-पूजा ॥

॥ दूहा ॥ अष्टम पद चारित्रनो, पूजो धरी
 ऊमेद ॥ पूजत अनुभवरस मिले, पातिक होय
 उछेद ॥ १ ॥ काव्यं ॥ आराहिया खंडिअ सकि-

यस्स, नमो२ संजमंवीरिअस्स ॥ सब्भावणसंग
 विवट्टिअस्स, निव्वाणदाणाइसमुज्जयस्स ॥
 वलिज्ञानंफलतेधरियेसुरंगे, निरांसंसताद्वारोधे
 प्रसंगै ॥ भवांभोधिसंतारणोयानतुल्यं, धरुंतेहचा-
 रित्रअप्राप्तमूल्यं ॥ ६८ ॥ होइंजासमहिमाथको-
 रंकराजा, वलिद्वादशांगीभणीहोइताजा ॥ वलि-
 पापरूपोपिनिप्पापथायै, थईसिद्धतेकर्मनेंपार-
 जायै ॥ ६९ ॥

॥ चाल ॥ चारित्रगुण वलि२ नमो, तत्वर-
 मणजसु मूलो जी ॥ पररमणीयपणो टलै, सकल
 सिद्धि अनुकूलो जी ॥ उल्लालो ॥ प्रतिकूल आ-
 श्रव त्याग संजम तत्व थिरतां दममयी, शुचिप-
 रम खंति मुनींद संपद पंच संवर उपंचयी ॥
 सामायिकादिक भेद धरमें यथाख्यातै पूर्णता,
 अकषाय अकुलस अमल उज्वल काम कसमल
 चूर्णता ॥ ७० ॥

॥ ढाल ॥ देशविरत ने सर्वविरत जे, ग्रही
 यतिने अभिरांस ॥ ते चारित्र जंगत जयवंतो,

कीजै, तास प्रणाम रे ॥ भ० ॥ ७१ ॥ ॥ सि० ॥
 तृण पर जे षट्खंड सुख छंडी, चक्रवर्त पिण
 वरिञ्चो, ते चारित्र अखय सुखकारण, ते में मन-
 मांहि धरिञ्चो रे ॥ भ० ॥ ७२ ॥ सि० ॥ हूवा रंक
 पणो जे आदर, पूजत इंद-नरिंद ॥ अशरण श-
 रण चरण ते वारू, वरिञ्चो ज्ञान आनंद रे ॥ भ० ॥
 ७३ सि० ॥ बार मास पर्यायै तेहनें, अनुत्तर
 सुख अतिक्रमिये ॥ शुक्ल अभिजात्य ते उपर,
 ते चारित्रने नमिये रे ॥ भ० ७४ सि० ॥ चय
 ते आठ करमनो संचय, रिक्त करे जे तेह ॥
 चारित्र नाम निरुक्ते भाख्युं, ते वंदू गुणगेह रे
 ॥ भ० ॥ ७५ सि० ॥

॥ ढाल ॥ जांणि चारित्र, ते आतमा, निज-
 स्वभावमांहि रमतो रे ॥ लेस्या शुद्ध अलंकख्यो,
 मोहवने नवि भमतो रे ॥ वी० ७६ ॥ ॐ ह्रीं
 प० चारित्रपदे अष्ट द्रव्यं यजामहे स्वाहा ॥

॥ अथ नववीं तपपद-पूजा ॥

॥ दूहा ॥ करमकाष्ट प्रति जालवा, परतिख

अगनि समांन ॥ ते नपपद पूजो संदा, निर्मल
 धरिये ध्यानं ॥१॥ काव्यं ॥ कम्मद्दु सोन्धूलनकुंज
 रस्स, नमो२ तिव्वतवोवरस्स ॥ अणोगलद्धीण-
 नीबंधणस्स, दुसज्जभअत्थाणयसाहणस्स ॥ ७७
 इयनवपयसीद्धीं लद्धि, वीज्जासमीद्ध पयसीय
 सरवग्गंहीतिरेहसमग्गं ॥ दिस्सिवइसुरस्सारं खो-
 णिपीढावयारं, तिजयविजयचक्कं सिद्धचक्कं नभा-
 ॥ ७८ ॥ त्रिकालिकपणो कम्मकषाय टालै,
 निकाचितपणो बाधिया तेह बालै ॥ कळो तेह तप
 वाह्य अभ्यंतर दु भेदे, क्षमायुक्ति निर्हेत दुर्ध्या-
 न छेदे ॥ ७९ ॥ होइं जास महिमाथको लब्धि
 सिद्धि, अवांछपणो कर्म आवरण शुद्धि ॥ तपो
 तेह तप जे महानंद हेतें, होइं सिद्ध सीधंतनी
 जिम संकेते ॥ ८० ॥ इम नव पद ध्यावै परम
 आनंद पावै, नवभव शिव जावै देव नर. भवज
 पावै ॥ ज्ञानविमल गुण गावै सिद्धचक्र प्रभावै,
 सवि दुरित समावै विश्व जयकार पावै ॥ ८१ ॥

ढाल ॥ इच्छारोधन तप नसो, वाह्य अ-

भ्यन्तर भेद जी ॥ आत्म सत्ता एकत्वता, पर
परणाति उच्छेदे जी ॥१॥ उल्लालो ॥ उच्छेद कर्म
अनादि संतति जेह सिद्धपणो वरे, शुभ योग
संग आहार टाली भाव अक्रियता करै ॥ अंतर-
मुहूरत तत्व साधै सर्व संवरता करो, निज आत्म-
सत्ता प्रणट भावै करो तपगुण आदरो ॥ ८२ ॥

ढाल ॥ इम त्रवपद गुणमंडलं, चउ नि-
चोष प्रमाणे जी ॥ सात नये जे आदरै, सम्य-
गज्ञाने जाणे जो ॥ उल्लालो ॥ निरधारसेता गुणे
गुणानो करइजै बहुमान ए, जसु करण ईहा तत्व
रमणें थायै निरमल ध्यान ए ॥ इम शुद्धसत्ता
भलो चेतन सकल सिद्धि अनुसरै, अक्षय अनं-
त महंत चिदघन परम आनंदता वरै ॥ ८३ ॥

कलश ॥ इम सव्वल सुखकर गुणपुरंदर
सिद्धचक्रपदावली, सव्विलद्धिविज्जा सिद्धि मंदिर
भविक पूजो मन रली ॥ उवभाय वर श्रीराज-
सागर ज्ञानधर्मसु राजता, गुरु दीपचंद्र सुंचरण
सेवक देवचंद्र सुशोभता ॥ ८४ ॥

ढाल ॥ जाणंतां त्रिहुं ज्ञाने संयुत, ते
 भवमुगति जिनेद ॥ जेहे आदरे कर्मख-
 पेवा, ते तप सुरतरु कंद रे ॥ भ० ॥ ८५
 ॥ सि० ॥ करम निकाचित पिण चय
 जायै, क्षमासहित जे करतां, ते तप नमियै तेह
 दीपावै, जिनशासन उजमंता रे ॥ भ० ॥ ८६ ॥
 सि० ॥ आमोसहीपमुहा बहु लच्छि, होवै जास
 प्रभावै ॥ अष्ट महासिद्ध नवनिध प्रगटै, नमियै
 ते तप भावै रे ॥ भ० ॥ सि० ॥ ८७ ॥ फल
 शिव सुख मोटुं सुरनरवर, संपति जेहनूं फूल ॥
 ते तप सुरतरु सरिखो वंदू, शर्ममकरंद अमूल रे
 ॥ भ० ॥ ८८ ॥ सि० ॥ सर्व मंगलमांहि पहलो
 मंगल-वर्णवियो जे ग्रथै ॥ ते तपपद त्रिकरण
 नित नमियै, वरसहाय शिवपंथ रे ॥ भ० ॥ ८९ ॥
 ॥ सि० ॥ इम नवपद थुणंतो तिहांलीनो, हुओ
 तनमय श्रीपाल ॥ सुजस विलासै चोथेखंडै, एह
 इग्यारमी ढाल रे ॥ भ० ॥ ९० ॥ सि० ॥

ढाल ॥ इछारोधन संवरी, परणित समता योगै

रे ॥ तप ते एहिज आतमा, वरते निजगुण भोगे रे ॥
 वी० ॥ ६१ ॥ आगमनो आगमतणो, भाव ते
 जाणो साचो रे ॥ आतमभावै थिर हूओ, परभावै
 मतराचो रे ॥ वी० ॥ ६२ ॥ अष्ट सकल समृ-
 द्धिने, घटमांहे ऋद्धि दाखी रे ॥ तिम नवपद
 ऋद्धि जाणज्यो, आतमराम छै साखी रे ॥ वी०
 ६३ ॥ योग असंख्य छै जिन कह्या, नवपद मु-
 ख्य ते जाणो रे ॥ एहतणै अविलंबिने, आतम
 ध्यान प्रमाणो रे ॥ वी० ॥ ६४ ॥

ढाल ॥ बारमी ए हवी, चोथै खंडे पूरी रे ॥
 वाणी वाचक जसतणी, कोइय न रही अधूरी
 रे ॥ वी० ६५ ॥ ॐ ह्रीं प० तपपदे अष्ट द्रव्यं
 यजामहे ॥ इति नवपद-पूजा समाप्त ॥



समस्त श्रावकोंको वंदूँ, कह कर घुटने, टेक कर सिर नवाँ कर दोनों हाथोंसे मुंहके आगे मुहपत्ति रख कर 'सव्वस्स वि राइयं०, पढ़े, परन्तु 'इच्छाकारेण संदिसह भगवन्, इच्छं' इतना न कहे। पीछे 'शक्रस्तव' पढ़ कर खड़े होकर 'करेमि भन्ते सामाइयं०, कह कर 'इच्छामि ठामि काउस्सग्गं जोमे राइयो०' तथा 'तस्स उत्तरी, अन्नत्थ' कह कर एक लोगस्सका काउस्सग्ग करके उसको पारकर प्रगट लोगस्स कह कर 'सव्वलोए अरिहंत चेइयाणं वंदणं०' कह कर फिर एक लोगस्स का काउस्सग्ग कर तथा उसे पार कर 'पुक्खरवदीवड्ढे' सूत्र पढ़ कर 'सुअस्स भगवओ' कह कर 'आजूणा चउपहरी रात्रिसम्बन्धी' इत्यादि आलोयणाका काउस्सग्गमें चिन्तन करे; अथवा आठ नमुक्कारका चिन्तन करे। बाद काउस्सग्ग पार कर 'सिद्धाणं बुद्धाणं' पढ़ कर प्रमाजनपूर्वक बैठ कर मुहपत्ति पडिलेहण करे और दो वन्दना देवे। पीछे 'इच्छां०' कह कर 'राइयं आलोउं?'

कहे । गुरुके 'आलोएह' कहने पर 'इच्छ' कह कर 'जोमे राइयो०' सूत्र पढ़ कर प्रथम काउस्सगर्मे चिन्तन किये हुए 'आजूणा' इत्यादि रात्रि-अति चारोंको गुरुके सामने प्रगट करे और पीछे 'सवस्स वि राइय' कह कर 'इच्छा०' कह कर रात्रि-अतिचारका प्रायश्चित्त माँगे । गुरुके 'पडिक्कमह' कहनेके बाद 'इच्छं' कहकर 'तस्स मिच्छामि दुक्कडं' कहे । बाद प्रमार्जन-पूर्वक आसनके ऊपर दाहिने जानूको ऊँचा कर तथा बाँये जानूको नीचा करके बैठ जाय और 'भगवन् सूत्र भणुं ?' कहे । गुरुके 'भणह' कहने के बाद 'इच्छं' कह कर तीन-तीन या एक-एक वार नमुक्कार तथा 'करेमि भन्ते' पढ़े । बाद 'इच्छामि पडिक्कमिउ' जोमें राइओ' सूत्र तथा 'वंदित्तु' सूत्र पढ़े । बाद दो वन्दना देकर 'इच्छा०' कह कर 'अब्भुट्ठिओमि अब्भिन्तर राइयं खामेउं ?' कहे । बाद गुरुके 'खामेह' कहनेके बाद 'इच्छं' कह कर प्रमार्जनपूर्वक घुटने टेक कर दो

बाहू पडिलेहन कर बाँये हाथसे मुखके आगे मुहपत्ति रख कर दाहिना हाथ गुरुके सामने रखे, अनन्तर शरीर नवाँ कर 'जंकिंचि अपत्तियं' कहे । बाद जब गुरु 'मिच्छा मि दुक्कड़ं' कहे तब फिरसे दो वन्दना देवे । और 'आयरिय उवज्झाए' इत्यादि तीन गाथाएँ कह कर 'करेमि भन्ते, इच्छामि ठामि, तस्स उत्तरी, अन्नत्थ' कह कर काउस्सगग करे । उसमें वीर-कृत षाड्मासी तप का चिन्तन किंवा छह लोगस्स या चौबीस नमुक्कारका चिन्तन करे । और जो पच्चक्खाण करना हो तो मनमें उसका निश्चय करके काउस्सगग पारे तथा प्रगट लोगस्स पढ़े । फिर उकडूँ आसनसे बैठ कर मुहपत्ति पडिलेहन कर दो वन्दना देकर सकल तीर्थोंको नाम पूर्वक नमस्कार करे और 'इच्छाकारेण संदिसह भगवन् पसायकरी पच्चक्खाण कराना जी' कह कर गुरु-मुखसे या स्थापनाचार्यके सामने अथवा वृद्ध साधर्मिकके मुखसे प्रथम निश्चयके अनुस्तार

पञ्चवखाण करले । बाद 'इच्छामो अणुसट्ठि' कह कर बैठ जाय । और गुरुके एक स्तुति पढ़ जाने पर मस्तक पर अञ्जली रख कर 'नमो खमासमणाणां, नमोऽर्हत्' पढ़े । बाद 'संसारदावानल' या 'नमोऽस्तु वर्धमानाय' या परसमयतिमिरतरणिं' की तीन स्तुतियाँ पढ़ कर 'शक्रस्तव' पढ़े । फिर खड़े होकर 'अरिहंत चेइयाणां' कह कर एक नमुक्कारका काउस्सग्ग करे । और उसको 'नमोऽर्हत्' पूर्वक पार कर एक स्तुति पढ़े । बाद 'लोगस्स, सव्वलोए' पढ़ कर एक नमुक्कारका काउस्सग्ग करके तथा पारके दूसरी स्तुति पढ़े । पीछे 'पुक्खरवरदिवट्ठे, सुअस्स भगवअ्रो' पढ़ कर एक नमुक्कारका काउस्सग्ग पारके तीसरी स्तुति कहे । तदनन्तर 'सिद्धाणां बुद्धाणां, वेयावच्चगराणां' बोल कर एक नमुक्कारका काउस्सग्ग पारके 'नमोऽर्हत्'-पूर्वक चौथी स्तुति पढ़े । फिर 'शक्रस्तव' पढ़ कर तीन खमासमण पूर्वक आचार्य उपाध्याय तथा सर्व साधुओंको वन्दन करे ।

यहाँ तक रात्रि-प्रतिक्रमण पूरा हो जाता है ।
 और विशेष स्थिरता हो तो उत्तर दिशाकी तरफ
 मुख करके सीमन्धर स्वामीका 'कम्मभूमीहिं
 कम्मभूमीहिं, से लेकर 'जय वीरशायय' तक संपूर्ण
 चैत्य-वन्दन तथा 'अरिहंत चेइयाणं०' कहे और
 एक नमुक्कारका काउस्सगा करके तथा उसको
 पारके सीमन्धर स्वामीकी एक स्तुति पढ़े ।

अगर इससे भी अधिक स्थिरता हो तो
 सिद्धाचलजीका चैत्यवन्दन करके प्रतिलेखन
 करे । यही क्रिया अगर संपन्न में करनी हो तो
 दृष्टि-प्रतिलेखन करे और अगर विस्तारसे करनी
 हो तो खमासमण-पूर्वक 'इच्छा०' कहे और
 मुहपत्ति-पडिलेहन, अंब-पडिलेहन, स्थापनाचार्य-
 पडिलेहन, उपधि-पडिलेहन तथा पौषधशालाका
 प्रमार्जन करके कूड़े-कचरेको विधिपूर्वक एकान्त
 में रख दे और पीछे 'इरियात्रहियं' पढ़े ।

सामायिक पारत्रे की विधि पढ़े ।
 खमासमण-पूर्वक मुहपत्ति पडिलेहन करके

फिर खमासमण कहे । बाद 'इच्छा' कह कर 'सामायिक पारुँ' ? कहे । गुरुके 'पुणो वि कायव्वो' कहनेके बाद 'यथाशक्ति' कह कर खमासमण-पूर्वक 'इच्छा०' कह कर 'सामायिक पारेमि ?' कहे, जब गुरु 'आयारो न मोत्तव्वो' कहे तब 'तहत्ति' कह कर आधा अंग नवाँ कर खड़े-ही-खड़े तीन नमुक्कार पढ़े और पीछे घुटने टेक कर तथा सिर नवाँ कर 'भयवं दसन्नभदो' इत्यादि पाँच गाथाएँ पढ़े तथा 'सामायिक विधिसे लिया' इत्यादि कहे ।

संध्याकालीन सामायिक की विधि ।

दिनके अन्तिम प्रहरमें पौषधशाला आदि किसी एकान्त स्थानमें जाकर उस स्थानका तथा वस्त्रका पडिलेहन करे । अगर देरी होगई हो तो दृष्टि-पडिलेहन कर लेवे । फिर गुरु या स्थापना-चार्यके सामने बैठ कर भूमिका प्रमार्जन करके बाईं ओर आसन रख कर खमासमण-पूर्वक 'इच्छा०' कह कर 'सामायिक मुहपत्ति पडिलेहुँ ?'

कहे । गुरुके 'पडिलेहेहे' कहने पर 'इच्छं' कहकर मुह पत्ति पडिलेहे । फिर खमासमण पूर्वक 'इच्छा' कह कर 'सामायिक संदिसाहुं', सामायिक ठाउं, इच्छं, इच्छकारि भगवन् पसायकरि दंड उच्चरावो जी, कहे । बाद तीन वार नमुक्कार, तीन वार 'करेमि भन्ते' 'सामाइयं' तथा 'इरियावहियं इत्यादि काउस्सग्ग तथा प्रगट लोगस्स तक सब विधि प्रभातके सामायिककी तरह करे । बाद नीचे बैठ कर मुहपत्तिका पडिलेहन कर दो वन्दना देकर खमासमण-पूर्वक 'इच्छकारि भगवन् पसायकरि पच्चक्खाण कराना, जी' कहे । फिर गुरुके मुखसे या स्वयं किसी बड़ेके मुखसे दिवस चरिमंका पच्चक्खाण करे ।

अगर तिविहाहार उपवास किया हो तो वन्दना न देकर सिर्फ मुहपत्ति पडिलेहन करके पच्चक्खाण कर लेवे और अगर चउव्विहाहार उपवास हो तो मुहपत्ति पडिलेहन भी न करे । बादको एक-एक खमासमण-पूर्वक 'इच्छा०' कह

कर 'सज्भाय संदिसाहुँ ?', सज्भाय करुं ?', तथा 'इच्छं' यह सब पूर्वकी तरह क्रमशः कहे और खड़े हो कर मासमण-पूर्वक आठ नमुक्कार गिने । फिर एक-एक खमासमण-पूर्वक 'इच्छा०' कह कर 'बेसणे संदिसाहुँ ?', बेसणे ठाउँ ?' तथा 'इच्छं', यह सब क्रमशः पूर्वकी तरह कहे ।

इसके बाद यदि वस्त्रको जरूरत होतो उसके लिये भी एक एक खमासमण पूर्वक 'इच्छा०' कह कर 'पंगुरण संदिसाहुँ', पंगुरण पडिग्गाहुँ ?' तथा 'इच्छं' यह सब पूर्वकी तरह कहकर वस्त्र ग्रहण कर ले और शुभ ध्यान में समय बितावे ।

द्वैसिक-प्रतिक्रमण की विधि ।

पहले यथाविधि सामायिक लेवे बाद 'तीन खमासमणपूर्वक इच्छाकारेण संदिसह भगवन् वन्दन करुँ ? कहे । गुरुके 'करेह' कहने पर चैत्य इच्छं कह कर 'जय तिहुअण' 'जय महायस' कह कर 'शक्रस्तव' कहे । और 'अरिहं त चेइयाणं' इत्यादि सब पाठ पूर्वोक्त रीतिसे पढ़ कर काउ-

स्सग्ग आदि करके चार थूइ का देव वन्दन करे ।
 इस के पश्चात् एक एक खमासमण देकर आ-
 चार्य आदि को वन्दन करके 'इच्छकारि समस्त
 श्रवकोंको वंदू' कहे । फिर घुटने टोक कर सिर
 नवाँ कर 'सव्वस्स वि देवसिय' इत्यादि कहे ।
 फिर खड़े हो कर 'करेमि भन्ते, इच्छामि ठामि का-
 उस्सग्गं जो मे देवसिओ०, तस्स उत्तरी, अन्नत्थ
 कहकर काउस्सग्ग करे । इस में 'आजूणा चौपहर
 दिवस में इत्यादि पाठ का चिन्तन करे । फिर
 काउस्सग्ग पारके प्रगट लोगस्स पढ़ कर प्रमाज-
 नपूर्वक बैठ कर मुहपत्ति का पडिलेहन करके दो
 वन्दना दे । फिर 'इच्छाकारेण संदिसह भग-
 वन् देवसियं आलोएमि? कहे । गुरु जब 'आ-
 लोएह' कहे । तब 'इछ' कह कर 'आलो-
 एमि जो मे देवसियो०' 'आजूणा चौपहर
 दिवससम्बन्धी० सात लाख, अठारह पाप-
 स्थान' कह कर 'सव्वस्स वि देवसिय, इच्छा-
 कारेण संदिसह भगवन्०' तक कहे । जब गुरु

‘पडिक्कमह’ कहे तव ‘इच्छं’, मिच्छा मि दुक्कडं’ कहे । फिर प्रमार्जनपूर्वक बैठ कर ‘भगवन् सूत्र भणं ?’ कहे । गुरु के ‘भणह’ कहने पर ‘इच्छं’ कह कर तीन-तीन या एक-एक वार नमुक्कार तथा ‘करेमि भंते’ पढ़े । फिर ‘इच्छामि पडिक्कमिउं जो मे देवसियो०’ कह कर ‘वंदितु’ सूत्र पढ़े । फिर दो वन्दना देकर ‘अब्भुट्ठिओमि अब्भिन्तर देवसियं खामेउं, इच्छं, जं किंचि अपत्तियं०’ कह कर फिर दो वन्दना देवे और ‘आयरिय उवञ्जाए’ कह कर ‘करेमि भंते इच्छामि ठामि, तस्स उत्तरी’ आदि कह कर दो लोगस्स अथवा आठ नमुक्कारका काउस्सग्ग करके प्रगट लोगस्सपढ़े । फिर ‘सव्वलोए’ कह कर एक लोगस्सका काउस्सग्ग करे और उसको पार कर ‘पुक्खरवरदी० सुअस्स भगवओ०’ कह कर फिर एक लोगस्स का काउस्सग्ग करे । तत्पश्चात् ‘सिद्धाणं बुद्धाणं, सुअदेवयाए०’ कह कर एक नमुक्कार का काउस्सग्ग कर तथा श्रुतदेवता की

स्तुति पढ़ कर 'खित्तदेवयाए करेमि०' कह कर एक नमुक्कार का काउस्सग्ग करके क्षेत्रदेवता की स्तुति पढ़े । बाद खड़े हो कर एक नमुक्कार गिने और प्रमाजनपूर्वक बैठ कर मुहपत्ति पडिलेहन कर दो वन्दना देकर 'इच्छामो अण सद्धि' कह कर बैठ जाय । फिर जब गुरु एक स्तुति पढ़ ले तब मस्तक पर अञ्जली रख कर 'नमोखमासमणाणं, नमोऽर्हत्सिद्धा०' कहे । बाद श्रावक 'नमोस्तुवर्धमानाय०' की तीन स्तुतियाँ और श्राविका 'संसारदावानल०' की तीन स्तुतियाँ पढ़े । फिह 'नमुत्थणं' कह कर खमासमण पूर्वक 'इच्छा०' कह कर 'स्तवन भणुं ?' कहे । बाद गुरु के 'भणह' कहने पर आसन पर बैठ कर 'नमोऽर्हसिद्धा०' पूर्वक बड़ा स्तवन बोले । पीछे एक-एक खमासमण दे कर अचार्य, उपाध्याय तथा सर्व साधु को वन्दन करे । फिर खमासमण पूर्वक 'इच्छा०' कह कर 'देवसियपायच्छित्तविसुद्धिनिमित्तंकाउस्सग्ग करुं ?'

कहे। फिर गुरु के 'करेह' कहनेके बाद 'इच्छ' कह कर 'देवसिञ्जपायच्छित्तविसुद्धनिमित्तं करेमि काउस्सग्गं, अन्नत्थं' कह कर चार लोगस्स का काउस्सग्ग करके प्रगट लोगस्स पढ़े। फिर खमासमण-पूर्वक 'इच्छा०' कह कर 'खुद्धो-वद्वउड्ढावणनिमित्तं काउस्सग्गं करेमि, अन्नत्थं' कह कर चार लोगस्स का काउस्सग्ग करके प्रगट लोगस्स पढ़े। फिर खमासमण-पूर्वक स्तम्भन पार्श्वनाथ का 'जय वीयराय' तक चैत-वन्दन करके 'सरिथंभणयट्टियपाससामिणो' इत्यादि दो गाथाएँ पढ़ कर खड़े हो कर वन्दन तथा 'अन्नत्थं' कह कर चार लोगस्स का काउस्सग्ग करके प्रगट लोगस्स पढ़े।

इस तरह दादा जिनदत्त सूरि तथा दादा जिनकुशल सूरि का अलग-अलग काउस्सग्ग करके प्रगट लोगस्स पढ़े। इस के बाद लघु-शान्ति पढ़े। अगर लघु शान्ति न आतीहो तो सोलह नमुक्कार का काउस्सग्ग करके तीन खमा

समण-पूर्वक 'चउक्कसाय०' का 'जय वीयराय०'
तक चेत्य-वन्दन करे । फिर 'सर्वमंगले०' कह
कर पूर्वोक्त रीतिसे सामायिक करे ।

पाक्षिक, चातुर्मासिक और सांवत्सरिक-प्रतिक्रमणकी विधि * ।

'वदित्तु' सूत्र पर्यंत तो दैवसिक-प्रतिक्रमण
की विधिकरे । बाद खमासमण दे कर 'देवसिय
पडिक्कंता, इच्छाकारेण संदिसह भगवन् पक्खि
य मुहपत्ति पडिलेहुँ ?' कहे । बाद गुरु के 'पडि-
लेहेह' कहने पर 'इच्छ' कह कर खमासमण
पूर्वक मुहपत्ति पहिलेहन करे और दो वन्दना
दे । बाद जब गुरु कहे कि 'पुण्णवन्तो देव
सिय की जगह 'पक्खिय, 'चउमासिय' या 'सं
वच्छरिय' पढ़ना, छींक की जयणा करना, मधुर
स्वर से प्रतिक्रमण करना, खाँसना हो तो विवर
शुद्ध खाँसना और मण्डल में सावधान रहना,

*दैवसिक-प्रतिक्रमणमें जहाँ-जहाँ 'देवसिय' बोला जाता है,
वहाँ-वहाँ पाक्षिक-प्रतिक्रमणमें 'पक्खिय' चातुर्मासिकमें 'चउमा-
सिय' और सांवत्सरिकमें 'संवच्छरिय' बोलना चाहिये ।

तब 'तहति' कहे । पीछे खड़े हो कर 'इच्छा-
कारेण संदिसह भगवन् संबुद्धा खामणेणं अब्भु-
ट्ठिओमि अब्भितर पक्खियं खामेउ ? कहे ।
गुरु के 'खामेहे' कहने पर 'इच्छं', खामेमि पक्खि-
यं' कहे और घुटने टेक कर यथाविधि पाक्षिक-
प्रतिक्रमणमें 'पनरसणहं दिवसाणं' 'पनरसणहं
राइणं जं किंचि०' चातुर्मासिक-प्रतिक्रमणमें 'च-
उणहं मासाणं अठणहं पक्खाणं वीसोत्तरसयं राइं-
दियाणं जं किंचि० और सांवत्सरिक-प्रतिक्रमणमें
'दुवालसणहं मासाणं चउवीसणहं पक्खाणं तिन्नि-
सयसट्ठि राइंदियाणं जं किंचि०' कहे । गुरु जब
'मिच्छामि दुक्कडं दे, तब अगर दो साधु उचरते
होंतो पाक्षिकमें तीन, चातुर्मासिकमें पाँच और
सांवत्सरिकमें सात साधुओं को खमावे । बाद
खड़े हो कर 'इच्छाकारेण संदिसह भगवन्
पक्खियं आलोउँ ? कहे । गुरुके 'आलोएह' कह-
ने पर 'इच्छं', आलोएमि जोमे पक्खिओ अइ-
यारो कओ० पढ़े और बड़ा अतिचार बोले ।

पीछे 'सवस्स वि पक्खिय'को 'इच्छाकारेण सं-
दिसह भगवन् तक कहे । गुरु जब पाच्चिक,
चातुर्मासिक या सांवत्सरिकमें अनुक्रमसे 'च-
उत्थेण, छट्ठेण, अट्ठमेण पडिक्कमह' कहे, तब
'इच्छं, मिच्छामि दुक्कडं' कहे । बाद दो वन्दना
दे । पीछे इच्छाकारेण संदिसह भगवन् देव-
सियं आलोइय पडिक्कंता पत्तेय खामणेणं, अ-
ब्भुट्ठिओमि अब्भिंतर पक्खियं खामेउं ? कहे ।
गुरु के 'खामेह कहने के बाद 'इच्छं, खामेमि
पक्खियं जं किं चिं' पाठ पढ़े और दो वन्दना
दे । पीछे 'भगवन् देवसियं आलोइय पडिक्कंता
पक्खियं पडिक्कमावेह' कहे । गुरु जब 'सम्मं
पडिक्कमेह' कहे, तब 'इच्छं, करेमि भंते सामा-
इयं, इच्छामि ठामि काउस्सग्गं, जो मे पक्खियो,
तस्स उत्तरो, अन्नथ' कह कर काउस्सग्ग करे
और 'पक्खि सूत्र' सुने ।

गुरुसे अलग प्रतिक्रमण किया जाता हो
तो एक श्रावक खमासमण पूर्वक 'सूत्र भणुं ?'

कह कर 'इच्छ' कहे और अर्थचिन्तन पूर्वक मधुर स्वरसे तीन नमुक्कार पूर्वक 'वंदित्तु सूत्र' पढ़े और वाकीके सब श्रावक "करेमि भंते, इच्छामि ठामि, तस्स उत्तरी, अन्नत्थ' पूर्वक काउस्सग्ग करके उसको सुने । 'वंदित्तु' सूत्र पूर्ण हो जाने के बाद 'नमो अरिहंताण' कहकर काउस्सग्ग पारे और खड़े-हो-खड़े तीन नमुक्कार गिन कर बैठ जाय । बाद तीन नमुक्कार, तीन 'करेमि भंते पढ़ कर 'इच्छामि ठामि पडिक्कमिउं जो मे पक्खियो०' कहके 'वंदित्तु सूत्र' पढ़े । बाद खमासमण पूर्वक इच्छा-कारेण संदिसह भगवन् 'मूलगुण-उत्तरगुण-विशुद्धि-निमित्तं काउस्सग्गं करू' ?' कहे । गुरु जब 'करेह कहे, तब 'इच्छ' करेमि भंते, इच्छामि ठामि तस्स उत्तरी, अन्नत्थ कह कर पात्तिकमें चारह, चातुर्मासिकमें बीस और सांवत्सरिकमें चालीस लोगस्सका काउस्सग्ग करे । फिर नमुक्कार-पूर्वक काउस्सग्ग पारके लोगस्स पढ़े और बैठ जाय । पीछे मुहपत्ति पडिलेहन करके

दो वन्दना दे और 'इच्छाकारेण संदिसह भगवन् समाप्ति खामणेणं अब्भुद्धिओमि अब्भिं-तर पक्खियं खामेउं? कहे । गुरु जब 'खामेह' कहे तब 'इच्छं' खामेमि पक्खियं जं किंचि कहे । बाद 'इच्छाकारेण संदिसह भगवन् पक्खिय खामणा खामुं?' कहे और गुरु जब 'पुण्णवंतो' तथा चार खमासमण-पूर्वक तीन नमुक्कार गिन कर 'पक्खिय-समाप्ति खामणा खामेह' कहे, तब एक खमासमण-पूर्वक तीन नमुक्कार पढ़े, इसतरह चार बार करे । गुरु के 'नित्थार-गपारगा होह' कहनेके बाद 'इच्छं, इच्छामो अणुसंद्धि' कहे । इसके बाद गुरु जब कहे कि 'पुण्णवंतो पक्खियके निमित्त एक उपवास, दो आयंबिल, तीन निवि, चार एकासना, दो हजार सज्जाय करी एक उपवासकी पेट पूरना* और 'पक्खिय' केस्थानमें 'देवसिय, कहना,

* चउमासियमें इससे दूना अर्थात् दो उपवास, चार आयंबिल छह निवि, आठ एकासन्न और चार हजार सज्जाय । सबच्छरियमें

तब जिन्होंने तप कर लिया हां वे 'पइद्विय' कहें और जिन्होंने तप न किया हो वे 'तहत्ति' कहें । पीछे दो वन्दना दे कर 'अब्भुद्विओमि अब्भिंतर देवसियं खामे उँ ?' पढ़ें । बाद दो वन्दना देकर 'आयरिय उवज्झाए' पढ़ें ।

इसके आगे सब विधि दैवसिक-प्रतिक्रमण की तरह है । सिर्फ इतना विशेष है कि पाक्षिक आदि प्रतिक्रमणमें श्रुतदेवता, क्षेत्रदेवताके आरधनके निमित्त अलग अलग तीन बार काउस्सग्ग करे और प्रत्येक काउस्सग्गको पार कर अनुक्रमसे 'कमलदल०, ज्ञानादिगुणयुतानां० और यस्याः क्षेत्रं०' स्तुतियाँ पढ़ें । इसके अनन्तर बड़ास्तवन 'अजितशान्ति' और छोटा स्तवन 'उवसग्गहरं०' पढ़ें । तथा प्रतिक्रमण पूर्ण होनेके बाद गुरुसे आज्ञा ले कर 'नमो-ऽहत्' पढ़ें । फिर एक श्रावक बड़ी 'शान्ति'

उससे तिगुना अर्थात् तीन उपवास, छह आयंबिल, नौ निवि, चाग्रह एकासना और छह हजार सज्झाया ऐसा कहते हैं ।

पढ़े और बाकीके सब सुनें । जिन्होंने रात्रि-
पौषध न किया हो, वे पौषध और सामायिक
पार करके 'शान्ति' सुनें ।

तपस्या-स्तवक और विधियें ।

॥ पखवासा-तपका स्तवन ॥

सीमंधर करजो मया-ए देशी ॥

जंबुद्वीप सोहामणो, दक्षिणभरत उदार । राज-
ग्रही नगरी भली, अलिकापुर अवतार ॥१॥ श्रीमु-
निसुव्रत स्वामिजी, समरंता सुख थाय । मनवंछित
फल पामियै, दोहग दूर पुलाय ॥ श्री० २ ॥ राज
करै तिहां राजियो, सुमित्र नरेसर नाम । पटरा-
णी पद्मावती, शीलगुणें अभिराम ॥ श्री० ३ ॥
श्रावण उज्वल पूनमें, श्रीजिनवर हरिवंश । माता-
कुक्षि सरोवरै, अवतरियो राय हंस ॥ श्री० ४ ॥
जेठ पढम पक्ष अट्टमी, जायो श्रीजिनराज ।
जन्ममहोच्छव सुर करै, त्रिभुवन हरख न माय ॥
श्री० ५ ॥ शामल वरण सोहामणो, निरूपम
रूप निधान । जिनवर लंछन काछबो, वीस धनुष

तनु मान ॥ श्री० ६ ॥ परणी नार प्रभावती,
भाग पुरंदर साम । राजलीला सुख भोगवै, पूरै
वंछित काम ॥ श्री० ७ ॥ तब लोकांतिक देवता,
आवि जंपै जयकार । प्रभु फागुण वदि बारसै,
लीधो संजम भार ॥ श्री० ८ ॥ शुभ फागुण
वदि बारसै, मनधर निरमल ध्यान । च्यार
करम प्रभु चूरिया, पाम्यो केवलज्ञान ॥ श्री० ९ ॥

ढाल २ ॥ सुख कारण भवियण—ए देशी ॥

ततखिण तिहां मिलिया चलिया सुरनर कोडि,
प्रभुना पदपंकज प्रणमैँ बे कर जोडि ॥ बे कर
जोडि मच्छर छोडी समवसरण विरतंत, माणक
हेम रूपमय त्रिगडो छत्रत्रय भलकंत ॥ सिंहा-
सण वैठा तिहां स्वामी चोविह धर्म प्रकासै, बारै
परखदा वैठी आगलि सुणैँ मन उल्हासै ॥ १० ॥
तपने अधिकारै पखवासो तप सार, पडवाथी
कीजैँ पनरह तिथी उदार ॥ पनरह तिथी कीजैँ
गुरु मुख लीजैँ जिस दिन हुवैँ उपशम, श्रीमु-
निसुव्रत नाम जपीजैँ वांदी देव उल्लास ॥ तप

ऊज्जमणो रजत-पालणो सोवन पूतली-चंग, मो
 थाल देहरै मंकी जिनवर स्नात्र सुरंग ॥ ११ ॥
 तप करियै निरंतर अहुरव दर्शनी जेम, मनवर्षि
 केरा सुख पामीजै तेम ॥ पुत्र मित्र परि
 परं अति वल्लभ भरतार, जस कीरत सोभ
 वडाई महियल महिमा जाण ॥ परभव मुग
 फल लहियै, ए तपनें प्रमाण ॥ १२ ॥
 थापी चतुर्विध संघतणो अधिकार, भर
 प्रमुख नगरादिक करिया विहार ॥ विहार व
 प्रतिबोधे खंदक पंच सयां परिवार, कार्तिक
 जितशत्रु तुरंगम सुव्रत नाम कुमार ॥ त
 सहस वरस आऊखो पालै जग दया सार, श्री
 म्मेतशिखर परमेसर पुहता मुगति मभार ॥ १३ ॥
 इम पंच कल्याणक थुणिया त्रिभुवन ताय, मु
 सुव्रतस्वामी वीसमो जिनवर राय ॥ वीसमो
 नवर राय जगतगुरु भयभंजण भगवंत, निरा
 निरंजन निरूपम अजरामर अरिहंत ॥ श्रीजि
 चन्द विनय शिरोमणि सकलचन्द गणि स

प्रभावती
 भोगवै प्रा
 देवता
 वारस
 फायु
 च्या
 गी० ६॥
 देशी
 कोडि
 वे कर
 माणक
 सिंहा
 वार
 १०॥
 वाथी
 कीजै
 मेसु
 तप

वाचक समयसुंदर इम पभणे पूरो मनह
जगीस ॥ १४ ॥

पलवासा-तपकी विधि ।

पहले शुभ दिन गुरुके पास जा करके शुक्ल प्रतिपदासे पूणिमा तक निरन्तर १५ पनरह उपवास करे । यदि शक्ति न होतो पहले शुक्लपक्षकी एकमाँ और दूसरे शुक्लपक्षकी दूजका उपवास करे, इस तरह अनुक्रमसे पनरह शुक्लपक्षमें तपस्या पूर्ण करे और श्रीमुनिसुव्रत स्वामीका भावगर्भित स्तवन पढे । याद गुरुका संयोग होतो गुरुके पास जाकर श्रवण करे । “श्रीमुनिसुव्रत-स्वामी सर्वज्ञायनमः” इस पदको २००० बार गुणना करे । इसके बाद तपग्रहण विधि तथा देववंदनादिककी विधिके अनुसार विवेकी पुरुष सारी तपस्याकी विधि पूर्ण करे । संयुक्त विधि करनेसे उत्तम फलकी प्राप्ती होती है ।

दश पच्चस्काण-तपका स्तवन ।

॥ दूहा ॥ सिद्धारथ नंदन नमं, महावीर

भगवंत । त्रिगडै बैठा जिनवरू, परषद बार
मिलंत ॥ १ ॥ गणधर गौतम तिणसमे, पूछै श्री
जिनराय । दश पच्चक्खाण किंसा कह्या, कीयां
कवण फल थाय ॥ २ ॥

ढाल १ ॥ सीमंघर करज्यो—ए देशी !

श्रीजिनवर इम उपदिसै, सांभल गोमय
ताम । दस पच्चक्खाण कियां थकां,
लहिये अविचल ठाम ॥ श्री० ३ ॥ नवकारसी
बीजी पोरसी २, साढपोरसी-पुरिमड्ड ४ ।
एकासण-नीवी कही ६, एकलठाण देवडिड ॥
श्री० ४ ॥ दात द आंबिल ६ उपवास १० ही,
एहिज दस पच्चक्खाण । एहना फल सुण गोयमा,
जुजवा करूं वखाण ॥ श्री० ५ ॥ रतनप्रभा १
सकरप्रभा २, वालुक तीजी जाण । पंकप्रभा
४ तिम धूमप्रभा ५ तमप्रभा ६ तमतम ७ ठाम
॥ श्री० ६ ॥ नरक-सात कही ए सही, करम क-
ठिन करजोर । जीव करम वस ते सही, उपजै
तिणहीज ठोर ॥ श्री० ७ ॥ छेदन भेदन ताडना,

भूख तृषा वलि त्रास । रोम २ पीडा करै, परमाह
 म्मो तास ॥ श्री० ८ ॥ रात दिवस क्षेत्रदेवता,
 तिल भर नहीं जिहां सुख ॥ किया करम जे
 भोगवै, पामे जीव बहु दुःख ॥ श्री० ९ ॥ इक
 दिनरी नवकारसी, जे करै भाव विशुद्ध । सो
 वरस नरकनो आउखो, दूर करै ज्ञानबुद्धि ॥ श्री
 ॥ १० ॥ नित्य करै नवकारसी, ते नर नरक न
 जाय । न रहै पाप वलि पावला, निरमल होवे
 जी काय ॥ श्री० ११ ॥

ढाल २ ॥ श्रीविमलाचल सिर तिलो—ए चाल ।

सुण गौतम पोरसी कियां, महा मोटो
 फल होय । भावसुं जे पोरसी करै,
 दुरगति छेद सोय ॥ सु० १२ ॥ नरक मांहि जे
 नारकी, वरसें एक हजार । करम खपावै
 नरकमें, करता बहुत पुकार ॥ सु० १३ ॥ एक
 दिवसनी पोरसी, जीव करै इकतार । करम
 हणें सहस एकना, निहचैसुं गणधार ॥ सु० १४ ॥
 दुरगति मांहे नारकी, दस हजार प्रमाण । नरक

आयु खिण एकमें, साढपोरसो करै हाण ॥
 सु० १५ ॥ पुरिमड्ड करै नित जीव जे, नरके ते
 नवि जाय । लाख वरस करमनें दहै, पुरिमड्ड
 करम खपाय ॥ सु० १६ ॥ लाख वरस दस नारकी,
 पामें दुःख अनंत । इतरा करम एकासणें, दूर
 करै मन खंत ॥ सु० १७ ॥ एक कोडि वरसां
 लगै, करम खपावै जीव । नीवीय करतां भावसुं,
 दुरगति हणो सदीव ॥ सु० १८ ॥ दस कोडि
 जीव नरकमें, जितरो करै करम दूर । तीतरो
 एकलठाणही, करै सही चकचूर ॥ सु० १९ ॥
 दात करंता प्राणियो, सो कोडी परिमाण । इतरा
 वरस दुरगति तणा, छेदै चतुरसुजाण ॥ सु०
 २० ॥ आंबिलनो फल बहु कह्यो, कोडी एक
 हजार । करम खपाव इण परै, भाव आंबिल
 अधिकार ॥ सु० २१ ॥ कोडि सहस दस वरस-
 ही, सहे दुःख नरक मभार । उपवास करै इक
 भावसुं, तो पामे मुगति मभार ॥ सु० ॥ २२ ॥ ॥
 ढाल ३ ॥ केकड़ वर लाधो-ए देशी ॥
 लाख कोडि वरसां लगे, नरके करता रीव रे ।

गौतम गणधारी अट्टम तप करतां थकां, सही
 नरक निवारे जीव रे ॥ गो० २३ ॥ नरके वरस
 कोडि लाखही, जीव लहै तिहां दुस्करे । ते दुःख
 अट्टम तपहुंती, दूर करी पामे सुख रे ॥ गो० २४
 च्छेदन भेदन नारकी, कोडाकोडि वरसोइ रे ।
 कुगति कुमतिनें परिहरो, दसमें एतो फल होइ
 रे ॥ गो० २५ ॥ नित फासू जल पीवतां, कोडा
 कोडि वरसनो पाप रे । दूर करै खिण एकमें,
 निश्चै होय निः पाप रे ॥ गो० २६ ॥ वलिय
 विशेषे फल कह्यो, पांचम करै उपवास रे ॥ पामे
 ग्यान पांचे भला, करता त्रिभुवन परकास रे ॥
 गो० २७ ॥ चवदस तप विधिसुं करै, चवदह पू-
 रब होय धार रे । इम अनेक फल तपतणा,
 कहतां वलि नावै पार रे ॥ गो० २८ ॥ मन वचने
 काया करी, तप करै जे नर नार रे ॥ इग्यारे वरस
 एकादशी, करतां लहै भव पार रे ॥ गो० २९
 आठम तप आराधतां, जीव न फिरै संसार रे ॥
 अनंत भवना पापथा, छूटै, जीव निरधार रे ॥

गो ३०॥ तपहुंती पापी तस्या, निसतरियो अरजुन-
माल रे । तपहुंती दिन एकमें, शिव पाम्यो गज-
सुकमाल रे ॥ गो० ३१॥ तपना फल सूत्रे कह्या,
पञ्चक्खाणतणा दस भेद रे । अवर भेद पिण
छे घणा, करतां छे दे त्रय वेद रे ॥ गो० ३२ ॥

(कलशः) ॥ पञ्चक्खाण दस विध फल प्ररुप्या
महावीर जिणदेव ए, जे करै भविअण तप अखं-
डित तासु सुर पय सेव ए । संवत निधि गुण
अश्व शशि वलि पोस सुदि दशमी दिने, पदम-
रंग वाचक शीस गणिवर रामचन्द्र तपविधि
भणे ॥३३॥ इति दस पञ्चक्खाण वृद्ध स्तवनम् ॥

दश पञ्चक्खाण तप विधि ।

महावीर स्वामीके उपदेशासार शास्त्र कारोंने
जिसतरह अन्यान्य तपस्याओंके करनेका फल
समझाया है, उसीतरह दश पञ्चक्खाण तपके
महात्म्यका फलभी बतलाया है । अतएव धर्मा-
नुरागी श्रावक और श्राविकाओंके लिये यह तप
करनाभी लाभदायक है । जो सज्जन “दश पञ्च-

कखाण" का तप करना चाहें, वे पहले दिन नवकारसी, दूसरे दिन पोरसी, इस तरह क्रमशः स्तवनमें बतलाये अनुसार दस दिन तक दसों पञ्चकखाण करें। साथही स्तवनको भी पढ़ें या श्रवण करें। और दस दिन पूरे हो जानेपर अपनी शक्तिके अनुसार उजमणा करवावें। इस तपस्याके करने वालेको दुर्गतिका नाश होकर उत्तम गतीकी प्राप्ति होती है। महान ऐश्वर्य शाली और भाग्यवान होता है।

वीश स्थानक-तपका स्तवन ।

श्रो सिद्धाचल भेटियै—ए देशी ॥

वीस थानक तप सेवियै, धर कर शुभ परिणाम लाल रे । तीजै भव सेव्यो थको, बांधे तीथंकर नाम लाल रे ॥वी० १॥ तप रचना अधिकी कही, ज्ञाताअंग मभार लालरे । सुणजो भवि तुमे भावसुं, चित्तसें करिय उच्चार लाल रे ॥वी० २॥ सुविहित गुरु पासे ग्रहै, वीस थानक तप एह लाल रे । निरदूषण शुभ महरते, उचरीजै सस-

नेह लाल रे ॥ वी० ३ ॥ अरिहंत १ सिद्ध २ प्रव-
चन नमुं ३, सूरि ४ थिवर ५ उवभाय ६ लाल
रे । साधु ७ नाण ८ दंसण अरु, विनय १०
नमुं उलसाय लाल रे ॥ वी० ४ ॥ चारित्र ११
बंभ १२ क्रियापदे १३, तप १४ गोयम १५ जिण
१६ इस लाल रे । चारित्र १७ ज्ञानने १८ श्रुत
भणी २६, नमू तीर्थ २० पद वीश लाल रे ॥
वी० ५ ॥ वीस दिवसमें ए कही, पद गुणानो कर
मेव लाल रे । अथवा दिन विसा लगै, वीसे पद
गुण मेव लाल रे ॥ वी० ६ ॥ एक ओली षट मास
में, पूरी जो नवि होय लाल रे । केर नवी करणी
पडै, पिछली निष्फल जोय लाल रे ॥ वी० ७ ॥
छठ अट्टम उपवाससुं, अथवा देखी शक्ति लाल
रे । पोसह कर आराधियै, देव वांदै
निज भक्ति लाल रे ॥ वी० ८ ॥ संपूरणपद
सेवतां, पोसहनो नहि जोग लाल रे । तोही सात
पद सही, पोसह करियै संजोग लाल रे ॥ वी० ९ ॥
सूरी थिवर पाठक पद, साधु चारित्र सुजाण

लालरे । गौतम तीथेपदे सही, सात थानक, मन
मान लाल रे ॥ वी० १० ॥ पद २ दिठ करै
सदा, दोय २ जाप हजार लालरे । पडिकमणो
दोय टंकही, करिये पूजा, सार लाल रे । शक्ति
मुजब तप कीजियै, एक ओली करो, वीस लालरे ।
वीसावीसी च्यारसै, तप संख्या कही एम लाल
रे ॥ वी० १२ ॥ जिस दिन जो पद तप करै,
तिसके गुण चित्त धार लाल रे । काउसग्गने पर
दक्षणा, मुख भणियै नवकार लाल रे ॥ वी० १३ ॥
जिस पदकी स्तवना सुणौ, कीजै जिनपद भक्ति
लाल रे । पूजन शुभ मन साचवै, दिन २ बढ़ती
शक्ति लाल रे ॥ वी० १४ ॥ मृतक जनम ऋतु
कालमें, कवि धारथो उपवास लाल रे । सो लेखे
नहिं लेखवो, निकेवल तप जास लाल रे ॥
वी० १५ ॥ सावज्ज त्यागपणो करै, शोक न धारे
चित्त लाल रे । शील आभूषण आदरै, मुखसुं
बोले सत्य लाल रे ॥ वी० १६ ॥ जेठ आसाढ़
वैशाखमें, मिगसर फागुण मांहे लाल रे । ए षट्

मासे मांहीनें, व्रत ग्रहिये वड़भाग लाल रे ॥ वी०
 १७ ॥ तप पूरण हुवां थकां, उजमणो निरधार
 लाल रे । कीजै शक्ति विचारीनें, उच्छ्रव विविध
 प्रकार लाल रे ॥ वी० १८ ॥ वीस-वीस गिणती तणा,
 पुस्तक पूठा आदि लाल रे । ग्यानतणी पूजा
 करै, मुंकीजै हठवाद लाल रे ॥ वी० १९ ॥ फल-
 वधी नगरनी श्राविका, कीधी विध चित लाय
 लाल रे । जनम सफल करवा भणी, ओहिज मोक्ष
 उपाय लाल रे ॥ वी० २० ॥

कलश ॥ इम वीर जिनवरतणी आज्ञा धार
 चित्त मंभार ए, सहु देख आगमतणी रचना
 रची तप विध सार ए ॥ वसु नंद सिद्धि चंद्र वरसै
 चैत्र मास सुहंकरू, मुनि केशरी शशि गच्छ
 खरतर भणी स्तवना मनहरू ॥ २१ ॥ इति ॥

वीस स्थानक-तप की विधि ।

यह तपस्या आराधन करनेके पहले शुभ
 दिन और शुभ मुहूर्तके समय नन्दी स्थापन करके
 सुविहित गुरुके पास विधि-पूर्वक वीस स्थानक

तपकी ओली उच्चरे । एक ओली दो माससे छह मास पर्यंत पूरी करे । यदि छह मासकी अवधिमें एक ओली पूरी न कर पाये तो वह ओली फिरसे करनी पड़ती है; यानि, तपस्वीने जो व्रत-पञ्चकखाण कर लिये हैं, वह उस ओलीकी संख्यामें नहीं लिये जाते; अर्थात् ओलीकी तपस्या फिरसे आरंभ करनी पड़ती है ।

एक ओलीके बीस पद होते हैं, उन बीसों पदोंकी क्रमशः अराधना करनी पड़ती है । इस लिये जो तपस्वी शक्ति-सम्पन्न होता है, वह तो बीस दिनमें बीसों पदोंकी अराधना कर डालता है । और जो शक्ति-सम्पन्न नहीं होता है, वह बीस दिनमें केवल एक पदकी अराधना करता है, इस तरह क्रमशः बीस-बीस दिनमें एक-एक पदकी अराधना करके बीसों ओलीकी तपस्या पूरी करता है ।

शास्त्रकारका कथन है, कि पदाराधन करने के दिन यदि शक्ति होतो अद्भुत व्रत करके तपा-

राधन आरंभ करे । क्रमशः बीस अट्टम-व्रत कर लेनेपर एक ओली पूरी होती है । इस तरह ४०० चार सौ अट्टम व्रत हो जानेसे बीस ओलीकी आराधना पूरी हो जायगी । यदि तपस्वीमें अट्टम व्रतसे आराधन करनेकी शक्ति न होतो छट्ठ-व्रत करके आरंभ करे । छट्ठसे होनेकी शक्ति न हो तो उपवास द्वारा करे । उपवाससे भी करनेकी शक्ति न हो तो अग्रयंजिल या एकासण द्वारा ही तप-राधन करना आरंभ करे । उस समय शक्ति हो तो अष्टप्रहरी पौषध करे, यदि अष्टप्रहरी पौषध करनेकी शक्ति न हो तो दैवसिक-पौषध करे । जहां तक हो सके समस्त पदोंकी आराधना पौषध-पूर्वक करे । यदि सभी पदाराधनमें पौषध न कर सके तो आचार्य, उपाध्याय, धिवर, साधु, चारित्र, गौतम और तीर्थ इन सात पदोंके आराधनके समय अवश्य हो पौषधव्रत करे । फिर भी पौषध करनेकी शक्ति न हो तो देशावगासी-व्रत करे । इसके करनेकी भी शक्ति न हो तो यथा

शक्ति जो व्रत हो सके वही करे, और सावध व्यापारका त्याग करे ।

तपस्वीको यहाँपर इस बातका खयाल रखना चाहिये कि जन्म-मरणादिकके सूतकके समयकी तपस्यायें ओलीकी संख्यामें नहीं ली जातीं, इसलिये किसी तरहके सुतकके समय कोई तपस्या की हो तो उसे ओलीकी संख्यामें न लेवे, स्त्रियोंके लिये ऋतु कालकी तपस्या भी वर्जनीय है, अतः स्त्रियोंको इस बातका खयाल जरूर रखना चाहिये ।

तपस्या करते समय ऊपर कहे अनुसार पौषध आदि कोई भी धार्मिक क्रिया करनेका कहा है; पर उनमेंसे कोई भी क्रिया न हो सके तो तपस्याके दिन दो बार प्रतिक्रमण करे, और तीन बार देव-वन्दन क्रिया करे । समस्त तपस्यायें करते समय ब्रह्मचर्यका सेवन रखे । ज़मीन पर सोवे । तपस्याराधन करके किसी तरहका सावध व्यापार न करे । असत्य-भूठ न

बोले । सारा दिन तपस्याकी गुणावलीके वर्णानं व्यतीत करे । पारण करनेके दिन देव-दर्शन पूजन करके यति-मुनिको अहार दे कर वा पारण करे ।

अन्तमें किसी तरहको धार्मिक क्रिया न क सके तो देव-पूजन, अंग-रचना करवा कर मन्दिर गाना-बजाना करे । और शुभ भावना भावे तपस्याके पदके अनुसार गुण-भेद संख्या-प्रमा णसे काउसग्ग करे । तपस्याके गुणोंको स्मरण कर उतने ही खमासमण दे कर वन्दना करे बाद तपस्याके गुणोंकी उदात्त स्वरसे स्तवना करे और प्रसन्न-चित्त रहे ।

वीस स्थानक-गुणना और काउसग्ग प्रमाण ।

(१) “शामो अरिहंताणं” इस पदकी २० वीस माला गिन कर १२ बारह लोगस्सका काउसग्ग करे । (२) “शामो सिद्धाणं” इस पदकी वीस माला गिन कर १५ पनर लोगस्सका काउसग्ग करे । (३) “शामो पवय

णस्स” इस पदकी वीस माला गिन कर ७ सात लोगस्सका काउसग्ग करे । (४) “णमो आय-

रियाणं” इस पदकी वीस माला गिन कर ३६ छत्तीस लोगस्सका काउसग्ग करे । (५)

“णमो थेराणं” इस पदकी वीस माला गिन कर १५ पनरह लोगस्सका काउसग्ग करे । (६)

“णमो उवज्झायाणं” इस पदकी वीस माला गिनकर २५ पच्चीस लोगस्सका काउसग्ग करे । (७) “णमो लोए सव्व साहूणं”

इस पदकी वीस माला गिनकर २७ सत्ताईस लोगस्सका काउसग्ग करे । (८) “णमो

नाणस्स” इस पदकी वीस माला गिनकर ५ पाँच लोगस्सका काउसग्ग करे । (९)

“णमो दंसणस्स” इस पदकी वीस माला गिन कर १७ सतरह लोगस्सका काउसग्ग करे, (१०)

“णमो विणयसंपगणाणं” इस पदकी वीस माला गिनकर १० दस लोगस्सका काउसग्ग

करे । (११) “णमो चारित्तस” इस पदकी

वीस माला गिनकर ६ छह लोगस्सका काउ-
सग्ग करे । (१२) “णामो बंभव्वय धारीणं”
इस पदकी वीस माला गिनकर ६ नौ लोग-
स्सका काउसग्ग करे, (१३) “णामो किरिआणं”
इस पदकी वीस माला गिनकर २५ पच्चोस
लोगस्सका काउसग्ग करे । (१४) “णामो त्त्व-
स्सीणं” इस पदकी वीस माला गिनकर १५
पनरह लोगस्सका काउसग्ग करे, (१५) “णामो
गोयमस्स” इस पदकी वीस माला गिनकर
१७ सतरह लोगस्सका काउसग्ग करे । (१६)
“णामो जिणाणं” इस पदकी वीस माला गिन-
कर १० दस लोगस्सका काउसग्ग करे । (१७)
“णामो चरणस्स” इस पदकी वीस माला गिन-
कर १२ बारह लोगस्सका काउसग्ग करे । (१८)
“णामो नाणस्स” इस पदकी वीस माला गिन-
कर ५ पाँच लोगस्सका काउसग्ग करे । (१९)
“णामो सुअ्र नाणस्स” इस पदकी वीस माला
गिनकर १० दस लोगस्सका काउसग्ग करे ।

(२०) “गामोत्तिथस्स” इस पदकी बीस माला गिनकर ५ पाँच लोगस्सका काउसग्ग करे ।

इस प्रकार गुणना गिन कर विधि-पूर्वक बीसों ओलीयें सम्पूरा करे । यदि शक्ति-सम्पन्न हो तो बीसों ओलीयोंका उत्सव धूम-धाम पूर्वक करे । यदि समस्त ओलीयोंका न कर सके तो जिन शासनकी उन्नतिके लिये एक ओलीका उत्सव तो अवश्य ही धूम-धामके साथ करे । इस जगह संक्षिप्त रूपसे यह विधि लिखि गयी है, इस लिये गुरुका संयोग हो तो बीसों पदोंकी सुविस्तृत विधि गुरु मुखसे समझ कर करे । यदि गुरुका संयोग न हो तो विवेकी पुरुष इसी विधिके अनुसार समझ कर ओलीकी अराधना करे । तपस्या करते समय बीस स्थानकका स्तवन जो इस विधिके ऊपर दिया है, उसे पढ़े या किसीसे श्रवण करे । अनन्तर मन्दिरमें बीस स्थानककी पूजा पढ़ावे । अपनी शक्तिके अनुसार बीस-बीस ज्ञानोपकरण । देव-पदका देवमें, ज्ञान-पदका ज्ञानमें

और गुरु-पदका गुरुमें खर्च करे । तपस्या पूर्ण हो जाने पर समस्त तीर्थोंकी यात्रा कर आये । यदि उतनी शक्ति न हो तो एक-दो तीर्थोंकी यात्रा तो अवश्यही करे । इस प्रकार विधि-पूर्वक जो भव्यात्मा वीस स्थानक तप ओलीकी अराधना करेगा, वह जिननाम कर्मोंको उपार्जन कर तीसरे भवमें अक्षय-सुखको लाभ करेगा * ।

॥ रोहिणी-तप का स्तवन ॥

शासन देवत सामणी ए मुक्त सान्निध
कोजै, भुलो अक्षर भगति भणी समझाई दीजै ॥
मोटो तप रोहण तणो ए जिणारा गुण गाउं,
जिम सुख सोहग संपदा ए वंछित फल पाउं ॥
१॥ दक्षिण भरते अंगदेस छै चंपानयरी, मघवा
राजा राज्य करै तिण जीता वयरी ॥ पाटतणी
राणी रूवडी ए लखमी इण नामै, आठ पूत्र

* हमने यह विधि रत्न समुच्चय नामक ग्रन्थके आधार पर लिखि है । इसे दो-तीन भाषाकी पुस्तकोंसे भी मिलाया; पर सभीमें एकसी भाषा और एकसा ही क्रम देखा गया, इसलिये हम इसे सुविस्तृत रूपसे नहीं लिख सके ।

सम्पादक ।

जाया जिणे ए मनमें सुख पामे ॥ २ ॥ रोहिणी
नामे कन्यका ए सबकुं सुखकारी, आठां पूत्रां
ऊपरां ए तिण लागै प्यारी ॥ बाधै चंद्रतणी
कला ए जिम पख ऊजवालै, तिम ते कुमरी धाय
माय पांचै प्रतिपालै ॥ ३ ॥ कुमरी रूपे रूवडी
ए घर अंगण बैठी, दीठी राजा खेलती ए तिण
चिन्ता पैठी ॥ तीन भुवन विच एहवी ए नही
दूजी नारी, रंभा पउमा गवर गंग इण आगल
हारी ॥४॥ पुरुष न दीसै कोइ इसो जिणनें पर-
णाउं, आंख्या आगल साल वधै तिण चयन न
पाउं ॥ देश-देश ना राजवी ए ततखिण तेडाया,
सबल सजाई साथ करी नरपति पिण आया ॥
५ ॥ वीतशोक राजातणो ए छै कुमर सोभागी,
कन्याकेरी आंखडो ए तिणसेती लागी ॥ उभा
दैखै सकल लोक चढिया केइ पाला, चित्रसेनरे
कंठ ठवी कुमरी वरमाला ॥ ६ ॥ देव अनै दे-
वांगना ए जपै जैकार, रलियायत थयो देखने
ए सारो संसार ॥ कर जोडी कहै लोक वखत

कन्यारो जाडो, वीतशोकनो कुमर थयो सिर
ऊपर लाडो ॥ ७ ॥ इम विवाह थयो भलो ए
दीया दान अपार, घर आया परणी करी ए
हरख्यो परिवार ॥ वीतशोक निज पूत्र भणी
अपणो पाट दीधो, आपण संजम आदरी ए
जगमें जस लीधो ॥ ८ ॥

ढाल—प्रभु प्रणमुं रे पास जिणोसर
थंभणो—ए देशी ॥ तिण नगरी रे चित्र-
शेन राजा थयो, सुख-मांही रे केतलो काल
वहो गयो ॥ इण अवसर रे आठ पूत्र हूवा भला,
चढते पख रे चन्द्र जिसी चढती कला ॥ (उल्ला-
लो) चढती कला हिव राय बैठो पास बैठी रो-
हणी, सातमी भूमो कंतसेती करै क्रीडा अतिघ-
णी ॥ आठमो बालक गोद ऊपर रंगसूं राणी
लियो, पूत्रने प्रीतम आंख आगल देखतां हरखे
हियो ॥ ९ ॥ (चाल) इक कामण रे गोख चढी
द्रष्टे पडी, शिर पीटे रे दीन स्वरे रोवे खडी ॥
बूढापण रे मन गमतों बालक मूओ, हुं एकज

ढाल—वीर सुणो मोरी ब्रिनती—ए देशी ॥

तप करियै रोहणितणो, वलि करिये हो ऊज-
मणो एम ॥ तप करतां पातिक, टलै, तिण की-
जे हो तपसेती प्रेम ॥ त० १५ ॥ देव जुहारी
देहरे, तिण आगे हो कीजै वृत्त अशोक ॥ गुणनो
बारम जिनतणो, भला नेवज हो धरियै सहु
थोक ॥ त० ॥ १६ ॥ केशर चन्दन चरचियै,
कीजै आगे हो आठे मंगलीक ॥ विधसुं पुस्तक
पूजियै, ते पामे हो शिवपुर तहतीक ॥ त० १७ ॥
सेवा कीजै साधुनी, वलि दीजे हो मुंह माग्या
दान ॥ संतोषीजै साहमी, मनरंगे हो करर-पक-
वान ॥ त० १८ ॥ पाटी पोथी पूछना, मित्त लेखण
हो भिलमिल सुजगीस, नवकरवाली वोटणा,
गुरु आगे हो धरो सत्ताईस ॥ त० १९ ॥
चौथो व्रत पिण तिण दिने, इम पाले हो मन
आण विवेक ॥ इण विध रोहणि आदरै, ते पामे
हो आनंद अनेक ॥ त० २० ॥

ढाल—धरम करो जिनवर तणो—ए देशी ॥

इम महिमा रोहणतणी, श्रीग्यानी गुरु परकासे
 रे ॥ चित्रसेन ने रोहणी, वासुपूज्य तीर्थकर पासे
 रे ॥ इ० २१ ॥ इण परि रोहण आदरी, ऊपर ऊज-
 मणो कीधो रे ॥ चित्रसेनने रोहणी, मन सूधै
 संजम लीधो रे ॥ इ० २२ ॥ आठै पूत्रे आदरी,
 दिख्या बारम जिन आगे रे ॥ वलि ज्ञानाविध
 तप तपै, धरमतणी मति जागे रे ॥ इ० २३ ॥
 करि अणसण आराधना, लहि केवल शिवपद
 पाया रे ॥ जिन वाणी आणी हियै, प्रभु चरणां
 चित लाया रे ॥ इ० २४ ॥ मनमोहन महिमा
 नीलो, में तवियो शिवपुरगामी रे ॥ मन मान्या
 साहिवतणी, हिव पुन्ये सेवा पामी रे ॥ इ० २५
 (कलश) ॥ इम गगन दुग मुनि चन्द्र वरसे
 (१७२०) चोथ श्रावण सुदि भली ॥ में कही
 रोहणतणी महिमा सुगुरु मुख जिम सांभली ॥
 वासुपूज्य अमने थया सुप्रशन चित्तनी चिन्ता
 टली, श्रीसार जिनगुण गावतां हिव सकल मन
 आस्या फली ॥ २८ ॥ इति रोहणी-तप स्तवनम् ॥

रोहिणी-तपकी विधि ।

जिस तपस्वीको रोहिणी-तपकी तपस्या करने-की इच्छा हो वह पहले शुभ दिन और शुभ समय देख कर गुरुके पास जा कर वन्दना व्यवहार कर के विनय-पूर्वक रोहिणी-तप ग्रहण करे । बाद जिस दिन रोहिणी नक्षत्र हो, उस दिन उपवास करके बारहवें वासुपूज्य स्वामीकी पूजा-अर्चना करे । अष्ट मंगलिककी रचना कर अष्ट द्रव्य चढ़ावे । देव-वन्दनादिक धार्मिक क्रियाये करके गुरुके मुखसे धर्मोपदेश श्रवण करे । यदि गुरुका संयोग न हो तो इस विधिके पहले जो रोहिणी-तपका स्तवन दिया गया है, उसे शान्ति-पूर्वक पढ़े, या किसी साधर्मिक भाईसे श्रवण करे । और “श्री वासुपूज्य स्वामी सर्वज्ञाय नमः” इस पदको २००० दो हजार बार गिने; यानि इस पदकी बीस मालायें गिने । इस तरह विधि-पूर्वक सात वर्ष पर्यन्त रोहिणी-तपकी आराधना कर लेनेसे तपस्वीकी मनोकामना पूर्ण हो जाती

है, यदि तपस्वीको पुत्र पानेकी इच्छा हो तो वह भी इस तपके आराधनसे पूरी हो जाती है और उसके सुख-सौभाग्यकी वृद्धि होती है ।

छम्मासी-तप का स्तवन ।

गौतमस्वामी रे बुध दो निरमली, आपो करिय पसाय । महावीरस्वामी जे जे तप किया, तेहनो कहिसुं विचार ॥ वलि-वली वांदु वीरजी सुहामणा ॥१॥ भावठ भंजण सेव्यां सुख करै, गातां नव निधि थाय । वारे वरसां वीरजी तप कियो, दूर करै सहु पाप ॥व०॥२॥ बे कर जोड़ी ए हं वीनवूं, श्रीजिनशासन राय । नाम लियां थी नव निधि संपजै, दरिशाण दुरित पुलाय ॥ व० ॥ ३ ॥ नव चौमासा जिनजीरा जाणियै, एक कियो छम्मास । पांचे उणा छ वली जाणियै, वारकेकोजीमाश ॥व० ॥४॥ बहुत्तर माशखमण जग जीपता, छ दो मासी रे जाण । तीन अढ़ाई दो दो कीया, दो दोढ माशी वखाण ॥व० ॥५॥ भद्र महाभद्र शिवगति जाणियै, उत्तम एहना

चौसठ इंद्र करै सदा, तुभ पदपंकज सेवरे ॥
 त्रिभु० ॥१॥ प्रथम भूपाल प्रभु तूं थयो, इण अव-
 सरपणी काल रे । तुभ सम अवर न को प्रभु,
 तूं प्रभु दीनदयाल रे ॥ त्रि० ॥२॥ प्रथम तीर्थकर तूं
 सहो, केवलज्ञान दिणंद रे । धर्म प्रज्ञापक प्रथम तूं
 तूही है प्रथम जिनंद रे ॥ त्रि० ॥३॥ अंतर अरि-
 जे आतमतणा, काल अनादि थिति जेह रे ।
 ते तप शक्तिये ते हणया, आत्म वीरज गुण गेह
 रे ॥ त्रि० ॥४॥ ताहरी शक्ति कुण कह सकै, जेहनो
 अंत न पार रे । द्वादश मासनो तप कर्यो, तेह
 अपानक सार रे ॥ त्रि० ॥ ५ ॥ एह उत्कृष्ट तप
 वरणव्यो, आगममें जिनराज रे । ते करवूं अति
 आकरूं, तप विना किम सरे काज रे ॥ त्रि० ॥६॥
 तीनसै साठ उपवास ते, ते इण पंचम काल रे ।
 अवसर आदरै क्रम विना, ते पिण भवि सुवि-
 शाल रे ॥ त्रि० ॥७॥ ए तप गुरुमुख आदरै, शास्त्र
 तणे अनुसार रे । पडिक्कमणादिक भावथो,
 शुद्ध क्रिया मन धार रे ॥ त्रि० ॥८॥ चित्त समाधि

शुभ भावथी, धरे ताहरो ध्यान रे । ते नर उत्तम
 फल लहै, कवि लहै उत्तम ग्यान रे ॥ त्रि० ॥६॥
 काल अनादि संसारमे, जन्म मरणतणा दुःख
 रे । ते लहे धर्म पाया विना, तप विना किम ह्वै
 सुख रे ॥ त्रि० ॥१०॥ हिव लह्यो नरभव पुण्यथी,
 बलि लह्यो श्रीजिन धर्म रे । तत्त्वनी रुचि थइ
 हे मुझे, हिव मिट्यो मनतणो भर्म रे ॥ त्रि० ॥११॥
 भव-भव एक जिनराजनो, सरण होज्यो सुखकार
 रे । कुगुरु कुदेव कुधर्मनो, में कियो हिवै परि-
 हार रे ॥ त्रि० ॥१२॥ दर्शन ज्ञान चारित्र ए, मोक्ष-
 मारग सुविशाल रे । भव-भव जे मुझ संपजै, तो
 फलै मंगलमाल रे ॥ त्रि० ॥१३॥ श्रीजिनशासन
 तप कह्यो, ते तप सुरतरू कंद रे । धन-धन जे
 नर आदरै, कोटै ते करमनो फंद रे ॥ त्रि० ॥ १४॥
 कलश ॥ इम नाभिनंदन जगत वंदन सकल जन
 आनंदनो, में थुण्यो धन दिन आजनो मुझ
 मात मरुदेवी नंदनो । संवत सुनेत्राकास निधि
 शशि नयर श्रीवालूचरै, श्रीजिनसौभाग्य सुरिन्दके
 सुपसाय विजय विमल धरै ॥ १५ ॥ इति ॥

बारह मासी-तपकी विधि ।

आदि तीर्थंकरश्री ऋषभदेव स्वामीने बारह मासी व्रतकी उत्कृष्ट तपस्या की थी, इसलिये तपस्या करनेवालेको चाहिये कि बारह मासी तपस्या भी जरूर करे। तपस्या करनेवालेको इस व्रतके ३६० तीन सौ साठ उपवास करने पड़ते हैं। वह क्रमशः अपनी इच्छाके अनुसार करे। तपस्याके दिन उपवासादि व्रत करके धार्मिक क्रियायें करे, और बारह मासी तपका स्तवन जो इस विधिके पूर्वमें दिया है, उसे श्रद्धा-पूर्वक पढ़े या किसीसे श्रवण करे। साथ ही तपस्याके दिन “श्री ऋषभ देव स्वामी नाथाय नमः” इस पदको २००० दो हजार बार गिने, अर्थात् २० बीस माला गिने। तपस्या पूरी कर लेने पर यथाशक्ति उजमणा करे। बाद सिद्धक्षेत्र या कैसरियाजी तीर्थकी यात्रा कर आये। इस तपस्याके महात्म्यसे तपस्वी किसी तरहके कष्ट नहीं पाता, और वह अपना सारा जीवन आनन्दकी लहरोंमें

अवगाहन करता हुआ व्यतीत करता है । इस-
तपश्चर्याके प्रभावसे रोग, शोक, भय आदि कोई
भी दुख नहीं आने पाते । इसलिये तपस्या करने
वालेको यह तपस्या अवश्य ही करनी चाहिये ।

॥ अष्टाईस लब्धि-तपका स्तवन ॥

दुहा ॥ प्रणमुं प्रथम जिनेसरू, श्रुद्ध मने
सुखकार । लब्धि अष्टावीस जिन कही, आगम-
ने अधिकार ॥ १ ॥ प्रश्नव्याकरणें प्रगट, भग-
वतीसूत्र मभार । पन्नवणा आवश्यके, वारू
लब्धि विचार ॥ २ ॥ आंबिल तप कर उपजै,
लब्धां अष्टावीस । ए हिव परगट अरथसुं, सांभ-
लज्यो सुजगीस ॥ ३ ॥

ढाल ॥ १ ॥ सकल संसारनी-एदेशी ॥
अनुक्रमें एह अधिकार गाथातणे, लब्धिना
नाम परिणाम सरिषा भणे । रोग सहजाय
जसु अंग फरस्यां सही, प्रथम ते लब्धि
छै नाम आमोसही ॥४॥ जासु मल मूत्र औषध
समा जाणियै, वीय वप्पोसही लब्धि दखाणियै ।

श्लेष्म औषध सारिखो जेहनो, तीजो खेल्लो-
सही नाम छै तेहनो ॥ ५ ॥ देहना मैलथी कोढ़
दूरे हुवै, चोथी जल्लोसही नाम तेहनो ठवै ।
केश नख रोम सहू अंग फरस्यां सही, रहै नही
रोग सब्बोसही ते कही ॥ ६ ॥ एक इंद्रिय करी
पांच इंद्रियतणा, भेद जाणे तिका नाम संभि-
एणना । वस्तु रूपी सहू जाणियै जिण करी,
सातमी लवधि ते अवधिग्याने करी ॥ ७ ॥

ढाल ॥ २ ॥ आव्यो तिहां नरहर-ए एचाल ॥
हिव आंगुल अढियै ऊणो मानुषक्षेत्र, संज्ञा
पंचेद्रि तिहां जे वसय विचित्र । तसु मननो
चिन्तित जाणे थुल प्रकार, ते ऋजूमति नामे अट्टम
लवधि विचार ॥ ८ ॥ संपूरण मानुषक्षेत्रे संज्ञा
वंत, पंचेद्रिय जे छै तसु मन वातां तंत । सूखम
परजाये जाणे सहू परिणाम, ए नवमी कहियै
विपुलमती शुभ नाम ॥ ९ ॥ जिण लवधि
प्रभावे ऊडी जाय आकाश, ते जंघाविज्जाचा-
रण लवधि प्रकाश । जसु वचन सरापै खिणामें

खेरुं थाय, ए लबधि इग्यारमी आसोविश क
हिवाय ॥ १० ॥ सहु सूखम वादर देखै लोक
लोक, ते केवल लबधी बारमियै सहू थोक
गणधर पद लहियै तेरम लबधि प्रमाण, चव
दम लबधे करी चवदै पूरव जाण ॥ ११ ॥ ती
थंकर पदवी पामे पनरमी लबधि, सोलम सुख
दाई चक्रवत्ति पद रिद्ध । बलदेवतणो पत
लहियै सतरमी सार, अढ्ढारमी आखा वासुदेव
विस्तार ॥ १२ ॥ मिसरी घृत जीरै मेल्या
जेह सवाद, एहवी लहै वाणी उगणीशम परसा
द । भणियो नवि भूलै सूत्र अरथ सुविचार, ते
कुष्ट कबुद्धी बीसम लबधि विचार ॥ १३ ॥ एके
पद भणियां आवै पद लख कोड, इकवीसमी
लबधी पयाणसारणी जोड । एके अरथे करी
उपजै अरथ अनेक, बावीसम कहियै बीजबुद्धि
सुविवेक ॥ १४ ॥

ढाल ॥ ३ ॥ कपुर हुवै अति ऊजलो रे—ए
चाल ॥ सोलह देशतणी सही रे, दाहक सगति

घर सारू धन खरचने, नरभव लाहो लिजै रे ॥
 वा० ॥७॥ पूठा परत विटांगणा, पूरव नाम प्रमा-
 णो रे । नवकरवाली कोथली, लेखण ठवणी
 जाणो रे ॥ वा० ॥८॥ देहरै देव जुहारने, आर-
 ती मंगल कीजै रे । स्नात्रपूजा धलि साचवी,
 तत्र सुधारस पीजै रे ॥ वा० ॥९॥ इण पर तप
 आराधतां, दुरगति कारण छेदै रे । चवदह-
 रज्जु शिरोमणी, जीव अक्षयगति वेदे रे ॥ वा०
 ॥१०॥ तप आराधन विधि भणी, आगम वचने
 जोइ रे । भवियण पिण तुमे आदरो, ज्युं
 भव-भ्रमण न होई रे ॥ वा० ॥ ११ ॥ कलश ॥
 हेम सयल सुखकर गच्छ खरतर तपै रवि जिम
 क्रांत ए, सौभाग्यसूरि मुणिंद इण पर कह्यो
 पूर्व-वृत्तंत ए । सम्बत अठारै वरस छिन्नूं
 नयर श्रीवालूचरै, ए स्तवन भणतां श्रवण
 सुणतां सयल मनवंछित फलै ॥ १२ ॥ इति
 चतुर्दश-पूर्व-तप स्तवनं सम्पूर्णम् ॥

चउदह पूरव-तपकी विधि ।

तपस्वीको यदि यह तपस्या करनी हो तो वह पहले उत्तम दिन देखकर गुरुसे उक्त तपस्या ग्रहण करे । इस तपस्यामें चउदह उपवास करने पड़ते हैं, वह समयानुसार क्रमशः करे । जिस दिन जिस पूर्वकी तपस्या हो, उस दिन उसी पूर्वके नामकी बीस माला गिने । स्तवनमें १४ पूर्व के नाम और उनको विधि दी गयी है, उसके अनुसार विवेकी पुरुष गुरुसे समझ कर सारो क्रिया करे । इस तपस्याके स्तवनको भांव-पूर्वक श्रवण करे या स्वयं पढ़े । यह तपस्या करनेसे ज्ञानावरणीय आदि कर्मोंका क्षयोपशम हो कर उत्तम ज्ञान और लक्ष्मीकी वृद्धि होती है ।

॥ अथ तिलक तपस्याका स्तवन ॥

दुहा ॥ शासन देवी शारदा, वाणी सुधारस
 वेल । बालक हित भणी बगसियै, सुबुद्धि सुरंगी
 रेल ॥१॥ नवम अंग, जिन पूजतां, मन लहि शुभ
 परिणाम ॥ तप तिलके फल पामिये, दवदंती
 गुणधाम ॥ २ ॥

॥ ढाल ॥ वीर जिगोसर उपदिसै—ए देशी ॥
 कमला जिम कुंडणपुरै, भुजबल नरपतिभीमो रे ।
 पद्मनी पद्म सुवासना, श्वेतगज स्वप्ने नीमो
 रे ॥ पद्म० १ ॥ परतरुय फल ए पुन्यना, प्रसवी सुता
 पूरै माशै रे । दवदंती नाम दीपतो, गुणमणि
 बुद्धि प्रकाशै रे ॥ पद्० २ ॥ चौसठकला विच-
 च्छणा, रूप गुणें करी रंभा रे ॥ देव गुरु धर्म दी-
 पावती, व्रत्तधारी दृढ बंभा रे ॥ प० ३ ॥ प्रतिमा
 पूजै शांतिनी, देवे दीधी त्रिकालो रे ॥ मात पिता
 प्रमोदसुं, स्वयंवर वरमालो रे ॥ प० ४ ॥ उव-
 कायांधिप श्रीनिषधनो, नल लिखियो निलाडै
 रे ॥ आनन्दसु पंथ आवतां, पूरव पून्य उघाडै-
 रे ॥ प० ५ ॥ मज्झम रयणी तम भरी, मधुरवकुंत
 इहां वनमें रे ॥ मणि भाले तेज दिन मणी,
 जाग्रत देखी अहो मनमें रे ॥ प० ॥ ६ ॥ ग्यानधारी
 गुरु कोइ मिले, पूछियै एह प्रसन्नो रे ॥ कर्म बलै
 मुनि आविया, परीसह जीत मदन्नो रे ॥ प० ॥ ७ ॥
 पंच जीत पंच पालतां, टालता दुस्सह सबलारे ॥

संजम शुद्ध संभालतां, उद्यम शिवसुख कमला
रे ॥ ५० ॥ ८॥ दोहा ॥ मणि तेजें मुनि तरु ठवे,
रथ थकी स्त्री भरतार ॥ देवै तीन प्रदक्षणा,
विधिसुं चरण जुहार ॥ ६॥ देशना सुण पावन
थया, ज्ञान सुधारस पाय ॥ को तप परभव
तिलक है, कहि यै श्रीमुनिराय ॥ १० ॥

॥ढाल २॥ भरत भावसुं ए—ए देशी ॥ मधुर
स्वरै मुनिवर कहे ए, नाणी गुरु सुपसाय, दीपक
सहू लोकना ए ॥ कर्म शुभाशुभ परभवै ए, इह
भव फल निपजाय, करम गति वंकडी ए ॥ ११ ॥
ओहिनाण भव प्रागनो ए, नृप सुणे निरमल भाव,
समकित साहोयो ए ॥ धमेवतीको नृपवधू ए, जा-
णयो हे तत्व प्रस्ताव, साची जिन वाचना ए ॥ १२ ॥
चोथ प्रमुख नृप चंपसुं ए, किरिया शूद्ध करी एह,
भलै जित भावसुं ए ॥ नवांग पूजै तिलकसुं ए,
चाढै जिन चोवीस, रयण कचंगण जढ्या ए ॥ १३ ॥
तिलक २ सैं पामियो ए, समकित एह सत्तीस,
जनम सफलो गिणो ए ॥ भगवन तप विधि

भाखियै ए, नल कहै बोध वरीस, पीहर
 षट्कायना ए ॥१४॥ आदिनाथ अरिहंतना ए,
 षट् उपवास कहीस, त्री चौबीहारस्युं ए ॥ चोथ
 दोय जिन वीरना ए, अजितादिक बावीस,
 आणा गुरु शिर वही ए ॥ १५ ॥ पोषध त्रीस
 तीने थया ए, पूजन तिलक चढ़ाय, तारक जग-
 दीसने ए ॥ उद्यापन संघ भक्तिसुं ए, जन्म
 सफल नर राय, सूधै मन साधियै ए ॥ १६ ॥
 सुण वाणी समकित ग्रहै ए, पंथ प्रणामी गुरु
 वीर, चित्त उमाहीयो ए ॥ इण पर जे भवि
 आदरै ए, थायै चरम शरीर, मूल सुख शास-
 तो ए ॥ १७ ॥ (कलश) श्रीशांति दाता त्रि
 जगत्राता भविक ध्याता सुखकरा, इम सतीय
 साध्यो तप आराध्यो सुजस वाध्यो शिवधरां ॥
 आगमे आखै सूरीय साखै सुगुरु भाषै सुण थया,
 शुद्ध ध्यावै भविक भावै विजय विमल जिनवर
 कथा ॥ १८ ॥ इति तिलक तपस्या स्तवनम् ॥

तिलक-तपस्याकी विधि ।

उत्तम दिन देखकर तपस्त्री गुरुके पास जाये और उनसे विनय-पूर्वक तिलक तपस्या ग्रहण करे । इस तपस्याके करने वालेको कुल ३० तीस उपवास करने पड़ते हैं, वह इस क्रमसे करे । पहले ऋषभदेव भगवानके छह उपवास करे, इन छहों उपवासोंके करते समय “श्रीऋषभदेवस्वामी सर्वज्ञायनमः” इस पदका २००० बार चिन्तवन करे; अर्थात् इस पदकी २० माला गिने । जब यह छह उपवास हो लें, तब महावीर भगवानके दो उपवास करे । इन दो उपवासके समय “श्री महावीरस्वामी सर्वज्ञायनमः” इस पदकी बीस माला गिने, और धर्म-ध्यानमें समय व्यतीत करे । इन दो उपवासोंके हो जाने पर बाईस तीर्थ-करोंके क्रमशः बाईस उपवास करे । जिस दिन जिस तीर्थकरका उपवास हो, उसीके पदकी बीस माला गिने । बाकीकी सारी विधि स्तवनके अनुसार गुरुसे समझ कर करे । तपस्या करते समय आरंभ-समारंभके कार्य नहीं करे ।

॥ अथ सोलिये तपका स्तवन ॥

वीर जिनेसर भाषियो रे लाल, सहु व्रतमें
 सिरताज, भवि प्राणी रे ॥ कषायगंजन तप आदरो
 रे लाल, इण्णथी पातिक जाय ॥ भ० ॥ वी१ ॥ कौड
 वरष तप आदरे रे लाल, क्रोध गमावै फल तास ॥
 भ० ॥ मान करे जे प्राणियारे, लाल ते जगमें
 न सुहाय ॥ भ० वी० ॥ २ ॥ व्रतमें माया आदरी
 रे लाल, स्त्रीपणो पायो मल्लिनाथ ॥ भ० ॥ रूप
 पराव्रत कीया घणा रे लाल, आषाढभूति गणिका
 साथ ॥ भ० वी० ॥ ३ ॥ च्यार कषाय छे मूलगा
 रे लाल, उत्तम सोले भेद ॥ भ० ॥ इम भव-भव
 भमतो थको रे लाल, जीव पामे बहु खेद ॥ भ०
 वी० ॥ ४ ॥ एकासण व्रत जे करे रे लाल, लाख
 वरस दुख हाण ॥ भ० ॥ नीवी व्रत दूजो कह्यो
 रे लाल, ए धारो जिनवर वाण ॥ भ० वी० ॥ ५ ॥
 आंवलिनो फल बहु कह्यो रे लाल, उपजै लवधि
 अपार ॥ भ० ॥ उपवास करता भावसुं रे लाल,
 पामे भवनो पार ॥ भ० वी० ॥ ६ ॥ इम दिन

शोले तप करो रे लाल, पूरण व्रत ए थाय ॥भ०॥
 देव गुरु पूजा करै रे लाल, मन वंछित फल थाय ॥
 भ० ॥ नर सुर रिद्धि पिण भोगवे रे लाल, निश्चै
 मुगति जाय ॥ भ० वी० ॥ ८ ॥ इति ॥

सोलह तपस्याकी विधि ।

क्रोध, मान, माया, और लोभ इन चारों
 कषायोंके अनन्तानु बन्धी, अप्रत्याख्यानी, प्रत्या-
 ख्यानी, और संज्वलन इनके द्वारा चार-चार
 भेद होने पर चार कषायोंके क्रमशः सोलह भेद
 पड़ते हैं । इनको निवारण करनेके लिये तपस्वी-
 को यह तपस्या करते समय सोलह दिनकी
 तपश्चर्या करनी पड़ती है, वह इस तरह कि,
 पहले दिन एकासण, दुसरे दिन निवि, तीसरे
 दिन आयंबिल और चौथे दिन उपवास, इस
 तरह अनुक्रमसे चार बार व्रत करके सोलह दिन
 की तपस्या पूरी करे । तपश्चर्याके दिन सोलह
 तपका स्तवन पढ़े, या श्रवण करे । समूचि तप-
 श्चर्या पूर्ण कर लेने पर यथा-शक्ति उद्यापन-
 उज्जमणा करे ।

प्रातःकालकी पडिलेहण विधि ।

पहले खमासमण देकर “इरिया वहिय” पढ़े, बाद खमासमण-पूर्वक “इच्छाकारेण संदिसह भगवन् ! पडिलेहण संदिसा हूं” इच्छं, कह कर फिर खमासमण-पूर्वक “इच्छाकारेण संदिह भगवन् ! पडिलेहण करूं ?” इच्छं, कह कर मुहपत्ति पडिलेहण करे। बाद खमासमण देकर इच्छाकारेण० “अंग पडिलेहण संदिसाहु” इच्छं, फिर खमासमण-पूर्वक इच्छाकारेण० अंगपडिलेहन करूं ? इच्छं” कहकर आसन, चरवला, कंदोरा, धोती आदि उपकरणोंकी पडिलेहण करे। पीछे खमासमण पूर्वक “इच्छकार भगवन् ! पसायकरी पडिलेहण पाडलेहावोजी ? इच्छं, कह कर शुद्ध स्वरूपके पाठ-पूर्वक स्थापनाचार्यजीकी पडिलेहण करे, बाद स्थापनाचार्यजीको उच्च स्थान पर रखें। खमासमण-पूर्वक इच्छाकारेण० उपधि मुहपत्ति पहिले हूं ?” इच्छं, कहकर मुहपत्ति पडिलेहण करे। इसके बाद खमासमण-पूर्वक

इच्छाकारेण० ओहि पडिलेहण संहिसा हूं ?
 इच्छं, कहकर खमासमण-पूर्वक इच्छाकारेण०
 ओहि पडिलेहण करूं ?” इच्छं, कहकर बाद
 कम्बल, वस्त्र आदिकी पडिलेहण करे । इसके
 बाद पौषधशालाको प्रमार्जन करके कूड़े-कचरेको
 जयणासे एकान्त स्थानमें रखदे । बाद “इरिया
 वहिय” पढ़े । इसके बाद खमासमण-पूर्वक
 इच्छाकारेण० सज्भाय संदिसाहूं ? इच्छं,
 कहकर खमा० इच्छा० सज्भाय करूं ? इच्छं,
 कहकर नवकार सहित पोसहको सज्भाय करे,
 और उपदेश मालाका श्रवण करे ।

संध्या पडिलेहण विधि ।

पहले खमासमण देकर इच्छाकारेण संदिसह
 भगवन् ! बहुपुडि पुन्ना पोरिसो इच्छं, कहकर
 खमासमण देवे, बाद “इरिया वहिय” पढ़े ।
 बाद खमासमण-पूर्वक इच्छाकारेण० पडिलेहण
 करूं ? इच्छं, कहकर, बाद फिर खमासमण
 देकर इच्छाकारेण० पौषधशाला प्रमार्जन

करूं ? इच्छं, कहकर मुहपत्ति पडिलेहण करे । बाद खमासमण-पूर्वक इच्छाकारेण० अंग पडिलेहण संहिसा हूं ? इच्छं, कहकर फिर खमासमण देकर इच्छाकारेण० अंग पडिलेहण करूं ? इच्छं, कहकर आसन, चरवला, कदोरा, धोती आदि उपकरणोंकी पडिलेहण करे । बादमें पौषधशालाका प्रमार्जन कर कूड़े-कचरेको यथा-विधि रखे । फिर खमासमण देकर “इरिया चहिय” पढ़े । पीछे खमासमण-पूर्वक “इच्छकार भगवन् ! पसायकरी पडिलेहण पडिलेहवावोजी ? इच्छं, कहकर शुद्ध स्वरूपके पाठ पूर्वक स्थापना-चार्यजीकी पडिलेहण करे । बाद स्थापनाचार्यजी को ऊंची जगहपर रखे । पीछे खमासमण देकर इच्छाकारेण० उपधि मुहपत्ति पडिले हूं ? इच्छं, कहकर मुहपत्ति पडिलेहण करे । बाद खमासमण-पूर्वक “इच्छाकारेण० सज्भाय संदिसाहूं ? इच्छं, कहकर खमासमण-पूर्वक “इच्छाकारेण सज्भाय करूं ? इच्छं, कहकर एक नमुक्कार

बोलकर पोसहकी सज्जाय करे । बाद फिर एक नमुक्कार पढ़े । इसके बाद दो वान्दना देकर पञ्च-कखाण लेवे (जिसने उपवास किया हो वह वान्दना न देवे) बाद खमासमण-पूर्वक इच्छाकारेण० उपधि थंडिला पडिलेहण संदिसा हूं ? इच्छं, कह कर फिर खमासमण-पूर्वक इच्छाकारेण० उपधि थिंडिला पडिलेहण करूं ? इच्छं, कहकर फिर खमासमण-पूर्वक इच्छाकारेण० बेसणे संदिसा हूं ? इच्छं, कहकर फिर खमासमण-पूर्वक इच्छा-कारेण० बेसणे ठाऊं ?, इच्छं, कहकर कम्बल वस्त्रादिकी पडिलेहण करे । जिसने उपवास किया हो वह इस समय केवल कन्दोरा और धोतिकी पडिलेहणा करे ।

रात्री संथारा विधि ।

खमासमण-पूर्वक इच्छाकारेण० बहुपुडि पन्ना पोरिसी ?" इच्छं; कहकर खमासमण देवे और "इरिया वहिय" पढ़े । इसके बाद खमासमण-पूर्वक इच्छाकारेण० राईसंथारा

मुहपत्ति पडिहले हुं ? इच्छं, कहकर मुहपत्ति पडिलेहण करे । बाद खमासमण-पूर्वक इच्छा-कारेण० राईसंधारा संदिसा हुं ? इच्छं, कहकर खमासमण-पूर्वक इच्छाकारेण० राईसंधारा ठाऊं ? इच्छं, कह कर फिर खमासमण-पूर्वक इच्छा-कारेण० चैत्यवन्दन करूं ?” इच्छं, कहकर चउ-कसाय, नमुत्थुणं यावत् जयवीरराय चैत्यवन्दन करे । बाद “निस्सही ३ णामोखमासमणणां गोय-माइणं महामुणिणं” तीन नवकार, तीन करेभी भन्ते कह कर अणुजाणह चिट्ठिज्जा आदि राई संधाराकी गाथायें कहे और अन्तमें सात नमु-कारका स्मरण करे ।

॥ पच्चक्खाण पारनेकी विधि ॥

खमासमण देकर इरियावहिय पढ़े ॥ पीछे खमा० इच्छा० पच्चक्खाण पारवा मुहपत्ति पडिले-हुं ? इच्छं, कहकर मुहपत्ति पडिलेहण करे ॥ पीछे खमा० इच्छा० पच्चक्खाणपारुं ? यथाशक्ति खमा० इच्छा० पच्चक्खाण पारेमि ? तहत्ती । कह

कर मुट्टी बन्द कर एक नवकार गिने । बाद जो पञ्च-
 क्खाण किया हो उस पञ्चक्खाणका नाम ले कर
 पञ्चक्खाण पारनेका पाठ बोलकर एक नवकार
 गिने, पीछे खमासमण देकर इच्छा० चैत्यवंदन
 करूं ? इच्छं, कहकर जयउसामि० यावत् जय-
 वीयराय० पर्यंत चैत्यवंदन करे ।

॥ देववंदनकी विधि ॥

खमा० इच्छा० चैत्यवंदन करूं ? इच्छं, कह
 कर चैत्यवंदन णमुत्थुणं कहे । बाद खमासमण
 देकर इरियावहिय पढ़े । पीछे खमा० इच्छा०
 चैत्यवंदन करूं ? इच्छं, कहकर चैत्यवंदन
 करे । बाद जंकिंचि णमुत्थुणं कहकर चार थुईसे
 देव वांटे । पीछे णमुत्थुणं यावत् जयवीयराय
 पर्यंत कहे; फिर णमुत्थुणंका पाठ पढ़े ।

॥ पोसह लेनेकी विधि ॥

पोसहके उपगरण लेकर उपाश्रयमें जाये । बाद
 सामायिककी विधिके अनुसार स्थापनाचार्यकी
 स्थापना करके विधि-पूर्वक गुरुवंदन करे । बाद

खमासमण देकर इरियावहिय पढ़े । पीछे खमा० इच्छाकारेण संदिस्सह भगवन् ! पोसह मुहपत्ति पडिले हुँ ? इच्छं, कहकर मुहपत्ति पडिलेहण करे । पीछे खमा० इच्छा० पोसह संदिस्साऊं ? इच्छं, खमा० इच्छा० पोसह ठाऊं ? इच्छं, कहकर खड़े हो, हाथ जोड़कर तीन नवकार गिने । बाद इच्छकार भगवन् !, पसाय करी पोसह दंडक उच्चरावोजी ! (यदि आठ प्रहरका पोसह लेना हो तो “अहोरत्तं” कहे, दिनका लेना हो तो “दिवसं” कहे, और रात्रिकालेना हो तो “रत्तं” कहे) बाद जो बड़ा आदमी हो वह करेमिभंते पोसहं० इत्यादि पोसहका पञ्चक्खाण तीनवार उच्चरावे— यदि कोई बड़ा न हो तो आप तीनवार उच्चर लेवे ॥ बाद खमा० इच्छा० सामायिक मुहपत्ति पडिलेहवुं ? इच्छं, कहकर मुहपत्ति पडिलेहण करे ॥ पीछे खमा० इच्छा० सामायिक संदिस्साहु ? इच्छं, इत्यादिक सामायिककी विधिके अनुसार पोसहकी विधि जानना । परंतु इरियावहिय न

पढे । पांगरणाके आदेशके बाद खमा० इच्छा० बहुवेलं संदिस्साउं ? इच्छं, खमा० इच्छा० बहुवेलं करूं ? इच्छं, पोसह लिये बाद राई प्रतिक्रमण करे तो प्रतिक्रमणमे चार थुइसे देववांटे, बाद गामुत्थूणं कहकर बहु वेलका आदेश लेवे । पीछे आचार्यमिश्रं इयादि कहे ।

॥ पोसहकृत्यकी विधि ॥

पहले पोसह लेनेके बाद पड़िलेहणके समय प्रभात पड़िलेहणकी विधिसे पड़िलेहण करे । पीछे गुर्वादिक विद्यमान हो तो विधिपूर्वक बंदना करे । बाद पचक्खाण करके बहुवेलका आदेश लेवे, पीछे देवदर्शन करनेको मंदिरमें जावे, (जिसने पोसह किया हो वह यदि देवदर्शन न करे तो दो या पांच उपवासके प्रायश्चित्तका भागी होता है) अनन्तर विधिसहित चैत्यवंदन करके पचक्खाण करे । उपाश्रय और मंदिरसे निकलते समय तीनवार आवस्सही कहे । और प्रवेश करते समय तीनवार निस्सीही कहे ॥

खमासमण देकर इरियावहिय पढ़े । पीछे खमा० इच्छाकारेण संदिस्सह भगवन् । पोसह मुहपत्ति पडिले हुँ ? इच्छं, कहकर मुहपत्ति पडिलेहण करे । पीछे खमा० इच्छा० पोसह संदिस्साऊं ? इच्छं, खमा० इच्छा० पोसह ठाऊं ? इच्छं, कहकर खड़े हो, हाथ जोड़कर तीन नवकार गिने । बाद इच्छकार भगवन् । प्रसाय करी पोसह दंडक उच्चरावोजी । (यदि आठ प्रहरका पोसह लेना हो तो “अहोरत्तं” कहे, दिनका लेना हो तो “दिवसं” कहे, और रात्रिकालेना हो तो “रत्तं” कहे) बाद जो बड़ा आदमी हो वह करेमिभंते पोसहं० इत्यादि पोसहका पञ्चक्खाण तीनवार उच्चरावे । यदि कोई बड़ा न हो तो आप तीनवार उच्चर लेवे ॥ बाद खमा० इच्छा० सामायिक मुहपत्ति पडिलेहवुं ? इच्छं, कहकर मुहपत्ति पडिलेहण करे ॥ पीछे खमा० इच्छा० सामायिक संदिस्साहु ? इच्छं, इत्यादिक सामायिककी विधिके अनुसार पोसहकी विधि जानना । परंतु इरियावहिय न

पढ़े । पांगरणाके आदेशके बाद खमा० इच्छा० बहुवेलं संदिस्साउं ? इच्छं, खमा० इच्छा० बहुवेलं करूं ? इच्छं, पोसह लिये बाद राई प्रतिक्रमण करे तो प्रतिक्रमणमे चार थुइसे देववांदे, बाद गामुत्थूणं कहकर बहु बेलका आदेश लेवे । पीछे आचार्यमिश्रं इयादि कहे ।

॥ पोसहकृत्यकी विधि ॥

पहले पोसह लेनेके बाद पड़िलेहणके समय प्रभात पड़िलेहणकी विधिसे पड़िलेहण करे । पीछे गुर्वादिक विद्यमान हो तो विधिपूर्वक बंदना करे । बाद पचक्खाण करके बहुवेलका आदेश लेवे, पीछे देवदर्शन करनेको मंदिरमें जावे, (जिसने पोसह किया हो वह यदि देवदर्शन न करे तो दो या पांच उपवासके प्रायश्चित्तका भागी होता है) अनन्तर विधिसहित चैत्यवन्दन करके पचक्खाण करे । उपाश्रय और मंदिरसे निकलते समय तीनवार आवस्सही कहे । और प्रवेश करते समय तीनवार निस्सीही कहे ॥

लघुनीति और बड़ो नीति परठनी हो तो पहिले “अणुजाणह जस्त गो” कहे, पीछे से तीनवार ‘बोसिरे’ कहे। मंदिरमें जाकर उपाश्रयमें आवे और लघुनीति बडिनीति करके पीछे उपाश्रयमें आवे। निद्रा या प्रमाद आगया हो तो इत्यादि कार्योंमें इरियावहिय पढ़े। मंदिरसे उपाश्रयमें आकर गुरुका संयोग हो तो व्याख्यान सुने। पीछे पौना प्रहर दिन चढ़े बाद उग्घाडा पोरसी भणावे यथा:—खमा० इच्छा० उग्घाडा पारसी ? इच्छं, कह कर खमा० इरियावहिय पढ़े। पीछे खमा० इच्छा० उग्घाडा पोरसी मुहपत्ति पडिलेहुँ ? इच्छं, कहकर मुहपत्ति पडिलेहण करे॥ पीछे कालदेलामें मंदिरमें अथवा उपाश्रयमें विधिके अनुसार पंचशंक्रस्तवसे देववंदन करे। पीछे जल आदि पीनेकी इच्छा हो तो पंचवखाण पारनेकी विधिके अनुसार पचवखाण पारके जल आदिक परिभोग करे। पीछे चौथे पहरमें संध्यापडिलेहणकी विधिके अनुसार पडिलेहण करे। रात्रिका पोसह लेनेवालाभी पोसहकी

विधिके मुताबिक पोसह लेकर पडिलेहण करे ॥ रात्रि पोसहवाला प्रतिक्रमणके आदिमें इरिया-वहिय पढ़कर चौबीस थंडिलां पडिलेहण करे। प्रतिक्रमणमें सात लाख पापस्थानककी जगह ठाणोक-मणो चंकमणो इत्यादि पोसह अतिचार पढ़े ॥ जिसने दिनका पोसह न लिया हो और रात्रिका लिया हो तो वह सात लाख आदि बोले। प्रतिक्रमण करनेके बाद सज्भायका ध्यान करे। प्रहर रात्रि जानेपर संथारा पोरसी विधिके अनुसार पढ़ कर विधिसे शयन करे। पीछली रात्रिको उठकर नवकार मंत्र गिने। बाद इरियावहिय पढ़ कर खमासमण-पूर्वक कुसुमिण दुसुमिणका काउ-स्सग्ग करे। (पोसहवाला कुसुमिण दुसुमिणका काउस्सग्ग पहले करे पीछे चैत्यवंदन करे) सात लाखकी जगह संथारा उवट्टण इत्यादि पोसह अतिचार बोले। बाद प्रभात-पडिलेहणकी विधिके अनुसार पडिलेहण करे। तदनन्तर गुर्वादिकको वन्दन करे बाद पोसह पाले।

पोसहमें राइमुहपत्ति पडिलेहणकी विधि ।

गुरुमहाराजके सामने खमासमण देकर इरिया-
वहिय पढ़े । बाद खमा० इच्छा० राइमुहपत्ति पडि-
लेहं ? इच्छं, कहकर मुहपत्ति पडिलेहण करे ।
पीछे दो वांदणा दे कर इच्छा० राइयं आलोउं ?
इच्छं, आलोएमि जोमेराइओ कहकर विधि-पूर्वक
गुरु वंदन करे । बाद पचखाण लेकर बहुवेलका
आदेश लेवे ।

पोसह पारनेकी विधि ।

खमासमण देकर इरियावहिय पढ़े । बाद
खमासमण-पूर्वक मुहपत्ति पडिलेहण करे ।
पीछे खमा० इच्छा० पोसह पारुं ? यथाशक्ति,
खमा० इच्छा० पोसह पारैमि ? तहत्ति कहकर
जीमना हाथ नीचे रखकर तीन नवकार गिने,
पीछे खमा० देकर मुहपत्ति पडिलेहण करे । पीछे
खमा० इच्छा० सामायिक पारुं ? यथाशक्ति,
खमा० इच्छा० सामायिक पारैमि ? तहत्ति कह कर
जीमना हाथ नीचे रख, तीन नवकार गिन कर


भयवं दसगण भद्रो का पाठ पढ़े । पीछे दाहिना हाथ स्थापनाचार्यजीके सामने सीधा रख कर तीन नवकार गिने, (पोसह और सामायिक पारनेका पाठ एक ही बार कहा जाता है) यानी दोनोंके पारनेका पाठ एक ही है ।

देसावगासिक लेने और पारनेकी विधि ।

देसावगासिक लेनेकी विधि पोसह लेनेकी विधिके अनुसार समझना, परंतु पोसह लेनेके आदेशमें देसावगासिकका आदेश लेना । जैसे—
 देसावगासिक मुहपत्ति पडिलेहुं ? देसावगासिक संदिस्साउं ? ठाऊं ? देसावगासिक दंडक उच्चरा वोजी ? करेमिभंते पोसहके पञ्चखाणके बदले अहन्नंभंते ? तुह्माणं समीवे देसावगासियं पञ्चखामि इत्यादि देसावगासिकका पञ्चखाण तीन बार उचरे । बहुबेलका आदेश न लवे, देसावगासिक जघन्यसे दो सामायिकका और उत्कृष्टसे १५ सामायिकका होता है । . .

देसावगासिक पारनेकी विधि पोसह पारनेकी

विधिकी तरह समजना जैसे—देसावगासिक पाठ ? पारेमि ? इत्यादि सामाज्य पोसह संद्वि-यस्सकी जगह सामाज्य देसावगासियं संद्वि-यस्स इत्यादि पाठ कहना ।



भक्ष्याभक्ष्य-विचार ।

प्राचीनकालके समय श्रावक लोग भक्ष्या-भक्ष्यके सम्बन्धमें बड़ा ही उपयोग रखा करते थे, प्रायः उस समयके श्रावकोंको अभक्ष्य चीजोंका त्याग ही रहता था, वे लोग अभक्ष्य सेवन करना महा पाप और नरकका मार्ग समझते थे । यदि कोई न समझ कर या गलतीसे किसी अभक्ष्य पदार्थका सेवन कर लेता तो वह उसे बड़ा भारी दुःष्कर्म किया समझ कर अत्यन्त पश्चात्ताप करता और उसके लिये गुरुके पास जा कर यथाविधि आलोचना-प्रायश्चित्त ले लेता था ।

वर्तमान समयके श्रावक-श्राविकाओंमें इस

विषयकी पूरी शिथिलता पड़ गयी है। कई श्रावक भाई तो भक्ष्याभक्ष्य किसे कहते हैं, वह भी ठीक तरह नहीं समझते। कई भाई यदि इस विषयमें थोड़ासा कुछ जानते हैं; किन्तु इन्द्रियोंकी लोलुपताके कारण भक्ष्याभक्ष्य को न सोच कर उसे सेवन करते ही रहते हैं। कई सज्जन खूब पढ़े-लिखे हैं, अंग्रेजी बी० ए० और एम० ए० पास किये रहते हैं, उनको इस विषयका ज्ञान भी ठीक रहता है; किन्तु फिर भी वे लोग रस-नेन्द्रियकी लालसामें पड़ कर अभक्ष्य पदार्थोंका सेवन आनन्द-पूर्वक करते ही रहते हैं, यदि उनसे इस विषयमें कुछ कहा जाय तो यही उत्तर मिलेगा कि “आलू, बैंगन न खानेसे थोड़े ही धमं या मोक्ष प्राप्त होता है ?” इसी तरह और भी अनेक प्रकारके कुतर्क करने लगते हैं। उस समय यदि उन्हें शास्त्र-प्रमाण देकर ठीक तरह समझाया जाय तो उसे भी वे लोग अङ्गिकार करनेको तैयार नहीं होते। और जब अपना पक्ष

कमजोर देखते हैं, तब इस विषयको हँसी-दिल्लीगीमें ले आते हैं ।

द्वारे पाठक और पाठिकाओं ! शास्त्रकारोंने भक्ष्याभक्ष्यके सम्बन्धमें जो अमूल्य उपदेश दिया है, वह वास्तवमें हम लोगोंके लिये बड़ा ही उपकार का काम किया है । यदि हम लोग भक्ष्य और अभक्ष्य पदार्थोंको शास्त्रके अनुसार समझ कर काममें लिया करें तो हमारे लिये बड़ा ही लाभदायक है । शास्त्रकारोंने अभक्ष्य पदार्थों का त्याग किया है, वह वास्तवमें सोच-समझ कर ही किया है । इस नियमके पालनसे सिवा लाभके किसी तरहकी हानि नहीं ।

अभक्ष्य पदार्थोंके खानेसे अनेक स्त्री-पुरुष रोग-ग्रस्त और कमजोर हो गये हैं । ऐसे अनेक दृष्टान्त पढ़ने और सुननेमें आते हैं, कि अज्ञात फलके खानेसे कई स्त्री-पुरुषोंने अपने प्राणोंसे हाथ धोये हैं, कईयोंके हाथ-पाऊँ गल गये हैं । कई अभक्ष्य पदार्थ ऐसे भी हैं, जिनके खानेसे

उस समय तो परम आनन्द मालूम होता है । परन्तु कालान्तरमें उन्हींके कारण असाध्य रोग हो जाया करते हैं, जिनसे मनुष्य अल्प अवस्थामें ही संसारसे चल बसता है । अतएव मनुष्य मात्रको अभक्ष्य चीजोंका त्याग करना परमावश्यक है ।

अब आप धार्मिक भावोंसे भी इस विषयका विचार कोजिये, जिससे आपको इसके त्यागका सच्चा महत्व और भी मालूम हो जायगा । जितने अभक्ष्य फल और कन्दमूल हैं, उन सभीमें दृश्य और अदृश्य रूपसे अनेक सूक्ष्मजीव रहते हैं । जब वह फल और कन्दमूल सेवन किये जायेंगे तो उन विचारे जीवोंकी क्या दशा होगी यह आप स्वयं समझ लें । प्रत्येक प्राणीका कर्त्तव्य है, कि वह एक दूसरेकी आत्माको जहाँ तक बन पड़े बचानेका यत्न करे । छोटे-बड़े सभी जीवोंमें एकसी आत्मा है । उसमें छोटी-बड़ीका किसी तरह भेद नहीं । जितनी बड़ी आत्मा

आपमें है, उतनी ही उन सूक्ष्म जीवोंमें है । अतएव आपका पूर्ण कर्त्तव्य है, कि जिस पदार्थ-के खानेसे जीवहानि होती हो, या किसी जीवको कष्ट होता हो तो उस पदार्थको सर्वथा न खाना चाहिये । यदि कोई आपका दूसरा भाई खाता हो तो उसे भी खानेको निषेध करना आपका परम कर्त्तव्य है ।

श्रावकको उत्सर्ग मार्गसे प्रासुक अहार लेना कहा है; पर यदि शक्ति न हो तो सच्चित्त पदार्थ का त्याग करे, यदि वह भी न बन पड़े तो बाईस अभक्त्य और बत्तीस अनन्त कार्यका त्याग करना तो परम आवश्यक है । अतएव यहाँ पर हम अपने प्रेमी पाठकोंके लाभके लिये कौन-कौन से अभक्त्य पदार्थ हैं । वह संक्षिप्त रूपसे समझा देते हैं । आशा है, पाठक गण इसे पढ़ समझकर यदि थोड़ासा भी लाभ उठायेंगे तो हम अपने परिश्रमको सफल समझेंगे ।

बाईस अभज्य किसे कहते हैं ?

पाँच तरहके उम्बर फल ५, चार महा विगड़ ४, हिम १०, विष ११, करहा-ओले १२, सब तरहकी मिट्टी १३, रात्रा-भोजन १४, बहुबीज १५, अनन्तकाय १६, बोल आचार १७, घोलबड़ा १८, बेंगन, जिनके नाम अज्ञात हों ऐसे फल-फूल १९, तुच्छ फल २०, चलित रस २२, इन बाईस चीजोंको अभञ्ज्य पदार्थ कहते हैं । अतएव श्रावक-श्राविकाओंको इनका त्याग जरूर करना चाहिये ।

अभज्य पदार्थ ।

१ बड़के फल, २ पारस-पीपली (फालसा) या पीपलके फल, ३ प्लक्ष (पीपलकी ही जातिका वृक्ष है) ४ गूलर और ५ कचूमर या कालुम्बर, इन वृक्षोंके फलमें बहुतसे छोटे-छोटे जीव होते हैं, जिनकी गिनती नहीं हो सकती । इस

लिये ये सब अभक्ष्य हैं । दुष्काल पड़नेपर अन्न न मिले, तोभी विवेकी पुरुष इन्हें न खावे ।

६, मधु ७ मदिरा ८ मांस ९ मक्खन, इन चारों वस्तुओंका जैसा रंग होता है, उसी रंगके असंख्य जीव इनमें निरन्तर उत्पन्न होते रहते हैं । इस लिये ये भी अभक्ष्य हैं—ये चार 'महा-विगड' कहलाते हैं ।

मधु ।—मधुमक्खियाँ या भौरें अपने भोजनके लिये जो मधु या शहद जमा करते हैं, उन्हें ही नीच जातिके लोग धुआँ दिखा कर या मारकर, चुरा लाते हैं । वेचारे असंख्य जीव मारे जाते हैं । तिस पर मधुमें भी बहुतसे जीव पैदा होते रहते हैं, इसलिये जिह्वाके स्वादके लिये तो क्या कहना, औषधके लिये भी इसे नहीं खाना चाहिये । इसे खानेसे नरक-गति प्राप्त होती है ।

मदिरा ।—इसका तो सर्वथा त्याग ही करना उचित है । अंग्रेजी दवाओंमें ज़रूर स्पिरिट (दारू) पड़ती है, इसलिये उन्हें भी नहीं खाना चाहिये ।

अंग्रेजी दवाओंमें जो चूर्ण आदि होते हैं, उनमें भी बहुतसे अभक्ष्य पदार्थ मिले होते हैं । अतएव इनसे परहेज ही रखना उचित है ।

मांस ।—मछली, बकरा, हरिन, भेड़ा, चिड़िया आदि जीवोंको मारकर जो मांस प्राप्त होता है, वह महा अशुद्ध तथा अभक्ष्य है । सभी धर्मग्रन्थोंमें मांस खानेकी निन्दा की गयी है, तो भी लोग मोटे-ताज्जे होनेके लोभसे या जिह्वाके स्वादके लिये दूसरोंके प्राण ले लेते हैं । यह महा अधर्म और पाप-कर्म है ।

मांसके अन्दर प्रत्येक रंग-रेशमें अनेक त्रस जीव उत्पन्न होते हैं—उसे आगसे उचालने पर भी उसमें जीव उत्पन्न होते रहते हैं । इसी लिये धर्मात्माओंने मांस, अण्डे या मछलियोंका खाना बुरा बतलाया है ।

आजकल कुछ पापियोंने घीमें चर्बी मिलाना शुरू किया है । यह महा पाप है । इसी प्रकार विलायती विसकुट आदि खाना भी बुरा है—

इन्हें तो छूना भी नहीं चाहिये । कितनी ही अंगूठी दवाएँ—जैसे, काडलीवर आयल (मछलीका तेल), और मुम्बई* आदि कई औषधिये चरबी वगैरहसे तैयार की जाती हैं । इनका सेवन करने वाले घोर नरकमें जानेका रास्ता तैयार करते हैं । जन्म, जरा, मरण, आधि, व्याधि और उपाधिके दुःखसे छूटना हो, तो मनुष्य कभी इन चीजोंको न खाये ।

मक्खन ।—छाँछमें से मक्खन निकालते ही तुरत उसमें जीव उत्पन्न होने लगते हैं, इसीलिये श्री अरिहन्त भगवान्ने इसका खाना मना किया है । प्रभुकी आज्ञाका अवश्यही पालन करना चाहिये ।

ओस ।—१० बर्फ, और ओले,—इन तीनोंमें भी बड़ादोष है । अप्काय (हर एक सचित्त पानी) को प्रत्येक बूंदमें असंख्य जीव होते हैं—यदि

* मुम्बई नामक औषधी—पशु और मनुष्योंके कलेजेसे रक्त निकाल कर बनायी जाती है । इसलिये वह प्रत्यक्ष रूपसे अभक्ष्य है । इस औषधीके स्थान पर यदि शीलाजित काममें लाया जाय तो बड़ा ही लाभदायक है ।

उनका आकार सरसों बराबर भी हो जाय, तो उनकी गिनती इतनी अधिक होती है, कि फिर तो वे सारे जम्बूद्वीपमें भी न समा सकें । परन्तु चूंकि पानीके बिना प्राणीका जोना ही कठिन है, इसलिये अवश्यत्ताके अनुसार खर्च करना पड़ता है । परन्तु उसीका जमा हुआ रूप जो बर्फ है, उसमें तो और भी बहुतसे जीव इकट्ठे होकर मर जाते हैं, इसलिये थोड़ी देरके स्वादके लिये ऐसी चोज़ कभी न पीना । बहुत गरमी मालूम पड़े तो चन्दनका लेप करे या बादाम तथा चन्दनक शरबत पिये ।

कुदरती बर्फ या ओलेका पानी भी नहीं पीना चाहिये ; क्योंकि उस पानीमें असंख्य जीव होते हैं । यह तीर्थकर महाराजका ही किया हुआ निषेध है । आइसक्रीम, आइस वाटर, आइस सोडा, कुलफी आदि बर्फकी बनी चीज़ों का भी त्याग करना चाहिये ।

११ विष—भाँग, अफीम, वच्छनाग, हर-

ताल, संखिया, धतूरा आदि जहरीली और नशीली चीजें अभक्ष्य हैं; क्योंकि इनके खानेसे पेटके कीड़े मर जाते हैं, शरीर शिथिल हो जाता है और आदमी बेसुध सा हो जाता है। इस लिये शौक्र या बल प्राप्तिके लिये इन्हें नहीं खाना चाहिये—दवाके लिये खा सकते हैं। नशोंका व्यसन बड़ा ही बुरा होता है। इससे इस लोकमें भी बुराई होती है और परभवमें भी। अकसर स्त्रियाँ बच्चोंको नींद आनेके लिये थोड़ी सी अफीम खिला दिया करती हैं; पर इससे बच्चोंको कुछ फायदा नहीं पहुंचता, उलटी हानि होती है। साथ ही कहीं भूलसे उसने पुड़िया उठाकर खाली, तो जान जानेका डर होता है। इस लिये इसका ध्यान रखना चाहिये, कि स्त्रियाँ इस कामको न करें।

१२, ओले—आकाशसे जो वर्षाके पानीके साथ ओले गिरते हैं, वे भी बर्फकी तरह अभक्ष्य हैं।

१३—भूमिकाय (पृथ्वीकाय) सब तरहकी मिट्टी, खड़िया, खार, नमक, आदि अभक्ष्य हैं; क्योंकि इनमें असंख्य जीव होते हैं। इनके बदले बहुत सी ऐसी चीजें काममें लायी जा सकती हैं, जो अचेतन हैं। खार या भूतड़ा नहाने-धोनेके काममें लाते हैं, वे उसके बदलेमें सोड़ा, आँवला, कंकोल, साबुन आदि काममें ला सकते हैं।

मिट्टी खानेसे पेटके असंख्य जीव मर जाते हैं और पाण्डू, आमवात, पित्त और पथरी रोग होते हैं। यदि भूलसे खाने—पीनेकी चीजोंमें धूल या कंकड़ी आ जाय, तो उसका दोष नहीं लगता, तथापि उपयोग रखना जरूरी है।

कच्चा सचित्त नमक श्रावकको त्याग करना चाहिये। अचित्तका व्यवहार करना चाहिये। दाल और शाकमें डाल देनेसे नमक सचित्तसे अचित्त हो जाता है, परन्तु मसाले या औषधिमें अचित्त नमकका व्यवहार किया जा सकता है।

ताल, संख्या, धतूरा आदि जहरीली और नशीली चीजे अभक्ष्य हैं; क्योंकि इनके खानेसे पेटके कीड़े मर जाते हैं, शरीर शिथिल हो जाता है और आदमी बेसुध सा हो जाता है। इस लिये शौक्र या बल प्राप्तिके लिये इन्हें नहीं खाना चाहिये—दवाके लिये खा सकते हैं। नशोंका व्यसन बड़ा ही बुरा होता है। इससे इस लोकमें भी बुराई होती है और परभवमें भी। अकसर स्त्रियाँ बच्चोंको नींद आनेके लिये थोड़ी सी अफीम खिला दिया करती हैं; पर इससे बच्चोंको कुछ फायदा नहीं पहुंचता, उलटी हानि होती है। साथ ही कहीं भूलसे उसने पुड़िया उठाकर खाली, तो जान जानेका डर होता है। इस लिये इसका ध्यान रखना चाहिये, कि स्त्रियाँ इस कामको न करें।

१२, ओले—आकाशसे जो वर्षाके पानीके साथ ओले गिरते हैं, वे भां बर्फकी तरह अभक्ष्य हैं।

१३—भूमिकाय (पृथ्वीकाय) सब तरहकी मिट्टी, खड़िया, खार, नमक, आदि अभक्ष्य हैं; क्योंकि इनमें असंख्य जीव होते हैं। इनके बदले बहुत सी ऐसी चीजें काममें लायी जा सकती हैं, जो अचेतन हैं। खार या भूतड़ा नहाने-धोनेके काममें लाते हैं, वे उसके बदलेमें सोड़ा, आँवला, कंकोल, साबुन आदि काममें ला सकते हैं ।

मिट्टी खानेसे पेटके असंख्य जीव मर जाते हैं और पाण्डू, आमवात, पित्त और पथरी रोग होते हैं। यदि भूलसे खाने—पीनेकी चीजोंमें धूल या कंकड़ी आ जाय, तो उसका दोष नहीं लगता, तथापि उपयोग रखना जरूरी है।

कच्चा सचित्त नमक श्रावकको त्याग करना चाहिये। अचित्तका व्यवहार करना चाहिये। दाल और शाकमें डाल देनेसे नमक सचित्तसे अचित्त हो जाता है, परन्तु मसाले या औषधिमें अचित्त नमकका व्यवहार किया जा सकता है।

१४—रात्रिभोजन-रातको भोजन करना इस भव आर परभव दोनोंहीके लिये दुःखका कारण है । रातको खानेवाले उल्लू काग, गीध, बिच्छू, चूहा, बिल्ली, सांप चिमगादड़ आदिकी योनिमें उत्पन्न होते हैं, बड़े दुःख पाते हैं और धर्मकी तो उन्हें प्राप्ति ही नहीं होती । स्वयं रातको भोजन करनेसे बाल-बच्चे भी बहो चाल चलने लगते हैं । रातको खानेसे भोजनके साथ जीव-जन्तुओंके मिल जानेका भी बड़ा डर रहता है । उत्तम पशु-पक्षी भी रातको नहीं खाते । दिनको भी अन्धरे या छोटे बरतनमें खाना मना है । दिनका बना हुआ भोजन रातको और रातका बना हुआ दिनको खाना भी दोषयुक्त है, सूर्योदयके दो घड़ी बाद तथा सूर्यास्तके दो घड़ी पहले खाना चाहिये । इसके पहले या पीछे खाना मना है । रातको पानी पीना रुधिरपान तथा भोजन करना मांस-भोजन करनेके समान है । प्यारके मारे वच्चोंको रातमें खिलाना मना है ।

१५—बहुबीज-जिन फलोंमें बीज-बीजमें अन्तर न हो, अर्थात् एकसे दूसरा सटा हुआ इस प्रकार बीज हों, उनको बहुबीज जानना । इनके प्रत्येक बीजमें जोत्र होते हैं, इसलिये इनका व्यवहार नहीं करना । अनार अभक्ष्य नहीं है ।

१६—आचार बहुतसी चीजोंके बनते हैं, पर कोई-कोई तो तीन दिनमें ही अभक्ष्य हो जाते हैं । आचार अधिक तेलमें डुबाये जानेसे अचित हैं; क्योंकि ऐसा होनेसे उनके बिगड़नेका डर नहीं और तबतक वे भक्ष्य बने रहते हैं । आचारके वर्त्तन बड़ी सफाईसे और खूब अच्छी तरहसे मुंह बन्द करके रखे जाने चाहियें । जहाँ-तक ही सके, आचार जल्दी खाके ख़तम कर देने चाहियें । वर्षों तक पड़े रहने देना ठीक नहीं ।

१७—द्विदल ऐसे पदार्थ जिनकी दो फाँक दाल हो सकती हो, जिनको पेरनेसे तेल नहीं निकले और जिनके रोपनेसे फल नहीं होता, इन

सबको द्विदल कहते हैं,--जैसे, चना, मूंग, अरहर, उड़द, बजरा, मक्का, कुलथी, मटर, ग्वार, मसूर आदि । इनकी दाल, पकौड़ी, भाजी चाहे कुछ बनाकर खाइये । इसके साथ अगर दूध, दही या मठका संयोग होता है, तो तुरत ही दो इन्द्रियोंवाले जीव उत्पन्न होते हैं । छाछ, दूध या दहीको खूब गरम करके अथवा गरम करनेके बाद ठंडे पानीमें मिलाकर किसी विदल पदार्थके साथ मिलानेसे दोष नहीं होता । मेथी ग्वार या अन्य बिना तेजवाले पदार्थोंके पत्तोंका साग, मटर, चना, ग्वारकी फली, मूंगकी फली मटरकी फली, हरे चनेके पत्तोंके साग, सुखौंते या आचार अथवा दालमोठ, बुँदिया, गांठिया आदि तले हुए पदार्थोंके साथ तथा उड़द, मूंग, आदिके पापड़ या वड़ेके साथ या मेथी पड़े हुए अचारमें कचा गोरस (दूध, दही या मठा) नहीं डालना चाहिये । दही-बड़ा अगर उवाले हुए गोरसका हो तो उसो दिन, खाना,

नहीं तो अभक्ष्य है । राई तथा सरसों द्विदल नहीं है, क्योंकि उनमें तेल होता है । सिखर-नके साथ भी द्विदलका स्पर्श नहीं करना चाहिये । स्पर्शदोष टालनेके लिये दाख, केला खजूर वगैरहका रायता भी गोरस गरम करके बनाना चाहिये । यदि गेहूँ या बाजरेकी रोटीके साथ कचा गोरस खानेको इच्छा हो तो द्विदल-वाले वर्त्तन, हाथ, मुँह आदि धोकरही विदल-पदार्थ भोजन करने चाहिये । कहनेका तात्पर्य यह कि किसी प्रकार द्विदल-पदार्थके साथ कच्चे दूध-दही छाँछकी छुआछूत नहीं होनी चाहिये । गोरस खूब गरम कर लेनेपर उसके साथ द्विदलके संयोगसे कोई दोष नहीं होता । इसलिये कढ़ी, वड़े या रायता बनाते समय गोरसको खूब गरम कर लेना चाहिये ।

१८ वैगन—सब तरहके वैगन खाना छोड़ देना चाहिये; क्योंकि इसमें बहुत बीज होते हैं-इसके मुँहपर सूक्ष्म त्रस-जोव (कीड़े) होते

हैं । यह काम और निद्राको बढ़ानेवाली चीज़ है । इससे पित्तवाले रोग होते हैं । इसे खाना एकदम मना है । इसका तो आचार बगैरह कभी बनना ही नहीं चाहिये । रोग और पापके इस आगारको तो तिलाञ्जलि ही दे देनी चाहिये ।

१६ अनजाने फल—जिस फलका नाम नहीं मालूम हो, जिसे कोई न खाता हो, उसका फल या फूल कभी नहीं खाना चाहिये । उसके गुण-दोषका जब पता ही नहीं, तब कौन जाने वह जहर ही हो ? इसलिये उसका सद्वैव त्याग ही करना उचित है ।

२० तुच्छफल—जो असार पदार्थ तृप्तिकारक नहीं हो, जैसे खट्टे जामुन, पीलू, पीचू, गुण्डी, आमकी केरियों, आदि तुच्छ फल हैं । चना, मटर, ग्वार, बाजरा, शमो आदि केवल तथा अन्य फलोंको जो अत्यन्त कोमल होते हैं । तुच्छ ही जानना, क्योंकि कोमल अवस्थामें

वनस्पतियां अनन्तकाय होती हैं । इसलिये उनका कोमल अवस्थामें भक्षण करनेसे अनन्तकाय-व्रतका भङ्ग होता है । ऐसी चीजें कितनी भी खा जाओ, तो भी जी नहीं भरता । साथ ही जो ऐसे तुच्छ फल बहुत खाता है, उसके बहुत रोग भी होते हैं । इसलिये इन सब तुच्छ फलोंका त्याग ही करना चाहिये ।

२१ चलित रस—सड़ा हुआ अन्न, बासी रोटी या पूरी, भात, दाल, साग, खिचड़ी, हलुआ, लपसी, भुंजिया, बर्फी, पेड़ा, ढोंकला, (दाल, और चावलके चूणका बना हुआ) आदि खानेकी चीजें एक रात बीत जानेपर बासी-हो जाती हैं-यही नहीं, सूर्यके अस्त होते ही उनके स्वाद, गन्ध, रस और स्पर्शमें परिवर्तन हो जाता है और वह “चलित रस” हो जानेसे अभक्ष्य पदार्थ हो जाते हैं । यदि बरसातके दिनोंमें बड़ी उत्तमरीतिसे मिठाई बनायी गई हो, तो उत्तम तो यही है कि उसे पन्द्रह दिनों-

तक काममें लाये, मध्यम यह है, कि २० दिन तक काममें लाये और लाचारी दर्जे एक महीने तक उसे खा सकते हैं। यदि बनानेमें ही कच्ची रह जाये, तो उस दिनकी बनी हुई उसी दिन अभक्ष्य हो जाती है। शास्त्रमें जितना समय दिया हुआ है, उसके बाद पदार्थके च-लित-रस हो जानेसे उसमें असंख्य दो इन्द्रियोंवाले जीव उपन्न हो जाते हैं। इसलिये श्रावकोंको चाहिये कि, बासी चीजे कभी न खायें। भोजनकी थालीमें जूठा भी नहीं छोड़ना चाहिये। बल्कि खानेके बाद थाली धोकर पी लेना चाहिये। यदि खानेसे बचा हुआ अन्न किसी जानवरको दे दिया जाये, तो और भी अच्छा है। दिनकी बनी चीजे सूर्यास्तके पहले खा लेनी चाहिये। रातकी बनी चीजे सवेरे खाना उचित नहीं। सवेरे सूर्यकी किरणें निकलनेके बाद चूल्हा जलाना और सूर्यास्त होते ही उसे बुझा देना चाहिये। अर्थात्

रातको कभी चूल्हा नहीं जलाना चाहिये ।

चलित रसके सम्बन्धमें अन्य सूचनाएं ।

१ आटा—विना छलनीमें चाला हुआ आटा पीसनेके बाद कुछ दिनोंतक मिश्र (यानी कुछ सचित्त और कुछ अचित्त) रहता है—इसके बाद वह अचित्त हो जाता है । सावन-भादोंमें विना चाला हुआ आटा पांच दिनोंतक मिश्र रहता है । आश्विन-कातिकमें चार दिन, मगसर-पूसमें ; ३ दिन ; माघ-फगुनमें पांच-पहर ; चैत्र-वैशाखमें चार पहर ; जेठ-असाढ़में तीन पहर । इसके बाद वह अचित्त हा जाता है । और जिस दिन आटा पोसा गया हो, उसी दिन चाल लिया गया हो तो सभी ऋतुओंमें उसी दिन अचित्त हो जाता है और दो घड़ी बाद मुनि महाराज भी उसे खा सकते हैं । अचित्त हो गये हुए आटेमें भी वर्ण, गन्ध, रसका परिवर्तन हो गया हो तो वह अभक्ष्य हो जाता है । अगर उसमें कीड़े पड़ गये हों, तो उसे चाल कर

भी नहीं खाना चाहिये । चौमासेके दिनोंमें आटा हर रोज दोनों वक्त चलना चाहिये और जाड़े गरमीमें एक वक्त । कारण नहीं चलनेसे उसमें जाली पड़ जाती है और वह अभक्ष्य हो जाता है । आटेको हरदम इस्तेमाल करनेके पहले चाल लेना चाहिये । गेहूं और चनेके आटेसे बाजरेका आटा बहुत जल्द बिगड़ता है । इस लिये उस पर ज्यादा खयाल रखना चाहिये । व्यापारी पुराना अन्न बेचा करते हैं । इस लिये पिसवानेके पहले अनाजको अच्छी तरह देख लेना चाहिये । नहीं तो कितनेही छोटे-छोटे जीवोंके भी पिस जानेका डर रहता है । चौमासेमें तो खास करके हर एक चीज़में कीड़े पड़ जानेका डर रहता है । इसलिये नाजको बराबर देखते रहना चाहिये, इन सब बातोंकी तरफ स्त्रियोंको पूरा खयाल देनेकी जरूरत है । इसमें उनकी बुद्धिमानी है । पहलेतो बड़े-बड़े घरोंकी स्त्रियां भी जीवदयाकी खातिर अपने घरके काम लायक आटा आपही

पीसलिया करती था; पर आजकलके ज़मानेमें तो इसमें अपनी हलकाई समझी जाती है ।

२ जलेबी—जिस तरिकेसे जलेबी बनायी जाती है, वह बहुतही ख़राब है । उससे बहुतसे जीवोंकी उत्पत्ति होनेका भय रहता है । मेदेको कई दिन्न रखे बिना और उसमें कुछ खटाई डाले बिना जलेबी फूलती नहीं है । इसलिये इसे तो कभी खाना ही नहीं चाहिये । बाज़ारकी तो और भी ख़राब होती है ।

३ हलवा---हलवा यदि जिस दिन बने उसी दिन खाया जाये, तो भक्ष्य है । नहीं तो अभक्ष्य है । वासि तो खाना ही नहीं चाहिये ।

४ इमरती—यह जलेबीकी सी होती है । पर इसमें वासी या खट्टी मैदानी काममें नहीं आती, अतएव जिस दिनकी बनी हो उस दिन खानेमें कोई हर्ज नहीं है । दूसरे दिन अभक्ष्य हो जाती है ।

५ मावा (खोया)—दूधका मावा जिस

दिनका बना हो उसी दिन भक्ष्य है । रातको अभक्ष्य हो जाता है । अगर वह घीमें भून लिया जाये तो रात-भर रह सकता है । उससे पेड़ा, बर्फी, गुलाबजामुन आदि मिठाई उसी दिन बनानी और सिर्फ ५ दिन तक खानी चाहिये । उसके बाद उसका रंग और स्वाद बिगड़ जाता है । कितने ही हलवाई मावेके साथ रतालू आदि कन्द मिला देते हैं । इस बातका ध्यान रखना चाहिये ।

६ मुरब्बा—आमका मुरब्बा जाड़ा, गरमी और बरसातके दिनोंमें जबतक उसका रंग, गन्ध, रस और स्पर्श नहीं बदले तबतक खाने योग्य है । जैसाकि आचारके प्रकरणमें लिखा है । अगर वैसीही सफ़ाई और सावधानीके साथ उसे रखा जाये तो ठीक है । मुरब्बेकी चाशनी अगर नरम हो, तो बिगड़ जाती है । पन्द्रह बीस दिनमें ही उसके मुरब्बेमें खराबी आ जाती है । इस लिये ऐसी चीजें बड़ी सावधानीसे बनानी चाहिये ।

चौमासेमें तो इन चीजोंको और भी देख-भाल करनेकी जरूरत है । मुरब्बेकी चाशनी नरम हो, तो थोड़े दिनमें मुरब्बा विगड़ जाता है । नरम चासनीके मुरब्बेमें पन्द्रह-वीस दिनमें ही काइसी जमने लगती है । भुआ उठने लगता है । मुरब्बे या आचारका बर्तन खुला रखनेसे भी खराब होनेका डर रहता है । इसके विपरीत मिठाई या गाँठिया वगैरह बन्द रहनेसे ही खराब हो जाते हैं । चौमासेमें तो हवा लगनेसे भी चीजें विगड़ने लगती हैं । इसलिये जो चीज जिस तरीकेसे रखने योग्य हो, वैसेही रखनी चाहिये ।

७ सेब, बड़ी, पापड़ आदि चीजें जाड़े-गर्मीमें सूर्योदय होनेपर ही बनानी और सूर्यके अस्त होनेके पहले ही सुखा लेनी चाहिये । नहीं तो वे बासी हो जाती हैं । चौमासेमें तो ऐसी चीजें बनाकर रखना ही ठीक नहीं, क्योंकि उनमें पीले रंगकी काइसी जम जाती और अनेक ब्रस जीव उत्पन्न हो जाते हैं । चौमासेमें बने हुए

दिनका बना हो उसो दिन भक्ष्य है । रातको अभक्ष्य हो जाता है । अगर वह घीमें भून लिया जाये तो रात-भर रह सकता है । उससे पेड़ा, बर्फी, गुलाबजामुन आदि मिठाई उसी दिन बनानी और सिर्फ ५ दिन तक खानी चाहिये । उसके बाद उसका रंग और स्वाद बिगड़ जाता है । कितने ही हलवाई भावेके साथ रतालू आदि कन्द मिला देते हैं । इस बातका ध्यान रखना चाहिये ।

६ मुरब्बा—आमका मुरब्बा जाड़ा, गरमी और बरसातके दिनोंमें जबतक उसका रंग, गन्ध, रस और स्पर्श नहीं बदले तबतक खाने योग्य है । जैसाकि आचारके प्रकरणमें लिखा है । अगर वैसीही सफाई और सावधानीके साथ उसे रखा जाये तो ठीक है । मुरब्बेकी चाशनी अगर नरम हो. तो बिगड़ जाती है । पन्द्रह बीस दिनमें ही उसके मुरब्बेमें खराबी आ जाती है । इस लिये ऐसी चीजें बड़ी सावधानीसे बनानी चाहिये ।

चौमासेमें तो इन चीजोंकी और भी देख-भाल करनेकी जरूरत है । मुरब्बेकी चाशनी नरम हो, तो थोड़े दिनमें मुरब्बा विगड़ जाता है । नरम चासनीके मुरब्बेमें पन्द्रह-बीस दिनमें ही काइंसी जमने लगती है । भुआ उठने लगता है । मुरब्बे या आचारका वर्तन खुला रखनेसे भी खराब होनेका डर रहता है । इसके विपरीत मिठाई या गाँठिया वगैरह बन्द रहनेसे ही खराब हो जाते हैं । चौमासेमें तो हवा लगनेसे भी चीजें विगड़ने लगती हैं । इसलिये जो चीज जिस तरीकेसे रखने योग्य हो, वैसेही रखनी चाहिये ।

७ सेव, बड़ी, पापड़ आदि चीजें जाड़े-गरमीमें सूर्योदय होनेपर ही बनानी और सूर्यके अस्त होनेके पहले ही सुखा लेनी चाहिये । नहीं तो वे बासी हो जाती हैं । चौमासेमें तो ऐसी चीजें बनाकर रखना ही ठीक नहीं, क्योंकि उनमें पीले रंगकी काइंसी जम जाती और अनेक त्रस जीव उत्पन्न हो जाते हैं । चौमासेमें बने हुए

पापड़ प्रतिदिन फेरफार कर देखते रहना चाहिये । भरसक तो इस ऋतुमें इन्हें काममें नहीं लानाही अच्छा है । ऐसी चीजें बनी रखी हो, तो आषाढ़ सुदी १५ के पहले ही खाडालना चाहिये और फिर कार्तिक सुदी १५ के बाद बनाना चाहिये । बाजारकी बनी हुई ये चीजें तो खानी ही नहीं चाहिये । श्राद्ध-विधिमें लिखा है, कि चौमासेमें सेव, बड़ी और पापड़ नहीं खाना चाहिये ।

८, दूधपाक—बसौंधी, खीर, सिखरन. दूध मलाई आदि चीजें दूसरे दिन बासी हो जाती हैं । इसलिये अभक्ष्य हो जाती हैं । रातको भी ये चीजें अभक्ष्य होती हैं । दही या दहीकी मलाईके विषयमें भी यही समझना चाहिये ।

९, आम—आद्रा-नक्षत्रके बाद आमका रस चलित होने लगता है, इसलिये आम अभक्ष्य हो जाता है । सड़े हुए, उतरे हुए, बदबूदार आम एक दम अभक्ष्य हैं । चूसकर खानेकी अपेक्षा रस निचोड़कर खाना ठीक है । यह रस भी

ज्यादा देरतक नहीं रखना चाहिये । यदि चार-छःया आठ घड़ीबाद खाना हो, तो ठंडे पानीके बर्तनमें रसवाला बर्तन रख देना चाहिये और ऐसी जगह रखना चाहिये, जहाँ गरमो न लगे । आद्रा-नक्षत्रके बाद तो आमका खाना छोड़ ही देना चाहिये ।

१०, पापड़ —सेकें हुए पापड़ दूसरे दिन वासि हो जाते हैं । घी या तेलके तले हुए पापड़ दूसरे दिन खासकते हैं ।

११, चटनी—धनिये और पुदीनेकी चटनीमें सेके हुए चने या गाँठिया आदि डाल कर जो चटपटेदार चटनी बनायी जाती है । वह जिस दिन बने उसी दिन भक्ष्य है । दूसरे दिन नहीं । नीबू, करौंदी, धनीया, पुदीना आदि चीजोंकी चटनीमें यदि किसी तरहका अनाज न पड़े तो भक्ष्य है । भरसक तो चटनी रोज ही ताजी बना कर खानी चाहिये ।

१२, मसाला—आटे या मैथीके साथ बनाया

हुआ मसाला दूसरेही दिन अभक्ष्य हो जाता है ।

१३, पकवान—पकवान या मिठाइका जब तक रूप रस या गन्ध नहीं बिगड़े तबतक भक्ष्य रहते हैं । बरसातके दिनोंमें उत्तम रीतिसे बनायी हुई मिठाइ पन्द्रह दिन गरमीमें २० दिन तथा जाड़ेमें एक महीने तक भक्ष्य रहती है । हलवाईकी दूकानकी मिठाइका समय यह नहीं हो सकता; क्योंकि इसका कोई ठीक नहीं रहता कि उसने कब मिठाई बनायी । अगर वर्ण, गन्ध, रसमें फर्क पड़ जाये तो इस समयके पहले ही अभक्ष्य हो जाती है । दूकानकी मिठाईमें बहुतेरे दोष हैं । इसलिये जहाँतक होसके घरपरही बनवानी चाहिये । बरसातमें तो भूलकर भी हलवाईकी दूकानकी मिठाई नहीं खानी चाहिये ।

१४, वेसनकी चोजें—सेव, गाँठिया, बुंदिया दालमोठ आदि वेसनकी चोजोंका समय मिठाईके हो समान जानना । भुजिया, कचौरी, पूरी, मालपुआ आदि नरम चोजें तो दूसरे ही दिन वासी हो जाती हैं । इसलिये अभक्ष्य हैं ।

१५, चूरमेका लड्डू—यदि तला हुआ न हो तो दूसरे दिन बासी हो जाता है, नहीं; तो दूसरे तीसरे दिन भी खा सकते हैं। बहुतसे लोग चूरमे के लड्डू या अन्य मिठाइयोंमें तिल डालते हैं। तिल अभक्ष्य है इसलिये उसका त्याग करना चाहिये ।

१६, रसोई—गरमीके दिनोंमें सबेरेकी रसोई, (दाल, भात, आदि) शामको स्वाद हीन (चलित—रस) हो जाती है, इसलिये अभक्ष्य है। रोटी—पूरी भी बड़ी हिफाजतसे रखना चाहिये ।

१७, भात—रींघे हुए भातपर यदि दही या छाँछुके छीटे डाले जाये तो वह आठ पहर तक भक्ष्य रहता है; पर सबेरेका पकाया हुआ भात इसी तरह दहीके छीटे डाल कर रखा गया हो, तो सिर्फ उसी दिन तक भक्ष्य रहता है—सूर्यास्तके बाद वह काम लायक नहीं रहता ।

१८, दही—सबेरेका जमाया हुआ दही

सोलह पहर तक काम लायक रहता है । इसके बाद अभक्ष्य हो जाता है । साँझका जमाया हुआ दही १२ पहर बाद अभक्ष्य हो जाता है । इसका हिसाब यों लगाना चाहिये, कि रविवारको दिनमें दस बजे दही जमाया जाये तो उस समयसे नहीं, बल्कि सूर्योदयसे ही समयकी गिनती होगी । वह दही मंगल वारके सूर्योदय के पहले—पहल खालेना चाहिये । इसके बाद उस दहीके छाँछका सोलह पहर समय गिना जायेगा । दूधका यदि रंग बगैरह न पलट गया हो, तो वह चार पहर तक पीने योग्य होता है । दोपहर या संध्याके बाद दुहा हुआ दूध हो, तो उसमें रातके बारह बजेके पहले-पहल जोरन (मेलन) डाल देना चाहिये ।

बाजारका दही नहीं खाना चाहिये; क्योंकि बाजारके वर्त्तन-बासनका कोई ठिकाना नहीं रहता—कभी-कभी तो उसमें मरे हुए कीड़े भी मिलते हैं । काँजीका काल भी १६, पहरका

है । इस प्रकार दूध, दही, छाँहु मट्टुका जो समय कहा गया है । उसके पहले भी यदि उनका रूप, रस, गन्ध विगड़ जाये तो उन्हें अभक्ष्य जानना चाहिये ।

१६, दूध — दूध चार पहर तक भक्ष्य रहता है; पर साँभका दुहा हुआ दूध आधी रातके पहले ही इस्तेमालमें आजाना चाहिये । कभी-कभी गरमीके दिनोंमें कड़ी गरमीमें, बड़ी देर तक बिना गरम किये छोड़ देनेसे विगड़ जाता है; पर उसे दही समझ कर काममें नहीं लाना चाहिये; क्यों कि उस दूधका वर्णादिक पलट जानेसे वह अभक्ष्य हो जाता है । आजकल बहुत से दूध बेचनेवाले रातको दूध खूब गरम करके उसमेंसे मलाई निकाल लेते हैं । और उसमें अरारोट मिलाकर सवेरे ताजा दूध कहकर उसी को बेचते हैं । इसका पूरा खयाल रखना ।

विगड़े हुए या वासी दूधका दही, खीर, बसौंधी, मलाई, खोआ आदि नहीं खाना चाहि-

ये । जहाँतक हो सके, तुरतका दुहा हुआ दूध झटपट गरम कर लेना चाहिये, नहीं तो उसके विगड़नेका डर रहता है । बिना छाने दूध नहीं पीना चाहिये । जैनशास्त्रोंमें इन ७ चीजोंका छान लेना बहुत जरूरी बताया गया है ।

(१) मीठा पानी (२) खारा पानी (३) गरम-पानी (४) दूध (५) घी (६) तेल और (७) आटा ।

दुध बेचने वाले अकसर दूधमें पानी मिला देते हैं । उन्हें इसका विचार नहीं रहता, कि उस पानीमें कीड़े हैं या बाल हैं या वह पानी छना हुआ है या नहीं ।

गाय, भैंस, बकरी और भेड़का दूध तो ग्रहण करने योग्य है और किसी जानवरका नहीं । जो दूध जल्द विगड़ जाता है, वह रोग उत्पन्न करता है ।

२०, घी—घीका रूप, रस, गन्ध, स्पर्श विगड़ जाय, तो वह अभक्ष्य हो जाता है । बहुत दिनका रखा हुआ घी भी विगड़ जाता है ।

आज कल बहुतसे बेईमान घीके व्यापारी चर्बी, रतालू आदि मिला कर घी बेचते हैं । इधर कई दिनोंसे तो “वनस्पति-घृत”के नामसे एक प्रकारका विलायती घी बिकने लगा है । यह सब अभक्ष्य है । इसकी ओर सबको ध्यान देना चाहिये । घी बनानेवाले यदि मक्खनसे घी निकाल कर तुरत आग पर रख गरम कर लिया करें तो ठीक है’ नहीं तो अक्सर देखा जाता है, कि वे दो-चार या पाँच-सात दिनका इकट्ठा हुआ मक्खन लेकर घी बनाते हैं । जिनके घरमें गाय भैंस हो, उन्हें तो अपने घर घी तैयार करनेकी चेष्टा करनी चाहिये ।

२१—बलि—हालकी व्यायी हुई गाय-भैंसके तुरत दुहे हुए दूधकी बलि बनती है । व्यायी हुई गायका दूध १० दिन, भैंसका १५ दिन, बकरीका ८ दिन तक ग्रहण करने योग्य नहीं है ।

२२—खट्टी पकौड़ी—जो चाँवल, उरद या चनेकी दालकी दहीमें पकौड़ी बनायी

है । वह रातकी बनायी हुई अभक्ष्य होती है । सूर्योदयके बाद बनानी और सूर्यास्तके पहले ही खालेनी चाहिये । रोटी, पूरी, दाल, कढ़ी, भुजिया, पकौड़ी या बिना दही छिड़का हुआ भात आदि चीजें बासी होने पर बिलकुल खराब हो जाती हैं । इनके खानेसे अनेक जीवोंके विनाशका भय रहता है, शरीरमें बहुतसे रोग पैदा होते हैं, प्रभुकी आज्ञाका भी उल्लंघन होता है । इसलिये हमको हरएक चाज तुरतकी ताजीही खानी चाहिये । बहुतसी जगह यह रिवाज है, कि शीतलाष्टमीके दिन चूल्हा नहीं जलाते और रातकी बनी हुई चीजें दूसरे दिन सवेरे और शामको खाते हैं । यह बिलकुल मिथ्यात्व है । इसे छोड़ देना चाहिये ।

२३ दही-बड़े—अगर गरम दहीमें बनाये हों, तो उसी दिन भक्ष्य हैं । कच्चे दहीके बड़े अभक्ष्य हैं ।

२४, खाखरा—गुजरात आदि प्रान्तोंमें

गेहूँका खाखरा बना कर सुखा कर रख लिया जाता है और लोग उसे पाँच-सात या अधिक दिनतक खाते रहते हैं । अक्सर लोग उसी बरतनमें ऊपरसे भी खाखरा बना बना कर रखते जाते हैं । ऐसा करना उचित नहीं जिस बरतनमें रखते हैं, उसे तो हरदम साफ़ ही रखना चाहिये नहीं तो उसमें कितने ही ब्रस जीवोंके पैदा हो जानेका डर रहता है ।

२५—पापड़की लोई, बड़ा, मीठी पूरी—
उरद, मूँग आदिके बड़े या मीठी पूरी, मुलायम रोटी सवेरेकी बनी हुई हो, तो चार पहर तक खाने योग्य रहती है ।

२६ जुगलीराव—ज्वार या मक्काके आदेको छाँछमें रींध कर जो 'राव' बनायी जाती है उस जुगली रावका समय १२ पहरका है । इसके उपरान्त वह अभक्ष्य हो जाती है । अन्न कम और छाँछ ज्यादा हो तो जुगली राव और छाँछ कम तथा अन्न ज्यादा हो तो 'घाट' कहलाती है । इसका समय ८ पहर है ।

२७ रायता—केला, दाख, खजूर, छुहारे आदिका रायता बनाते हैं । इसका समय १६ पहरका कहा गया है । यदि इसे विदलके साथ खाना हो, तो खूब गरम करके दही डालना चाहिये । सेव, गाँठियाँ, बुंदिया आदि डाल कर रायता बनाना हो तो पहले दही गरम करके तब इन विदल पदार्थोंको मिलाना चाहिये । यह रायता शाम तक खाने योग्य है ।

२८ भूना हुआ अन्न-चावल, चना, मटर, मक्का आदिको भून कर चबेना बनाते हैं । इसका काल-प्रमाण भंजिया, पूरी, चूरमेके लड्डू आदिके समान है । इसे चौमासेमें १५ दिन, जाड़ेमें १ महीना और गरमीमें २० दिन जानना ।

२९ ढुंढणिया-यह काठियावाड़में बनती है । ज्वार-बजरेमें पानी डालते और कूटते हैं । इसके बाद उसे सुखाकर भूसी अलग कर देते हैं । उसका समय वर्षामें १५ दिन, जाड़ेमें १ महीना और गरमीमें २० दिन ।

३२ वत्तीस अनन्तकाय ।

सभा अनन्तकाय अभक्ष्य हैं; क्योंकि एक सुईकी नोक बराबर जगहमें कन्द-मूलोंकी कलीमें अनन्त जीव रहते हैं। अतएव श्रावकोंको उचित है कि अनन्तकायसे परहेज करें। एक जिह्वाके स्वादके लिये अनन्त जीवोंकी हानि करना बहुत ही बुरा है। अनन्तकायका सर्वथा त्याग करनेसे अनन्त जीवोंका अभयदान देनेका फल मिलता है। क्या अभक्ष्य-भक्षण किये बिना हमारा निर्वाह नहीं हो सकता? क्या और वनस्पतियोंका अकाल पड़ गया है? जो लोग प्राण जाये, तो जाये, पर अभक्ष्य पदार्थ नहीं खाते, वे धन्य हैं। जो अपने बुरे कर्मोंके वशमें पड़ कर जानबूझ कर अंखिं वन्द किये हुए, परभवका लेश-मात्र भी भय न मान कर अदरक, मूली और गाजर आदि चीजें खाते हैं, उन पापियोंकी न जाने क्या गति होगी? मनुष्यत्वके साथ जैन-धर्मका पालन कर अपना यह भव सफल करो और अन्तमें शिव-सुखके भागी बनो। हे भव्य-पुरुषों! भगवान् दीर्थाङ्कुर महाराजने जो २२ अभक्ष्य पदार्थ बतलाये हैं, उनका शीघ्रतासे त्याग कर, श्रावक नामको सार्थक कर, सच्चे जैन बनो।

वत्तीस अनन्तकायोंके नाम ।

१. भूमिके मध्यमें जो कन्द उत्पन्न होते हैं, वे सब तरहके कन्द । २—कच्ची हल्दी । ३—कच्ची अदरक । ४—सूरन । ५—लहसुन । ६—कच्चू । ७—सतावर । ८—विदारीकन्द । ९—घीकुआर । १०—धुहरीकन्द । ११—गिलोय । १२—प्याज़ ।

१३—करैला । १४—लोना साग । १५—गाजर । १६—लोढ़ीपत्र-
का कन्द । १७—गिरिकर्णो—(यह काठियावाड़में अंचारके
काममें आती है, कच्छ देशमें इसकी पैदाइश बहुतायतसे है) ।

१८—किसलय (कोमलपत्र) सभी प्रकारके वृक्षके हरे और
नये पत्ते तथा वनस्पतियोंके उगनेके समयका अंकुर अनन्तकाय
जानना चाहिये । यदि ज़रूरत हो, तो मोटे पत्ते लेने चाहिये ।

१९—खीरसुआकन्द (कसेरू) २०—थेगकन्द । २१—मोथा ।

२२—लोन-वृक्षकी छाल । २३—खिलोड़ कन्द । २४—अमृतवेली ।

२५—मूली (देशी विदेशी)—मूलीके पाँचों अङ्ग अभक्ष्य हैं

(१) मूलीका कन्द (२) डाल (३) फूल (४) फल (५) बीज ये
पाँचों ही अभक्ष्य हैं । इनमें बहुतसे त्रस-जीव उत्पन्न होते हैं ।

२६—भुईफोड़—यह बरसातके दिनोंमें छत्रके आकारमें उत्पन्न
होता है ।

२७—बथुएका साग ।

२८—बरुहा—जिसमें विदल धान्यकी तरह अङ्कुर निकल
आया हो । रातको जो दाल पानीमें छोड़ी गयी हो और उसमें
अङ्कुर निकल आये हो, वह अभक्ष्य है । जो अन्न पानीमें फुलाया
जाये वह सवेरे ही फुलाना चाहिये और थोड़े ही देर पानीमें रखना
चाहिये । मतलब यह कि अङ्कुर नहीं फुटना चाहिये । अगर अन्नको
उवाला जाये, तो अङ्कुर निकलनेका भय नहीं रहता ।

२९—पालकका साग । ३०—सुअरवल्ली (जंगली लता)

३१—कोमल इमली, जिसमें बीज न हों, वर्जित है ।

३२—आलू कन्द तथा रतालू, पिण्डालू, शकरकन्द, धोघात

को, करे, करीर आदि वनस्पतीयोंके अङ्कुर अनन्तकाय कहे जाते हैं । टिंडेका कामल फल, वरुण-वृक्ष, बड़ा नीम आदिको भी अनन्तकाय जानना (अङ्कुरावस्थामें) ।

इस प्रकार अनन्तकायके ३२ नाम गिनाये गये हैं । प्रसिद्ध तो इतने ही हैं, विशेष नाम तो अनेक हैं । किसी वनस्पतिके पांचों अङ्ग, किसीकी, जड़, किसीका पत्ता, फूल, छाल, या काठि अनन्त काय होता है । किसीका एक, किसीके दो, किसीके तीन, किसीके चार और किसीके पांचों अङ्ग अनन्तकाय होते हैं । जिस वनस्पतिके पत्ते, फल आदिकी नस या सन्धि मालूम न पड़े, गांठ गुप्त हो, तुरत टूटजाये, तोड़ते ही पिचक जाये, पत्ता मोटे दलका और चिकना हो, जिसके फल और पत्ते बड़े कोमल हों उसको अनन्तकाय जानना । यह सब लक्षण एक ही में हों, यह सम्भव नहीं है । कोईका साग भी अनन्तकाय कहा गया है ।

अनन्तकायके सम्बन्धमें जानने योग्य बातें ।

१—कितने ही धूर्त दूकानदार दूध, छोये और घीमें रतालू या शकरकन्द पीस कर मिला देने हैं । इसके वारेमें पूरा ध्यान रखना चाहिये ।

२—गोली अदरक या कच्ची हल्दीके स्थानमें साँठ या सूखी हुई हलदी खानेके काममें लानी चाहिये । इनके सिवा और किसी अनन्तकायका सुखौंता भी काममें नहीं लाना चाहिये । इनका अँचार भी वर्जनीय है । गाजरका सुखौंता या अँचार तथा घीकु-वार, कच्ची हल्दी, अदरक, गिरोकर्णों आदिका अँचार सर्वथा अभक्ष्य है ।

३ दूकानदार अपने यहाँ लहसुन, प्याज़ वगैरह अशुद्ध चीज़ें भी रखते हैं । बाजारकी चटनीमें तो प्रायः लहसुन मिला होता है । साथही वे बासी चीज़ें भी गरम करके ताजीके समान वेंचते हैं । अतएव बाजारू चीज़ोंके खानेमें कई तरहके दोष हैं । जिस कढ़ाई या तेलमें लहसुन प्याज तले गये हैं, उसमें फिर कोई चीज़ नहीं तली जानी चाहिये । कितने ही लोग दालमें अदरक छोड़ते हैं कितने ही लहसुन-प्याज़से वधारते हैं, कभी कभी लोग दाल या कढ़ीमें हरी इमलो डाल देते हैं । इनकी ओर विशेष ध्यान देना चाहिये छुआ-छूतका भी विचार रखना उचित है । अनजानकी बात दूसरी है; पर जान बूझ कर दोष करना ठीक नहीं है ।

४ मेथी पालक वगैरहके सागोंमें भुआ और लोनीका साग जो अनन्तकाय है, मिले तो उसे निकाल देना चाहिये । अनजाने की बात और है ।

एक और ग्रन्थमें ये नीचे लिखे वाईस पदार्थ अभक्ष्य वतलाये गये हैं—

(१) गूलर (२) प्लक्ष (३) काकोदुम्बरी (४) वड़ (५) पीपल (इस किस्मके पांच फल); (६) मांस, (७) मदिरा, (८) मक्खन और मश्रु (ये चारों महा विहृत या महाविगई कहे जाते हैं।) (९) अनजाने फल (१०) अनजाने फूल (११) हिम (बर्फ) (१२) विष (१३) ओले (१४) सच्चिच्चभिटी (१५) रात्रि-भोजन (१६) दही-बड़े आदि जो कच्चे दही-दूधमें नाजकी बनी चीज़ें डाल कर बनाये जायें (१७) वैगन (१८) पोश्ता (१९) सिघाड़ (यद्यपि अनन्तकाय नहीं है तथापि काम वृद्धि करता है, इस लिये वर्जित है) (२०) छोटे वैगन और (२१) कायंवानी । २२ खस खसके दाड़े ।

पहले कहे हुए २२ अभक्ष्योंके साथ इस ग्रन्थोंमें ११, १८, २०, २१ और २२ नम्बर वाले अभक्ष्य विशेष हैं, इनका भी त्याग करना चाहिये ।

अभक्ष्य अनन्तकाय दूसरेके घर, अचित्त किया हुआ हो; तो भी नहीं खाना चाहिये; क्योंकि एक तो दोष लगे और दूसरे व्यसन पड़ जाये । सोंठ तथा हल्दी नाम तथा स्वादका पेर होने से अभक्ष्य नहीं रह जाते । इन अभक्ष्योंमें भाँग, अफीम आदिकी जिन्हें लत लगी हुई है, उनको चाहिये, कि उसकी नाप-तौल ठीक रखे । रात्रि भोजनके वारेमें चौविहार तिविहार या दुविहारका नियम ले लीजिये, कि एक महीनेमें इतना करेंगे । यदि रोगके कारण दवाके तौर पर कोई अभक्ष्य पदार्थ खाना पड़े तो उसका नाम, समय और वजन भलीभाँति समझ लेना चाहिये । यदि कभी कोई चीज अनजानतेमें खा ली जाये, तो उससे व्रतका भङ्ग नहीं होता ।

श्रावकोंको अन्य मतोंके मानने वालों या जाति विरादरी वालोंके यहाँ जीमने जाना पड़े, तो बहुत समझ-बुझ कर जीमना चाहिये; क्योंकि उनके यहाँ २२ अभक्ष्य और ३२ अनन्तकायमेंसे कुछका दोष तो अवश्य ही लग जानेका डर रहता है । इसीसे जहाँ तक वन पड़े, बहुत कम आदमियोंसे जान-पहचान रखे, वहीं तक अच्छा है । खास कर द्वादशव्रतधारी तथा विरति-व्रत-घालोंको तो ऐसी जगहोंमें जाकर जीमना ही नहीं चाहिये ।

उधर जो वार्डस अभक्ष्योंका वर्णन किया गया है, उसको भलीभाँति समझनेकी चेष्टा करनी चाहिये । स्वयं भगवान्ते उनके

भोजनका निषेध किया है, इसलिये उनकी आज्ञाका अवश्य ही पालन करना चाहिये । हमलोग पूजाके समय सबसे पहले माथेमें जो तिलक लगाते हैं, उसका आशय यही है, कि हम प्रतिज्ञा करते हैं, कि हे भगवन् ! हम आपकी आज्ञाएँ अपने शिर पर चढ़ाते हैं । इसलिये नित्य ही भगवानकी आज्ञाका पालन करना तथा इस प्रतिज्ञाके चिह्न-स्वरूप तिलक लगाना चाहिये ।

इन अभक्ष्य पदार्थोंका वर्जन करके हम असंख्य जीवोंको अभयदान देनेका पुण्य प्राप्त कर सकते हैं । शास्त्रोंमें लिखा है, कि एक जीवको अमय देना सुवर्णके सुमेरुपर्वतका दान करनेके बराबर है । फिर जो असंख्य जीवोंको अभयदान करते हैं, उनके पुण्यका क्या ठिकाना है ? इसलिये हे चतुर और सुज्ञ बन्धुओ ! आप लोग भगवानके वचनोंका आदर कीजिये ; क्योंकि यही मोक्षका द्वार है । जो यह कहते हैं, कि खाना, पीना, मौज करना ही जीवनका मूल-मन्त्र है, वे पापी और मूर्ख हैं । जो लोग शरीरको दुःखोंकी आँचसे तपाकर महाफलकी प्राप्ति करनेमें लग जाते हैं, वेही शीघ्र मोक्षके अधिकारी होते हैं ।

विशेष सूचनाएँ ।

बाईस अभक्ष्योंके सिवा और भी कितनी ही चीजें अभक्ष्य हैं । हम नीचे उनका हाल और कब कौन चीज़ भक्ष्य या अभक्ष्य है, उसका वर्णन लिखते हैं ।

१—फागुन सुदी १५ से कातिक सुदी १५ तक दोनों तरहके खजूर, दोनों तरहके तिल, पोस्ता, खारेक, काजू वगैरह मेवे तथा सब तरहकी पत्तोंकी भाजी अभक्ष्य है । फागुनका चौमासा

लगनेके पहले ही तिलका तेल पेरवाकर रख लेना चाहिये ; क्योंकि तिलमें बहुतसे त्रस जीवोंकी उत्पत्ति होती है, इसलिये ८ महीने पहलेसे ही तेल भर कर रख लेना चाहिये । तिल-शकरी, तिलके लड्डू और रेवड़ियाँ नहीं खानी चाहिये । पोस्ता बहुशीज है, इसलिये इसका खाना सर्वथा वर्जित है । जिस चीजमें पोस्ताके दाने पड़े हों, वह सब तरहसे श्रावकोंके लिये अभक्ष्य है । अक्सर लोक चूरमेके लड्डू घुघुरी आदि मिठाइयोंमें पोस्ताके दाने डालते हैं, इस बातका पूरा-पूरा खयाल रखना चाहिये ।

होलीके दिनसे ऋतु बदलने लगती है, इसलिये अनेक चीजोंमें त्रस जीव उत्पन्न होते हैं । इसलिये इस समय मक्ष्याभक्ष्यका पूरा विचार रखना चाहिये ।

काजू, अंगुर और सूखे अज्जीर आदिमें जीव पड़नेका सम्भव रहता है । अतएव ये अभक्ष्य हैं । ये चीजे जाड़ेके दिनमें ही खानेकी हैं, अतः ८ महीनेतक (कातिक सुदी १५ तक) इनका व्यवहार न कर, उसके बाद करना चाहिये ।

जो शाग-भाजी या पत्ते आदि तरकारो या आचारके लिये रखे जाते हैं, वे आठ महीने बाद अभक्ष्य हो जाते हैं; क्योंकि नव महीनेमें उनमें त्रस जीव उत्पन्न होने लगते हैं ।

जो लोग आठ महीने भाजी या पत्ते नहीं खाते, वे पानके पत्ते भी नहीं खा सकते और फढ़ीमें मीठे नीचूका रस भी नहीं डाल सकते, यह बात ध्यानमें रखनी चाहिये ।

२—असाढ़ चौमासेसे कातिक चौमासे तक सूखे मेवे, जैसे, बदाम, पिस्ता, चिरौंजी, किशमिश, दाल, अखरोट, कुंकणी

जरदालू, अंजीर, मूंगफली, सूखे नारियलकी गिरी, सुखी रायण, कच्ची खांड, सूखे अंगूर आदि अभक्ष्य हैं। कारण उनमें तद्वर्ण जीव होते हैं, कुन्धू आदि त्रस जीव पड़ जाते हैं और भुआ या काई जम जाती है। ताजे तोड़े हुए बदाम, पिस्ता, पानीवाला नारियल उसी दिन काममें ला सकते हैं। जो बदाम या पिस्तेकी मींगी बाजारमें बिकती है, वह नहीं खानी चाहिये। एक दिनका फोड़ा हुआ नारियल, जिसका पानी निकाल लिया गया है, दूसरे दिन तक खा सकते हैं अगर उसका रंग बदल नहीं गया हो। कितने ही सूखे मेवे फागुनमें भी अभक्ष्य माने जाते हैं। वात भी ठीक मालूम होती है; क्योंकि प्रायः देखा जाता है, कि चैत-वैशाखके दिनोंमें काली दाखमें कीड़े पड़ जाते हैं। इसी प्रकार जरदालू, अंजीर वगैरह पदार्थोंमें भी जीवोत्पत्ति हो जाती है, जिससे वे अभक्ष्य समझने चाहिये। बहुतसे व्यापारी गत वर्षकी दाख, अंजीर, बदाम, पोस्ता, चिरोँजी आदि मेवे बेचते हैं। खरीदते समय इनके विषयमें पूरी सन्धान रखनी चाहिये। जहाँ तक हो सके, ताजे माल ही खरीदने चाहिये। नहीं तो जाने-पहचाने हुए व्यापारीके यहाँसे ही मंगवाना चाहिये। नौकर चाकरोंके हाथसे मंगवानेमें तो अकसर धोखा ही होता है।

३—चौमासेमें (असाढ़ सुदी १५ से कातिक सुदी १५ तक सूखे हुए सागका * सुखोँता तो सर्वथा त्याग ही करना चाहिये ।

* आज कलके समयमें प्रायः सब तरहके सागोंको सुखोँता बमानेकी जो हो रही है, वह सर्वथा त्याग करने योग्य है। यह कोई शास्त्रीय विधान

कारण, उसमें त्रस जीव पैदा हो जाते हैं। गरमीमें भी सुखौंता बड़ी हिफाजतसे रखना चाहिये, नहीं तो कीड़े पड़ जाते हैं। चौमासेमें तो इसका ख़ास कर त्याग करना चाहिये।

४—चबेना—चावल, गेहूँ वाजरा, ज्वार, मक्का, चना आदिका भुना हुआ चबेना कभी नहीं खाना; क्योंकि इस प्रकार भुने हुए अन्नमें बहुतसे जीवोंके विनाशका भय रहता है।

५—किसी भी वनस्पतिका भर्त्ता घनाकर नहीं खाना चाहिये

६—पान—इसके खानेसे बहुतसे त्रस जीवोंके नाशका भय है। इसलिये पान नहीं खाना। ब्रह्मचारियोंके लिये तो यह और भी बुरा है। जिनको पान खानेकी आदत लग गयी है, उनको भी फमी करनी चाहिये।

७—चक्रीका आटा—अजकल बड़े-बड़े शहरोंमें विदेशी चक्रीका आटा विकता और बाहर भी चालान होता है। कितने दिन बाद भी यह आटा विकता रहता है, अतएव इसमें बहुतसे जीव पैदा हो जाते हैं। अतएव इसका व्यवहार नहीं करना चाहिये। जिस घरमें इस आटेकी चीजे बनी हों, वहाँ खाने नहीं जाना चाहिये। इस आटे या मेदेकी बनी मिठाई, पुरी, कचौरी, नानखताहो विसकुट्ट, आदिका त्याग करना ही उचित है।

नहीं है। केवल लोगोंने अपने आरामके लिये ही यह प्रथा जारी कर रखी है। मारवाड़ बीकानेरकी ओरके श्रावकोंने तो जसो कदके छलौंतेको भी खानेकी प्रथा चला रखी है। यह तो और भी खराब है। हमारे खयालमें तो किसी सागका सुखौंता बसाना ही नहीं चाहिये। इसमें अनेक तरहके दोष हैं।

८—मीठा काजू—हलवाई जो मीठा काजू बनाता है, उसको बिना देखे माल बना डालता है, इसलिये उसमें त्रस-जीव होनेकी शङ्का रहती है। इसलिये उसे नहीं खाना चाहिये। यदि खानेकी इच्छा हो तो घरमें बना लो और काजुका छिलका अलग करके भलीभाँति देख लो कि कोई जीव तो नहीं है।

९—विलायती दूध—विलायतसे डिब्बेमें भरे हुए नैसलस मिल्क, 'मिल्कमेड मिल्क' आदि दस-बारह तरहके बनावटी दूध आते हैं, जो मुसाफिरीमें दूधके बदले चायमें डाले जा सकते हैं; परन्तु ये सब तथा शीशेमें बन्द करके आनेवाले आचार, मुख्वे, गुलकन्द और विलायत विस्कुट आदि वस्तुएं अभक्ष्य हैं। इसलिये इन सबका त्याग कर देना चाहिये। आजकल हमारे देशमें इतना रोग-शोक इन्हीं सब अभक्ष्य पदार्थोंके खानेसे बढ़ गया है।

१०—सोडा, लोमोनेट, जिञ्जर, राजवेरी, पिक-मी-अप, विल्कास, एलट्रोनिक, कोल्ड-ड्रिङ्क, कोल्ड क्रीम, जिञ्जरेल-लाइम, लीथियो, मरीक, चेरी सीडर, चैम्पियन सीडर, क्विन्ताइन, टौनिक, क्रीम सोडा आदि कितनी ही चीज़ें बोटलमें बन्द करके आती हैं। इनका व्यवहार करना ठीक नहीं है। इसका कारण यह है कि इन बोटलोंको मुसलमान, पारसी, आदि सभी मुंहमें लगाते हैं—फिर उन्हें अपने मुंहसे लगाना धर्म भ्रष्ट होना नहीं तो और क्या है? फिर ये न जाने कितने दिनोंकी भरी-भरायी दूकानोंमें धरी रहती हैं। आजकलके अंग्रेजी पढ़े जैन-युवकोंको इस भ्रष्टकारी आदतसे बचना चाहिये।

११—बीड़ी, हुक्का, चिलम, चुड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, गाँजा, चरस, माजून, अफ़ोम, कुसुम्बी, भाँग आदि नशेकी चीजें काममें लाना बुरा है । जीवहिंसा, अनर्थाका कारण तथा पैसेकी फ़िज़ूल खर्चीके सिवा इससे और कोई फ़ायदा नहीं है । जिसे नशेकी लत लग जाती है, उसे तो जिस दिन नशा नहीं मिले, उस दिन जान जानेकी नौबत आ जाती है । अन्तमें क्षयरोग हो जाता है और किसी-किसीकी तो नशेकी ही हालतमें जान चली जाती है । इससे अग्नि, वायु तथा अन्य त्रस जीवोंकी हिंसा होती है, इसलिये इन सब व्यसनोको छोड़ देना चाहिये ।

१२—विलायती दवाएँ भी अभक्ष्य हैं । उचित तो यह है कि आदमी रोगका कारण ही पैदा न होने दे । यदि आत्मा बलवान हो, तो क्या नहीं कर सकती ? यह स्वर्ग प्राप्त कर सकती है, सिद्धि-सौध (मोक्ष-पद) को भी प्राप्त कर सकती है । कितने ही लोग तो बड़े शौकसे विलायती दवाएँ पिया करते हैं, यह बहुत बुरी आदत है । प्रत्यक्ष अनाचार है ।

१३—गुड़में जीवकी उत्पत्ति होती है । कितने ही बेईमान व्यापारी नफेके लिये गुड़में चनेका बेशन, खारा या मिट्टी मिला देते हैं । इस लिये खूब परीक्षा करके गुड़ लेना और खाना चाहिये ।

१४—विदेशी खाँड़ बहुत ही अशुद्ध पदार्थासे स्पाफ़ की जाती है, इस लिये उसका व्यवहार करनेसे धर्म भ्रष्ट होता है और रोग भी होता है । इसीसे लोग काशी आदिकी चीनी काममें लाने लगे

हैं, पर इसमें भी वेईमानी चल गयी है। परदेशी चीनी स्वदेशी कहकर बेची जाती है। इसलिये जानो हुई जगहसे ही चीनी लेनी चाहिये, जहाँ इस तरहकी मिलावट नहीं की जाती हो। इसी प्रकार विदेशी नमक, विदेशी केशर भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिये।

१५—खडी दाल—किसी तरहकी दालका अनाज विना दोनों दाल अलग किये नहीं खानी चाहिये।

१६—दिल्लीका हिन्दू-विस्कुट-दिल्ली, पूना, बड़ौदा आदि स्थानोंमें जो विस्कुट तैयार होते हैं, उन्हें हमारे कितने ही भारी काममें लाते हैं; परन्तु पहले तो उनके बनानेमें विलायती मैदा काममें लायी जाती है और दूसरे दो-दो तीन-तीन दिन तक पानी में फूलती रहती है, इसके बाद उसके विस्कुट बनाये जाते हैं। इससे असंख्य संमूर्च्छिम और द्वीरन्द्रियादिक जीवोंकी उत्पत्ति होती है और उनकी हिंसा होती है। कहीं-कहीं तो विस्कुट तैयार करनेमें चरबी भी काममें लायी जाती है, इसलिये विस्कुट सर्वथा त्याग देने योग्य हैं। नानखाखताईमें भी विलायती मैदा काममें लायी जाती है, इससे वह भी त्याग देना चाहिये।

१७—टूथ-पाउडर और टूथ ब्रश (दांतका मंजन और कूची) विलायतसे जो दन्तमंजन आता है, उसे काममें लाना ठीक नहीं न मालूम उसमें कौनसा भक्ष्याभक्ष्य पदार्थ पड़ा होता है। यदि मंजन ही लगाना हो तो बदामके छोकलेको जला कर उसकी चुकनीके साथ कपूर, बरस, सड़िया, हरड़, बहेड़ा, आंबला, अनारकी छाल, गेरू, कल्या, मोचरस, हीराकसीस, छोटी हरे,

अनारके सूखे हुए फूल, माजूफल, कवावचीनी आदि गुणकारी वस्तुओंको मिलाकर दाँतका बढ़िया मञ्जन तैयार किया जा सकता है । इसके अलावा जानवरोंकी हड्डीके बने हुए ब्रूश भी काममें लाना उचित नहीं हैं ।

१८—होटल—होटल, विश्रामगृह, भोजनालय, ब्राह्मणोका-चासा आदि नामोंसे कितने ही होटल नगरोंमें खुले हुए हैं । जिससे पूछो वही कहेगा, कि शुद्ध ब्राह्मणोंके हाथकी शुद्ध वस्तुएँ वहीं उसीके पास मिलती हैं; पर न तो उन सभीकी जात-पाँतका कुछ ठीक रहता है, न वहाँ अच्छी चीजें मिल सकती हैं । इसलिये इन होटलोंमें खाना बहुत ही बुरा है । आजकल कुछ लोगोंकी मति तो ऐसी भ्रष्ट हो गयी है, कि छुताछूत, भक्ष्याभक्ष्यका बिलकुल विचार ही छोड़ बैठे हैं और मुसलमानों तथा किस्तानोंके होटलसे मक्खन और पावरोटी माँग कर खाते हैं । न मालूम ये किस नरकमें जा कर पढ़ेंगे ।

१९—पानी—आजकल जहाँ-तहाँ रास्तेमें और रेल-स्टेशनों पर नले लगी हैं जिनसे पानी लेकर मुसाफिर अपनी प्यास बुझाते हैं; पर यह बहुत बुरी बात है । बिना छना हुआ पानी शराबके बराबर कहा गया है । पीनेका पानी तो जरूर ही छान लेना चाहिये । वर्तन कभी जुंठे नहीं रहने देना चाहिये । पानीके वर्तनमें जुंठे लोटे आदि नहीं डालना चाहिये । जो बिना ढक कर नहीं रखा गया हो, उसे पीनेमें बड़ा दोष है । थोड़ी सी लापरवाहीसे असंख्य जीवोंका नाश हो जाता है । इसलिये पानीके विषयमें प्रत्येक भाई-बहनको पूरी सावधानी रखनी चाहिये ।

वर्जित वनस्पतियाँ ।

जिन वनस्पतियोंके खानेसे तृप्ति नहीं होती और साथ ही बहुत हिंसा होनेका भय रहता है, उनके नाम ये हैं—

नाम और वर्जित होनेका कारण

ईख—कितना भी खाइये, तृप्ति नहीं होती । रस चूस कर सीठी फेक देते हैं, उससे बहुत समूच्छिम जीव उत्पन्न होते हैं और मिठाईके मारे चींटी आदि ब्रस जीव भी उसके ऊपर टूट पड़ते हैं, जो जानवर या आदमी के पैरों तले पड़ कर मर जाते हैं ।

कुम्हड़ा, पेठा, जामुन } इन सबमें भी समूच्छिम जीवोंकी उत्पत्ति
करौंदा, बेर, गुन्दी } और हिंसाका भय रहता है इसलिये त्याग
देना ही ठीक है ।

अञ्जीर—इसमें बहुत बीज होते हैं, अतएव त्यागने योग्य है ।

शहतूत, फालसे,—कितना भी खा जाओ तृप्ति नहीं होती, इसीलिये वर्जित है ।

सिंघाड़ा—कामवद्धक है, अतः त्याज्य है । तोड़ते वक्त बहुत जीव मरते हैं ।

वालोल—ताजा मिलना मुश्किल है, और थोड़ी देर रखनेसे भी उसमें ब्रस जीव उत्पन्न हो जाते हैं ।

दर्शन-विरुद्ध तथा लोक-विरुद्ध वर्जित वनस्पतियाँ ।

नाम और—कारण ।

चिंचड़ी—लम्बी साँपके आकारकी होती है । अशुद्ध परिणामी है, अतः वर्जित है ।

कटहल-फनस—दर्शन-विरुद्ध (माँसपेशी-सी मालूम पड़ती है) होनेके कारण वर्जित है ।

कद्दू—मोटाफल होनेके कारण लोग नहीं खाते ।

पेठा—लोग इसे कभी-कभी पशुकी कल्पना कर देवीके सामने बलि चढ़ाते हैं । (औषधके लिये हजे नहीं है)

कड़वी तुम्बी—कहीं जहरी निकली तो जान ही ले लेती है ।

कंटोला, } इनमें कीड़े पड़ जाते हैं, किसीमें जीव बहुत
करैला, } होते हैं, तो किसीमें बीज । इसलिये इनका
टिण्डा, } त्याग ही उचित है ।

टमेटा,

कंकोड़ा,

महुआ—इसीके फलसे शराब चुलायी जाती है, इसलिये वर्जित है ।

बहुतसे ब्रस जीवोंकी हिंसासे बचना हो, तो नीचे लिखी वनस्पतियोंका और भी त्याग करना उचित है,—

श्रोफल (बेल)-का फल या मुख्या अथवा चाँसका आचार वर्जित है, स्त्रियोंके लिये तो ख़ास कर मना है । इनसे रोग भी उत्पन्न होते हैं ।

फागुन सुदी १५ से कातिक सुदी १५ तक जिनकी भान्नी या पत्तोंका साग जीव हिंसाके कारण खाना मना है उनके नाम—

मेथीका साग, ताँदड़ी, धनिया, पुदीना, भिंडी, केला, नागर-बेल, अरबी, कन्दा, सूरन, नीमके हरे पत्ते, पोईका साग, इलाय-

चीके पत्ते, चाय, गुलाबके फूल, तुलसीके पत्ते, अजवाइनके पत्ते आदि ८ महीनेतक वर्जित है। गोभी और करमकल्ले (पन्नागोभी) में भी बहुतसे त्रस जीव उत्पन्न होते हैं, जो मालूम नहीं पड़ते। जाड़ेके दिनोंमें इन्हें अच्छी तरह देख भाल और झाड़-पोछ कर काममें लाना चाहिये। सब तरहकी तरकारी बहुत सावधानीसे खानी चाहिये।

आर्द्रा-नक्षत्रसे ही त्यागने योग्य वनस्पतियाँ—

आम—आम खादिष्ट फल है, इसलिये बहुतसे लोग आर्द्रा-नक्षत्रके बाद भी खाते हैं; पर यह भगवान्की आज्ञाका उल्लंघन करना है, इससे असंख्य जीवोंका नाश होता है, जिससे अन्तमें दुर्गति होती है। इससे आर्द्रा-नक्षत्रसे ही इसका खाना छोड़ देना चाहिये।

चौमासेमें वर्जनीय वनस्पतियाँ ।

भिरुडी, कंटोला, करैला, तुरैया, } यों तो अन्य ऋतुओंमें भी त्रस जीव उत्पन्न होते हैं; पर चौमासेमें तो ख़ास कर बहुत पैदा होते हैं। करैला वगैरह तो ऊपरसे जरा भी सड़े नहीं मालूम पड़ते; पर उनके अन्दर कीड़े होते हैं। कहीं भूलसे जीवहिंसा न हो जाये, इसीलिये चौमासेमें वर्जनीय है। यदि कोई साग या भाजी खानेकी आवश्यकता ही पड़े, तो उसे भलीभाँति देखकर, बनोरना खाना चाहिये।

व्यवहारमें आनेवाली वनस्पतियाँ ।

शाकके काममें—	फलके तौर पर
१ ककड़ी	तरबूजा
२ करैला	मीठे नीबू
३ कंटोला	पपीता
४ निनुआ	अननास
५ ग्वारकी फली	नासपानी
६ गूँदा	अमिया
७ हरे चने	जमरुद
८ हरेज्वार	कोठ
९ चौराई	केला
१० टमेटा	अनार
११ टिएडा	आँचला
१२ डाला	नारङ्गी
१३ डोडी	नरियल
१४ खरबूजा	पीनस
१५ तराई	अँगुर
१६ थूहर	बिजीरा
१७ दातोन (ववूल, धारैडी आदि)	
१८ दूधिया	
१९ परवल	
२० पत्तेका साग	

- २१ फलसी
 २२ भिण्डी
 २३ हरी मिर्च
 २४ मरवा
 २५ मोगरा
 २६ खट्टे नीबू
 २७ मटर
 २८ आलकुल

ऊपर जिन वनस्पतियोंके नाम लिखे हैं, इनमें भी जिनका त्याग करते बने, करना चाहिये । जो वनस्पति चारहों महीने मिलती हो, उसका उपयोग करना, जैसे—केला । इसके सिवा प्रत्येक हरी साग-सब्जी अमुक समय तक खानी, फिर नहीं; इसका ध्यान रखना चाहिये । जैसे कार्तिक महीनेमें अमुक-अमुक चीजे, खानी चाहिये, परन्तु यदि उनका बारह महीनेका आश्रय ले रखे, तो विरतिपनका फल मिलता है; क्योंकि आम जाड़ेके बाद चैतसे आर्द्रा-नक्षत्र तक खाना चाहिये, फिर नहीं । इस प्रकार नियम कर लेनेसे बड़ा लाभ होता है । नियम लेनेके बाद प्रति वर्ष कुछ चीजोंका सर्वथा त्याग करना होगा । ऐसा करनेसे त्याग और अभयदानकी भावना प्रबल होती है । जबतक नियम नहीं किया जाता, तबतक कोई फल नहीं मिलता । श्रावकोंको तो चाहिये कि कुछों "अट्टाईयोमें" * तो वनस्पतियोंका एकदम त्याग कर दें ।

* चैत्र और आश्विनकी दो अट्टाई श्रावणी हैं । वह चैत सुदी ७ से १५

कमसे कम पाँच पर्वों तिथियोंमें—जैसे शुक्र पंचमी, दोनों अष्टमी, दोनों चतुर्दशी और अन्य उत्तम पर्वोंकी तिथियोंमें तथा दोनों दूज, दोनों अष्टमी, दोनों चतुर्दशी, अमावास्या और पूर्णिमा तथा मध्यम रूपसे आठ या दश पर्वतिथियोंमें अवश्य ही हरियाली यानी साग-सब्जीका त्याग करना चाहिये । कितने ही लोगों इन तिथियोंमें पके केलोंका उपयोग करते हैं, वह अचित्त है । उसके सिवा और कोई वनस्पति इन दिनोंमें काममें नहीं लानी चाहिये ।

सामान्य रीतिसे कहा गया है, कि अनजाने फल, विना भलीभाँति देखे-भाले हुए साग या पत्ते, सुपारी आदि सम्पूर्ण फल बाजारके चूरन, चटनी, मलिन घी और विना परीक्षा किये हुए अन्य पदार्थोंके खानेसे मांस भक्षणका दोष लगता है । चौमासेमें तो जिस दिनकी तोड़ी हुई हो, उसी दिन सुपारी खाये फिर नहीं इसी तरह इलायची भी देखकर ही खानी चाहिये । चौमासेमें पीपरामूल, सोंठ आदि भी नहीं खाना चाहिये । दवाके लिये व्यवहार करना हो तो भली भाँति देख लेना चाहिये ।

तथा आसोज सदी ७ से १५ तक, होती है । तीन चौमासेकी तीन अष्टाई—पहली कार्तिक सदी ७ से १५ तक दूसरी फाल्गुन सदी ७ से १५ तक और तीसरी असाढ़ सदी ७ से १५ तक जाननी चाहिये । पर्युषण-पर्वकी अष्टाई श्रावण वदी १२ से भाद्रों सदी ४ तक होती है । इस प्रकार छः अष्टाईयां यत्नायी गयी हैं । इन दिनोंमें सचित्त पदार्थों एवं वनस्पतियोंका त्याग, ब्रह्मचर्य अमारी, तप, जिनपूजा, गुह्यन्टन, व्यास्यान-धवष समापिक, पौष, अतिथि-संविभाग आदि नियमों का अवग्य ही पालन करना चाहिये ।

जानने योग्य विषय ।

अब जिन लोगोंने सचित्त पदार्थोंका सर्वथा त्याग कर रखा है, उन्हें यह बतलाया जाता है कि कौन-कौन चीजे सचित्त हैं और वे कैसे अचित्त बनायी जा सकती हैं तथा उनका व्यवहार कितने समय तक किया जाना चाहिये ।

१ गेहूं, बाजरा आदि नाज सचित्त है ; पर कुछ काल बाद अचित्त हो जाते हैं । उसका वर्णन श्राद्धविधि आदि ग्रन्थोंमें देखना चाहिये । मेथी भी अनाज है, यह याद रखना चाहिये । इन अनाजोंका आटा पीसने पर वह कैसे अचित्त होता है, यह हम पहले ही लिख चुके हैं । जबतक वे सचित्त रहते हैं, तबतक उनको काममें नहीं लाना चाहिये । चने आदिकी दाल अचित्त है; इसलिये उसका आटा (वेसन) भी अचित्त है ।

२ ताजे ज्वार या चनेका चवेना मिश्र (अर्थात् सचित्त और अचित्त) है, अतएव नहीं व्यवहार करना ।

३ सभी अभक्ष्य वस्तुएं सचित्त हैं, अतएव उनका त्याग करना अत्यन्त आवश्यक है ।

४ सिंके हुए चने तथा और अनाज वालूमें भूने हुए हों तो बराबर अचित्त बनते हैं । अन्यथा कामके लायक नहीं होते ।

५ धनिया, जीरा अजवाइन आदि कूट-पीस कर या आँच दिखानेसे अचित्त हो जाते हैं और तब व्यवहारमें लाये जा सकते हैं, यों नहीं । दही, छाँछ आदिमें पडा हुआ सचित्त जीरा प्रासुक नहीं होता ।

६ वरियाली भी सचित्त कही जाती है ; क्योंकि जो चीजे वनेसे पैदा होती हैं, वह सचित्त हैं । अतएव सूखी वरियाली भी यदि सेकी हुई हो तभी काममें ला सकते हैं ।

७ नमक भी सचित्त है, परन्तु भूमिकायमें लिखे अनुसार अचित्त होनेपर व्यवहारमें ला सकते हैं ।

८ लाल से'धानमक सचित्त है—सफेद सैधव अचित्त है ।

९ खड़िया भी सचित्त है । यह खानेके काममें तो नहीं आती पर मंजन बनानेके काममें आती है । इसे पहले कहे अनुसार अचित्त बनाकर व्यवहार करना चाहिये । कैम्फर-चाँक आदि जो चीजे आती हैं, उनका व्यवहार नहीं करना चाहिये, क्योंकि मालूम नहीं, वे किस प्रकार बनायी जाती हैं ।

१० “चलित रस” शीर्षकके नीचे जिन चीजोंकी सूची दी हुई है, वे सब सचित्त हैं और इसीलिये अभक्ष्य हैं ।

११ उवाल देनेपर पानी अचित्त हो जाता है । जहाँ जीव पड़ने का डर हो, वहाँ पानी कपड़ेसे ढककर रखना चाहिये । चौमासेमें गरम किया हुआ पानी भी सिर्फ ३ पहर तक काममें ला सकते हैं । वादमें सचित्त हो जाता है ।

१२ तरह-तरहके शरबत, सोडा गुलाबजल, केवड़ाजल, आदि कभी व्यवहारमें नहीं लाना चाहिये ।

१३ अंग्रेजी दवाएँ जो अर्ककी तरह हों, कभी नहीं लेनी । अगर लाचारी लेना ही पड़े तो प्रायश्चित्त भी करना चाहिये ।

१४ बर्फ आदि एकदम अभक्ष्य है ।

१५ बबूल आदिके हरे दाँतोंन सचित्त है ।

१६ ताम्बूल, नीमपत्ते, तुलसी, इलायची आदिके पत्ते सचित्त होनेके कारण व्यवहारमें नहीं लाने चाहिये । परन्तु नीमके पत्ते कढ़ीमें डाले जाये या नागर बेलका पत्ता घी आदिमें गरम करके डाला गया हो, तो वह बीज अचित्त और व्यवहारमें लाने योग्य हो जाती है ।

१७ नीम और आमकी मोजरे, तथा गुलाब आदिके फूल सचित्त ह, इसलिये व्यवहार नहीं करना चाहिये । गुलाबके फूल मिठाइयोंपर छिड़कते हैं, वह अचित्त होनेपर व्यवहार करना कहा है ।

१८ धनिये या पुदीनेकी चटनीमें वनस्पति और नमक दोनों ही सचित्त हैं; पर पीस देनेसे वे दोनों दो घड़ी बाद अचित्त हो जाते हैं, इस लिये २ घड़ीके बाद खाना चाहिये ।

१९ पिसे हुए मसाले, जिनमें नमक मिला हो या आँचार भी दो घड़ी बाद खाये जा सकते हैं; परन्तु ग्वार आदिके अँचारके अचित्त होनेमें देर लगती है; क्योंकि उनके अन्दर बीज होते हैं, इसलिये उनपर नमकके शल्लका शीघ्र प्रभाव नहीं पड़ता ।

२० अनार और अमरुद भी सचित्त हैं, ये दो घड़ी बाद अचित्त नहीं होते, इसलिये इनका सर्वथा त्याग करना चाहिये ।

छसवया त्यागके २ भेद हैं—एक सर्वथा-सचित्त त्याग और दूसरा सर्वथा-वस्तु-त्याग जिन्होंने सचित्तका सर्वथा त्याग किया है, वे तो उसे आग आदिके द्वारा अचित्त कर व्यवहारमें ला सकते हैं, पर जिन्होंने अनार और अमरुद

सचित्त तो कभी व्यवहारमें नलाये । हाँ, यदि अशिके द्वारा अचित्त कर लिया जाये, तो व्यवहार कर सकते हैं । अमरुदको आग दिखानेसे भी उसका बीज कठोर ही रहता है, इससे मिश्र-ताका दोष लगता है ।

२१ ईख और शहतूत सचित्त हैं । इसलिये सर्वथा त्याग करना चाहिये, ईखका रस निकालनेके दो घड़ी बाद अचित्त हो जाता है ।

२२ सीताफलको तो सचित्त त्यागियोंको अवश्यही त्याग देना चाहिये; क्योंकि वह तो कभी अचित्त होही नहीं सकता कारण, उसमेंसे बीज अलग नहीं हो सकते, इसी प्रकार जाम्बु, खण, बोर, हरेबदाम या अंगुर आदि बिना बीज निकाले नहीं खाना चाहिये ।

२३ बीजवाले केले भी सचित्त हैं; इन्हें भी नहीं खाना चाहिये । पके हुए केले छिलका उतार लेनेसेही अचित्त हो जाते हैं ।

२४ पके हुए ककड़े या खरबूजेके कुल बीज निकाल कर दो घण्टेके बाद खाना चाहिये ।

२५ ककड़ीके बीज अलग नहीं किये जासकते, इसलिये सचित्त नहीं खाना, पर तरकारी भादिमें अचित्त है । इसलिये खाना चाहिये ।

२६ आमका रस निकाल, गुठली फेंकनेके बाद दो घड़ीके अनन्तर खाना चाहिये ।

आदि वस्तुआ का ही त्याग किया है, उन्हे तो सचित्त या अचित्त कोई नहीं खाना चाहिये ।

२७ नारियलका पानी या गरीसे बीज निकाल देनेके दो घड़ी बाद व्यवहारमें लाना चाहिये ।

२८ पकी इमली, खजूर या पिनखजूरके भीतरका बीज निकाल कर दो घड़ी बाद काममें लाना चाहिये ।

२९ सुपारी पूरी तोड़कर * और बदाम तथा अखरोट बीज निकालनेके दो घड़ी बाद खाना चाहिये । कितनी ही चीजें, तुरत अव्यक्त हो जाती हैं; पर अपनेको इसका ठीक ज्ञान नहीं, इसलिये दो घड़ी बाद ही उपयोग करना चाहिये ।

३० पिस्ते या जायफलका छोकला उतार लेने पर अव्यक्त है

३१ काला मुनक्का या लाल मुनक्का जिसमें बीज हो, उसे बीज निकाल कर दो घड़ी बाद खाना ।

३२ ज़रदालूके भीतरकी गुठली निकाल कर दो घड़ी बाद खाना चाहिये । यदि उसके भीतरके बदाम हो, तो उसे भी तोड़कर दो घड़ी बाद खा सकते हैं ।

३३ पेड़ परसे तुरतका उतारा हुआ गोंद दो घड़ी बाद अव्यक्त हो जाता है ।

३४ सूखे अंजीरके बीज तो निकाले नहीं जा सकते । अतः अंजीरका सर्वथा त्याग करना चाहिये ।

३६ सचित, त्यागीको उचित है, कि यदि अव्यक्त पानीके करनेका अवसर न मिले, तो पानीमें थोड़ी-सी शक्कर या-राख डाल देनेसे वह पानी दो घड़ी बाद अव्यक्त हो जाता है ।

ऊपर देखी हुई सचित-सम्बन्धी सूचनाओंकी और सचित-

त्यागियोंको खास कर ध्यान देना चाहिये । इसीके अनुसार और गुरुके बतलाये अनुसार वर्त्तना चाहिये । श्रीजिनेश्वर भगवान्ने जिन वाईस अमर्श्योंका निषेध किया है; उन्हें और अन्य अनाचरणीय पदार्थोंका भी त्याग करना चाहिये । वनस्पतियोंमें तो जरूर ही नियम रखना चाहिये । नियम-प्रतिज्ञा करनेसे विरतिपना आता है और इस विरतिका बड़ा भारी फल होता है । कहा है, कि “ज्ञानस्य फलं विरतिः”—ज्ञानका फल विरति है । यदि विरति न हुई तो ज्ञान किस कामका ? लम्बी-चौड़ी वात तो सभी कर सकते हैं, परन्तु आचरण करना ही कठिन व्यापार है । मनमोदक नहीं भूख धुभातीं ।” अविरतिसे निगोदिया आदि जीवोंकी तरह घने कर्म-बन्ध होते हैं । (देश-विरति या सर्व-विरति) को अङ्गीकार करते हैं, उनकी प्रशंसा ऐसे देवता भी करते हैं, जो विरति नहीं कर सकते । अविरतिसे बड़े दुःख उटाने पड़ते हैं और नारकी वगैरह भवोंमें पड़ना होता है । इसलिये विरतिका अङ्गीकार करना चाहिये । नियममें थोड़ा कष्ट, परन्तु बड़ा लाभ होता है । इसका परिणाम सुखका हेतु है । बहुत नियम न पार लगे, तो तीर्थङ्कर महाराजने जिन वस्तुओंका निषेध किया है, उनका भक्षण नहीं करना चाहिये ।

अब वह नियम (प्रतिज्ञा-व्रत) क्योंकर अङ्गीकार करना तथा पालना चाहिये ? व्रतका अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार—इस प्रकार ४ दोष लगते हैं । जैसे—किसीने चौ-विहार (चार अह्नारका त्याग) किया है, और उसे पानीकी

इच्छा हुई तो उस इच्छा-मात्रसे अतिश्रम हुआ ; जिस स्थान पर हो वहाँसे पानी पीनेके स्थानपर जाये, तो व्यतिक्रम-दोष लगता है ; वर्तमानमें पानी लेकर मु'हके पास ले आये ; पर पिये नहीं तो अतिचार-दोष लगता है, और जब पानी पी डाले तब अनाचार हो जायेगा । इसलिये व्रत पालनेवालोंको तो चाहिये, कि ऐसी चेष्टा करे । जिसमें अतिक्रमका भी दोष न लगे । इस नाशवान'शरीरके मोहमें पड़कर उभयलोकमें 'सुख देनेवाले व्रतको' तो प्राणोंसे भी बढ़कर समझना चाहिये । आगमें कूद पड़ना अच्छा पर व्रतका भङ्ग करना अच्छा नहीं होता ।

चँदोवा ।

प्रत्येक श्रावकके घर नीचे लिखे १० स्थानोंमें चँदोवे या छप्पर जरूर बांधने चाहिये—

(१) चूल्हेपर (२) पानीके पन्डरे पर (३) भोजनके स्थानोंमें (४) चक्कीकी जगह (५) खाने-पीनेकी चीज पर (६) दूध-दहीके ऊपर (७) सोनेके विछोनेके ऊपर (८) स्नान करनेकी जगह (९) समायिक आदि धर्म-क्रियाके स्थानमें (पौष-धशालामें) और मन्दिरमें ।

सात प्रकारके छनने रखना चाहिये ।

(१) पानीका छनना । (२) घीका छनना । (३) तेलका छनना । (४) दूधका छनना । (५) छाँछका छनना । (६) गरम किये हुए अचित्त पानीका छनना । (७) आँटा चालनेका या छाननेकी चेलनी ।

इनके द्वारा हम बहुतसे जीवोंको हिंसासे बच सकते हैं । जैनशासनका यही उपदेश है, कि वही पुरुष धन्य है, महान है पुण्यवान् है, तेजवान है, सुखी है, भाग्यशाली है, जोकि जीवदया का भली भाँति पालन करता है ।

अब संक्षेपमें यह समझ लीजिये कि कैसे वर्त्तनमें और किस प्रकार भोजन करना चाहिये ।

जो दोप रात्रि भोजनमें है, वही अंधेरेमें भोजन करनेमें भी है । ठीक वैसा ही दोप छोटे मुँहवाले लोटे आदिमें पानी पीनेमें भी है, जिसके भीतर नजर न पहुँच सके ।

काँसा या कलईवाले ताम्बे पीतलके वर्त्तन काममें लाने चाहिये । टीनपर कलई किये हुए वर्त्तन तो कभी किसी जैन या हिन्दूको व्यवहारमें नहीं लाना चाहिये । लोहे या टीनके वर्त्तन त्याज्य है । केले आदिके पत्तेपर भी भोजन नहीं करना चाहिये । दिनको भी यदि अधियाला हो तो नहीं खाना चाहिये । उज्जलेमें खच्छ वर्त्तनमें, भक्ष्याभक्ष्यका विचार करते हुए स्थिरचित्त हो बिना बोलेवाले भोजन करना चाहिये । खाते-खाते बातें करनेसे ज्ञानावरणीय कर्मबन्ध होता है । दूसरी ओर ध्यान चले जानेसे भोजनमें मक्खो आदि त्रस जीव पड़ जानेका भय रहता है । अगर कहीं ग्रासके साथ मुँहमें मक्खो चली गयी तो कै हो जाती है । अगर बोलनेकी जरूरत ही पड़ जाये तो पानीसे मुँह शुद्ध करके बोलना चाहिये । सदा देख-भाल कर अच्छा और परिमित भोजन करना चाहिये । दो तीन आदमी एक साथ नहीं खाना चाहिये ।

भोजन करते समय दूसरी धोती पहननी चाहिये। और हाथ पैर धो कर खाने बैठना चाहिये । जो प्रभुकी नित्य पूजा करनेवाले हैं, उन्हें तो बराबर राखसे हाथ शुद्ध कर लेना चाहिये । मिट्टी सचिप्त है, इस लिये राख ही काममें लानी चाहिये । खुली जगहमें जिसके ऊपर छाननी न हो, भोजन नहीं करना चाहिये । घी, गुड़, दूध, दही, मठा, दाल तरकारी और पानीके वर्त्तन क्षण भर भी खुले नहीं छोड़ने चाहिये । श्रावकको उचित है, कि थोड़ी भूख रहते ही खाना खतम कर दे; यानी जितना चाहिये, उससे कम ही भोजन करे अथवा जितनी भूख हो, उतना ही खाना चाहिये । थालीमें जू ठन नहीं छोड़नी चाहिये । भरसक तो खा-पी कर थाली धो कर पी लेनी चाहिये । थाली धो कर पीनेसे आयंबीलका फल होता है । मुनिमहाराजको शुद्धता-पूर्वक आहार करानेके वाद

आप इसी प्रकार शुद्धताके साथ नित्य आहार करनेसे अमृतके समान फल मिलता है, नहीं तो अवश्य ही विषके समान फल होता है ।

जूठा वर्त्तन देर तक नहीं पड़े रहने देना, उसे तुरत आप धो लेना या नौकरसे धुलवा लेना चाहिये । अन्यथा, उसमें बहुतसे जीवोंकी उत्पत्ति हो सकती है ।

स्त्रियोंके ध्यान देने योग्य बातें ।

जैसे राज्यमें मन्त्री प्रधान होता है, वैसे ही घरमें स्त्रीकी प्रधानता होती है । इसलिये उनको इस अभक्ष्य-अनन्तकायका

वर्णन भली भाँति पढ़ कर व्यवहारमें लाना चाहिये । यदि वे नीचे लिखी बातोंकी ओर ध्यान दें तो अपना पराया सघका कल्याण कर सकती हैं ।

१—सूर्योदयके पहले कभी चूल्हा नहीं जलाना । पहले सारा घर भाड़-बुहार करके तब कोई काम शुरू करना चाहिये ।

२—प्रति दिन सवेरे घर द्वारकी सफाई और वर्तनोंकी मंजाई धुलाई होनी चाहिये । लकड़ी आदि भी खास करके वरसातमें, देख लेनी चाहिये । क्योंकि अकसर उसमें जीव पड़ जाते हैं, जो बिना देखे जल जा सकते हैं ।

३—रसोई करके वर्तन वासन तथा घी, मसाला, तेल, दूध, दही, रोटी, पूरो, पानी आदिके वर्तन खुले नहीं रखने चाहिये । उच्छिष्ट पदार्थको तो तुरत हटा देना चाहिये, नहीं तो उसमें बहुतसे संमूच्छिम जीव पड़ जाते हैं ।

४ - नमक और मसाले भरसक शीशेके वर्तनोंमें रखने चाहिये । वरसातमें मिर्चमें तो वैसे ही जीव पड़ जाते हैं और कहीं भूलसे बिना देखे-भाले खानेकी चीजमें वह मिर्च डाल दी, तो जीवहत्याका पाप अलग लगे । शाक या दालमें डालनेके पहले मसाला, चाय दूधमें डालनेके पहले चीनी, दाल, शाक, रोटी के साथ काममें लानेके पहले घी भली भाँति देख लेना चाहिये ।

५—शामको सूर्यास्तके पहले ही चूल्हा ठंडा कर देना चाहिये । बासी चोजे तो न कभी खुद खानी, न बच्चोंको खिलानी । इससे धार्मिक ही नहीं शारीरिक लाभ भी है ।

६—यदि तुम्हारे पास धन है तो उसे पूर्व पुण्योंका उदय समझो और जो काम नौकरों द्वारा करवाना हो, उसे ठीक समझ बूझ कर करवाना चाहिये । कारण आप जैसे जयणा 'पूर्वक काम करेंगे, वैसे वह नहीं कर सकेगा । जैसे आप साग न बनावे, तो नौकर सागके साथ साथ न जाने कितने जीवोंको मार डालेगा । पानीमें भी गोलभाल कर सकता है । अतएव जो काम अपनेसे न हो सके, उसीके लिये नौकरोको पुकारे' यही हमारे लिये उचित है ।

७—चार 'महाविगड'का अवश्य ही त्याग करना । बरफ, मलाईकी बरफ आदिका व्यवहार नहों करना । चच्चोंको अफीम न खिलाना । कच्ची मिट्टी आ नमक न खाना । आलस्य छोड़ कर नमकको अचित्त बना लेना । रातको भोजन नहीं करना । तिलों और पोस्तके दानोंका त्याग करना ; जहाँ तक हो सके चटनी, आँचार बगैरहका चटोरपन छोड़ना और दूसरोंसे भी छुड़वाना ; विदल वस्तुओंका खास खयाल रखना तुम्हारा ही काम है । यदि पुरुष विरतिवान न हों, तो तुम उनको वैसा बना सकती हो । बैंगन बगैरहका भुर्त्ता बनाकर नहीं खाना-खिलाना । भड़बेरी या खट्टे जामुन न खाना । गाली, निन्दा आदि घुरी बातें न करना धर्मके कामोंमें लगी रहना । जिन चीजोंका रस विगड गया हो, या जो बासी हो गयी हो, उन्हें कभी काममें न लाना । आटा, मुरब्बा, आँचार, सेब, बड़ी, पापड़ आदिके विषयमें जो कुछ पहले लिखा गया है; उस पर पूरा ध्यान देना । अनन्तकाय-

का त्याग करना । कच्ची हल्दी, अदरक, लसुन वगैरह बीमार पड़ने पर भी न खाओ । फागुनकी चोमासा शुरू होनेके पहले ही आठ महीनेके लिये साफ़ वर्तनमें तेल भरवा रखो । असाढ़से शुरू होनेवाले चोमासेमें खांड, काजू, बदाम, पिस्ता, दाख आदि-को काममें लाना बन्द कर दो । सूखे आँचार आदि असाढ़के चोमासेके पहले ही खा कर खतम कर दो । हरे वाँस, बेल, केर नागर बेलके पान और मैदेसे परहेज करो । आटा या सोजी बाजारसे नही मंगवाओ । घरमें पीस लेनेमें मिहनत तो पड़ेगी, पर अनेक जीवोंका आशीर्वाद मिलेगा । पानोको बहुत खर्च न किया करो और बिना छाने काममें न लाओ ।

८—पर्वके दिनोंमें दलना-मलना, पीसना, तोड़ना, धोना-माँजना, सिर गूँथना, मठा निकालना, गोबरके कण्डे पाथना आदि मना है । छहों अष्टादश्योंके दिन भी ये सब काम करना मना है ।

९—मिथ्यात्व-लौकिक पर्व—आसाढ़की पूनी, रक्षाबन्धन, नवरात्र, होली, संक्रान्त, गणेशचौथ, नागपञ्चमी, राँधन छठ, शीतलासप्तमी (जिसमें बासी चीजेँ खायी जाती हैं) गोपाष्टमी, नोलीनवमी, अहवाद्दशमी, भोम-एकादशी, धनतेरस, अनन्तचौदस सोमप्रदोष, सोभवती अमावस, घुघ्राष्टमी, दसहरा, मुहर्रम, बकरीद आदि पर्व मिथ्यात्वके हेतु और अनर्थकारी हैं, अतएव इन्हे त्याग देना ।

१०—रोने-कूटनेको चाल, दसें, ग्यारहवें, बारहवें, तेरहवे-का सूतक मानना, गृहप्रवेश, अधरणी (पहले पहल गर्म रहनेका

उत्सव मनाना), श्राद्ध, बाल-विवाह आदि रिवाज छोड़ देने योग्य हैं ।

प्यारी बहिनो ! इन बातों पर अवश्य ही ध्यान देना । इससे आपका बहुत उपकार होगा ।

चौदह स्थानोंमें उत्पन्न होनेवाले संमूर्च्छिम जीवोंकी हिंसा, जो मनुष्यकी असावधानीसे हो जाती है । इसके विषयमें पूरा ध्यान रखना चाहिये ।

१—जो लोग छोटे छोटे गाँवोंमें रहते हैं, जिनके गाँवके पास नदी, तालाब, जंगल, खेत वगैरह हों, उन्हें चाहिये कि पायखानेके अन्दर न जा कर दिशा-फरागतके लिये बाहर मैदानमें चले जाया करें । स्वास्थ्यकी दृष्टिसे भी यही उचित है और धार्मिक दृष्टिसे भी, क्योंकि बन्द पायखानोंमें बहुतसे संमूर्च्छिम मनुष्य पञ्चेन्द्रिय जीवोंकी उत्पत्ति और नाश हुआ करते हैं । अगर पायखानेमें रोगी जाते हों, तो उनका रोग औरोंको भी हो जा सकता है । इसीलिये मैदानमें जाना चाहिए । वहाँ भी यह देख लेना चाहिए कि कोई कीड़े मकोड़े तो नहीं हैं । गीली जमीन भी बचा देनी चाहिये ।

२—पेशाब भी ऐसी जगहमें करना चाहिये, जहाँ जल्द सूख जाये । किसीके पेशाब किये हुए स्थान पर पेशाब नही करना चाहिये । मोगी, पनाले वगैरहमें पेशाब करनेसे भी संमूर्च्छिम मनुष्य पञ्चेन्द्रिय जीवों तथा कीड़े आदि ब्रह्म-जीवोंकी

भविस्संतिणागए काले । संपइ अ वट्टमाणा,
सव्वे तिविहेण वंदामि ॥ १ ॥

१६—जावंति चेइआइं सूत्र ।

जावंति चेइआइं, उड्डे अ अहे अ
तिरिअ-लोए अ । सव्वाइं ताइं वंदे, इह संतो
तत्थ संताइं ॥ १ ॥

१७—जावंत केवि साहू सूत्र ।

जावंत केवि साहू, भरहेरवय महावि-
देहे अ । सव्वेसिं तेसिं, पणओ, तिविहेण
त्तिदंडविरयाणं ॥ १ ॥

१८—परमेष्ठि-नमस्कार ।

नमोऽर्हत्सिद्धाचार्योपाध्यायसर्वसाधुभ्यः ॥

१९—उवसग्गहरं स्तोत्र ।

उवसग्ग-हरं पासं, पासं वंदामि कम-घण-
मुक्कं । विसहर-विस-निन्नासं, मंगल-कल्लाण-
आवासं ॥ १ ॥ विसहर-फुलिंग-मंतं, कंठे धारेइ
जो सया मणुओ । तस्स गह-रोग-मारी-दुट्ठ-